



॥ श्री सुमति विलास ग्रंथुः

कर्ता

श्री मनसुखलाल हरिखील

दोहरो.

विमल सुमति मंगल करण, आ श्री सुमति विलास;
हरि अबोध जानुपरे, करे सुज्ञान प्रकाश.

ठपावी प्रसिद्ध कर्ता

संतोकचंद माणिकचंद

तथा

गांधी नाथजी मनसुखलाल.

आवृत्ति १ ली-प्रत १०००

मुंबई.

“स्वधर्मनिष्ठ” प्रेसमा छाप्युं

सवत् १९६३ सने १९०१

मूल्य रु. १-०-०

आ पुस्तक सन १८६७ ना २५ मा आक्ट प्रमाणे रजिष्टर करावेलुं छे.
आ पुस्तकनो सर्वे हक प्रसिद्ध कर्ताने स्वाधिन छे.

शुद्धि पत्र.



पृष्ठांक.	खिटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
५	२१	सामझ्यं	सामाझ्यं
७	२३	वनमा	वनमां
१३	१३	समती	सुमती
२०	१०	कमं	कम
२०	१७	जिनोक्त	जिनोक्त
२३	१७	जाणीऐ ठीऐ ऐ	जाणीए ठीए ए
२४	२	ऐवा	एवा
६४	२२	गेर	गौर
६६	१०	पोत	पोते
७०	१ए	अच्यतरं	अच्यंतर
८ए	२१		“माटे हे चेतना” ते पहेलां (१) मृपानुबंधी रौद्रध्यान- लखवुं जोझए
ए०	२		“जेम पृथ्वी उपर” ते प- हेलां (३) चोर्यानुबंधी रौ- द्रध्यान-लखवु जोझए
ए७	४	मोखकस्त	मोखस्त
१०६	४	ते उपशम	ते क्षयउपशम
१०६	५	तथा उपशम	तथा क्षयउपशम
१११	८	पृथक्	पृथक्त
१४४	२३	निक्षेपा ?	निक्षेपा
१५१	३	स्वपरजावथी	सर्व परजावथी
१५३	१८	निगृह्णाति	निगृह्णाति
१६७	२०	पोतापणं	पोतापणुं

पृष्ठांक.	लिटी.	अशुद्ध.	शुद्ध.
१६८	३	प्रतित अने	प्रतित करी
१६९	२	केवल ज्ञाने	केवल ज्ञानीने
१६९	२५	ठवी	ठती
१८२	२	आवी पूर्व वर्गणा साथे बंधाय ठे	आवे
१८८	३	अलोका काशमां	लोकालोकमां
१८८	८	श्रुतज्ञान	श्रुतज्ञान
१९७	१५	शुद्धा शुद्ध पणाने	शुद्धा शुद्ध कर्त्ता पणाने
२२७	१३	उपन्नोग	उपयोग
२४०	८	तनी	तेनी
२४७	१६	सिद्धा	सिध्ध्या
२५७	२६	निर्मलता	निर्मलता
२५९	२४	पारणति	परिणति
२६२	२४	नाह	नहि
२६३	८	जुवाब	जवाब
२६४	२५	उत्तरे	उतरे
२६७	१	ज्ञाकयता	ज्ञायकता
२७५	२७	वनन	वचन
२७६	५	नींदनीय ठे	निंदनीय ठे)
२७६	६	ठोडी	ठोडी
२७६	१४	यागे	योगे
२७८	१३	ज्ञानामृत	ज्ञानामृत
२८०	१४	दशामा	दशामां
२८३	२०	रुध्रो	रथ्यो
२८७	८	पोनानुं	पोतानुं

ॐ

श्री सुमतिविलास ग्रंथ.

॥ दोहरा ॥

शासन रहे जिन आणथी, आज्ञाए व्यवहार
निजमत कटपीत जे कहे, ते न लहे जवपार ॥ १ ॥
शिवमग जेणे अनुभव्यो, ते श्री जिनवर देव
ए विण बहु मति कटपना, काल अनादि कुटेव ॥ २ ॥
निजमत हठ सवि ठोडिने, करि जिन वचन विचार
उत्तम नरजव पामीने, निजपर आतम तार ॥ ३ ॥

सामायक सिद्धयुपाय, सम्यक् न्यायसुधारस, आत्मबोध पत्रिका, शुद्धोपयोग प्रवेशिका अने अनुभवप्रवेशिका ए नामना अति सरल बालबोधक डव्यानुयोग, उत्सर्ग, अपवाद, कारण, कार्य, कारक, शुरु ज्ञान, शुरुक्रिया, शुरुव्यवहार अने निश्चयने यथार्थ जणावनार, अनंत-शुरु अध्यात्मरस पोपक अने दुष्ट कुमतिथी ठोकावी मोक्षमार्गे दोर-नार, शुरुदया शुरुन्याय अने शुरुज्ञानना दातारं, बहु सिद्धांतनी साक्षी-पूर्वक, जेनो अमूल्य परमार्थ मात्र वांचवार्थी जणाशे एवा पांच ग्रंथनो संगेह “ सुमतिविलास ” नामे ग्रंथ सारा उंचा कागलमां मोटा शुद्ध टाईपमां सुपररोयल आठ पेची चालीग फोर्ममां ठपावी बहार पाड्यो ठे.

केटलाक पुरुपोपुरं विचार्या विना एकांते एम बोले ठे के आतो एकांते निश्चय ठे अथवा एकांते व्यवहार ठे पण पक्षपात रहित न्याय विचारी ज्ञानीओना वचन प्रमाणे तपासी चोकस करता नथी. तेम ग्रंथने पहेलेथी ठेला सुधी पुरो वांचता नथी अने अनादर करे ठे, वली कोई अणसमजुना कल्या प्रमाणे पुरं चोकस कर्याविना खराने खोटुं तथा खोटाने खरं कहेठे. एम एकांत निश्चय करी अथवा व्हेम लावी सर्वे जणनी बात न सांजले तो ते पोतानी मतिए साचा तत्वने पामे नहि. पण निरपेक्षपणे अनेकांतनये ग्रंथने पुरो वांची आंगमं

प्रमाणें तथा ज्ञानीओना कह्या प्रमाणे तपासवाची खरा खोटानी सम-
जण पडे, वली ते ठतां जो कोई शंका पडे तो ते ज्ञानीने पूढी शंका
साफ करी साची वात होय ते कबुल करवी. पण ग्रंथनो पहेलेथी
निरादर करवो नहीं, पुरुं तपास्या विचार्याविना खरुं खोटुं कहेवुं नहीं
अने खरी वात ठतां कोई हठ कदाग्रह अजिमाने करी अथवा बीजानुं
अपमान करवा खरी वातने मरुशे, जूठी कहेशे अथवा ठुपावशे ते
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी तथा वीर्यातराय बांधी अनंत संसार
अमण करशे. खराने खोटुं तथा खोटाने खरुं कहेवुं ते वात ठीक
नथी. अने जे खरी वातने ठुपावशे नहीं ते ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी,
मोहनी अने अंतराय कर्मनो नाश करी अनंत सुखना जोगदारी थशे.
आ ग्रंथमां कोई ठेकाणे कांई शंका पडे तो ते ज्यांथी ग्रंथ मळेठे त्यां खु-
शीथी लखी पूढवुं तेथी तेनो खुलाशो मळशे. आ ग्रंथनी अंदर जावनी
कोई साची चूल जणाय तो ते महेरबानी करी अमोने लखशो एटले
सुधारी लेवामां आवशे.

आ ग्रंथनी कीममत रु. १-८-० राखवामां आवीठे.

नंग दश सामटा लेनारने नंग १) वधु, नंग ५०) सामटा लेना-
रने नं. १०) वधु बूट तरीके आपवामां आवशे.

पैसा नहि आपीशकाय एवापण मोहजिज्ञासु जीवने फक्त पोष्टेज
पैसा मोकलवाची विना मूर्ख्ये आपवामां आवशे.

“ कर्मग्रंथ मूल ” ठए ग्रंथो सारा टाईपमां ठपावी बाहेर
पामेल ठे तेनी कीममत रु. ०-४-० ठे आमां पण कमीशन विगेरे उपर
प्रमाणे समजवुं.

वली सुमतिविलास ग्रंथनो बीजो जाग विविध बोध प्रकाशक
पद्यबंध ठपाय ठे ते पण थोमा दिवसमां बहार पकरुशे.

उपरना ग्रंथ मळवानुं ठेकाणुं:—गांधीनाथजी मनसुखलाळ
सु. वेजलपुर (जीद्वे पंचमहाल) स्टेसन खरसाळीआ. ए. सरनामे
मळशे.

प्रस्तावना.

आ सुमति विलास नामना ग्रंथमां सारी रीते न्याय, ज्ञान, परम-
दया, अध्यात्म तथा इव्यानुयोगनो विषय ठे एने जाणतां समकीतनी
परम दृढता आय ए माटे बहु सन्माने आ ग्रंथ वांचवानो अन्यास
करवो. घणा प्रमाणिक पुरुषोना वचननी साक्षी सहित अनुभव ज्ञाने
निर्धार करी लखायो ठे आ ग्रंथमां निर्मल आत्मबोध थवा अर्थे,
अने रागद्वेषादिमटी शुद्धात्मजावमां स्थिर समाधि प्राप्ति माटे नव
तत्वादि जाव जिनेश्वरना प्ररुपेला नय निक्षेप पद्म प्रमाण कारका-
दिके करी सारी रीते सुगम समजाय एम वर्णन ठे. जूवा अलंकार
खोटी उपमाओ, अने कल्पित वातो लखवामां आवी नथी

आ ग्रंथमां मोक्ष मार्गनो अधिकार ठे मोक्ष जिज्ञासु ज्ञव्य जीवो
आ ग्रंथना अधिकारी ठे, ज्ञव्य जीवो शुद्धात्म अधिकार पामे ए
फल ठे पूर्वाचार्योना करेला महान् ग्रंथो घणा ठे पण देश काल
अनुसरी वर्तमान जापा अने सुगम युक्तिथी समजाववामां आवे तो
ज्ञव्य जीवो सहेलाइथी बोध पामे ए हेतु ठे. सद्गुरुनी परंपराए
बोध पामेलानी गुरुगम लेवाथी शुद्धबोध विस्तार पामे अने सकल
क्लेशनो अंत आवे अने परमानंदनी प्राप्ति थाय. हृदयमां विचारतांज
परम आह्लाद उपजे एवा सामायकसिद्ध्युपाय, सम्यक्न्यायसु-
धारस, आत्मबोध पत्रिका, शुद्धोपयोग प्रवेशिका अने अनुभव प्रवे-
शिका ग्रंथोनो समावेश ठे. एकांत निश्चय अथवा एकांत व्यवहारनी
वात नथी स्याद्वाद शैलीप्रमाणे लखाण थएलुं ठे, तेमां प्रमादवशे
मतिदोषथी तथा लखाण दोषथी कंइ नूल थइ होय तो ज्ञानी पु-
रुषोना वचन प्रमाणेज वावत कबुल करवी.

अनुक्रमणिका.



सामायकसिद्ध्युपाय	पान.	१-१६४.
सम्यक् न्यायसुधारस	”	१६५-१९४
आत्मबोध पत्रिका	”	१९५-२११.
शुद्धोपयोग प्रवेशिका	”	२१३-२४५.
अनुभव प्रवेशिका	”	२४७-३१६



॥ सामायकसिद्धयुपाय ॥

ढाल पहेली.

॥ अथ श्री स्तवन ॥

॥ परम पुरुष परमात्मा साहीवजी ॥ ए राग ॥

श्रीगुरु वचन सुवासमां साहीवजी, लही मुजमन मधुकर तृप्ति हो,
अलवेली वाणी जीनवीरनी साहेवजी० ॥

सम एक आतम जावमां सा० दाखुं शिवपद झसि हो ॥ अ० ॥ १ ॥

सामाझकना अर्थनो सा० करशुं शुद्ध निबंध हो ॥ अलवेली ॥

नयनिक्षेप प्रमाणथी सा० चेतन शक्ति संबंध हो ॥ अ० ॥ २ ॥

पुद्गलमां आपो लखी सा० परजावे थइ रक्त हो ॥ अलवेली ॥

ज्ञानादिक निज धर्मनी सा० जलटी कारक शक्ति हो ॥ अ० ॥ ३ ॥

वहु जेदे अजेद ठे सा० आतम शक्ति अनंत हो ॥ अलवेली ॥

ते सवि विपम पदे करी सा० ग्रही पुद्गल खंध अत्यंत हो ॥ अ० ॥ ४ ॥

ज्ञानावरणादिक थइ सा० विविधा श्वरणनी व्याध हो ॥ अल० ॥

विविध विज्ञाने टालवा सा० सेवो समपद साध्य हो ॥ अ० ॥ ५ ॥

ज्ञान ज्ञान नहि समबीनु सा० दर्शन चरण न कोय हो ॥ अल० ॥

संवर निर्जरा शिव नहि सा० जीन आणा कीम होय हो ॥ अ० ॥ ६ ॥

समाचारी समपद विना सा० जूठी जाणो तेह हो ॥ अलवेली ॥

जीनवचनामृत सेवतां सा० टले विपमता एह हो ॥ अ० ॥ ७ ॥

तप जप पूजा प्रजावना सा० समजाव विना कीम थाय हो ॥ अ० ॥

समजावे साचुं सवे सा० निज संपत्ति प्रगटाय हो ॥ अ० ॥ ८ ॥

ढाल वीजी. राग

कंचन कोटि दीन प्रते मन मोहन मेरे, लाख वरस डिये दान

॥ मन मोहन मेरे० ॥

सामायक फल मापमां मन० नहि आवे तसमान ॥ मन० ॥ १ ॥

मिथ्या द्रष्टी न लहि शके मन० लाज सामायक शुद्ध ॥ मनमो० ॥
 माटे तजी मिथ्यातने, मन० जेद ज्ञानी थइ वुद्ध ॥ मन० ॥ २ ॥
 निज सुख संपत्ति निज विषे, मन० नहि परद्रव्यादिकमाहे ॥ म० ॥
 अस्ति नास्ति विचारतां, म० त्रम दुःख रहे नहि त्यांह ॥ म० ॥ ३ ॥
 सम एक आतम जावमें, मन० रही ज्ञान अनंतनी आय ॥ मन० ॥
 केवल ज्ञानादि अनंतनो, मन० पूरण सिद्धि उपाय मन० ॥ ४ ॥
 बाहिर कारण मात्र ठे, मनमो० अंतर कार्य अनुप ॥ मनमो० ॥
 बहिरंतर समता जजी मन० द्रव्य जाव शुचिरुप मनमो० ॥ ५ ॥
 नय नय मतमत कल्पना मन० तजी मिथ्या उपचार ॥ मनमो० ॥
 राग द्वेष जेथी टले मन० ते आचरणा धार ॥ मनमो० ॥ ६ ॥

ढाल त्रीजी.

तजी बहिरातम जावीये, मन मोहनारे ढाल, अंतर आतम
 मांहरे ॥ जवी बोहनारे ढाल० ॥
 परमातमपद जीनसमो, मन० जीहां उपाधि न कांयरे ॥ जवी० ॥ १ ॥
 समजावे परखी ग्रहो, मनमो० जीनवाणी गुरुदेव रे ॥ जवी० ॥
 वचन देव गुरु समविना, मन० मिथ्या कष्ट कुटेव रे ॥ जवी० ॥ २ ॥
 ठंडी कुनयनी वासना, मन० सुनय निपुण थइ आप रे ॥ जवी० ॥
 जूगे लिंग मुकी वरो, मन० अकलुष अमल प्रताप रे ॥ जवी० ॥ ३ ॥
 द्रव्यानुयोग दूरे करे, मन० मिथ्या मोह अंधार रे ॥ जवी० ॥
 निर्मल सम्यक् पद लही, मन० टालो राग प्रचार रे ॥ जवी० ॥ ४ ॥
 आर्त्त रौद्र तजी ध्याइए, मन० धरम शुक्ल शुभ ध्यान रे ॥ जवी० ॥
 त्रिकरण सावध्य वरजीने, मन० टाली पाप स्थान रे ॥ जवी० ॥ ५ ॥
 इंद्रि विषय विकार तजीने, मन० हणीये चार कषाय रे ॥ जवी० ॥
 हिंसादि अविरत तजी, मन० शुद्धोपयोग जीम पाय रे ॥ जवी० ॥ ६ ॥
 विनय देवगुरु शास्त्रनो, मन० करो अंतर बाह्य अजंग रे ॥ जवी० ॥

जावो वार चञ्जावना, मन० लहि जीन आणारंग रे ॥ जवी० ॥ ५ ॥
 श्ल्यादिक बहु जेदथी, मन० विधि निपेधनी चाल रे ॥ जवी० ॥
 रागद्वेष टाळी रहो, मन० आतम शक्ति संचाल रे ॥ जवी० ॥ ७ ॥

ढाल चोथी.

आवी चडीउं श्णसमे हो राज, तुज शासन महाराज, तारक
 तुं मित्यो० ॥

काल अनंत दुःखमें गम्यो, हो० जो न लही समसाज ॥ ता० ॥ १ ॥

मन मगन जीन वचनमां, हो० नमोवीर जीनराज ॥ तारक तुं० ॥

मुख शिवकारण उपदेश्यो, हो० खरुं लहुं में आज ॥ ता० ॥ २ ॥

मिथ्यातम फेडी करे, हो० निर्मल आतमबोध ॥ तारक० ॥

गुण अनंताणंदमें, हो० जलहल केवल ज्योत, ॥ तारक० ॥ ३ ॥

धर्म तीर्थ थापी हणै, हो० रागादिक परजाव ॥ तारक० ॥

चोविसे जीनवर नमुं, हो० तुं जवजलनिधि नाव ॥ ता० ॥ ४ ॥

वंदन नमन सकल समय, हो० कीजे श्रवसर पाम ॥ तारक० ॥

दर्शन निर्मलता लहो, हो० सहजानंद विराम ॥ ता० ॥ ५ ॥

शिव फल देवा एहने, हो० कल्पवृक्ष सम जाण ॥ तारक० ॥

अखूट आत्म निधि राखवा, हो० चित्रावेल प्रमाण ॥ ता० ॥ ६ ॥

कामीत पुरे दुःख हरे, हो० रतन चिंतामणी सार ॥ तारक० ॥

आतम संपत्ति पामवा, हो० सकल धर्म आधार, ॥ ता० ॥ ७ ॥

॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

जे उल्लूक-परम ज्योतिमां पोताना तथा परना त्रिकाल
 वर्तिना सकल पर्यायो दर्पण तलनी पेठे जासे ठे, ते परमज्योति
 जयवंत थारुं ॥ ते परमज्योतिना प्रकाशक श्री रूपजादि चोवीश
 तीर्थकर जयवंत थारुं. ॥ वखी श्री जिनेश्वर देवनी वाणी

जयवंत थाउं, ॥ के जेने सेवी जव्य जीवो पूर्ण समजाव पामी सादिअनंत अव्याबाध पूर्ण आत्मिक सुखना जोगी थाय ठे. वली पूर्ण परमानंदमां लीन सकल सिद्ध ते जयवंत थाउं. ॥ तथा मारा धर्माचार्य जयवंत थाउं ॥ के जेणे निज आत्मिक अनुभव नावद्वारा जिन प्ररुपित श्रुत समुद्रनो पार लीधो, जेना पसायथी हुं मारी आत्म सत्ताने जाणी समजावनो कामी थयो. जव्य जीवोना मिथ्यात्वादि ताप दूर करनार श्री जिनेश्वरनां समजाव जनक अमृत सादृश वचनो परम गुरुना गुरुगमथी मने प्राप्त थयां तेनो सार स्वपरोपकारार्थे लेश मात्र दर्शाववानी मारी उमेद ते श्रीतीर्थकर देवना अतिशय पसाये पूर्ण थाउं. ॥

तथा श्रीजिनेश्वरना अपायापगमना अतिशय पसाये समपद अज्यासी जव्य जीवोनां सकल विघ्न दूर थाउं. तथा श्री तीर्थपतिना वचनातिशय पसाये सर्वे जीवो आप आपणा प्रशोनी समाधानी पामो. वली श्री देवाधिदेव अरिहंतना ज्ञाना तिशय पसाये आत्म स्वरूप साधनार प्राणीउना सर्वे संशय दूर थाउं. तथा श्रीजिनेश्वरदेवना पूजा अतिशय पसाये सर्वे आत्मा आपणा परमपूज्य पदने पामो. ॥

ते समजावने अर्थे श्री तीर्थकर देवे सर्वे आगमो प्ररुप्यां ठे. ठेकाणे ठेकाणे समजावज उपादेय कह्यो ठे. ते समजावमां स्थिर रहेवुं ते सामायक ठे. माटे सामायकसिद्ध्युपाय नामे ग्रंथ लखवानो आरंभ करुं तुं.

सामायक--ए पहेलुं चारित्र तथा नवमुं शिद्धावत ठे. सामायक शब्दनी व्युत्पत्ति सम+आय+इक शब्दोथी थाय ठे.

१ सम--समजाव--पूरण गलनधर्मे सामान्य सर्वे पुद्गलो, तथा चैतन्य धर्मे सामान्य एवा सघला जीवो; तेमांथी एकने इष्ट अने

एकने अनिष्ट न कल्पतां मध्यस्थ वृत्तिषु शुद्धात्मजावमां स्थिर रहेवुं.

१ आयु+इक=समजावथी-यतो ज्ञानं दर्शन चारित्र्यनो वाच ते
आत्मजावज ठे

माटे शुद्धात्मजावमांज -(समजावमांज) स्थिर रहेवुं ते-सा-
मायक ठे.

प्रश्न-हे परमगुरु आपे जे सामायक वर्णव्युं ते सामायकनुं फल
जाणवानी मारी इच्छा, कृपा करी पूर्ण करशोजी:-

उत्तर-हे वत्स, चित्त स्थिर करी सांजल. ठेकाणे ठेकाणे आ-
त्मानुजवी पुरुषो सामायक (समजाव) नी अनहद एके अवाजे
प्रशंसा करे ठे. ते आगम अनुसारे हुं कहुं तुं-

गाथा-दिवसे दिवसे लख्खं, देइ सुवन्नस्स खंभियं एगो,
एगो पुण सामाइयं, करेइ न पहुप्पए तस्स.

अर्थ-कोइ पुरुष दररोज लाख खंभी सोनानुं दान आपे तो पण
एक सामायकना तोले आवे नहीं.

ध्यान वृष्टे र्दया नद्याः शमपूरे प्रसर्पति ।

विकार तीर वृक्षाणां मूलाङ्गमूलनं भवेत् ॥

अर्थ-ध्यानरूपी वृष्टिधी द्यारूपी नदीनुं शमता रूपी पूर
प्रसरते सते तीरे उगेलां विकार रूपी वृक्षो जन्म मूलथी उखडी
जाय ठे

वली गाथा.

सामाइयं मिजकए, समणोइव सावर्ज हवइजह्मा ।

एएण कारणेणं, बहुसो सामाइयं कुज्जा ॥

अर्थ-सामायक वखते श्रावक साधु समान ठे. माटे बहुवार
(चारंवार) सामायक करवुं, तथा.

श्लोक—स्वयंभू रमण स्पर्धि, वशिष्णु समतारसः ।

मुनिर्येनोपमीयेत, कोऽपि नासौ चराचरे ॥

अर्थ—स्वयंभूरमण समुद्रनी होरु करनार, वर्धन स्वजाववाला समता रस युक्त मुनिनी, चराचर जगत्मां कोशनी साथे सरखामणी थइ शके नहीं. तथा.

ज्ञान ध्यान तपःशील, सम्यक्त्व सहितोऽप्यहो ।

तं नाप्नोति गुणं साधुर्यं प्राप्नोति शमान्वितः ॥

अर्थ—व्यवहारज्ञान, व्यवहारध्यान, व्यवहारतप, व्यवहारशील, अने व्यवहार सम्यक्त्व वालो साधु जे गुण (लाज)ने नपामे ते गुण (लाज) शमजाव वालो पामे ठे. वली.

श्लोक—शम सूक्त सुधासिक्तं, येषां नक्तं दिनं मनः ।

कदापि तेन दह्यन्ते, रागोरग विषोर्मिञ्जिः ॥

अर्थ—जेनुं मन अहोरात्रि शमता बतावनार जिन प्ररुपित सुवचनामृतथी सिंचायलुं ठे. ते राग रुपी सर्पना केरनी उर्मि-उर्थी कदापि कलेश पामता नथी. वली.

श्लोक—गर्जाद् ज्ञान गजोत्तुंगा, रंग ध्यान तुरंगमाः ।

जयन्ति मुनिराजस्य, शम साम्राज्य संपदः ॥

अर्थ—गर्जना करता ज्ञानरुपी हस्तिउ वडे अति प्रधान ठे; तथा हर्षथी उद्धासित ध्यानरुपी अश्वो जेने विषे ठे, एवी मुनिराजनी शमसाम्राज्यनी संपदा विजयवंत ठे ॥ जेनी बराबरी जगत्नी कोशण संपदा करी शके नहीं. तथा.

श्लोक—किं स्तुमः समतां साधौ या स्वार्थं प्रगुणीकृता ।

वैराणि नित्य वैराणामपि हंत्युपत स्थुषां ॥

किं दंष्ट्रेण तपोभिर्वा यमैश्च नियमैश्च किं ।

एकैव समता सेव्या तरिः संसार वारिधौ ॥

अर्थ—एवा साधुनी समता—समजावनुं शुं वखाण करियें ? जेणे पोताना आत्माना सिद्धि करवाने समता आदरी एवा मुनि ते समता घरमां रहेता थका आ जवना तथा आगला अनेक जवना वैरजाव टाळी नांखे ठे, जेम नित्य पासे वसतां थकां कृतरा तथा विलाडीनां वैर पण शमी जाय ठे. कपटी वेश धारण करवाथी शुं थाय ? तथा घणी तपस्यायें पण शुं थाय ? वली मौन धारी अतीतनी पेरे इंद्रियो दमन कीधे शुं थाय ? अने व्रत धारण करे पण शुं थाय ? मात्र एक समताज—समजावज संसार समुद्र तरवामां नौका जेवी ठे. तेनुंज सेवन करवुं तेज श्रेष्ठ ठे. तथा.

श्लोक—अर्गला नरकद्वारे, मोक्ष मार्गस्य दीपिका ।

समता गुणरत्नानां संग्रहे रोहणावनिः ॥

मोहाद्वादित नेत्राणामात्मरूपमपश्यताम् ।

दिव्यांजन शलाकेव समता दोषनाशकृत् ॥

वली—समता ते नरकने वारणे जोंगल जेवी ठे, अने मोक्ष मार्गनी दीपिका ठे. वली गुण रूप रत्नोने संग्रह करवामां रोहणा चल पर्वतनी जूमिका जेवी ठे जेनां नेत्र मोहवने ढंकायां ठे ते पोताना रूपने जोड शकता नथी तेने समता ते दिव्य अंजन शलाका रूप ठे. अने अज्ञान फलने ठेदनारी ठे. वली जुळ. वाहुवली, आहार, पाणी निद्रा विना, शीत, ताप, पाणी, मद्य, मांस विगेरे अनेक जंगली प्राणींथी यता उपसर्ग सहता सुंदर राजजुवन तजी अघोर वनमा एकला वार महीना सुधी काळसगे रखा पण हुं मोटो अने मारा वीजा चाड नाना तेने केम नमुं ? एवी माने थयेली विपमताथी प्रचंड उग्र तपनुं फल

न पाम्या. अने ते विषमताने तजी परमोत्कृष्ट समजाव मित्रने
आदरतां तरतज अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत वीर्यआदि
अबाधित लक्ष्मीने सहज पाम्या.

वली प्रसन्न चंद्र राजरुषिए, खामी वगरना बाह्य चारित्रने
सेवता पण समजाव मित्रने विसारतां तरतज सातमी नरकनां
दलीयां तैयार कीधां अने तत्क्षणज थोडीवारमां अनंत करुणा
पात्र समजावने सेवतांज केवल कमलाने पाम्या.

आ संसार समुद्र. विषय कषाय रुप जले जरेला, काम तृष्णा-
रुप वरुवानल सहीत, जन्म जरा मरण शोक वियोग चूख तरस
ठंरु ताप ठेदन जेदन, तथा अशरण अचानक रोग अगुप्त आदि
अनेक जय रुप मञ्ज कञ्जप मगर आदि जल जंतुनो आवास, तथा
अनेक विकल्प रुप मोजांवाळा महा जयंकर अगाध जव समुद्र जेमां
एक क्षण मात्र पण शाता न मले एवा दुःख दायक समुद्रमांथी
तारी, एकांतिक आत्यंतिक सहज अकृत स्वाधिन निरुपचरित
निर्झर अविचल अनंत सुखरुप शीव नगरे पहोंचाडवा एक-समजा-
वज समर्थ ठे. उक्तंच.

सेयंबरो, य आसंबरो य बुद्धो अ अहव अन्नोवा ।

समजाव जावि अप्पा, लहेइ मुक्कं न संदेहो ॥

वली.

प्रगट जेद विज्ञान, आपगुण परगुण जानै ।

परपरिनिति परित्यागि शुद्ध अनुज्ञौ धिति ठानै ॥

करी अनुज्ञव अज्ञ्यास सहज संवर परगाशै ।

आश्रव द्वार निरोद्ध कर्मघन तिमिर विनाशै ॥

ठय करी विज्ञाव समजाव जजी, निर्विकल्प निजपद गहौ ।

निर्मल विशुद्ध शाश्वत सुधिर परम अतींद्रिय सुखलहै ॥

एष सर्व ठेकाणे समजावनुंज वखाण जोवामां आवे ठे. समजाव अनुपम ठे. तेने कोनी उपमा आपीए ? तेनुं जेटळुं वखाण करीए तेटळुं उहुं ठे तेनुं वर्णन करवाने कोश्रण समर्थ थाय नहि. वधारे शुं कहिये ? पूर्ण समजाववाळाना सुखने वर्णववाने केवली जगवंतनी जीव्हा पण असामर्थ्य जजे ठे तो अन्यनी शी गणत्री ?

सोरठा-समजावज एक समर्थ, अनुपम शिवसुख आपवा ।
ते विण सघली व्यर्थ, व्रत तप संजमनी क्रिया ॥

माटे ज्ञान ध्यान तप संयम ए सौ शमजावरुप अलंकारवकेज प्रशंसाने पामे ठे नहि तो संसारसुखने आपी संसार वधारनार होवार्थी अहितकारीज कहेवाय.

अनिच्छन् कर्म वैषम्यं ब्रह्मांशेन समं जगत् ।

आत्मान्नेदेन यः पश्येदसौ शिवं गमी शमी ॥

अर्थ-कर्मथी यता वैषम्यने नहि गणकारतां जगतना सर्वे जीवोने चेतन्य सत्ताए सामान्य जाणे ठे अने सर्व पुद्गलोने पूर्ण गलन धर्मे सामान्य जाणे ठे. ते इष्टानिष्ट विकल्पने तजी समजावने जजतां मोहगामी आय ठे अने अतीक्षिप्त शाश्वत निष्प्रयासिक स्वाधीन निरंतर आत्मिक सुखने पामे ठे.

सामायक सिद्ध्युपायस्य प्रथमोधिकारः संपूर्णः

श्री सामायकस्वरूपवर्णनोनामः

द्वितीयोधिकारः

पण मिथ्या सामायकने सत्य सामायक जाणनार ने माननारने पूर्वोक्त फळनी प्राप्ति थाय नहि. यथा—

श्लोकः—यतः प्रवृत्तिर्न मणौ, लज्यते वा न तत्फलम् ।

अतात्विकी मणीज्ञप्ति, मणि श्रद्धाच सा यथा ॥

तथा यतो न शुद्धात्म, स्वज्ञावाचरणं भवेत् ।

फलं दोष निवृत्तिर्वा, न तद् ज्ञानं न दर्शनम् ॥

जूग मणिने मणि जाणवाथी खरा मणिनुं ज्ञान अवराय ठे. वली तेज जूग मणिने मणिपणे निर्धार करवाथी मणिनुं दर्शन पण अवराय ठे. तेथी खरा मणिनुं आचरण पण थतुं नथी तेमज मणिना दाज्जोगादि पण मलता नथी. ए प्रमाणे चपल पुद्गलमां आत्म पणुं (पोतापणुं) मानवाथी अने विषयादि रोगोमां जोग मानवाथी आत्माना सर्वे स्वज्ञाव चपल थइने आप आपणुं काम करी शकता नथी (आवरणे पामे ठे.) तो खोटी मणिने खोटी जाणवाथी खरी मणिनुं ज्ञान थाय ठे. तेम जे पुद्गलज्ञावथी न्यारुं एवुं आत्म स्वरूप ते मांहेज आत्मबुद्धि थवाथी, अने पुद्गलने पर अने जरु जाणवाथी, अथवा दुःखनुं स्थानक जाणवाथी, पुद्गल संगे उपजेलो संकल्प विकल्प सर्वे नाश पामे ठे. एटले सर्वे आवरण नाश पामी आत्माना केवल ज्ञानादि गुणो प्रगट थाय ठे.

प्रश्न—हे जगवंत तो मने साचा सामायक तथा जूग सामायकनुं स्वरूप कृपा करी समजावशो ?

उत्तर—हे वत्स तुं विनय, विवेकसहित शांत चित्ते निर्विकल्पपणे परमोपकारी सर्वज्ञ आस जिनेश्वरनां अमृत समान वचनो सांजली

हृदयमां ग्रहण कर, कारणके ज्यां सुधी जेनुं चित्त दृष्टिराग, द्वेष, मूढता, कदाग्रह, विगेरेयी अशुद्ध ठे त्यांसुधी तेने सद्वोधनी प्राप्ति थवी असंज्ञान्य ठे

काव्य.

असद् ग्रावमये हि चित्ते, न कापि सङ्गावरस प्रवेशः ।

इहांकुरश्चित्त विगुह बोधः, सिंशंत वाचां वत कोपरांधः॥

अर्थ—ते कदाग्रही माणसनुं चित्त पथ्थर जेवुं ठे जेम पथ्थरमां पाणी जेदे नहि तेम जिनवाणी रुप रस ते कदाग्रही माणसमां प्रवेश करे नहि. तेथी तेना चित्तरुप वृद्धमां शुद्ध बोध रुप अंकुर प्रगटे नहि.

असद्ग्रहाग्नि ज्वलितं यदंतः, क तत्र तत्व व्यवसाय वल्लिः।
प्रशांति पुष्पाणि हितोपदेशं, फलानि चान्यत्र गवेषयंतु ॥

अर्थ—जेनुं अंत.करण अठता पदार्थना कदाग्रह रुप अशिवने वलेलुं ठे तेना हृदयमां तत्वव्यापाररुप वेलि केम करी जगे ? अने समतारुप फुल केम फुटे ? तथा हितोपदेशरुप फळ क्यांथी थाय ? ते माटे कदाग्रह तर्जी तत्व ग्रहण करवुं.

उपजातिवृत्तम्.

कुतर्क दात्रेण लुनाति तत्ववह्नीरसान्सिंचति दोष वृद्धं ।

क्षिपत्यधः स्वाङ्गफलं शमारुग्यमसद्ग्रहः कोपि कुहुविलासः ॥

जे कदाग्रही ठे ते कुविचाररुप दातरने करी तत्वरुप वेलीने ठेदे ठे अने पापरुप वृद्धने जल सिंचे ठे तथा समतारुप अमृत फळने धूलमां नांखे ठे एवो कदाग्रहरुप अमावास्यानी रात्रिनो विलास ठे.

उपजातिवृत्तम्.

स्थालं स्वबुद्धिः सुगुरोश्च दातु, रूपस्थिता काचन मोदकाली ।
असद्ग्रहः कोपि गलेग्रहितस्तथापि ज्ञोक्तं न ददाति इष्टः ॥

शिष्यनी बुद्धिरूप थालमां सुगुरु शुद्ध ज्ञानरूप मोदक पीरसवा
मांमे ठे, पण कदाग्रह आवी गलुं पकमे ठे, तेथी जिनवचनरूप
मोदक जमी शकाता नथी. एवो कदाग्रह इष्ट ठे.

आमे घटे वारि घृतं यथा सद्दिनाशयेत्तं च घटं च सद्यः ।

असद्ग्रह ग्रस्तमतेस्तथैव, श्रुतात्प्रदत्ताङ्गयोर्विनाशः ॥

जेम काचा घडामां पाणी चरवाथी घनानो तेमज पाणीनो नाश
थाय ठे, तेमज कदाग्रही माणसने शास्त्र शीखवतां—अर्थ आपतां
शास्त्रनो तेमज तेनो पोतानो बंनेनो विनाश थाय ठे.

असद्ग्रहो यस्यगतो न नाशं, न दीयमानं श्रुतमस्य शस्यं ।

न नाम वैकल्य कलंकितस्य प्रोढा प्रदातुं घटते नृपश्रीः ॥

जेम कोइ घेला आदमीने महोटी राज्यलक्ष्मी आपवी घटे नहि,
तेम जेहनो कदाग्रह गयो नथी तेवा प्राणीने धर्मोपदेश आपवो
योग्य नथी.

विद्या विवेको विनयो विशुद्धिः, सिद्धांतं वाङ्मन्य मुदारता च ।

असद्ग्रहाद्याति विनाशमेते गुणास्तृणानीव कणाह्वाम्नेः ॥

जेम अग्निथी घासनो समूह चस्मिन्भूत थाय ठे तेम विद्या, विन-
य, विवेक, विशुद्धि अने सिद्धांतं उपर वद्वन्ततापणुं अने उदारता ए
सर्व कदाग्रहथी नाश पामे ठे.

वली श्रीमद्यशोविजयजी कदाग्रहविषे पद कहे ठेः—

रागे प्रजातीः

इष्टिरागे नवि लागीये, वली जागीये चित्ते ॥
 मागीए शीख झानी तीणी, हठे चांगीये नित्ये ॥ १ ॥
 जे ठता दोष देखे नहि, जिहां जिहां अति रागी ॥
 दोष अठता पण दाखवे, जिहार्थी रुची चागी ॥ २ ॥
 इष्टिरागे चले चित्तथी, फरे नेत्रे विकराले ॥
 पूर्व उपकार न सांजरे, पने अधिक जंजाले ॥ ३ ॥
 वीर जिन जव हुता विचरता, तव मंखलि पुत्तो ॥
 जिन करी जरु जने आदर्यो, इहां मोह अतिधूत्तो ॥ ४ ॥
 रुद्धिजंडार रमणी तजी, जजी आपमति रागो ॥
 इष्टिरागे जमाली लहो, नवी जवजल तागो ॥ ५ ॥
 वली आचार्य सावध्य जे, हुठे अनंत संसारो ॥
 इष्टीरागे समती पण थयो, महा निशीथ विचारो ॥ ६ ॥
 हुए जिन धर्म आशातना, अजाण्युं कहे रंगे ॥
 मंरु आगळे जीनवरे, वदीठे जगवइ थंगे ॥ ७ ॥
 गामना नटने मूर्खनो, मिढ्यो जेहवो जोगो ॥
 इष्टीराग मिढ्यो तेहवो, कथक सेवक लोगो ॥ ८ ॥
 आपण गोठडी मीठडी, हठीने मन लागे ॥
 ज्ञानी गुरु वचन रळीयामणां, कटुक तीरसां वागे ॥ ९ ॥
 इष्टीरागे ज्रम उपजे, ज्ञान वधे गुणरागे ॥
 एहमां एक तुमे आदरो, जलो होय जे आगे ॥ १० ॥
 इष्टीरागी कदा मत हुवो, सदा सुगुरु अनुसरजो ॥
 वाचक जशविजय कहे, हितशिख मन धरजो ॥ ११ ॥

वली जष्टीराग उपर रक्तपुरुषनी कथा.

सामंत नगरमां एक बहुधान्यक नामनो चोधरी रहेतो हतो. तेने सुंदरी अने कुरंगी नामनी बे स्त्रीउं हती. तेने कुरंगी नामक युवा स्त्री पामीने वृद्धा सुंदरीनो अज्ञाव थयो. केटलाक दिवस पठी बहुधान्यके सुंदरीने कह्युं के हे जडे! तुं पोतानो हिस्सो लेश पुत्र सहित बीजा घरमां जइ रहे. त्यारे ते सुशिलाए पतिनी आज्ञा प्रमाणे कत्रुल कर्युं. त्यार पठी ते बहुधान्यकने कुरंगी कुटीलाए पोतानी चालाकी वडे वश कयों. केटलाक दिवसवाद ते बहुधान्यकने राजाना हुकमथी परदेश जवानो अवसर आव्यो त्यारे ते पोतानी कुरंगी स्त्री पासे जई कहेवा लाग्यो के हे कुरंगी ! हुं परदेश जाउं तुं; तुं घरमां खुशीथी रहेजे, मारे राजानी सेना साथे अवश्य जवुं पकरो. ते वचन सांजली कुरंगी कहेवा लागी के, हुं पण तमारी साथे अवश्य आवीश. तमारो विरह, अग्नि सरखो, हुं क्षणमात्र सही शकती नथी. हे स्वामी ! आपना सन्मुख अग्निमां प्रवेश करी मखुं जलुं जाणुं हुं पण विरह-रुपी शत्रूने वश थवुं जलुं जाणती नथी. हे नाथ ! जेम वनमां शरण रहित हरणीने सिंह मारी नांखे ठे तेम तमारा वगर मने पण वियोग मारी नाखशे. एवां कपट सहित कुरंगीनां वचन सांजली बहुधान्यक बोड्यो के हे मृगाक्षी ! एवुं बोलीश नहि. स्थिर थइ घेर रहे, केमके राजा जारे व्यञ्जिचारी ठे ते तने देखतां ग्रहण करीले. ए प्रमाणे कुरंगीने समजावी धन धान्यथी जरेलुं घर तेने सोंपी ते चोधरी राजानी सेना साथे गयो. सरागीनो एवो स्वज्ञाव होय ठे के, स्वेच्छित वस्तुने पामी पठी कोइनो विश्वास करतो नथी, तेना वियोगथी मरणने पण श्रेष्ठ गणी लेठे; पण जेना उपर जष्टीराग बंधायो तेना दुर्गुणने देखी शकतो नथी. जेम नीच कूतरो क्रमीजाल अने मलथी विस निरस मांसने अमृत समान जाणे ठे तथा सुका हारुकाने रसा-

यणं संमान जाणी चाटे ठे तेम रक्त मूर्ख अहितकारीने हितकारी मानी लीए ठे.

ते कुरंगी पोतानो पति गया पठी पोताना यारो साथे निःशंकपणे रमवा लागी, अने थोका द्विवसमां तेअोने पोतानुं समस्त धन दोलत आपी खाइ खोइ पुरूं कीधुं. केटलाक दिवसे पोताना पतिनुं आवनुं नजीक जाणी उत्तम पतिवृतानो ढोंग धारी रहेवा लागी बहुधान्यके पोताना गामनी जागोळे आवी एक वृद्ध तळे विश्राम कयों, अने पोताना नोकरने कुरंगी पासे मोकड्यो, ते नोकरे कुरंगी पासे जइ कह्युं के हे कुरंगी । तमारा प्रिय पति आवी गया ठे माटे तेमने माटे जोजन विगेरे तैयार करो. अे सांजली कुटिलाए कह्युं के ए वात सुंदरी स्त्री पासे जइ कर, केमके श्रेष्ठ पुरुष होय ते पोतानो कुलक्रम ओलंघीने चाले नहि माटे सुंदरी पासे ए वात कर. आखरे ते मोटी ठे. माटे पहेले दिन तेने त्यांज जोजन थुं जोईये. कुरंगीए ते माणसने आ-प्रमाणे समजावी मोटी स्त्री पासे मोकड्यो, तेनी साथे कुरंगी पण गई. ते जई सुंदरीने कहेवा लागी के, वेन तमारा पति आव्या ठे, अेमने माटे घणी स्वादिष्ट रसोई बनावो. केमके तमे मोटां माटे पहेले दिन तमारे त्यां जमशे, ए सांजलीने सुंदरी बोली, हुं ऊत्तम स्वादिष्ट जोजन बनावीश; पण पतिने तारा हाथनी रसोई विना मारा तरफनुं कांईपण प्रसन्न आवे तेम जणालुं नथी. कुरंगी कहे के ते वातनी फीकर न करीश ए तो जमशे. पठी तेणे बहु प्रकारे सुंदर रसोई बनावी सज्जन पुरुष सर्वेने पोतासमान समजे ठे, डुरिजन कुटीला हमेशां पोताना दोप लुपाववानी युक्तिमां रहे ठे. त्यार पठी कामधी पीढायलो एवो चोधरी कुरंगीने घेर आव्यो, तो मेघविना आकाश जेवुं अने लोक रहित नगर जेवुं पोतानुं घर तेणे देख्युं, पण कुरंगीनुं मुखकमल जोवानी आलुरतामां रह्यो तेथी पोताने चक्रवर्ती करतां पण अधिक मानी रह्यो; अने मनमां मानेठे के मारी प्रिय कुरंगी जे कार्य करे

अगर जे कार्य न करे ते सर्वे मने प्रिय ठे. दृष्टिरागवालो योग्य अ-
योग्य न देखे, नजाणे अेमां कांई आश्चर्य नथी. तेम दृष्टिरागी जीव
पोताना आत्महितने जाणतो नथी के कयुं वचन मारा आत्माने हित-
कारी थशे अने कयुं वचन मारा आत्माने अहितकारी ठे; ते समजी
शकतो नथी. जेनां नेत्र रागरूप धंतुराना रस बडे जमी गयां ठे, ते पोताना
स्वाधीन सुखने ठोनी सुखने माटे पराधीन थाय ठे, रागग्रशित जीव
उतावलो मोटी आपदामां पढे ठे, जेम मांसनी डली परोवेला दोहनी
तिखी अणीवाला कांटामां फसाएली माठलानी जीजने ते माठलुं
पोते पाहुं काडी शक्तुं नथी—पण आखर मरणने पामे ठे तेम दृष्टी
रागवालो कुमतमां पडी शुद्ध न्यायनां तत्वामृत उपजावनारां वचन
समजी शकतो नथी. दृष्टीरागीने देखीने सज्जन पुरुषोना मनमां
करुणा अने फीकर थाय ठे के अरेरे! आवां प्रत्यक्ष न्यायनां वचन
अने केम नहि समजातां होय? अने दुर्जन पुरुषो तेनी हांसी करे ठे;
के कोई आपदा अेवी नथी के जे ते रक्त पुरुषने न जोगववी पडे.
बुद्धिवानने लायक ठे के चित्तमां मृडुता करी अेकांत हठ ठोनी वच-
नना गुण दोष जाणी लेवा. सापनुं वील जाण्या पठी कोण बुद्धीवान
तेमां हाथ घालशे? अेकांतीनुं मां सापना वील सरखुं जाणी बुद्धिवंते
पक्षपात ठोडी न्याय मार्गे चालवुं. पठी ते बहुधान्यक चोधरीअे
कुरंगीनुं मुख जोतां जोतां. रसोईघर सामुं जोयुं, तो सुना घर सरखुं
माळूम परयुं. पठी कुरंगीने कहेवा लाग्यो के हे प्रिया! मने उतावलुं
जोजन कराव! त्यारे जमना दूत सरखी आंखो करी बोली के हे! दुष्ट
तारा कुलक्रम प्रमाणे मोटी स्त्रीने घेर जोजन कर! एवां कुरंगीनां
वचन सांजली ते मूंगो थई वेगे. दुर्निवार संताप जोगववा लाग्यो.
अेवामां सुंदरीनो ठोकरो आवी प्रार्थनापूर्वक बोड्यो हे पिताजी!
घरे चाली जोजन करो. अेवुं सांजलतां ठतां पण चिंतातुर बेसी रह्यो.
अेटले कुरंगी. क्रोधसहित बोली आ तें शुं पाखंरु मांडयुं ठे? ताहरी

वहाली स्त्रीने त्यां जई केम जोजन करतो नथी ? एवां कुरंगीनां वचन सांजली ते चोधरी सुंदरीने घेर जमवा गयो त्यां पहाँचतांज सुंदरीए परम स्नेह साथे निर्मल चित्तथी कोमल उत्तम आसन आप्युं थने पतिनी निकट थनेक पात्र मूकी सरस रसीलां जोजन पीरस्यां परंतु निर्मल शुद्ध जिनवाणी जेम कटाग्रहीने रुचती नथी तेम ते सुंदरीनां पीरशेलां जोजन सर्वे अस्वादिष्ट लाग्यां तेणे थेवुं मानी लीधुं के आ जे जे करे ठे ते सर्वे मने अनिष्ट ठे, एवा विचारथी तेने ते जोजन रुच्यां नहि कामरुपी अंधकारथी आछादित थयेला बहुधान्यके चितव्यु के चंद्रमानी मूर्ति समान सुंदर रुपवाली कुरंगी केम कोझीत थई मारा तरफ दृष्टी पण करती नथी ? निश्चय करी में एनी विरुद्ध कंई कर्युं हशे. एवी चिंताथी जम्याविना ऊजो थयो, ते देखी सर्व कुटुंबीओथे कहु के अहींआं सर्वे मनोहर जोजन ठे, ते तमने शुं सारां लागतां नथी ? त्यारे ते वोढ्यो के मने एक पण पसंद नथी मने कुरंगी पासेथी कंईपण जोजन आणी पीरगो तो हुं प्रसन्न थाउं. थेवां पतिनां वचन सांजली सुंदरी तरतज ऊठी कुरगी पासे गई, ने कहुं के स्वामी माटे सरस रुचे थेवु जोजन आपो कुरगी बोली के आजे ताहारे घेर जोजन करवानुं हतुं तेथी भे कंईपण वनाव्युं नथी जो ते रक्त बुद्धी मारुं आपेलुं गोवर (ठाण) खाई लेशे तो मारा समस्त डुपण पण खमी लेशे एवुं मनमां विचारी गरम गरम चावेला घऊंनता दाणावालुं निंघ पातलुं गोवर लावी मशालाथी वघारी कहुं के हे सुंदरी ले आ शाक लई जई स्वामीने पीरश, सुंदरीथे जई ते गोवर बहुधान्यकने पीरशुं के तरतज सर्वे सुंदर जोजन ठोडी वारं-वार बहु प्रशंसा करतो चुडनी माफक ते गोवर जमी प्रसन्न थयो

आचार्य कहेठे के डष्टीरागवके जेनी सुद्धष्टी मुद्धित थइ ठे, ते अधर्मने धर्म, कुगुरुने सुगुरु, डुराचरणने सदाचरण, डुःखने सुख, कुमार्गने सुमार्ग, मानी लेठे तो वीचारो बहुधान्यक गोवरने सरस

चोजन मानी ले एमां शुं आश्चर्य ? जेनुं चित्त ड्रष्टीराग, कदाग्रह जूठी हठ रूपी वज्रमय कोटथी विंटायलुं ठे, तेना चित्तमां सद्बोधनो केम करी प्रवेश थाय ? जेम अग्निमां कमल निपजे नहि, तपेला लोह उपर पडेलुं मेघविंडु तुरत नाश पामे, तेम सद्गुरुना मुख कमलथी उपजेलां अमृतमय जिन वचन कदाग्रहीना चित्तमां वीलकुल असर करी शकतां नथी. तथा पूर आवतां नदीना तीरे कोमल ठोड टकी शकता नथी तेम कदाग्रहीना चित्तमां सद्बोध टकतो नथी अने हमेशां कुतर्करुपी कीकाठ तेना चित्तने अतिशय क्लेशित करे ठे अने सद्बोधनां बीजने खाई जाय ठे तो सद्बोधनी वृद्धि केम थाय. अने शम सुखनी प्राप्ति केम करी थाय ? जेम ध्रुवने सूर्यनुं दर्शन थाय नहि तेम कदाग्रहीने सम सुख नजरे पण पडे नहि. एवा कदाग्रहीनो संसर्ग पण वर्जनीय ठे—

काव्यं.

असद् ग्रहस्थेन शमं समंतात्सौहार्दं नृदुःखमवैति तादृग् ।
उपैति यादृक्कदली कुट्टद् स्फुटत्रुटकंटक कोटी कीर्णा ॥

जेम केलनुं वृद्ध ते कंथेरादिक वृद्धाने संगे कांटाये करी कोराय ठे तेम जे प्राणी कदाग्रही साथे मित्राई करे ते अंते दुःखना विपाकने पामे ठे. माटे कदाग्रहीनो संग तजी जव जयथी उद्विद्ध थई, विषयादिकने असार जाणी आठ मद रहित थइ, लौकिक रीतथी पराङ्मुख तथा गुणग्राही थइ विनयपूर्वक स्वसमयमां प्रवर्त्तावनार जिनेश्वरनां वचन सांजलो. कारणके “विनयमूले पन्नत्तो धम्मो” एवुं सुत्रनुं वचन ठे. धर्मनो विनयीज धर्म पामे.—

जिनेश्वरनां सर्वे वचनो परसमयथी मूकावी स्वसमयमां आचरण करावनार ठे—

शुद्धतम अनुभव सदा, स्वसमय एह विदासरे ।
परवनी गंढनी जेह पके, ते परसमय निवासरे ॥

गाथा.

जीवो चरित्त दंसण, णाणछिउं तं हि ससमयं जाणं ।
पोग्गल कम्मपएसछिअंच हि जाण परसमयं ॥

सम्—यथार्थपणे अने अय्—जाणवुं जनुं—माटे कपाय रहित,
पोताना शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्रमां स्थिर रहेवुं ते स्वसमय ठे तथा
जे वचनोवके स्वसमयनी प्राप्ति थाय ते पण स्वसमय ठे. माटे
जिनेश्वरनां वचनो स्वसमयमां स्थित करनार होवाथी मात्र तेज
स्वसमय ठे. ते माटे स्वसमयने रुचि सहित सांजलो ग्रहण करो. ते
अर्थने सन्मुख थाउं तेना परमार्थने पूठो जाणो माटे हे वत्स हवे
स्वसमय अनुसार जूग तथा साचा सामायकनुं स्वरुप कहुं तुं ते
सावधान चित्ते सांजळ

सामायकनुं स्वरुप—शम्+आय, इकः एम सामायक शब्द
सिद्ध थाय ठे

शम्—शमजाव—पूरण गलण धर्मे सामान्य सर्वे पुद्गलो तथा
चैतन्य धर्मे सामान्य सर्वे जीवो तेमांथी एकने इष्ट अने एकने
अनिष्ट न कल्पतां, मन वचन काया स्वपर जीवना इव्य जाव प्रा-
णनी हिंसामां न प्रवर्तावतां निज शुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्रमां स्थिर
रहेवुं ते शब्द नये सामायक ठे. ते आत्म स्वजावज ठे तेज धर्म ठे.—

चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिदिष्ठो ।

मोहं कोहं विदूषो, परिणामो अप्पणो सम्मो ॥

अर्थ—चारित्र तेज निश्चय धर्म ठे, अने शमजाव तेज निश्चय धर्म
ठे, अने मोह कोन रहित शुद्ध आत्म परिणाम तेज शमजाव ठे.

उक्तंच ऋगवति सूत्रे: “ आया खलु सामाङ्यं ” पण शमजावनी अपेक्षा विना मात्र “ सामाङ्य वय जुत्तो ” आदिपाठ बोलवा अने द्रव्य प्राण जाव प्राणनी रक्षानी अपेक्षा न राखवी अने जावनी शुद्धिनीना मन वचन कायानुं आर्त्त रौद्रपणे प्रवर्तावुं ते खरुं सामायक नथी.

द्रव्य क्षेत्र काल जाव सहित जे वस्तु ठे ते सत् ठे. जाव धर्म विना वस्तु सत्य कहेवाय नहि माटे जावधर्म विना द्रव्य परंपरा ते अहितकारी, जिनेश्वरनी आज्ञाथी वहार ठे. उक्तंच—

लोयाणं एस ठिइ, अजाय पजाय गयाय मजाया।

द्व परंपर ठवणा, कुल क्रमं नेव मिद्धिहस्सं ॥

मात्र लोकनी स्थिति कुलपरंपरा प्रमुख मर्यादा ते द्रव्य परंपरा स्थापना कहिये कुल परंपराथी आवेली नहि ठोमीये, ए संसारनो व्यामोह जाणवो—अर्थात् पोतानी कुलक्रम मर्यादा पाळे पण शुद्ध अशुद्धनी वहेंचण न करे ते लोकस्थिति द्रव्य परंपरा जाणवी.

मूढाणं ए स ठिइ, चुक्कंति जिणुत्त वयण मग्गाउं ।

हारंति बोहिलानं, आय हियं नेव जाणंति ॥

मूर्खोनी ए पूर्वोक्त स्थिति कुलक्रमागत मर्यादा जिनोक्त मार्गथी चुके ठे, ते आत्म हितने जाणता नथी. दुर्लज्ज सद्वोधना लाजने हारे ठे.

द्वपरंपर वंसो, संजम चुक्काणं सव्व जिवाणं ।

जाव परंपर धम्मो जिणंद आणाउं सुपसिद्धो ॥

अर्थ--द्रव्य परंपरा वंश एटले जे कुलने विषे जन्मे ते वंश कहीए. ते सप्तदश विध संजम त्रष्ट सर्व जीवोने ठे अने जाव परंपरा धर्म ते जिनेद्र आज्ञाथी सारी रीते सुप्रसिद्ध ठे पण वितरागनी आज्ञा-

विना द्रव्य परंपराए तप जप संजम क्रिया सर्व ठार उपर लिपण
समान नकामुं जाणवुं. माटे लौकीक द्रव्य परंपरा हेय ठे अने लोको-
त्तर आवश्यकदि क्रिया आज्ञापूर्वक फलदायक ठे

गाथा.

अणुयोगदारसुत्ते, लोगुत्तर वस्सयं जिणवरेहिं ।

आणाए अणुचिन्नं, मुखफलं होइ ञव्वाणं ॥

अर्थ—अनुयोगदार सूत्रमां लोकोत्तर आवश्यकके वितराग देवे प्ररुप्युं
ठे के—आज्ञा पूर्वक आचरेलुं अनुष्ठान ञव्य जीवोने मोक्षफल आपे.

गाथा.

आणाए अणुचिन्ना, वस्सय कालंमि समण संघेहिं ।

लोउत्तरीआ ठविआ, परंपरा वियरागेहिं ॥

अर्थ—आज्ञा पूर्वक श्रमण संघे आचर्यो जे व्यवहार ते लोकोत्तर
स्थापना जाव परंपरा ठे एम जिनेश्वर देवे कह्युं ठे

गाथा.

जंकिंचि अणुछाणं जिणेंद आणाए बहु फलं होइ ।

जह वरु तरुव्ववीयं, विछारं लहई वुहंते ॥

अर्थ—जिनेद्र आज्ञा पूर्वक करेलुं थोमुं पण अनुष्ठान बहु फल
आपनारुं थाय जेम नानु पण वरुनुं वीज विस्तारी शाखा प्रतिशाखा
बहु फलने आपे तेम जिनेश्वरनी आज्ञा सहितनु अनुष्ठान उत्तम
फलने आपे

गाथा.

ओवंपि अणुछाणं, आण पहाणं करेइ पावजरं ।

लहुञ्जं रवि कर पसरो, दहदिशि तिमिर पणासेइ ॥

श्रोतुं पण अनुष्ठान आज्ञा प्रधान करेतो पापत्तर ते पण लघुकर्मी
थाय जेम सूर्यनां किरणो पसरते ठते दशे दिशानो अंधकार नाश पामे.

गाथा.

जो पूइजाइ देवो, तव्वयणं जे नरा विराहंति ।
हारंति बोहिलाजं, कुदिठि राणण अन्नाणी ॥

जे जिनवर देवने पूजे पण तेनुं वचन जे पुरुष विराधे ते पुरुष
मिथ्याद्रष्टी रागवने बोधवीज सम्यक्त्व प्रते हारे. अने जे देवने
पूजीए ते देवनी आणा मानीए तो सुखदायी थाय.

गाथा.

पूआ पच्चरकाणं, पोसह उववास दाण सीलाइ ।
सव्वंपि अणुठाणं, निरत्तयं कणय कुसुमुव्व ॥

जिनपूजा, महाव्रत, प्रमुख मूलोत्तर गुण, पच्चरखाण, पोसह, पर्व
तिथि, अनुष्ठान, ऊपवास, चऊविहार, दान, शील, ब्रह्मचर्य इत्या-
दिक सर्वे अनुष्ठान आणा रहितने धंतुराना फूलनी पेठे निरर्थक
जाणवां. जेम धंतुरानुं फूल देखीतुं शोत्रे ठे पण अंदरथी जेर वालुं
अने सुगंधी रहित तेम प्रतिक्रमणादि क्रिया जिनेश्वरनी आणा वाजु
मेलीने होय तो जिन आणा रूप सुवासविना अने मिथ्यात्वादिक
जेर युक्त माटे निरर्थक जाणवां. जेनी आज्ञा आराधवा ऊपर अने
आज्ञा जाणवा ऊपर बुद्धि नथी तेने गाय, हरण, वृह, पथ्यर, गधेडा,
तरणां, कूतरा, सरखा जाणवा.

गाथा.

जेसिं न आण बुद्धि, विद्या विष्णाण चौरीमा सुधी ।
तो गोमिअ रुख पथ्यर, रवरतिण सुष्साइ सारीढं ॥

जे पुरुषने जीनेश्वरनी आज्ञा आराधन बुद्धि नथी ते पुरुष

अथवा स्त्रीयोने गाथामां कहेला जाऊ, गाय, पथ्यरादीक जेवा जाणवा जे वीजी विद्या विज्ञान अने चतुराईवंत ठे पण जिनेश्वरनी आज्ञा रहित ठे ते निरर्थक ठे. जिन आज्ञा तत्त्वार्थ विपयिक बुद्धि नथी. तेमां श्रुत ज्ञाननी चतुराई मन शुद्धीए पण गुण नथी ते जीवो कूतरा, गधेमाथी हीण जाणवा जिन आणा रहित अनुष्ठान ते वंझ्या पुत्र समान अने चूमिना त्रिज्जेवुं, आकाशना वाचका जरवा जेवुं, आंधला आगल प्रधान स्त्रीना हावजाव सरखु जाणवुं वहेराने करण जाल, तथा वहेरा आगल वीणा वगामवी, तेम आज्ञात्रष्टनुं चारित्र नटनी पेठे विडवना रूप जाणवुं.

गाथा.

आणा जठं चरणं, वेसा दासीण णेह तुल्लं ।

किंवाग फल मसारं, तत्ताय सीसाइ अं नीरं ॥

आज्ञा त्रष्ट चारीत्र वेझ्या तथा दासीना स्नेह तुल्य किपाक फलनी माफक असार अथवा तस लोहने स्वांति नक्षत्रना जलनी पेठे निरर्थक ठे

संतोकचंद कहे ठे—जीन आज्ञा विना सरवे निरर्थक ठे ते आपणे जाणीए ठीए ऐविपे वधारे लखवानी शी जरुर ठे ?

ऊत्तर—हजु तमे नथी जाणता के मित्रादिक चार जावनाओ हमेश अक्स्य आपणे जाववी जोईए के चौद राज्य लोकमां जे जीव ठे ते आपणा वंधु जाणवा एटले एमांथी कोई जीव जेखधारी कुगुरुओना सपाटामां आवे नहि जाहेर पापी अने मिथ्यात्वी जीवो देखाय तेनो तो कोई जरांसो राखतो नथी पण ऊपरथी जैननो जेख देखी जोला लोको जरुसो करे माटे चेतववुं जोईए जे लोको एवाने सेवे ठे अने सारो माल खवडावे ठे विनयादिक करे ठे. तेज जोला लोकोने खोटी धामधुम करी जरमावी देव, चक्रवर्ती आदिना विप-

योनी लालचमां पाकी संसार समुद्रमां कुवावे ठे. के जीवोतो वापमा अनादि विषयोना लालचु ठेज ते चूले तेमां शो अचंवो ठे?माटे एवा कुगुरुओथी दूर रहेवा माटे चेतवणी आपी ठे. अने जे एवा कुगुरुओनी सेवा नथी करता तेने तो ए कांइ बूमावी शकता नथी. अने ज्ञानी पुरुष ऊपर महर धरी वेगलेथी पण घणां लुफंरु खमां करे ठे के जेम ज्ञानीओने हरकत पहोचे, एमठे तो पण आपणे तो गमे तेवो जीव संसार समुद्रथी तरे ते उद्यम करवो. कोइ उपर द्वेश धरवानी जरूर नथी. अने परमेश्वरनी आंज्ञानो महिमा वधारवा माटे लख्युं ठे. वली अन्यमती कहे ठे—“ आगे जीव विषय लालची तेहने जोग देखाळ्या रची ” एटले जे लोको विषयोने चाहे ठे तेज एवानी पासे शास्त्र कथाउं सांचले ठे. पण जिन आणा विनानुं जे कथन ते जव त्रमणनो हेतु जाणवो. जिनेश्वरनी आणामां वर्ततां सोहादिक शत्रुउंनुं जोर चाले नहि, जीन आणारुप मंदिरमां मिथ्यात्व अने रागादि चोरटाउं प्रवेश करी शकता नथी माटे जिन आणा मांहेज रहेवुं.

वली आज्ञा रहित चारित्र केवुं ठे ते कहे ठे.

गय जूत कविठ फलं, पयंग रंगुव्व तहया मिग्ग तन्हा ।

विणय विहुणं रुवं, संजारागुव्व विज्जुलयं ॥

अर्थ—हाथीनुं खाधेलुं कोतुं ते असार ठे तेम आज्ञा विनानुं चारित्र असार तथा पतंगना रंगनी पेरे आज्ञा रहित चारित्रने त्रष्ट थतां वार लागे नहि. वली मृगतृष्णाजलनी पेरे साचुं देखाय, पण तृष्णा न जागे तेम आज्ञा रहित चारित्रथी परमानंद अमृतनी तृषा न जागे. विनय विना रुपनी पेठे, एटले पुरुष घणो रुपवंत होय पण विनय विना शोचा न पामे वली चादरवा महिनामां वादलांनो तरेह तरेह वार रातो पीलो संध्यानो रंग थाय ठे ते क्षणिकमां नाश थइ जाय तेम आज्ञा रहित चारित्र नाश पामे ठे. जेम वीजलीनो ऊबकारो न रहे तेम आज्ञा रहितनुं चारित्र अस्थिर जाणवुं.

हवे आणा रहित धर्म केवो ठे ते कहे ठे.

नयण विहिणं सुमुहं, रसोश्चा लवण चाव वाहिरियां ।
निश् विणा किं रज्जं, पिम्मं विणा ए परबंधो ॥

नयनविना सारु मुख, लवण विनानी रसोश्, नीति विनानुं राज्य
अने प्रेम विनानो सवध जेम असार ठे तेम आज्ञा विनानुं अनुष्ठान
असार जाणवुं

लठि विणा ए सुकं, सोअारविवज्जिअं च वस्काणं ।

पुत्तं विणा ए वंसो, तह आण विवज्जियो धम्मो ॥

लक्ष्मी विना सुख न होय, एटले धन धान्यादि लक्ष्मी विना
संसारिक सुख न होय, तेम आणा रुप लक्ष्मी विना जीव धर्म करे
पण मोक्ष सुख न पामे आणा वर्जितने व्याख्यान न शोचे, एटले
व्याकरण, न्याय, काव्य कोपाटिक चतुरार्इ विना व्याख्यान न शोचे.
तेम आणा रुप चतुरार्इ विना धर्म न शोचे. पुत्रविना वंश न चाले
एटले पुत्रविना जेम वंश न चाले तेम जिन वचन-रुप पुत्रविना धर्म-
रुपी वंश न चाले तेमज पूर्वोक्त प्रकारे जिन आज्ञा वर्जितधर्म न होय.

हवे जिन आणा रहित धर्म कयों लेखे न आवे

ते दृष्टांत सहित दृढ करे ठे.

इकम्य सुण रहिजं, दस गुणीजं तहइ कोमि माहृप्यं ।

तव्वीरहे किं सन्ना, लहेइ सखाइ सह मिद्धं ॥

एकमाना अंकविना जेम हजारो मीनां पण संख्याने पामे नहि,
तेम जिन आणा रहित क्रिया वांछित फलने आपे नहि क्रियातो क्रि-
याना फलने आपे पण वांछित फलनी प्राप्ति जिन आज्ञा सहितनी
क्रियाथी वने.

इकं जिणेंद आणा, सुन्नोवमि आइ आण रहिआइं ।

वय दाण सील नाणं, न लहइ इकंपि तंवम्यं ॥

एकमाना अंक सरखी जिन वितरागनी आज्ञा अने शून्य मीनां सरीखां व्रत, दान, शिल, ज्ञान ते एक दमडी मात्र पण मूढ्य न पामे.

जो कोइ आणा रहिउं, पूआपमुहं करेइ तिक्कालं ।
तस्सवि सव्वमसुहं आणा वज्जं अणुठाणं ॥

जो कोई पुरुष आज्ञा, रहित त्रणे काल पूजा प्रमुख करे, तेहनं पण सर्व क्रिया अनुष्ठान, अशुद्ध जाणवुं. आज्ञा वाहिर अनुष्ठानपणाथकी.

जह कोइ मिस्सदिठी, उज्जं कालं करेइ सज्जायं ॥
नालियर दीव मणुआ, अन्ने राजन्न दोसत्तं ॥

जेम कोइक मिश्रद्रष्टिनी उज्जय काल सांज, सवार प्रतिक्रमणा दिक्कनी क्रिया, ते नालियेर द्दीपना मनुष्यनी पेठे निष्फळ जाणवी. नालियेर द्दीपना रहेवाशी मनुष्योने नालियेर घणां मलवाथी अनाज उपर राग अथवा द्वेष होतो नथी, तेमज मिश्रद्रष्टी जीवने जिने-श्वरनी आणा उपर राग अथवा द्वेष होतो नथी तौ आणा ग्रहण विनानी क्रिया ते निष्फळ जाणवी.

ते रुमरुव मणि तुद्धा, घंटा दावुव्वककच किं तणया ।
कुक्कर चम्म रसिलो, सायं न लहेइ गुसिणस्स ॥

ते मिश्रद्रष्टीवंत डमक डमक वाजती वादीगरो वगाडे ठे एवा रुमरुक तुढ्य जाणवा. उज्जय बंधितपणाथी एटले जेम रुमरुक मणी वे तरफ बांधेलुं होय तेम मिश्रद्रष्टीने विधि अविधि वे कर्म-बंध कर्ता थाय. वली घंटाना लोलनी पेरे एटले घंटानो लोल वे तरफ अथमाय तेम मिश्र धर्मवालो पण वे तरफ पाठो अथडाय अने चक्रधारा समान एटले जेम चक्र करवत धाराथी बेहु तरफ कपाय तेम मिश्र धर्म विधि अविधिथी बेहु तरफ कपाय. वली कुक्कर कहेतां

श्वाननी पेरे धर्म आस्वाद रसिक स्वाद सुख न पामे. एटले, जेम श्वान रसनो सुख स्वाद न पामे तेम विधि अविधि कयो अनुष्ठान धर्म रुप रसनो स्वाद न पामे.

गाथा.

आणा खंण कारी, जइवि तिकाळं महाविजूईए ।
पूएइ वीयरायं, सब्वंपि निरत्थयं तस्स ॥

श्री वीतरागनी आज्ञाने खंण करवावालो पुरुष जो मोटी संप दा वने करीने त्रणे काल वीतरागनी पूजा करे तो पण ते सर्व क्रिया जेनी पूजा करे ठे तेनी आज्ञा बाहिर होवाथी निरर्थक ठे.

गाथा.

रन्नो आणा जंगे, इक्कुच्चिय होइ निग्गहो लोए ।
सब्वन्नु आणजंगे, अणंतसो निग्गहो होई ॥

आ लोकने विपे राजानी आज्ञानो जंग करवाथी एकज वार दंड थाय ठे, परंतु सर्वज्ञनी आज्ञानो जंग करे ठे ते अनंती वार बहु जन्मोने विपे ठेदन, जेदन, जन्म, जरा, मरण, शोक अने मोहादि दंरुने पामे ठे

गाथा.

जह तुस खंण मयमं, मणाइ रुणणाइ सुन्न रन्नंमि ।
विह्लाई तह जाणसु, आणा रहियं अणुष्ठाणं ॥

जेम फोतरांनुं खांडवुं, मडदाने शणगारवुं, सुना वगनामां रोवुं निष्फल ठे, तेम जिन आज्ञा वगरनुं अनुष्ठान पण निष्फल जाणवुं

जह जोयण मविहिकयं, विणासए विहिकयं जियावेई ।
तह अविहि कजं धम्मो, देइ जवं विहिकजं सुख्खं ॥

जेम अविधिं करेलुं चोजन शरीरनो विनाश करे ठे ने विधिं करेलुं चोजन जीवाडे ठे, वळ, पुष्टि, आयुष्य, कांती वधारे ठे तेम अविधिं करेलो धर्म संसारने वधारे ठे अने विधिं करेलो धर्म मोक्षने आपे ठे.

विधि अविधिने यथार्थ जाणवा माटे पांच क्रियाउनुं वर्णन.

श्रीपालना रासमांथी चोथा खंडमां देशनानी ढालमांथी.

विष गरल अनुष्ठान ठे, तद्धेतु अमृत वलि होयरे ।

त्रिक तजवा दोय सेववा, ए पांच जेद पण जोयरे ॥ ए ॥ सं० ॥

विष किरिया ते जाणीए, जे अशनादिक उद्देशरे ।

विष ततखिण मारे यथा, तेम एहज चवफल लेशरे ॥ ते ० ॥ सं० ॥

परचवे इंद्रादिक रुद्धिनी, इहा करतां गरल आयरे ।

ते कालांतर फलदिये, मारे जिम ह्मकियो वायरे ॥ मारे ० ॥ सं० ॥

ढोक करे तिम जे करे, उठे वेसे संमूर्धिम प्रायरे ।

विधि विवेक जाणे नहि, ते अन्यानुष्ठान कहायरे ॥ ते ० ॥ सं० ॥

तद्धेतु ते शुद्ध रागधी, विधि शुद्ध अमृत ते होयरे ।

सकल विधान जे आचरे, ते दीसे विरला कोयरे ॥ ते ० ॥ सं० ॥

करण प्रीति आदर घणो, जिज्ञासा जाणनो संगरे ।

शुभ्र आगम निर्विघनता, ए शुद्ध क्रियानां लिंगरे ॥ ए ० ॥ सं० ॥

ज्व्यलिंग अनंतां धर्मां, करी किरिया फल नवि लक्षरे ।

शुद्ध क्रिया तो संपजे, पुद्गल आवर्तने अक्षरे ॥ पुद् ० ॥ सं० ॥

१ आचवनी पुद्गलिक सुखनी ढालचे एटले आहारादिक पामवाने अर्थे जे क्रिया करवी ते विष क्रिया ठे.

२ अने परचवना इंद्रादिक सुखनी ढालचे जे क्रिया करवी ते गरल ठे.

३ अपमान टालवाने अर्थे अथवा मान वधारवा लोकना देखा-देखी करवी ते अन्यानुष्ठान क्रिया जाणवी.

ए त्रणे क्रिया परमेश्वरे तजवानी कही ठे अने आत्मगुणने हितकारी थाय एवी तद्देतु तथा अमृत समान सर्वे कर्मरोगने तुरत नाश करवावाली अमृत क्रिया-ए वे क्रियांळ परमेश्वरे आदरवानी कही ठे, जोला लोको सम्यक् स्वरूपने जाण्याविना साध्य शून्य क्रिया करीने अमे सुखी थड्हुं एम जाणी जिनोक्त संसार तरवा रुप क्रियाने चुले ठे अने शुद्ध क्रिया आदरी शकता नथी वली इव्यलिंग अनंतां कर्या अने क्रिया पण करी पण समकीत विना ते क्रिया होवार्थी वांठीत फल पाम्यो नहि, कारणके शुद्ध क्रिया समकीत पाम्या वगर थायज नहि अने शुद्ध क्रिया वगर वांठीत फल पण मले नहि, माटे पहेलां तो सम्यक् रत्ननी प्राप्ति माटे सद्गुरुनां चरण कमळ सेववां अने सम्यक्त प्राप्त करी रागादिकनो नाश करी केवल ज्ञाननी प्राप्ति अर्थे जिनोक्त शुद्ध क्रिया अवश्य आदरवी

सबोध सत्तरिमांथी. पा २६ गा. ४०

आणाइ तवो आणा, इ संजमो तहय दाणमाणाए ।

आणा रहीं धम्मो, पलाल पुल्लूव पम्हिहाई ॥

आज्ञाएज तप, आज्ञाएज चारित्र, आज्ञाएज दान करवुं, केमके आज्ञा रहित जे धर्म ठे ते तृण समूहनी पेठे शोचतो नथी

माटे आणा रहित क्रिया जाव शून्य होवार्थी हितकारी नथी, पण अहितकारी ठे केमके एवी अशुद्ध क्रियामां रोकाइ रहेवार्थी शुद्ध क्रिया आचरी शकतो नथी तेथी ज्ञान, दर्शन अने चारित्र ए त्रण गुण निर्मल शी-रीते थाय ?

तेमज समकीत रहित क्रिया जाव शून्य होवार्थी निष्फल जाणवी.

गाथा.

सम्मत्त रयण ञ्छा, जाणंता बहु विहावि सञ्जाइ ।

शुद्धराहण रहीआ, ञ्मंति तत्तेव तत्तेव ॥

सम्यक्त रत्न ञ्छष्ट बहु प्रकारना शास्त्रने जाणतो होय तो पण शुद्ध तत्व श्रद्धान विना शुद्ध आराधना रहित माटे वारंवार संसार ञ्मण करे.

गाथा.

जे दंसणेण ञ्छा, नाणे ञ्छा चरित्त ञ्छा जे ।

ए ए ञ्छ विञ्छा, सेसंपि जणं विणासंति ॥

जे सम्यक्ते ञ्छष्ट होय ते ज्ञान, चारित्रे पण ञ्छष्ट होय अने शुद्ध नये तो ज्ञान, दर्शन चारित्र ए ञ्छष्टेमांथी एक गुणे पण ञ्छष्ट होय ते ञ्छष्टे गुणे ञ्छष्ट जाणवो.

गाथा.

जह मूलंमि विण्णठे, डुमस्स परिवार नञ्ही परिवुह्ठी ।

तह जिण दंसण ञ्छा, मूल विण्णठा ए सिद्धंति ॥

जेम मूल विण्णस्या थकी वृद्धनी शाखा प्रतिशाखा आदिनी वृद्धि न होय तेम जिन दर्शन (समकीत) मूल विना चारित्र रूपी वृद्ध मोक्ष फल आपे नहि.

गाथा.

जे विण नाण प्रमाण न होये, चारित्र तरु नवि फलियो ।

सुख निर्वाण न जे विण लहीए, समकित दर्शन बल्लिउरे। ञ्छ ० सि ०

गाथा.

तत्रादौ सम्यक्त्वं, समुपाश्रयणीयमखिल यत्नेन ।

तस्मिन् सत्येव यतो, ञ्भवति ज्ञानं चरित्रं च ॥

सम्यक्त्व विना अग्नीधार अंगनुं ज्ञान पण अज्ञान कहेवाय ठे. तथा महाव्रतादिक पण संजम न जाणवुं. परंतु सम्यक्तं सहित थोमुं जाणवुं पण ज्ञान अने थोको पण त्याग ते चारित्रि जाणवु.

वली समकीतविना-गाथा.

दाणं वसणं लिधं, सीलं रंकुव्वपालणं अहलं ।

जरदाहुव्व तवाइ, जाणं डुक्के नीयाणं च ॥

समकीत विना दान ते व्यसन रुप जाणवुं अने शीयल रांक, जीखारीनी पेरे. अने तपादिक ज्वरदाह पेरे जाणवा. वली जे ध्यान ते डु.खनो निदान कष्ट रुप जाणवुं.

गाथा.

कुग्गह गह गहिआणं, सुतीठ जत्ताय चित्त जमणुव्व ।

जमणुव्व जावणाउं, दंसण जठेण जाणेण ॥

कुमत, कदाग्रह रुप ग्रहे ग्रहित एटले गठ ममत्व कदाग्रहमां फसेला प्राणिउंनी तीर्थयात्रा ते चित्त जमण रुप जाणवी अने तेउंनी जावना ते जव जमणरुप जाणवी. तेमज दर्शन ज्रष्टने पण जाणवी.

साध्य सापेक्षता विना जे क्रिया ते क्लेश मात्र जाणवी. जेम अनेक प्रजाय सहित घट ड्रव्य ठे अने ते माटी ड्रव्यनो थाय ठे अने जुवन व्ययरुप प्रजाय पलटावी पूरण पदे घट निष्पन्न करवो, एवं ज्ञान जेने नथी अने दंरु चक्रादिनी प्रवृत्ति कर्या करे तेथी अनेंत काले पण घट थवानो नथी, तेम आत्मसिद्धिना अनेंत प्रजायनु ज्ञान नथी अने आत्मसिद्धि कया उपादान वने थाय ठे ते जाण्या विना शरीर अने घास उपकरणोथी क्रिया प्रवृत्ति करे ठे एवी प्रवृत्ति अनेंत काल मुधी करतां पण आत्मसिद्धि न थाय माटे साध्य सापेक्ष क्रिया सिद्धि थापे एम जाणवु. साध्य सापेक्ष ते समकीत सहित अने जिन थाणा सहित ठे. जिन थाणा सहित तेज

समकीत सहित अने साध्य सापेक्ष सहित ठे. समकीत सहित तेज साध्य सापेक्ष अने जिन आणा सहित ठे.

दर्शन ते धर्मनुं मूल ठे अने जे परमेश्वरनी आणा अंगिकार करे ठे ते दर्शनवंत गुरु वंदनीक जाणवा. अने परमेश्वरनी आणाने जे आदरता-गणकारता नथी, स्वइच्छाए स्वतंदपणे चाले ठे, मार्ग चलावे ठे ते वंदवा लायक अथवा संग परिचय करवा लायक नथी. तेनी साथे आलाप संलाप करतां पण पाप लागे, माटे आणा रहित नाव शून्य क्रिया करवावाला तथा कराववावाला, समकीत रहित, साध्य निरपेक्ष धामधूम चलावनार एवा अगीतार्थ, मार्गने लोपनार, उन्मार्गनी देशना देनार, मत कदाग्रह धारी, गीतार्थना द्वेषीथी दूर रहेवुं. तेउ साथे आलाप संलाप अने संग परिचय करतां पाप लागे, तो वांदवुं नमवुं अने आहारादिकनुं देवुं ते तो केम कराय ?

दंसण मूलो धम्मो, उवइठो जिणवरोहि सीसाणं ।

तं सोउण सकन्ने, दंसण हीणो न वंदिव्वो ॥

(आगम अष्टोत्तरीमांथी)

जिनेश्वर देवे धर्मनुं मूल सम्यक्त्व कह्युं ठे; एवुं पोताना काने सांजलीने दर्शन रहितने वंदवुं नहीं. कारणके दर्शन हीणनुं सन्मान करतां दर्शन गुणनो नाश थाय.

पासत्थो उंसन्नो, होइ कुसीलो तहेव संसत्तो ।

अहणंदोविय ए ए, अवंदणिज्जा जिणमयंमि ॥

पासत्थो, उंसन्नो, संसत्तो, अहाणंदो, कुशीलीउं, एउं जिनमतने विषे अवंदणिक ठे. कारणके ए रांगद्वेषने वधारनारा एटले समजावने विरुद्ध तेथीज अवंदणीक कहा माटे एवाउंनो संग तजी समजावने जजवो.

पासत्याइ वंदमाण,—स्स नेव कित्ती न निज्जरा होई ।
जायइ कायकिलेसो, वंधो कम्मस्स आणाई ॥ (संबोध)
पूर्वे जेनां नाम वत्ताव्यां ठे एवा पासत्यादिकने वंदन करनार
जनोनी कीर्ति थती नथी, तेम निर्जरा पण थती नथी, परंतु काय-
क्केश थाय ठे वंदन करवाना प्रयासथी आठे प्रकारना कर्मनो
बंध थाय ठे अने जिनाज्ञानो जंग थाय ठे.

एवा पासत्यादिकनुं दर्शन पण वर्जनिय ठे.

कुसीलोसन्नपासथ्ये, सबदे सबदे तहा ।

दिठ्ठीएविइमे पंच, गोयमा न निरक्कए ॥ (महानिषीथ)

श्री वीरस्वामी कहे ठे हे गौतम! पासत्यादि पंच कुसाधुंने नजरे
पण जोइश नहि.

जह लोहसिला अप्पं,—पि वोळए तह विलग्ग पुरिसंपि ।

इय सारंजो य गुरू, परमप्पाणं च वोलेई ॥ (संबोधसत्तरि)

जेम लोह शिला पोते वूडे ठे अने तेने वळगेला पुरुपोने पण
वूफाके ठे, तेमज सारंजी परिग्रही साधुं पोते वूडे ठे अने तेना
ऊपासकने पण जवसमुद्धमां वूडाके ठे.

पंचेएसु महापावे, जो न वज्जिज्ज गोयमा ।

संलावादीहिंकुसीलादी, जमेहिसो सुमती जहा (महानिषीथ)

हे गौतम! पासत्यादि पंच महापापीं साथे आलाप संलाप तथा
निवास करनार सुमतिनी पेठे जवन्नमण करशे.

किइकम्मं च पसंसा, सुहसीदजणंमि कम्मबंधाय ।

जे जे पमायठाणा, ते ते उववूहिया हुंति ॥

एवं णाऊण संसग्गि, दंसणालाव संथव ।

संवासं च हियाकंखी, सब्बोवाएहिं वज्जए ॥संबोधसत्तरि॥

सुखशीलीया त्रष्टाचारी गुरुर्जनी कृतिकर्म—द्वादशावर्त्त वंदन अने प्रशंसा, पूजा करवाथी कर्मबंध थाय ठे; वली प्रमादनी वृद्धि थाय ठे माटे पासत्थादि कुगुरुओनो संसर्ग, दर्शन, तेमनीसाथे आलाप संलाप, तेमनी स्तुति, तेमनो सहवास, हितवांचक मुमुक्षु पुरुषे कदापि करवो नहि.

अंबस्स य निंबस्स य, दुएहंपि समागयाइ मूलाइ ।

संसर्गोण विण्णो, अंबो निंबत्तणं पत्तो ॥ संबोधसत्तरि ॥

आंबानां अने लींबडानां ए बंन्नेनां मूल एकठां थयां तेमां लींबमाना संसर्गथी आंबो विनष्ट थयो अने लींबमापणाने पाम्यो, तेमज कुगुरु अज्ञानीनी सेवा तथा सहवासथी अज्ञाननी प्राप्ति थाय.

अगीयत्थ कुसीलोहिं, संगं तिविहेण वोसिरे ।

मुख्वमग्गंसिमे विग्घं, पहंमि तेणगे जहा ॥संबोधसत्तरि॥

अगीतार्थ, कुशीलीआनो संग त्रिविधे (मन वचन कायाए) करी त्यजी देवो केमके पंथमां चोरनी पेठे तेठ मोक्षमार्गमां विघ्न करनारा ठे.

वरं वाही वरं मच्चू, वरं दारिद्द संगमो ।

वरं अरस्स वासो अ, मा कुमित्ताण संगमो ॥ (संबोध)

व्याधि, मृत्यु अने दारिद्रनो संगम तेमज अरण्यमां वास ए सघलुं श्रेष्ठ ठे परंतु कुमित्रनो संगम श्रेष्ठ नहि.

पक्कणकुले वसंतो, सजणीपारोवि गरहिउं होई ।

इय दंसणा सुविहिआ, मज्झि वसंता कुसीलाणं ॥संबोध॥

चंडालना कुलने विषे वसतो एवो शकुन पारख (ज्योतिषी) पण निंदनीक थाय ठे; तेमज सुविहित एवा मुनी पण कुशीलीआमां वसता थका निंदनीक थाय ठे.

उम्मग्ग देसणाए, चरणं नासंति जिणवरिंदाणं ।

वावन्नदंसणा खलु, न हु लप्प्जा तारिसं दहं ॥ संवोध ॥

जन्मार्गनी देशना देवाथी श्री जिनेश्वरं जगवंतनुं कहेलुं चारित्र
नाश पामे ठे माटे निश्चे नाश पाम्युं ठे सम्यक्त जेनुं एवा तेउनुं देखवुं
पण न थारुं.

परिवार पूअहेऊ, उसन्नाणं च आणुवित्तीए ।

चरणकरणनिगूढई, तं डुलहं वोद्विअं जाणं ॥ संवोध ॥

परिवारनी पूजाना हेतुए उसन्नानी अनुवृत्तिए चाळे अने चरण
शित्तरी करण शित्तरीने गोपवे तेने समकित डुल्लेज जाणवुं.

नवि तं करेसि अग्गी, नेव विसं नेव किन्ह सप्पो अ ।

जं कुणइ महादोसं, तिक्वं जीवस्स मिठत्तं ॥ ॥ संवोध ॥

तीव्र मिथ्यात्व जीवनी साथे जेटलो महान् द्वेष करे ठे तेटलो
द्वेष नथी करतो अग्नि, नथी करतुं विष, अने नथी करतो कालो सर्प.
माटे एवा मिथ्यात्वी, जिन आज्ञा रहित, साध्यनी अपेक्षा नहि राख-
नार, चाव शून्य क्रियाकरनार, कुसाधुउंनां टोळां ते संघ नथी.

मूल गुणेहि विमुक्कं, बहुगुणकलियंपि लद्धिसंपन्नं ।

उत्तमकुलेवि जायं, निशमिज्जइ तयं गठं ॥ संवोध ॥

कोईपण मुनि बीजा बहु गुणे अलकृत होय, लद्धि संपन्न होय
अने उत्तम कुलमां उत्पन्न थएला होय, तो पण मूल गुणे करीने
विमुक्त होय तो तेने काढी मूके ठे एवो गठ तेज गठ ठे

जत्थ य अज्जा लद्धं, पग्गिग्गहमाइय विविह सुवगराणं ।

पग्गिज्जइ साहूहिं, तं गोयम केरिसं गठं ॥ संवोधसत्तरि ॥

जे गठमां साधवीए लावेलों बखं पात्रादि उपकरणो साधुउं जोगवे
ठे हे गौतम ! ते केवो गठ ? अर्थात् कांई नहि एवो जाणवो.

गाथा.

जहिं नत्थिसारणा वा, -रणा य पडिचोयणा य गठंमि ।

सो अ अगढो गढो, संजमकामीहि मुत्तव्वो ॥

जे गढमां सारणा, वारणा, चोयणा, पडिचोयणा, थती नथी ते गढ अगढ तुद्व्य ठे तेथी संयमना वांढक मुनिउए ते गढने तजी देवो.

गाथा.

सुहसीलाउं सत्तं-दचारिणो वेरिणो सिवपहस्स ।

आणाअछाउं बहु-जणाउं मा अणह संघुत्ति ॥

(गौतम स्वामी प्रत्ये श्रीवीर जगवंत कहे ठे.)

सुखशीलिया अर्थात् सुखने विषे स्थापन कर्यो ठे आत्मा जेणे एवा अने स्वठंदचारी अर्थात् स्वेठा मुजव वर्त्तवा वाला तथा शिवमार्ग जे मोक्ष मार्ग तेना वैरी, तेमज जिनाज्ञाथकी अष्ट एवा घणा लोको होय तो पण तेने संघ एम न कहीश.

गाथा.

एगो साहु एगा, य साहुणी सावउंवि सट्ठी वा ।

आणाजुत्तो संघो, सेसो पुण अठ्ठीसंघाउं ॥

एक साधु, एक साधवी, एक श्रावक, एक श्राविका (आ चार जेदे करीने संघ कहेवाय ठे) तेमां जे जिनआज्ञाए करीने युक्त होय तेने संघ कहेवो. बाकीनाने हारुकांनो समूह कहेवो.

गाथा.

निम्मलनाणपहाणो, दंसणजुत्तो चरित्तगुणवंतो ।

तित्थयराण य पुज्जो, वुच्चइ एयारिसो संघो ॥

निर्मल ज्ञाननी ठे प्रधानता जेने विषे अर्थात् निर्मल ज्ञानवान, दर्शन जे सम्यक्त्व तेणे करीने युक्त अने चारित्रना गुणे करीने अलं-

कृत एवो जे संघ ठे ते तीर्थकर जगवंतने पण पूज्य ठे तेथी एवा गुणवानने संघ कहीए.

गाथा.

गढं तु उवेदंतो, कुव्वइ दीदंजवे विहीएउ ।

पालंतो पुण सिज्जइ, तइअ जवे जगवई सिधं ॥

गढनी ऊपेक्षा करे तो दीर्घ-लांवा जव करे अने विधिपूर्वक पालन करे तो त्रीजे जव सिद्धि पद पामे ए प्रमाणे श्री जगवती सूत्रमां सिद्ध पणे कहुं ठे.

गाथा.

आणाजुत्तं संघं, दडुं जो मन्नएण मउरिउ ।

सो संजम पन्विन्नो, मिच्छादिठि मुण्येयव्वो ॥

आणा युक्त संघने देखीने जे प्राणी मउर अजिमान थकी माने नहि तेने संजम प्रतिपन्न-एटले संजमनी क्रिया करतां ठतां पण मिथ्यादृष्टी जाणवो जे प्राणी सिद्धांत पंचांगी प्रमाणे आणा युक्त समाचारी आदरवा वाला तेउने गढ कदाग्रह ममत्ववालो कहेके एतो पूर्वे हतो, हमणां तो गढ ममत्व परंपराए चाले ते संघ ठे एवुं कहीने लोकोने जमावे अने आज्ञा युक्त संघने न माने वली तेना ऊपर मउर, अजिमान, केश धरे ते बाह्य संजम व्यवहार आदरता ठतां पण मिथ्यादृष्टी जाणवा. समाचारी-एटले समाचारीनो परम रहस्यार्थ ए ठे के समजावनुं विविध युक्तिए करिने आववुं थाय, ते मुख्य मतलब नहि जाणतां पोते काली धारे रूवे ठे, बीजा जोला जीवोने पण रूवावे ठे, माटे हे चेतना! जत्सूत्र घोलावुं मन वचन काया अने स्वप्ने पण तने न घटे तेमज बीजा पासे जत्सूत्र घोलावुं बोलाताने. जलो जाणवो ए पण मिथ्यात्वनुं लक्षण ठे.

गाथा.

अमराण वंदियाणं, रुवं ददुण जेसि मणतावो ।

सो संतावो तेसिं, ञवे ञवे होजाणंत गुणो ॥

देवने पण वांदवा योग्य एवा साधु मुनीराजने जोशने जेना मनमां संताप थाय ते संतापथी ञवो ञवे अनंत गुण संतापने पामे. केमके जेणे जिनेश्वरनी आणा सन्मान करनार उपर मञ्जर धर्यो तेणे जिन आजा उपर मञ्जर धर्यो एम जाणवुं.

सवैया इकतीसा.

कुंजरको देखि जैसे रोष करी ञुंसे श्वान,

रोष करै निधन विलोकि धनवंतको ।

रेनके जगैयाको विलोकि चोर रोष करै,

मिथ्यामति रोष करै सुनत सिद्धांतको ॥

हंसको विलोकि जैसे कागमनि रोष करे,

अभिमानि रोष करै देखत महंतको ।

सुकविको देखि ज्यों कुकवि मन रोष करै;

त्यौंही इर्जन रोष करे देखी संतको ॥

एनो अर्थ व्यवहारमां खुद्वो ठे पण नीचे प्रमाणे जावथी अर्थ विचारी लेवो. जेम संजम गुणे गज समान एवा मुनिराजने देखी कूतरा एटले सूत्रथी उलटुं बकनारा कूतरानी पेठे ञसनार समजवा. ज्ञानादिक धने धनवान साधु श्रावक सम्यक्तवंतने देखीने ज्ञान, दर्शनादिक धने रहित एवा मिथ्यादृष्टीउं रोष करे ठे. अमथाज पोते बले ठे. आत्म सत्तामांहे सचेत रहेता देखीने परधन हरवा-वाला एटले ज्ञान दर्शनादि आत्म धनने लुंटावावाला चोर पोतानो अर्थ नहि थवाथी रोष करे ठे. धन, कुटुंब, शरीर विगेरेमां ममत्व

करावनारो, पोताना कल्पित हठ कदाग्रहने नहि ठोरुनारो, जिने-
 श्वरना सिद्धांत सांजलीने रोप करे ठे. के जे कोइ जीवपरिणाम
 पुद्गलपरिणामनुं जेद ज्ञाने वेहेंचण करी हस पेठे स्वगुण प्रजाय
 रुप मुक्ताफल चुगनार, आणंद लेनार एवा जिन आणा युक्त स्वपर
 विवेकी पुरुषने देखी मृतक पदार्थ मांस, विष्टामां मग्न रहेनारो,
 जगत् जीवनी एंठ चाखनारो कागमो रोप करे ठे अजिमाती एटले
 साध्य शून्य, वचन निरपेक्ष, क्रियाना अजिमाती, आडंबरि, समता
 गुणे उदासीन गुणे जरेला महंतने देखीने रोप करे ठे सुकवि एटले
 आत्माना ज्ञानादि गुणो, मिथ्यात, अत्रत, राग, प्रमादादिके द्वा-
 एला, हृणाएला, जेथी प्रगट थाय एवां वचनो तरेहवार ठंदोथी
 स्वसमयने वर्णवे ठे एवा, जवी जीवोने धर्म हेतु करनारा एवा
 शासनना प्रजावक सुकवि उपर, कुकवि के जेना वचनमां असत्य
 वखाण ठे जेवा के स्त्रीना स्तन जे मांसना गोला तेने कचनना कलश
 कहेवा, सलेखमादि रहेवानुं स्थान जे महोदु तेने चंद्रमा सरग्वु
 कहेवुं, हारुकाना दांतने दान्मनी कली जेवा कहेवा, दुर्गंधी श्रवता
 एवा उंष्टने परवालां सरखा कहेवा, अनंत वेठना उपजावनार काम
 रोग तेने जोग कहेवा, बहु भ्रमण करावनार चक्रवर्ति आदिनां इन्द्रिय-
 जन्य रोगोने जोग कहेवा, इत्यादि विपरितता जीवो जेथी पामे
 एवा शृंगारादि रसना अथ बांधनारा कुकवि ते उपरप्रमाणेना
 सुकविने जोइने रोप करे ठे. विकथा ते विनाकारणे आत्माने जव
 भ्रमण करावनारी ठे, एम जाणी हे चेतना। तारे स्वप्नमां पण विक-
 थामा पडवुं नही.

दोहा.

विन आतम जे जे कथा, निष्फल जाणो तेह ।
 आत्म कथा अनुभव सहीत, आपे शिवपुर गेह ॥

आत्म सिवाय अथवा आत्म आराधना सिवाय जे जे कथा ते सघली विकथा जाणवी. ते द्रव्यथी चार प्रकारे (१) राज्यकथा ते अमुक राजा चक्रवर्तिनी पेठे तथा इंद्रनी पेठे सुख जोगवे ठे इत्यादि. (२) देश कथा ते अमुक देशमां तरेह तरेह वारना मेवा, मिष्टान, खानपान, गणिकाउं, मणि, माणिक आदि पुष्प सुगंधी, अत्तर, दुध, मांस, मसालादिकनां सत्व, तरेह तरेहवारनां मध उषधो विगेरे बहु सस्तां अने जोइए तेवां मली शके ठे. वली लोकोनी हवेलीउं इंद्रनी इंद्रापुरी जेवी शोची रहेली ठे. घोमा हाथी विगेरे इत्यादि.

(३) स्त्री कथा—हस्तनि, चित्रनी, शंखनी, पद्मनीनां रूप, काम-बल, कामकला, चतुराइ साध्यअसाध्यनी वार्ताओ.

(४) जोजन कथा—शिखंड, मोसुव, मांस, दारु आदि वखाणे के अमुक जनावरना मांसमां एवो स्वाद होय ठे के एकवार चाखेतो ते स्वाद कदीए चुले नहि. वली गुण एवो होय ठे के घणुं वीर्य तथा लोहीने वधारे ठे पण आपणे शा कामनुं? तेमज अमुक रसोइमां यथायोग्य मशालो पन्वथी एवो स्वाद थाय ठे के अमृत तेना आगळ शो माल ठे? एम जहू तथा अजहू वस्तुजना स्वाद अने गुण वर्णन करवा सुगंधादिकनुं वखाणवुं अथवा निंदवुं ते जोजन कथा जाणवी.

ए चारे विकथाओ विनामतलवे जवत्रमाण करावनारी ठे माटे सम्यकद्रष्टी जीवोए ए थकी दूर रहेवुं.

जे बंजचेरज्जठा, पाए पामंति बंजयारीणं ।

ते हुंति टुंठमुंटा, बोहिवि सुड्धहा तेसिं ॥ ॥ संबोध ॥

जे ब्रह्मचर्य (शुद्धात्मजाव) ज्रष्ट पुरुष ब्रह्मचर्यधारी पुरुषने पोताना पगे लगामे ठे ते लूला पांगला थाय ठे अने सम्यक्त्व पामवुं पण तेने अत्यंत दुर्लभ थाय ठे.

कठं करेसि अप्पं, दमेसि अत्थं चयंसि धम्मत्थं ।

इक्क न चयंसि मिठ्त विसल्लवं जेण वुद्धिहसि ॥ संबोध ॥

कष्ट करे ठे, आत्माने दमे ठे अने धर्मेने अर्थे अव्यने तजे ठे पण जो विपलव तुल्य मिथ्यात्वने तजतो नथी तो ते सर्व निरर्थक ठे कारणके मिथ्यात्वे करीने संसार समुद्रने विषे वूने ठे.

मेरुस्स सरिसवस्स य, जित्थियमित्तं तु अंतरं होई ।

दव्वत्थय जावत्थय, अंतरमिह तित्थियं नेयं ॥ संबोध ॥

मेरु पर्वतमां अने सरशवमां जेटलुं अंतर ठे तेटलुं अंतर अहि अव्यस्तव अने जावस्तवमां जाणवु

श्लोक-तात्त्विकः पद्मपातश्च, जावगून्या चयाक्रिया ।

अनयोरंतरं ज्ञेयं, जानु खद्योत योरिव ॥ योगदृष्टि ॥

तत्व ज्ञाननो पद्म अने आत्म जाव गून्य क्रिया, ए वेमां सूरज अने खजुआ जेटलुं आंतरं जाणवुं, एटले ज्ञान ते सूरज समान अने क्रिया ते खजुआ समान जाणवी

उक्कोसं दव्वत्थयं, आराहिय जाइ अच्चुयं जाव ।

जावत्थएण पावइ, अंतमुहुत्तेण निव्वाणं ॥ संबोध ॥

अव्य स्तवनो उक्कट्टो आराधक अच्युत नामना धारमा देवलोक सुधी जाय पण सम्यक्त्व विना संसार त्रमण कायम रखुं, अने जावस्तवे करीने अंतर्मुहूर्त्तमां निर्वाण पद पामे.

मंमुक्कचुन्नकप्पो, किइया जाणित्तं कउं किलेसाणं ।

तद्धुर चुन्नकप्पो, नाण कउं त च आणाए ॥ अव्यगुण ॥

क्रिया क्लेशथी जे कर्म ह्य थाय ते देडकाना चुरण समान जाणवुं एटले एक देरुकाथी थयेलुं चुरण फरीथी पृथ्वी पाणी योगे अनेक नवां देरुका थवानुं कारण ठे, तेम क्रिया कष्टथी चांघेलुं जे

पुण्य ते उदय आव्याथी मद मान विषयादि सेवी बहु पापनुं
कारण थाय ठे.

जंजीयम सोद्दिकरं, पासठ पमत्त संजयाड्णं ।

बहु एहिवि आयरियं, न तेण जीएण ववहारो ॥ आगम ॥

अर्थ—आत्म शुद्धि रहित पासस्थादिक घणा साधुओए आचरेदो
व्यवहार ते जीत व्यवहार नथी.

जं जीयं सोद्दीकरं, संविग्ग परायणेण दंतेणं ।

इक्केणविय आयरियं, तेणड् जीएण ववहारो ॥ आगम ॥

अर्थ—मोहादिक कर्म शत्रुने जीती अनंत चतुष्टय प्रगटतानुं कारण
एक पण संविग्ग गीतार्थे आचर्यो होय ते जीत व्यवहार जाणवो.

धन्नाणं विहिजोगो, विहिपस्काराहगा सया धन्ना ।

विहिवहुमाणा धन्ना, विहिपस्क अदूसगा धन्ना ॥ संबोध ॥

विधिनो योग धन्य पुरुषोने थाय ठे. विधि पद्धना आराधन कर-
नारने सदा धन्य ठे. विधिनुं बहु सन्मान करनारने धन्य ठे अने
विधि पद्धने दूषण आपे नहि तेने पण धन्य ठे. माटे अविधिए
करेलुं अनुष्ठान सर्वे कष्ट मात्र ठे (निष्फल ठे).

जं अन्नाणी कम्मं, खवेइ बहुआइं वासकोमीहिं ।

तन्नाणी तिहिं गुत्तो, खवेइ उस्सासमित्तेणं ॥ संबोध ॥

बहु क्रोडो वरसोए करी अज्ञानी जेटलां कर्मोने क्षपावे तेटलां
कर्म ज्ञानी त्रण गुप्तियुक्त वर्ततां एक श्वासोश्वासमां खपावे.

श्लोक—आगमं आयरंतेणं, अत्तणोदिय कंखिणा ।

तित्थनादो गुरु धम्मो, सव्वे ते बहु मन्निया ॥ आगम ॥

अर्थ—आगमने अर्थात् आगमोक्त रहस्यने आचरता बत्ता आ-
त्माना हित श्चक पुरुषने तीर्थनाथ, अरिहंत जगवंत, सद्गुरु अने

केवली प्ररुपित धर्म, ए सर्व बहु माननीय सत्यपणे अंगिकार करवा योग्य थाय ठे.

एवा बहु माननीय सुसाधुंनी जे निंदा करे ठे ते निचे लखेला फलने पामे ठे.

डुछा सुसाहु निंदा, इह परलोए विडुछ दारिद्रा ।

पइ जम्मं विध्वकरि, सुपस्का वायेण दृठव्वा ॥ आगम ॥

अर्थ—जे डुष्ट सुसाधुनी निंदा करे ते आलोकने विषे अने परलोकने विषे दरिद्रपणुं पामे. वली ते साधुनी निंदा जन्मोजन्म विघ्नकारी थाय अने अनेक विघ्नीनी करवावाली थाय, सुपद्दनो अज्ञाव माटे जावार्थ के जे प्राणी सुसाधुंनी निंदा करे के ए वारे कुलनी गोचरी करे ठे. वली मखिन गात्रे रहे ठे. सफेत कपसां पहेरे ठे पण रंगता नथी. लोक परंपरानी वात मानता नथी ने सिद्धांत परंपरा ग्रहण करे ठे देव देवीनी स्तुति करता नथी इत्यादिक निंदासां प्रवर्त्ते ते प्राणी आलोक परलोकसां दरिद्र थाय अने जन्मो-जन्म दान लाज जोग उपजोग अने विरजना विघ्नने पामे अने जलो पद्द तो मलेज नहीं.

डुछतणेण पिसुणतणेण, डुवियट्ट कोह बहुलेण ।

हारंति वोहिलात्तं, कीम परंगाय जायंति ॥ आगम ॥

अर्थ—डुष्ट जावे करीने, पिसुनपणे चुगली करवे करीने, डुवि-दग्धपणे करीने, क्रोधना बोहोलपणे करीने, सम्यक्त्वना लाज प्रत्ये हारे, अने मरीने कीमा पतंगना अवतारने पामे. जावार्थ थाइया युक्त साधुं उपर डुष्ट जाव चितवे ने तेउनी चुगलि करे ने तेउ उपर क्रोध करे ते प्राणी कीमा पतंगीआनी गति प्रत्ये पामे.

जे पर पुठे साधुनी निंदा करे तेनां फल कहे ठे.

पिट्ठिमसे रसिञ्चा, जल सप्पिणी पमुह रुहिर सोसाय ।
वालय मिजळा किमिञ्चा, जायंतिञ्च डुञ्चि गंधीद्धा ॥

अर्थ—पुष्ट मांस रसिक एटले पुठे दोपना बोलवावाला ते जल सर्पणी प्रमुख रुधिर सोसवावाली जलो अने वाला ने विष्टाना किमीञ्चा दुर्गंध शरीर साथे जन्मे.

हवे साधु असाधु कोइनी पण निंदा न करवी अने करे ते एवा दुःख प्रत्ये पामे ते कहे ठे.

टूटा मुंगा अंधा, दारिद्रा घोर डुक बाहुद्धा ।

सूत्ता जिन्न सरिरा, साहु असाहुण निंदाए ॥ आगम ॥

अर्थ—ठता अठता दोषना नाम लइने राग छेप करे तेने निंदा कहीए, पण शिंदा बुद्धिए कहीए ते निंदा न कहीए. अने राग छेप बुद्धिए निंदा करे ते टूटा मुंगा आंधळा शूल जिन्न शरीर इत्यादिक पूर्वोक्त अवतार पामे.

हवे जे परने वंचे अथवा पराया अपवाद बोले ते उपर कहे ठे.

पर वंचणेण रत्ता, परापवाएण अप्प संसणय ।

ताणं कत्तो बोहि, परमप्पाणया च बोलेइ ॥ आगम ॥

अर्थ—चोला जीवोने जूठो धर्म बतावीने ठगे. अने धर्मवंतना अपवाद बोले, पोतानी प्रशंसा करे ते प्राणीउंना पिंडमां सम्यक्त्व तो क्यांथीज होय? पण पोताना अने परना आत्माने संसारमां सुवाववा वाला जाणवा केमके जिन आणाथी अजाण ठे.

हवे कोइना पण अवरणवाद न बोलवा पण पांचना अपवाद अवश्य वर्जवा ते कहे ठे.

ठाणंग अंगे जणियं, पंच एह मव्वणवाय बहुलेण ।

डुद्धह बोहिय जावं, लहंति जिवाय णिच्चंपि ॥ आगम ॥

अर्थ—श्री गणगने विषे कह्युं ठे के पांचना अवर्णवाद बोलवा बालाने बोध पामवो दुर्लज थाय. निश्चे करीने पांच एटले १ अरिहंत २ केवल प्ररुप्यो धर्म, ३ सूत्र सिद्धांत, ४ चतुर्विध संघ, ५ ब्रह्मचर्य पालीने देव थया ते. ए पांचना अवर्णवाद बोलनारने सम्यक्त्व पामवुं दुर्लज ठे

ए पांचना गुणानुवाद बोलतो जीव सुलजबोधी थाय ते कहे ठे.

एसिं सुवन्नवाए, जीवा पावंति सुलह वोहितं ।

जह मग दाहिव कएइ, एहिं लभं खु सम्मत्तं ॥ आगम ॥

अर्थ—पूर्वोक्त पांचेना सुवर्णवाद बोलवे करीने जीव सुलज बोधने पामे. जेम श्रेणीक राजा तथा श्रीकृष्णवासुदेव दायक समकीत वीगेरे पाम्या श्रीमहावीर स्वामी तथा नेमनाथ स्वामीना गुणानुवाद वंदन पुजन करीने सम्यक्तने पाम्या तिर्थकर गोत्र वांध्युं पण आगम मायरणाणं, सच्चुवएसे कहा सुरसिआणं ।

जे गारवं करते, सम्मत्त विवज्जिआहुंति ॥ आगम ॥

आगम प्रमाणे आचरण करता प्रत्ये, बली सत्य उपदेशना रसिकजनो प्रत्ये जे गर्व करे ठे, ते समकीत रहीत होय.

नइ देहं वंदिज्जाइ, न जाइ कुल रुववण रुवंच ।

गुण हीणं को वंदे, समणं वा सावयं वावि ॥ आगम ॥

शरीर कांइ वंदवा लायक नथी कारणके प्राणी मात्रने देह शरीर ठे, जाती वंदवा लायक नथी कारणके राजाने पण जाती ठे अने सर्वने जाती होय ठे, कुल पण वदवा लायक नथी केमके पिता पद्द सर्वने ठे, रुप पण वंदवा लायक नथी कारण के सर्वे जीवोमां पुन्यप्रकृतिए रुप लाधे ठे, पण देहादिके सहित, आत्मगुणे हीनने कोण मूर्ख वंदे? नाम साधु नाम श्रावकने जाती तो ठे अने कुल पण ठे, देह पण ठे,

तथा रूप पण ठे, पण आत्मगुण हीन देह, जाती, कुल, रूप, ऊत्तम पण होय एटले पुन्य प्रकृतिवाळुं होय पण आत्मगुणे रहित ते वंदवा लायक नथी. पण आत्मगुणे सहित तेज वांदवा लायक ठे. साधु, श्रावक, समकृती, अेवां नाम देहनां नथी पण आत्मगुणनां ठे. देहादिक ऊपर साधु श्रावकनी कटपना करवी ते जूठी ठे. गुणाधिकने वांदवा एवुं आगम मांहे कहुं ठे तेथी जे न्युन गुणवालो होय ते अधिक गुण वालाने वंदे.

चंदण पवक पणुद्धिय, परिमल रसिआ वरेवि चंदणया
चंपक कुसुम सुगंधिया, तिद्धाळ होइ चंपिद्धो ॥ आगम ॥

चंदन वृक्षना पवने करी प्रेर्या परिमल रसिक ते वने वीजा लींवा-
दिक चंदन थाय, चंपाना फुलनी सुगंधे करीने तेल, चंपेल, नामने
पामे ठे, तेम आणायुक्त सुपुरुषनी संगते सुपुरुषपाणुं प्राप्त थाय पण
मिथ्यात हठग्राहिओनी सोवते मिथ्यात्वनीज पुष्टी थाय माटे जिन
आणाने नजवी.

असुइठाणे पनीआ, चंपकमाला न कीरइ सीसे ।

पासत्याई ठाणे, सुवट्टमाणो तह अपुज्जे ॥ संबोधसत्तरि ॥

अशुची स्थानके पमेली चंपाना फुलनी मालाने कोइ मस्तके नहीं
चनावे तेम पासत्यादिकना साथे रहेतो जलो साधु पण अपूज्य
जाणवो.

मियमद गंधे लसणां, न चाइयइ विअप्पणो गंधं ।

रविकर पसरंतेहिं, अंधत्तं होइ उलूआणं ॥ आगम ॥

अर्थ—कस्तुरीनुं खातरकरी लसण वावे तोपण लसण पोतानी डुष्ट
गंधने न मुके, अने सूर्यनां किरणो पसरे बते पण घूवड न देखे तेमज
सद्गुरुना ऊपदेशथी कदाग्रही पुरुष पोताना मिथ्यातने न मुके.

समयायार ऋणां, जाणंता लज्ज गारव ऋणं ।

तेसिंपि नहि वेहिं, पावं अणुमोअमाणाणं ॥ आगम ॥

जैन सिद्धांतना आचारथी ऋष्ट वेपधारीने, लाज मान आदिना ऋयथी पण जे ऋोजनादि आपे, सन्मान करे, ते प्राणीने बोध वीज नथी केमके अशुद्ध आचारीनी क्रिया पाप रूप ठे. ते पापने अनुमोदतो, सन्मान करतो, सम्यक्त रत्नने हारे.

उक्तंच: आचारांग सूत्रे. आठमा अध्ययने

से वेमि समणुञ्जस्सं वा असमणुञ्जस्सं वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा वत्थं वा पङ्गिगहं वा कवलं वा पाय पुंठणं वा णोपाएज्जा णोनिमंतेज्जा णोकुज्जावेयावश्यंपरं आढायमाणेत्ति वेमि ॥

हं कहुंठुं के स्वमति पासत्था प्रमुख अथवा परमति सांख्यादि असयत्तिने, ऋजन पाणी अथवा खादिम स्वादिम वस्त्र पात्र कंवल पायपुठण विगरे आपवां नहि अगर आपवा माटे निमंत्रण करवुं नहि अथवा तेउनी वेयावच्च करवी नहीं. केमके ऊन्मार्गनी पुष्टी थाय ठे.

जे केवि धम्मसीला, संजम तव नियम जोग जुत्ताय ।

ताणं दोस ऋणंता, ऋगा ऋगत्तसुविंति ॥ आगम ॥

धर्मी शीलवंत संयमी तथा तप जोग नेम युक्त पुरुषोने जे दोषवंत कहे ठे ते पोते ऋष्ट थएलो ठे ठतां वीजाने ऋष्ट कहे ठे.

श्लोक-कत्य अम्हारिसा पाणी, दूसमा दोसदूसिआ ।

हा अणाहा कहुंहुता, न हुंतो जइ जिणागमो ॥ संबोध ॥

हा! खेद थाय ठे के दूषम कालना दोषे करीने दूषित एवा अमो अनाथनी जो जिनागम न होत तो शी दशा थात?

जिण वयणं उसहमिणं, विसयसुह विरेअणं आणजिभूयं ।
जरमरण वाहि हरणं, खयकरणं सव्व दुःखाणं ॥ आगम ॥

जिन वचनरूप उंसड ते विषयना विकाररूप कट्पित सुख महा
व्याधि तेनुं विरेचन एटले रेच सरखुं ठे. प्रतिहत् शक्तिवंत जरा मरण
रूप व्याधि हरवा वालुं तथा सरवे दुःखनुं क्षय करवा वालुं ठे.

जिणवयणं उसहेणं, कंखा वाहि न फिट्टए जेसिं ।

अमियंवि सुव्वतिसिं, अणंतसो लहइ मरणाइ ॥

जिनेश्वरनां वचन सांजलीने पण एटले जीन वचनरूप उषधे करीने
पण कंखारूपी व्याधि (अन्य दर्शननो, मिथ्या दर्शननो अजिलाप)
न मटे तेने अमृत पण विषनी पेरे परिणमे अने अनंता मरणादि
कने पामे.

लप्पइ सुरसामित्तं, लप्पइ पहुअत्तणं न संदेहो ।

एगं नवरि न लप्पइ, उल्लह रयणं च सम्भत्तं ॥

इंद्रपणुं मले, अने प्रचुता पण मले, ऐश्वर्यता, ठकुराइ पणुं पामवुं
ए सरवे सुलज्ज ठे पण चिंतामणि रत्न समान एक सम्यक्त पामवुं
अति दुर्लज्ज ठे.

द्वितीयोऽधिकारः संपूर्णः

तृतीय सामायक साधनाधिकार.

श्री अरिहंतादि पंच परमेष्ठी, जे समजावना स्थानक ठे तथा पूर्ण समजावने प्राप्त होवाची समजावना साधनमां पुष्ट निमित्त ठे तेउने समजावनी प्राप्ति, स्थिरता निमित्त नमस्कार करु तुं, अर्थात् मारा परिणामने समजाव सन्मुख वाळुं तुं, वाळवानो उद्यम करुं तुं. केवा ठे ते पंचपरमेष्ठी—

एष चङ्घाश्कम्मो, दंसण सुह् एणण वीरियमंइउं ।
सुह् देहत्यो अप्पा, सुधो अरिहो विचिंतिज्जो ॥

जेणे पूर्ण समजाव आदरी चार घातियां कर्मनो नाश कर्यो ठे. तथा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख तथा अनंत वीर्य, प्रंगट कर्यां ठे. वली जे अढार दोषधी मुक्त थया ठे

एषकम्मदेहो, लोयालोयस्स जाणवो दघा ।
पुरिसायारो अप्पा, सिधो ज्झाएह लोयसिहरत्यो ॥

जेणे घाति अघाति आठ कर्मनो नाश कर्यो ठे, जे 'देह' रहित ठे, वली लोकालोकना ज्ञाता उष्टा ठे. त्रैलोक्य शिखरे वसनार शुद्धात्मा ते सिद्ध परमेष्ठीने नमस्कार करुं तुं.

दंसण एणण पहाणे, वीरिय चारित्त वर तवायारे ।
अप्पं परं च जुञ्जइ, सो आयरिउं मुणी ज्झेउं ॥

ज्ञान आचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार ए-पंचाचारमां पोते प्रवर्त्ते ठे, अने वीजाउने प्रवर्त्तवे ठे ते आचार्य-मुनिने नमस्कार करुं तुं

जो रयणत्तयजुत्तो, णिच्चं धम्मोवएसणे णिरदो ।
सो उवजाउं अप्पा, जदिवर वसहो एमो तस्स ॥

जे रत्नत्रय युक्त निरंतर धर्मोपदेश करे ठे. एवा शुद्धात्मा उपा-
ध्यायने नमस्कार करुं तुं.

दंसण णाण समग्गं, मग्गं मोक्खस्स जो हु चारित्तं ।
साधयदि णिच्च सुद्धं, सादू स मुणी णमो तस्स ॥

मोक्षना कारण सम्यक् ज्ञान दर्शन चारित्र्यने निरंतर साधनारा
शुद्धात्मजावस्थित साधु मुनिराजने नमस्कार करुं तुं.

ससरीरेवि निरीहा, बज्झप्पिंजतर परिग्गह विमुक्का ।

धम्मोवगरणमित्तं, धरंति चारित्तरक्कहा ॥

पंचिंदियदमाणपरा, जिणुत्तसिद्धंत गहिय परमत्था ।

पंचसमिया तिगुत्ता, सरणं महएरिसा गुरुणो॥संबोधसत्तरि॥

पोताना शरीरने विषे पण इहा विनाना, बाह्य अने अन्त्यंतर परि-
ग्रहथी विमुक्त थएला, चारित्र्यनी रक्षाने अर्थेज मात्र धर्मोपकरणे
धारण करनारा, पांच इंद्रियोने दमन करवामां तत्पर, जिनोक्त सिद्धां
तथी ग्रहण कर्यो ठे परमार्थ जेणे, पांच समितिए समिता अने त्रण
गुप्तिए गुप्ता एवा गुरु महाराजनुं मने शरण थाउं.

वली सकल संपूर्ण अविनाशी सुखनिधान मोक्ष मार्ग
जोवा माटे त्रणे लोकमां एकज नेत्ररूप, तथा सकल नयोथी
प्रकाशित जन्मांध पुरुषोना हस्तिविधान, एकांत मतना वि-
रोधने मथनार, अनेकांत-स्याद्वादयुक्त आत्मबोध दातार,
समजावना कारण वीतराग प्रणित परमागमने नमस्कार
करुं तुं.

जो के अनेक जंग नय युक्त जिनशासन पुरमां प्रवेश
करवो अति छुष्कर ठे, तो पण प्रवचन चक्तिये प्रेरीत, पंच-

परमेष्ठी-तथा परमागमनुं शरणं ग्रही सामायकनुं किञ्चित्
व्याख्यानं मारी अल्पमति अनुसारे स्वपर हितार्थं करुं तुं.

सामायक-ए पहेलुं चारित्रं तथा नवमुं शिद्धान्तं वे.

व्यवहारं निश्चयं यः, प्रबुध्य तत्त्वेन ज्वति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः, स एव फलमविकलं शिष्यः ॥

जे पुरुष व्यवहारं तथा निश्चयने वस्तु स्वरूपद्वारा यथार्थं जाणीने
कोऽपि नयनी उपेक्षा नहि करतां माध्यस्थ जावे रहे ते ते शिष्य
उपदेशना संपूर्णं फलने पामे वे. तेनेज अर्थनी सिद्धि थाय वे पण
जे व्यवहार, निश्चयनी अपेक्षा वगरनो, निश्चयथी वुटो परतो वे,
ते व्यवहार नय नथी पण नयाजास वे.

वली जेथी कार्यं प्रगटं थतुं नथी ते कारणं नथी. जिनेश्वरना
मतमां कारणं कार्यने समयजेदं नथी वली जेमांथी जाव प्रगटं
थतो नथी ते अव्ययं नथी

सामायक-ए पहेलुं चारित्रं वे तेनुं स्वरूप.

चारित्रं ज्वति यत्., समस्त सावद्य योगपरिहरणात् ।

सकल कषायविमुक्तं, विशदमुदासीनमात्मरूपं तत् ॥

सकल कषाय रहित समस्त सावद्य योग परिहरी सर्व जीवोना
अव्यय जाव प्राणनी रक्षायुक्त परपदार्थोथी विरक्तरूप शुद्ध ज्ञान,
दर्शनमां स्थिरं रहेंतुं ते चारित्रं आत्म स्वरूपजं वे, तेज धर्मं वे.
उक्तंच (दशवैकालिके

श्लोक-धम्मो मंगल मुक्किं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवादि तं नमंसंति, जस्स धम्मो सयामणो ॥

धर्मं ते उत्कृष्टं मंगलं वे. ते धर्मं अहिंसा संजमं अने तपमयं वे.
अहिंसा एतले अव्यय अने जावथी ठकाय जीवना स्वपर प्राणने त्रणे

अंशे धर्म जाणवो एम चोथा गुणठाणाथी मांडी चौदमा गुणठाणांना चरम समय पर्यंत पूर्ण अंशे आत्म धर्म प्रगट थाय. परमसमाधि रूप सिद्ध स्थानकने वरे.

सामायक—एटले आत्माना ज्ञान दर्शन चरण गुणो पुद्गल संगे विषमताने पामेला तेने सम थीरथोज करवा. ड्रव्य अने जावप्राण हाणीमां मन वचन कायाना जोगोने न प्रेरवा. राग द्वेष विना शुद्धातम जावमां स्थीर रहेवुं.

करेमि जंतं सामाश्यं, सावज्जं जोगं पच्चस्कामि
जाव जीवं पज्जुवासामि, तिविहं तिविहेणं
मणेणं, वायाए, काएणं, नकरेमि, न कारवेमि
सव्वं करंतंपि अन्नं न समणुजाणामि, तस्स जंतं
पम्भिकमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ॥

अर्थ—करुं तुं हे जगवंत ! समजाव रूपी सामायक व्रत. मन वचन कायाना जोगो जीवता सुधी सावद्य व्यापारथी रोकुं तुं. त्रिविधे—एटले मनथी वचनथी कायाथी सावद्य व्यापार न करुं, न करावुं, अने कर्त्ताने अनुमिति न आपुं. अने पूर्वे मन वचन कायाना जोगो सावद्य व्यापारमां प्रवर्त्ताव्या तेने सावद्य व्यापारथी निवर्त्तावुं, पूर्वे सावद्य व्यापार आदर्यो तेने निंडु तुं. गरिहामि केण गुरु समीपे विशेषे निंडु तुं. के हवे सावद्यमां जोगो नहीं प्रवर्त्तावुं. अशुद्ध आत्म जावने ठोरुं तुं. साधुने तो ए प्रमाणे जावजीव समजावमां वर्त्तवुं अने श्रावक देशव्रती ठे. माटे नीचे प्रमाणे सामायक उचरे.

करेमि जंतं सामाश्यं, सावज्जं जोगं पच्चस्कामि, जाव
निअमं पज्जुवासामि इविहं तिविहेणं मणेणं वायाए
काएणं नकरेमि नकारवेमि तस्स जंतं पम्भिकमामि

निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥

जगवन्तं हुं करुं तुं समतारुप सामायक. सावद्य योग एटले ड्रव्य जाव हिंसारुप मन वचन कायानो व्यापार तेनो त्याग करुं तुं. ज्यां सुधी वे घनी प्रमुख नियम ठे त्यांसुधी अंगिकार करीश ड्रुविहेणं कहेतां सावद्य व्यापार करुं नहि, करावुं नहि. तिविहेणं कहेतां मन वचन कायाथी तस्स कहेतां पूर्वे सावद्य व्यापार कर्यो ठे ते सावद्य प्रवृत्तिथी जोगने पाठा वाली आत्म स्वजावमां स्थिर करुं निंदामि कहेतां जोगना सावद्य व्यापारने गुरु साखे निंहुं तुं. गरिहामि कहेतां जोगने हवे सावद्य व्यापारमां न प्रवर्त्तावुं, अने अप्पाणं वोसिरामि कहेतां अशुद्ध आत्म जावने ठांहुं तुं. एवी रीते धारेला नियम प्रमाणे मन वचन कायाना जोग सावद्य व्यापारमां नहि प्रवर्त्तावतां जावथी सम परिणामे रहेवुं ते वत्रीश दोष टाली सामायिक सूत्रमां कह्या प्रमाणे जावत् सामाश्य वयजुत्ताना पाठसुधी निरवद्य स्थिर परिणामे प्रवर्त्तवुं. ते वत्रीश दोषनां नाम मनना दश-वचनना दश-कायाना वार मनना दश दोष ते निचे प्रमाणे.

१ अविवेक दोष-सामायकनुं स्वरुप नहि जाणवाथी मनमां एवो विचार करे के आथी शुं फल थवानुं हतुं ? आथी ते कोण तर्हुं ह्शे ? एवा विकट्टपनुं नाम अविवेक नामा दोष.

२ यशो वांठा-पोते सामायक करीए तेथी वीजा मनुष्यो मारी प्रशंसा करे एवा परिणामे करवुं ते यशो वांठा दोष

३ धन वांठा-धननी श्वाए करवुं ते धन वांठा दोष.

४ गर्वदोष-मने लोक धर्मी कहे ठे अने हुं सामायक पण तेवुंज करुं तुं एवो अध्यवसाय ते गर्व दोष

५ ज्ञय दोष-हुं श्रावक कुलमां जन्म्यो तुं, मने लोको मोटा

तरीके माने ठे अने जो सामायक नहि करुं तो कहेशे के आटली क्रिया पण नथी करतो एम निंदाना जयथी सामायक करे ते जयदोष.

६ निदान दोष-सामायक करीने तेना फलथी धन, स्त्री, पुत्रादिक मलवानुं छे ते निदान दोष.

७ संशय दोष-सामायकनुं फल हशे के नहि होय एवो विकल्प करे ते संशय दोष.

८ कषाय दोष-सामायक क्रोधादिकथी करवा बेसी जाय किंवा पाठो क्रोध मान माया लोचमां वृत्ति धरे ते कषाय दोष.

९ अविनय दोष-विनय वगर सामायक करे ते अविनय दोष.

१० अबहुमान दोष-जक्तिजाव अने जमंग पूर्वक सामायक न करे ते अबहुमान दोष.

वचनना दश दोष.

१ कुबोल दोष-सामायकमां कुवचन बोखुं ते कुबोल दोष.

२ सहसात्कार दोष-सामायकमां साहसथी अविचार पूर्वक बोलवुं.

३ असद्आरोपण दोष-बीज^ए खोटा बोधादिक आपवा ते.

४ निरपेक्ष दोष-सामायकमां सास्त्रनी दरकार सिवाय एटले जिन आणा सिवाय कंइ पण^{बोलवुं} ते निरपेक्ष दोष.

५ संक्षेप दोष-सूत्रना पाठ इत्यादि टुंकामां बोलीने वेठनी पेटे यथार्थ उच्चार करे नहि ते संक्षेप दोष.

६ क्लेश दोष-कोश्य कंका श करे ते क्लेश दोष.

७ विकथा दोष-स्त्रिय^{दिक} चार के सात प्रकारनी विकथा मांडी बेशे ते विकथा दोष. जथी पुद्गल कथा रसे आत्म परिणाम सम परिणति चूके ने विज्ञावनी कामनावंत थाय.

८ हास्य दोष—सामायकमां कोझनी हांसी मश्करी करे ते हास्य दोष.

९ अशुद्ध दोष—सामायकमां सूत्रपाठ न्यूनाधिक अने अशुद्ध बोले ते अशुद्ध दोष.

१० मुणमुण दोष—गडबड गोटार्थी सामायकनासूत्रपाठ बोले जे पोते पण पुरुं समजी शके नहि तो वीजाने क्यांथी समजाय ? ते मुणमुण दोष

कायाना वार दोष.

१ अयोग्यासन दोष—सामायकमां पग उपर पग चन्नावीने वेसे ते श्री गुरु आदि प्रत्ये अविनय रूप आसन.

२ चलासन दोष—डगडगते आसने वेसी सामायक करे ते; किंवा वारंवार ज्यांथी उठवुं पने तेवे आसने वेसे ते चलासन दोष

३ चलउष्टी दोष—कायोत्सर्गमां आंखो चंचल राखे ते.

४ सावद्यक्रिया दोष—सामायकमां कांइ पापक्रिया के तेनी संझा करवी ते.

५ आलंवन दोष—जीतादिके उर्गीगण देखे वेसे तेथी जीते वेठेला जंतुनो नाग थाय के तेने पीना थाय तेमज पोताने प्रमादनी प्रवृत्ति थाय ते आलंवन दोष.

६ आकुंचन प्रसारण दोष—हाथ पग सकोची लांवा करे ए आदि ते आकुंचन प्रसारण दोष

७ आलस दोष—अग मरुके टचाका वगाके ए आदि ते आलस दोष

८ मोहन दोष—आंगली वगेरे वांकी करी टचाका वगाके ते मोहन दोष.

ए मल दोष-घरना घरड करी सामायकमां चेल करी मेल खंखेरे ते.

१० विमासण दोष-गलामां हाथ नांखी बेसे श्यादि ते विमासण दोष.

११ निजा दोष-सामायकमां जंघवुं ते निजा दोष.

१२ वस्त्र संकोचण दोष-सामायकमां टाढ प्रमुखनी त्रितीथी वस्त्रथी शरीर संकोचे ते वस्त्र संकोचण दोष.

आ बत्रीश दोष रहित सामायक करवुं. आ बत्रीश दोष टाढ्या-विना जे सामायक करे ठे ते सामायकना फलने पामतो नथी. वली पंच अतिचार टाढीने सामायक करवुं.

हवे मुहुपत्तीना पचास बोद.

(१) सूत्र अर्थ तत्व साचो करी सहहु (२) समकीत मोहनि (३) मिश्र मोहनि (४) मिथ्यात्व मोहनि परिहरुं (५) कामराग (६) स्नेहराग (७) द्रष्टीराग परिहरुं (८) सुदेव (९) सुगुरु (१०) सुधर्म आदरुं (११) कुदेव (१२) कुगुरु (१३) कुधर्म परिहरुं (१४) ज्ञान (१५) दर्शन (१६) चारित्र आदरुं (१७) ज्ञान, दर्शन, चारित्र विराधना परिहरुं (१८) मनगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति, आदरुं, (१९) मनदंड, वचनदंड, कायदंड परिहरुं (२०) हास्य, रति, अरति, जय, शोक, डुगंठा परिहरुं (२१) कृष्ण लेस्या, नीललेस्या, कापोतलेस्या परिहरुं (२२) रसगारव, रिद्धिगारव, शातागारव परिहरुं (२३) मायाशब्द, नियाण शब्द, मिथ्यात्वशब्द परिहरुं (२४) क्रोध, मान, माया, लोभ परिहरुं (२५) पृथ्वीकाय, अपूकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रसकायनी रक्षा करुं.

ए उपर कहेला बोदमांहेथी केटलाक बोलो खीजने उठा कहेवा

पने ठे. ते जे तजवाना कहा ते ड्रव्य जावथी तजवा अने जे आदर-
वाना कहा ते ड्रव्य जावथी आदरवा.

एम समजाव रूप आत्मजाव सन्मुख थइ ड्रव्य प्रवृत्ति करवी.
ते ड्रव्य सामायक जाणवुं पूर्ण समजाव वारमे गुणठाणे शुक्लध्यानना
वीजा पाया एकत्ववितर्कमां ठे ते तुरत केवल ज्ञान दर्शन रूप लाजने
आपे ठे. पण चोथे गुणठाणेशी सिद्धसमान पोताना आत्मानी सत्ता
जाणीने सिद्धसमान पोताना स्वरूपने जावतो एटले परजीव तथा
पर पुद्गलादि ड्रव्यमां शुजाशुज अने इष्टानिष्ट संकल्प तजी राग
द्वेश विना पोताना शुद्धात्मजावमां परिणति स्थीर रहेवानो अ-
न्यास करतां जेटलो जेटलो समजाव स्थीरता वधति जाय तेटलो
तेटलो ज्ञान दर्शनादि आत्मगुणनो लाज थतो जाय तेने सम अने
आय कहिये. अने आत्मजाव एटले एकलो निर्मल आत्मजावज
रहे माटे सामायक कहेवुं. पूर्ण सामायक पूर्ण गुणने प्रगट करे
ते तो यथाख्यात चारित्र जाणवुं. माटे श्रवसर पामी प्रमाद ठोडी
जेम वने तेम सर्वे उद्यमे समजाव करवो.

समजाव करवानो अजिलापी थइ समजाव करवा मांके त्यांथी
सामायक कहीए

उक्तंच जगवइ अंगे.

चलमाणे चलिए जाव णिज्जरिज्जमाणेणिज्जिसे॥इत्यादिपाठवे॥

एटले ज्यांथी समजाव करवा मांड्यो त्यांथी सामायक कहिए.
सिद्ध समान आत्मसत्ता जाणी सिद्ध परमात्मानी पेठे समजावे
रहेवानो अन्यास करवो. ए रुडे प्रकारे जिन आणा अंगर नवतत्व,
पद् ड्रव्यादिक, जे पदार्थ आगममां कहा तेने ड्रव्य, क्षेत्र, काल,
जावथी अने नामादि चार निक्षेपेशी हेय, झेय, उपादेय सहित,
संशय, विव्रम, विमोह रहित, जाणी सद्दृतां जे जीव सम्यक्त

पामेलो तेज यथार्थ सामायकना लात्तने लेइ शके, पण रमत अथवा वेष जजवतां सामायकनो लात्त मळी शकतो नथी माटे जिन आणाए वस्तु तत्वनो निर्धार करी समजावे वर्त्तवानो अज्यास करवो. आत्मानि सत्ता सूत्रमां सिद्धसमान कही ठे, यतः अप्पा सो परमप्पा—संशय—एटले जीवादिक पदार्थो कह्या तेम ठे के नहि एवी जे शंका ते संशय.

वित्रम—एटले अशुद्ध निश्चय करवो जेम जीवमां अजीवपणानो निश्चय, पुद्गलादिक अजीवमां जीवपणानो निश्चय, ते वित्रम—अथवा कांश्नुं कांइ समजी असत्य निर्धार करवुं तेने वित्रम कहीए—विमोह एटले—जीवके अजीव कंइ जाणतो नथी अने जाणवानो अनिद्राप पण नथी ते विमोह कहीए तेथी मिथ्याद्रष्टी शुद्धात्म जावनो कामी थइ सामायकना लात्तने लेइ शकतो नथी.

एकता ज्ञान निश्चय दया, सद्गुरु तेहने जाखे ।

निर्विकल्प उपयोगमां, निज प्राणने राखे ॥ (आत्म)

हुं ज्ञान हुं, मारा स्वरूपमां जासता ज्ञेय रूप षट्द्रव्य, पर पदार्थोथी मने कांइ प्रयोजन नथी, ए उपयोगे परसंबंधे रागादि परिणामे बंधाएली आत्म परिणति पर संबंध ठोडी पोताना स्वरूपथी तन्मय करी, सर्वे संकल्प ठोमीने निर्विकल्प जावे स्थिरयोक्त स्वरूप अज्ञेदे तन्मयताए राखे संकल्प विकल्प परिणामे हणता आत्मवीर्य ज्ञानादि प्राणने निर्विकल्प परिणामे एटले निर्विकल्प उपयोगे वचावे ते निश्चय दया कहीए. माटे अहिंआं समजावनेज दया कही जिनशासनमां समजाव एज मुख्य साध्य ठे.

देशी सुरती महिनानी.

बहु जेदे पण जेह अज्ञेदी आत्म स्वजाव ।

मिथ्या रागादिक परयोगे, प्रगटयो सधलो विषम विजावा।

आत्मां ज्ञान, दर्शन, चारित्र, दान, सुख, वीर्य, लाजादि बहु गुणो ठे अने जूदा जूदा कार्यों करे ठे, माटे जेद स्वभाव कहीए. पण ए सर्वे गुणो आत्माथी जूदा नथी (अजिन्न) माटे अजेद स्वभाव कहीए.

मिथ्या द्रष्टिथी, पुद्गलमां हुं अने मारापणानी बुद्धि तथा विषयादि रोगोमां सुख बुद्धि अने देव गुरु धर्ममां विपरित बुद्धि-एटले खरा देव नहि तेने देव जाणवा, जे गुरु नहि तेने गुरु जाणवा, जे धर्म नहि तेने धर्म जाणवो, जो के सर्वेजीवो चैतन्य लक्षणे करी सामान्य ठे ठतां तेमांथी एकने इष्ट अने एकने अनिष्ट कल्पवो ए शुजाशुज कल्पनाथी राग रूपजतां आत्माना ज्ञान दर्शन चारित्रादि सर्वे गुण विकारी थया

ज्ञानादिक थइ विषम विकारी, निजनिज कार्यकरे नवि शुद्ध अव्यनी परिणति अक्षय त्रिकाले, तेथी गुण थया कार्य विरुद्ध।

एम आकरा विकारने पामीने ज्ञानादिक सर्वे गुणो पोतपोताना शुद्ध कार्यों करी शके नहि अने अव्यनी परिणति त्रिकाले अखंरु (अविनाशी,) होवाथी मूल स्वभाव ठोडे नहि. पण विकारने लीधे शुद्ध कार्यने बदले उलटा (विपरीत) कार्य करवा लाग्या. ज्ञान अज्ञान रूपे, दर्शन अदर्शन रूपे, चारित्र पराचरण रूपे, एम सर्वे गुणो आवरण वाला थया.

निज निज शुद्ध परणति वियोगे, न लही स्वतंत्री आत्मशक्ति। समजावे शुद्ध परणति योगे, रमतां प्रगटे पुरण व्यक्ति ॥

पोतानी शुद्ध परिणतिना वियोगथी आत्माए पोतानी परिणतिने स्वतंत्र जाणी नही, अने जोगवी नही पण ज्यारे 'पुद्गल उपरनो शुजाशुज संकल्प मटानी स्थिर परिणामी थइ आत्म स्वरूपमां

पोतानुं लक्ष्मण रमावे (समन्नावमां रहे) तो आत्मानि (पोतानी)
सर्वे शक्ति दबाएली ते स्वतंत्र प्रगट थाय.

तेह सम इक आत्मन्नाव ठे, ज्ञाप्यो जगवइ श्री जिनज्ञाण ।
कर्म कलंक टाली जवी लहीए, तेथी पूर्ण पद निर्वाण ॥

पुद्गलना रागथी आत्माना सर्वे गुणो विकारी थया ते रागरूपी
मेल जवाथी शुद्ध थीर थाय एक आत्मन्नावज रहे तेनेज सूर्यसमान
श्रीवीर जगवाने जगवती सूत्रमां सामायक प्रकाश्युं ठे (कह्युं ठे)
एथीज (एज सामायकथीज) ज्ञानावर्णादिक कर्म कलंक टालीने
संपूर्णपणे आत्म गुणनी निर्मलताने पामीए एटले निर्वाण पदने
पामीए माटे हे जव्य जीवो एवं सामायक अवश्य आदरवुं.

ज्ञानादिक निजगुण आत्मना, सत्ता जोतां दीसे शुद्ध ।
परलाज्जे परजोगे रींझी, रागादिक करी जोग अशुद्ध ॥

आत्माना ज्ञानादिक सर्वे गुणो सत्ता जोतां शुद्धज ठे पण रागा-
दिके परलाज्जमां परजोगमां रींजी मन वचन कायाना सर्वे जोग
अशुद्ध थया.

तेहिज समन्नावे सुख प्रगटे, श्रीजिन वाणी सुधारस पाय ।
एम त्रय योग समन्नावथी जाणो, ज्ञानादिक केवल प्रगटायो ॥
अने जे विषम ज्ञावथी थएली ऊपाधि समन्नावथीज मटे अने
सुख थाय. जिनेश्वरनी वाणीरूप अमृत पीवाथी मिथ्यात्वनो विकार
दूर थइ मन वचन कायाना जोग समन्नावे थइ ज्ञानादिक आत्मगुण
निर्मल थाय.

जिन शासननुं सार एह ठे, ए विण जूतुं सर्व रूपाण ।
संजम शीलने ज्ञान ध्यान पण, ए विण कहिए सवि अप्रमाण ॥
समन्नाव एज जिन शासननो सार ठे, समन्नाव विना सर्वे क्रिया

धामधुम मात्र ठे, संजम, शील, ज्ञान, ध्यान समजाव विना होयज नहीं अने अंतरंग समजाव विना बहारनी क्रिया करीने ज्ञान ध्यानादि खरां मानवां ए अप्रमाण ठे.

सामायक पुद्गलमें नांही, पर जव्ये पर सत्ता मान ।

चपल विषमता रहित आत्मनो, केवल जाव सामायक जाण॥

बहु परमाणु संयोगी पुद्गलमां वर्ण गंधादिके पूरावा गलवानी शक्ति होय पण समजाव रूप स्थिर आत्म धर्म होय नहीं. मान एटले पुद्गलनो एज प्रमेय धर्म ठे पुद्गल परिणामनी चपलता अने रागद्वेष रूप विषमता रहित आत्मानो केवल स्थिर समजाव तेज सामायक

विषम वेग टाली समजावे, वरते ते संवेगी जाण ।

पीला रातामां नहीं समसुख, एतो पुद्गल हेय प्रमाण ॥

पुद्गलमां शुजाशुज कल्पनानो संकल्प ते विषम वेगे वलगेलुं चित्त तेने पातुं वाली समजावे स्थिर करे ते संवेगी ठे पण पीला राता कपकामां संवेगीपणुं नथी. माटे पुद्गल जावतो हेय एटले ठांरवानोज कह्यो ठे.

मोहरूपिधर विषम विषने, हरवा सुरमणि सम ए जाण ।

ज्ञानादिक गुण अखूट खजानो, राखण चित्रावेल प्रधान ॥

सुरतरु सम शिवफलनो दायक, मिथ्या तम टाले सम जाण ।

कामगवी पुण काम कुंज सम, कामित पूरण सुख निदान॥

सामायक ए मोहरूपी मणिधरना आकरा विषने नाश करवाने सुरमणि समान ठे ज्ञानादि गुणनो अखूट खजानो राखवाने चित्रावेल समान, मोहरूप फल आपवाने कल्पवृक्ष समान ठे, मिथ्यात्वरूप अंधकारने टालवा (नाश करवा) सूर्य समान अने सिद्धि रूप कामना पूर्ण करवाने कामधेनु समान ठे अने अक्षय सुखनुं मूल ठे.

आत्म वीर्य क्षीणता टाली, करत लोहने कंचन वान ।

एह रसायन जाणे अनुज्वी, जिम रोहणगिरि रयणी खाण ॥

अर्थ—आत्मा अनादि कालची पररुचिरुप खोटो आहार सेवतां हीनवीर्य थयेलो तेने परम पुष्ट करवाने सामायक ए रसायण समान ठे. अने लोहरुप आत्म स्वभाव मलिन थयेलो ते मलिनता टालवाने माटे सामायक रसायण समान ठे. एवा रसायण रुप सामायकने अनुज्वीज (समकीती) जाणे ठे. वली जेम रोहणाचल पर्वत रत्ननी खाण ठे तेम सामायक ज्ञान दर्शन चारित्र रुपी रत्ननी खाण ठे.

ज्ञान विज्ञान जंमार एहतो, समपदमां नवि रहे अनाण ।

दर्शन चरणे निर्मल संवर, शुध निर्जरा मोक्षनुं स्थान ॥

अर्थ—वली सामायक ए ज्ञान विज्ञाननो जंमार ठे. अने एहमां अज्ञान रही शकतुं नथी. दर्शन, चारित्र, अने निर्मल संवर, तथा निर्जरा, तथा मोक्षनुं स्थानक, ते समजावज जाणवो.

जीव तणो गुण एहने जाणो, पुद्गल परणति ते किम होय ।

पुण्य पापने बंध नहि ए, विरला जाणे समपद सोय ॥

अर्थ—समजाव ते जीवनोज गुण ठे. ते पुद्गल परिणति केम होय ? समजावमां पुण्य पापरुप बंध परिणति थाय नहीं. एवा समपदने जाणनार विरलाज होय.

काम मदन मर्दन मद्धि जिन, तीर्थ ठौर तीर्थ फलसार ।

इम समजाव करो सामायक, जविजन सफल करो अवतार ॥

अर्थ—श्रीमद्धि जिनेश्वरे जेम काममदने मर्दन कर्यो, तेम समजाव काममदने नाश करनार ठे. तीर्थनुं गेर अने तीर्थनुं फल ते समजावज ठे. माटे समजाव रुप सामायक करीने जव्य जीवो अवतार सफल करो.

मनसुखे समजावे रमतां, आत्म धर्म सकल प्रगटाय ।

अरिहंतादिक पद पण लहिए, कर्म रिपु जीती शिव पाय ॥

अर्थ—मनमां सुखे करी समजावे रमीए तो आत्म धर्म सर्व प्रगट
थाय अने अरिहंतादिक नवपद पण समजावथीज थाय अने कर्म
रूपी शत्रुतो नाश करी शिव कमला बरीए

रागद्वेष त्यागान्निखिल इव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

तत्त्वोपलब्धिमूलं बहुशः सामायिकं कार्यम् ॥

अर्थ—रागद्वेषने त्यागी समस्त इष्टानिष्ट पदार्थमां समजाव आ-
दरी वारंवार आत्म तत्त्वनी प्राप्तिनुं मूल कारण जे सामायिक ते
आचरवु जोशए

सामायिकाश्रितानां समस्त सावद्ययोग परिहारात् ।

ज्वति महाव्रतमेषा मुदयेऽपि चरित्र मोहस्य ॥

अर्थ—समस्त सावद्ययोगना परिहारथी सामायिक आश्रित जीव
आवक ठतां पण साधु समान जाणवो.

सच्चात्तं वि नईत्तं, कमेण जह सायरंमि निवसंति ।

तह जगवई अहिंसिं, सव्ये धम्मा समिद्धंति ॥

अर्थ—जेम सर्वे नडीत्तं समुद्रमां आवी मखे ठे तेम सर्वे धर्म
जगवत् प्रणित अहिसामां आवी समाय ठे. अने सामायिक पण
समस्त जीवोना इव्य जाव प्राणनी हिंसा न करतां शुद्धात्म जावमां
स्थिर थई समजाव युक्त रहेतां थाय ठे माटे समजावमां सर्वे धर्म
समाय ठे

इव्यजाव प्राणनुं स्वरुप तथा तेत्ती रक्षाना, उपाय, जिन आगम
अनुसारे कहुं ठं

तिक्काले चडुपाणा, इंदिय बलमाउ आणपाणाय ।

ववदारा सो जीवो, णिच्चयणयदोडु चेदणा जस्स (द्रव्य संग्रह)

संसारी जीवो सदाकाल इंदिय, बल, आयु अने श्वासोश्वास ए चार द्रव्यप्राणसहितहोय ठे. ते चार प्राणना उत्तर चेद दश होयठे.

इंदिय-स्पर्श इंदिय, रसेंदिय, घ्राणइंदिय, चक्षुइंदिय, श्रोत्रइंदिय.

बल-कायबल, वचनबल, मनोबल.

एम इंदियना पांच, बलना त्रण, आयुनो एक, श्वासोश्वासनो एक एम दश चेद थाय.

कोइ पण जीवना ए दश प्राणमांथी एकने पण कषाय वश थई वध बंध ठेदन तारुन अतिचारे खानपानना निरोधादिके करी पोते न डुखाववो, बीजा पासे न डुखावाववो, डुखावताने नहीं अनुमोदवो.

जाव प्राण नीचे प्रमाणे जाणवा.

ज्ञान चेतना १, दर्शन चेतना २, सुख (चारित्र स्वजाव रमण, स्थिर समाधि निवृत्तिरूप,) चेतना ३, वीर्य चेतना ४, आदि ज्ञानादि गुणना स्वजाव पर्याय ते सर्व जाव प्राण जाणवा. वली कर्त्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, रक्षणता आदि अनंत पर्याय ए सर्व जाव प्राण जाणवा. ते स्वपर जीवना जावप्राणनी यत्ना, संजम, रक्षणता, ते दया जाणवी. अने कोइ पण जीवना जाव प्राणनी अयत्ना हाणी करवी ते हिंसा जाणवजे. रक्षा तथा हिंसानां अनेक कारण ठे ते समासथी अहिंसां निं. मात्र दर्शावीए ठिये.

यत्खलुकषाययोगे ज्ञानां द्रव्यजाव रूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य कश्चिन्निश्चिता भवति सा हिंसा ॥

निश्चय करीने हित मन वचन कायाना योगे करी द्रव्य जाव प्राणनी हाणी करवी ते निश्चय हिंसा ठे.

आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत् ।

अनृत वचनादि केवल मुदाहृतं शिष्य बोधाय ॥

आत्माना शुद्धोपयोग रूप परिणाम जे वने घताय (हणाय) ठे ते सर्वे हिंसाज ठे. अनृत वचनादिक जेद मात्र शिष्यने समजवा माटे कहा ठे

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वश प्रवृत्तायाम् ।

धियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥

रागादि प्रमाद वशे ऊपयोग विना अयत्नाचारे प्रवृत्ति करतां जीव मरो अजर न मरो पण हिंसा तो आगलज दोणे ठे

यस्मात्सकषायः सन् हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥

केमके जे वखत जीवे रागादि कषाय आदर्यो ते वखत पोताना जाव प्राणनी हाणीतो थई चूकीज अने तेज स्वपर ड्रव्य प्राणनी हाणीनुं कारण ठे परंपराए ड्रव्य जाव वने प्रकारे हाणी ठे माटे वर्तमाने ड्रव्य प्राणनी हाणी थाउं अजर न थाउं पण एने तो हिंसानो अनुबंध थई चूकयो

यदिदं प्रमाद योगादसद्विधानं विधीयते किमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः ॥

प्रमाद कषायना वशथी स्वपर जीवने वर्तमाने अजर आगामी काले अनंतरे अजर परंपराए जे अहितनुं वचन होय ते अनृत एटले अलिक वचन जाणवुं ते अलिक वचनना चार जेद ठे.

स्वक्षेत्र कालजावैः सदपि हि यस्मिन्निषिद्ध्यते वस्तु ।

तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥

जे वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव सहित ठती ठे तेने अठती कहेवी ते पेहेला प्रकारनुं अलिक ठे जेम देवदत्त अहिंश्यां नथी.

असदपि हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्र काल जावैस्तैः ।
उद्भाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः ॥

जे वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल जावथी अठती ठे तेने ठती कहेवी ते बीजो जेद; जेम घट नथी ठतां घट ठे एम कहेवुं.

वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।
अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्वः ॥

पोताना स्वचतुष्टय विद्यमान वस्तुने पररूप कहेवी ते त्रीजा प्रकारनुं असत्य; जेम बलदने घोडो कहेवो.

गर्हितमवद्य संयुतमप्रियमपि जवति वचन रूपं यत् ।
सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥

सामान्य रीते चोथा असत्यना गर्हित (१) सावद्य (२) अप्रिय (३) एम त्रण जेद ठे.

गर्हित-चामी चुगली हास्य कठोर मिथ्या श्रद्धान पूर्वक, प्रलाप तथा ऊत्सूत्ररूप गर्हित वचन ठे.

सावद्य-ठेदन, जेदन, मारण, शोषण, अथवा व्यापार चोर्यादिनां वचन ते सावद्य वचन ठे.

अप्रिय-अरति, जय, खेद, वैर, शोक, कलह, आदि करवावालां वचन ते अप्रिय वचन ठे.

सर्वास्मिन्नप्यस्मिन्प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत् ।

अनृत वचनेऽपि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति ॥

अर्थ-असत्य वचन प्रमाद योगे उपजे ठे माटे असत्य वचनमां निरंतर हिंसा जाणवी.

अवितीर्णस्य ग्रहणं, परिग्रहस्य प्रमत्त योगाद्यत् ।
तत्प्रत्येयं स्तेयं, सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् ॥

अर्थ—प्रमादं कपाय योगे मालीकना विना आपे पारकी वस्तु लेवी
ते चोरी ठे ते चोरी बंधना हेतुथी हिंसा जाणवी. कोडुं- मूकेलुं
अथवा पनेलुं अथवा नूलेलुं कंड पण लेवुं ते चोरी ठे.

यद्देवरागयोगान्मैथुनमभिधीयते तदब्रह्म ।

अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्र सजावात् ॥

अर्थ—वेदना रागरूप योगथी स्त्री पुरुषोपो सहवास ते अब्रह्म ठे
ते अब्रह्ममां प्राणीवध होवाथी हिंसा ठे.

हिस्यन्ते तिलनाट्यां तप्तयासि विनिहिते तिलायद्यत् ।

वहवो जीवा योनौ हिस्यन्ते मैथुने तद्यत् ॥

अर्थ—जेवीरीते तलथी जरेली नलीमां तपेलुं लोहनुं सलीउ घा-
लवाथी तल नष्ट थाय ठे, तेम मैथुनवने योनी स्थानमां बहु जीवो
हणाय ठे

यदपि क्रियते किञ्चिन्मदनोडेकादनङ्ग रमणादि ।

तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात् ॥

अर्थ—मैथुनमां राग धवाथकी मैथुनना अंग शिवाय अन्य अंगमां
जे रमण त्यां रागनी उत्पत्ति ते मुख्य जाव प्राणनी हिंसा थड चूकी.
वीर्यादिकमां समूर्च्छिम जीवनी उत्पत्ति थाय ते हणाय तेथी डव्य
प्राणनी हिंसा ठे.

या मूर्धनामेय विज्ञातव्यः परिग्रहो ह्येषः ।

मोहोदयाडदीर्णो मूर्ध तु ममत्व परिणामः ॥

अर्थ—पर डव्यमां मूर्ध तेज निश्चय परिग्रह ठे. अने मोहना
उदयथी परडव्यमां ममत्व परिणाम ते मूर्ध ठे.

मूर्धा लक्षण करणात् सुघटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य ।

सग्रन्थो मूर्धावान् विनापि किल शेष संगेऽप्यः ॥

परिग्रहत्वनुं मूर्धा लक्षण ठे. तेथी बाह्य संग परिग्रहथी रहित
पण मूर्धावान होय तो तेने परिग्रहीज जाणवो.

यद्धत्पङ्काधारमपि, पङ्कजं नोपल्लिप्यते तेन ।

धर्मोपकरण धृतवपुरपि साधुरलेपकस्तद्धत् (प्रशमरतिः)

जेम कादवने आधारे रहेतां ठतां कमल कादवथी लेपातुं नथी,
तेम धर्मोपकरणे धारतां मुनि मूर्धा रहित होवाथी अपरिग्रही ठे.

सवैया इकतीसा.

जैसे फीटकरी लोड हरमेकी पुट बीना श्वेत वस्त्र मारीये
मजीठ रंग नीरमें. । ज्रींज्यो रहै चीरकाल सर्वथा न होइ
लाल जेदे नहीं अंतर सुफेती रहे चीरमें ॥ तैसे समकीतवंत
रागद्वेष मोह बीनु रहे नीशी वासर परिग्रहकी ज्रीरमें; ॥
पूरव कर्म हरे नूतन न बंध करै जाचे न जगत सुख राचै न
शरीरमें: ॥ समयसारे ॥

अतिसंक्षेपाद्विधः सप्तवेदान्यन्तरश्च बाह्यश्च ।

प्रथमश्चतुर्दशविधो ऋवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥ पुरु० सि० ६०

ते परिग्रहना संक्षेपथी बाह्य अने अच्यंतर बे जेद ठे, तथा अ-
च्यंतर परिग्रहना चौद, अने बाह्य परिग्रहना बे जेद ठे.

मिथ्यात्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्च षड्दोषा ।

चत्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाच्यन्तरा ग्रन्थाः ॥ पुरुषार्थ ॥

मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, जय,
शोक, डुगंठा, पुरुषवेदराग, स्त्रीवेदराग, नपुंसकवेदराग, ए चौद
अच्यंतर परिग्रह ठे.

अथ निश्चित सचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य जेदौघौ ।

नैषः कदापि सङ्गः सर्वोऽप्यतिवर्त्तते हिंसा ॥ पुरुषार्थ ॥

बाह्य परिग्रहना अचित्त (धन, वस्तु, रुपुं, सोनुं, आदि) तथा सचित्त (द्विपद-दास, दासी, स्त्री, तथा चतुष्पद-एटले गाय, घोडा, जेंस प्रमुख) एम वे जेद ठे.

ए समस्त बाह्य अज्यंतर परिग्रह डव्य, जाव, हिंसानां कारण ठे, माटे तेनो त्याग करवो.

ए पांचे अवत हिंसानां कारण ठे माटे सम्यक् प्रकारे वस्तु स्वरूप जाणी पंच अवतथी विरक्त थइ शुद्धात्म जावमां स्थिर थवुं-सम-जाव सहित वर्त्तुं.

आत्माना सर्वे जेद स्वजाव रागद्वेषना विकारथी विविध विकारी थाय ठे. ते विविध प्रकारे समजाव करवानां अनुग्रानो आदरी सम-जाव करवो. ते विशेषे लक्ष्मीए त्रिये. सर्वे डव्य पोताना डव्य, क्षेत्र, काल, जावथी अस्तिपणे ठे, परना डव्य, क्षेत्र, काल, जावथी नास्तिपणे ठे. जे आत्मा अरुपी ज्ञाननो पुंज डव्यथी पोते एकज, क्षेत्रथी असंख्यात प्रदेशी, कालथी स्वगुण वर्त्तनावंत, अने जावथी ज्ञानादिक गुणो सहित ठे. एम पोताना डव्यादिक चारथी आत्मा अस्ति पणे ठे, अने पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि गुण पर्यायनो पुंज परमाणुं पणे एकज डव्य ठे. अथवा द्विप्रदेशी, त्रण प्रदेशी, आदि अनंत प्रदेशी सुधी खंध डव्य एकत्वपणे एक, अने क्षेत्रथी परमाणुपणे, अने द्विप्रदेशी यावत् अनंत प्रदेशी सुधी, कालथी वर्ण, गंध, संस्थानादि प्रवर्त्तनपणे, अने जावथी पूरण गसन पणे ठे, एम पुद्गल पण पोताना डव्यादिके अस्ति पणे ठे. एम सर्व डव्य, क्षेत्र, काल जाव पणे अस्तिपणे ठे, कोइ काले कोइ डव्यनो डव्य, क्षेत्र, काल, जाव, बीजामां जाय नहि, अने बीजानो तेमां

आवे नहि माटे नास्तिपणो ठे. एटले जीव द्रव्यमां पुद्गल द्रव्य नास्तिपणो ठे. एटले जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यादिके अबता ठे त्रिकाले पुद्गल द्रव्यादिके रूपे न थवानो स्वज्ञाव जीव द्रव्यना द्रव्यादिमां अस्तित्वपणे रहेलो ठे; एम इत्यादिके सत्त जोगे विचारतां मारुं स्वरूप शुद्ध सिद्ध परमात्मा समान ठे. तो हुं पुद्गल वर्गणाथी उपजेला मन वचन कायाना जोगमां व्यापी अन्य पुद्गलोमां तथा शरीर धारी अन्य जीवोमां रागद्वेषनी प्रवृत्ति केम करुं ?

अस्ति नास्ति स्वज्ञाव समजवा माटे उदाहरण.

१ जेम आंबो द्रव्य पोते एकत्व पिरुपणे द्रव्यथी ठतो ठे ते स्वद्रव्ये अस्ति.

२ अने लिंबडाना द्रव्यरूपे त्रिकाले पण थाय नही ए परद्रव्ये नास्ति स्वज्ञाव जाणवो.

हवे क्षेत्रथी आंबानी शाखा प्रतिशाखा पत्रपुष्प फलादि स्वक्षेत्रे विस्तारपणे अस्ति ठे. अन्य वृक्षादि विस्तारपणे नथी.

आंबो स्वकाले फळ आपे पण अन्य वृक्षादि काले फळे नहि तेथी स्वकाले अस्ति परकाले नास्ति.

आंबो पोताना वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वज्ञावे अस्ति, लिंबादि परवर्ण गंध रस स्पर्श स्वज्ञावे नास्ति.

३ ए अस्ति तथा नास्ति स्वज्ञाव समकाले सर्वे द्रव्यमां ठता होय माटे स्याद् अस्ति नास्ति त्रीजो जांगो.

४ वस्तुमां अनंता धर्म समकाले ठता ठे ते सर्वे धर्म एकज वचने उच्चारण थइ शके नहि ते स्यात् अवक्तव्य चोथो जांगो.

५ अस्ति स्वज्ञाव पण अनंतो ठे एक वचने अस्तित्वपणाना सर्वे धर्म एक समये उच्चारण थाय नहि माटे अस्ति अवक्तव्य पांचमो जांगो.

६ नास्ति स्वप्नाव पण अनंतो ठे, ते एकज वचने एकवारे उच्चारणमां आवे नहि ते नास्ति अवक्तव्य नामा ठठो चांगो.

७ अस्ति स्वप्नाव तथा नास्ति स्वप्नाव वस्तु मांहे समकाले युगपदे अनंता ठता ठे, ते समकाले एकज वचने उच्चार करी शकाय नहि माटे स्याद्अस्तिनास्तियुगपद्वक्तव्य सातमो चांगो. एम सप्तजंगीनुं स्वरूप ठए ड्रव्यमांहे गुरुगमथी विचारतां आत्मा सिद्ध समान ठे तो महारे परद्रव्यादिक मांहे मन, वचन, कायाना जोग राग रीजपणे प्रवर्त्तावी मित्रसमान जीवोना ड्रव्य तथा जाव प्राणनी हाणी करवी तथा डु.खववुं घटे नहि प्रमाद ठोडी यत्ना-एज वर्त्तवुं स्वपर जीवना ड्रव्य अने जाव प्राणने हुं केम हणुं ? तथा केम हणवुं ? अने हणताने जलो केम जाणुं ? माटे सर्वे जीव उपर समजावज राखवो

ड्रव्यप्राण दश ठे—पांच इंद्रियो, मनवल, वचनवल, कायवल, आसोआस, अने आयुष्य, ए दश प्राणने चांपवुं, कचरवुं, ठेदवुं, चांधवुं, अथवा, सर्वथा प्राण रहित करवो मतलबके कोइरीते कोइना पण ए प्राणने डु.खववा, मन, वचन, कायाना योगथी हणवा, अथवा हथियारवडे हणवा ते ड्रव्यहिंसा जाणवी. अने जाव प्राणते—ज्ञानादिक गुण तथा कर्त्तादि स्वप्नाव, दानादिक शक्ति, द्वांत्यादि मुख्य दश गुण ते आत्माना ठे. एम आत्माना स्वप्नाविक धर्म ते जाव धर्म कहिए, ए जाव धर्म जे ज्ञानदर्शनादि गुण ते उन्मागें देशना दीधायी हणाय ठे ते मारा मित्रने केम हणु ?

जेम जिनेश्वरनां जापित वचन विरुद्ध देशनाथी अगर मति कल्पनानां वचनोथी जीव अज्ञानमां पने ठे, तेम मिथ्यात्वमां पण पने ठे. तेमज परजाव आचरणानो परिणामी थाय ठे. जेम वक्रवर्त्तीं तथा देव देवांगनादिकोनां रुप सुख वखाणतां संजाल बिना

अने जिन आज्ञाना उपदेश संचालविना देशना देतां जीवो विषय कषायना परिणामी थाय ठे, तेमज स्वजीवने तथा अन्यजीवने क्रोध ऊपजावतां क्षांति गुणनी हाणी थाय ठे. अने स्वपरने माने चर्मावतां मार्दव गुण हणाय ठे, स्वपर जीवने कपट मांहे वर्त्ताववाथी आर्यव गुण हणाय ठे, स्वपर जीवने लोभे वलगाडतां मुक्ति गुण हणाय ठे, पांच इंद्रियोना विषय तथा धनादिकनी लालचमां परुतां, पाडतां श्वाकरतां तप गुण हणाय ठे. अने पोताना शुद्ध स्वरूपने लक्ष्मां नहि राखतां प्राणातिपातादि अव्रतनो परिणाम करतां तथा पंचइंद्रियोना विषयोमां लक्ष्मां रमावतां तथा क्रोधादिक चार कषायमां प्रवर्त्तावतां तथा आत्म उपयोग विना तथा जिनेश्वरनी आणा विना मन, वचन, कायाना जोगमां प्रवर्त्तां शुद्धोपयोग रूप संजम धर्म हणाय ठे. पुद्गल परिणतिने आत्म धर्म कहेवाथी तथा जाणवाथी सत्य गुण (सम्यक्त गुण) हणाय ठे.

ते कषायादि मलिन अध्यवसाय करवाथी आत्मानो शौच गुण हणाय ठे. तथा संजम सामायकादिकमां मन, वचन, कायादिकने अशुद्ध राखतां तथा अतिचार सहित वर्त्तां शौच गुण हणाय ठे. तथा जीव अदत्त, स्वामी अदत्त, गुरु अदत्त, तथा तीर्थकर अदत्त ग्रहण करतां शौच गुण हणाय ठे. समस्त अथवा कांश् पुद्गल उव्यनी ग्राहकता ते मूर्ख कहिए. ते मूर्ख आत्माना अकिंचन गुणने हणे ठे. अने अतीत अनागत वर्त्तमान संबंधी औदारिक वैक्रियना कामजोगनी अजिब्लाषा करतां, करावतां, अनुमोदतां शुद्ध आत्मानंद पमाय नहि, माटे ब्रह्मचर्य गुणनी हाणी ते पण जावहिंसा जाणवी. ए प्रमाणे आत्माना दशेजावधर्मनी हाणी थाय ठे ते जावहिंसा जाणवी, अने ए जावहिंसा नहि थवा देवाने माटे समजावमां वर्त्तवुं तेज सामायक ठे. ठकारकनी यथार्थ प्रवृत्ति विना कोइपण धारेलुं कार्य सिद्ध थतुं नथी. ते नहि जाणतां अंध परंपराए प्रवृत्ति करतां,

करावतां, मोक्षरूप कार्यनी सिद्धि मानवाथी आत्मानो स्वजावाचरण गुण हणाय ठे, अने परजावनुं आचरण थाय ठे, ते जावहिसा अने मिथ्या प्रवृत्ति क्लेश करतां, करावतां अव्य प्राणनी पण हाणी थाय ठे ते अव्यहिसा कहिए माटे मोक्ष अर्थी जीवोए यथार्थ ठकारक प्रवृत्तिए मोक्षरूपी कार्य साधवुं ते कारकनुं स्वरूप नीचे प्रमाणे द्रष्टां-ते करी घट कार्य ऊपर ठ कारक कहिए ठीए

१ घट स्वरूपने जाणतो अने घट करवा तैयार थयो एवो कुंजार तेज घटने करी शके ते कर्ता नामा पहेलुं कारक

२ घटना स्वरूपने जाणतो एवो कुंजार घट करवानो अजिलापी थाय तोज घट वने माटे करवानो अजिलाप ए कार्य नामा वीजुं कारक

३ करणनामा व्रीजु कारक तेना वे जेट ठे.

१ घट थवा लायक शुरू माटी ते उपादान नामे कारण.

२ घट कार्य करवा माटे दंरु चक्रादि साधनो ते निमित्त कारण

४ घट संपदा रूप पिंड स्थासादि निपजाववा, पूर्ण पटे घट तैयार करवो ते संप्रदान नामा चोथुं कारक.

५ पूर्व पिंदादि पर्यायनो व्यय करवो ते अपादान नामा पांचमुं कारक.

संप्रदान अपादाननो विशेष बोध—जेम कांकरी विगेरे दूर करी मृत्तिका शुरू करी पाणी नांखी पिरु निपजाववो. अहिंथां पूर्व मृत्तिका माहेला कांकरा दूर करी पाणी वने एक पिरु करवो तेमां मृत्तिकानी अशुद्धता तथा मृत्तिकाना दूटापणानो व्यय थयो ते अपादान, अने पिंड पर्यायनी उत्पत्ति ने संप्रदान, एम जवन व्यये कार्य निपजे.

जवन जवन व्यय विणु कार्य नवी दोवेरे । जिम दृपदें न घटत्व ॥ शुद्धाधार शुद्धाधार सुगुणनो अव्य ठेरे । सत्ता-धार सुतत्व ॥

जेम जवन कहेतां नवा पर्यायनी उत्पत्ति अने व्यय कहेतां पाठला पर्यायनो नाश ए थया विना कार्य निपजे नहीं; जेम माटीना पिंडमांथी पिंड पर्यायनो व्यय करी स्थास पर्यायनो जवन, स्थास पर्यायनो व्यय अने कोश पर्यायनो जवन तथा कोश पर्यायनो व्यय अने कपाल पर्यायनो जवन, अने कपाल पर्यायनो व्यय अने घट पर्यायनो जवन ए रीते कार्यनी उत्पत्ति थाय. तेमां जे नवा कार्यनुं उत्पन्न करवुं ते संप्रदान जाणवुं. तो जे घडो ते माटी उपादान शिवाय पथ्थर रेती सुतर विगेरेनो बने नहि.

६ अधिकरण, जे कार्य पर्यायने निपजाववुं होय ते जूमि, काल, आकाशना आधारे निपजे. जूमि, काल, आकाशना आधार विना कोश पण कार्य बनी शक्तुं नथी माटे ठहुं अधिकरण नामा कारक जाणवुं.

एम ठ कारक आत्मसिद्धिरूप कार्य करवाने माटे जाणवां जोइये.

१ जेम घटनो कर्ता घटना स्वरूपने जाणतो होय तेवो कुंजार ते तेनो कर्ता; तेम आत्मसिद्धिना स्वरूपने जाणतो होय एवो सम्यक् ज्ञानी आत्मसिद्धि करवा उद्यमवंत थयो ते कर्ता नामा पहेलुं कारक.

२ जेम घट कार्य करवानो अजिलाष ते कार्य नामा बीजुं कारक; तेम आत्मसिद्धि करवानो अजिलाष ते कार्य नामा बीजुं कारक.

३ जेम घट कार्यनुं करण कारक तेना बे जेद एक निमित्त बीजुं उपादान.

१ घट कार्यनुं उपादान सत्ता वाली माटी; तेम आत्म सिद्धि रूप कार्यनुं उपादान जव्य परिणति जाणवी.

२ जेम घट कार्य निपजाववानां निमित्त दंरु चक्रादि ठे; तेम आत्मसिद्धि निपजाववानुं निमित्त सुनये जिनेश्वरनी वाणी.

४ संप्रदान—जेम मृत्तिका शुद्ध करी पिंड निपजाववो; तेम मिथ्यात्व नाश करी सम्यक्त निपजाववुं; राग नाश करी वीतरागता

निपजाववी, विगेरे आत्मसंपदानुं प्रगट करता जवुं ते आत्मसंप्रदान कहीए. आत्म संपदा ते ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, दान, लाज, जोग, उपजोग, वीर्यादि अनंत आत्म संपदा ठे. आत्म परिणामे पोतेज पोतानी संपदानो दातार थई पोतानेज ए संपदा आपवी एटवे आत्म मांहे सत्तागते केवल ज्ञान दर्शनादि संपदा अनंती ठे पण देहदेहादिना ममत्वे मिथ्या ड्रष्टीए पोतानी संपदा पोते देखी शकतो नथी कारणके परमांहे लक्ष रमावी निज लक्षण तरफ लक्ष देतो नथी तेथी संपदा निकट ठतां पण अत्यंत दूर थई रहीं ठे ते नय युक्त जिनेश्वरनी वाणी रुपी हथीयारे करी मिथ्यात्वादि दूर करी पोतानी संपदा पोतानी ड्रष्टी गोचर करवी निज संपदा निज ड्रष्टी गोचर करनार पोतेज ठे माटे दातार पण पोतेज, अने देवानु निज शक्तिरुप धर्म ते दान ते पोतानाज धर्म जाणवा. अने निज शक्ति ग्रहण करनार पोतेज पात्र, के जे निज सत्तानो लाज लेऽ शके ठे एम दाता पात्र वेय त्रणे अजेदपणे जाणवा, माटे आत्म संपदानुं दान देवुं ते संप्रदान कहीए

५ अपादान—जेम घट कार्य माटे पूर्व पर्यायनो व्यय करवो कह्यो ठे, तेम सिद्धिरुप कार्य माटे मिथ्यात्व अने रागादि पूर्व पर्यायनो नाश करवो ते अपादान नामा पांचमुं कारक जाणवुं. अहिंआं विस्तार घणो ठे पण मुख्य मतलब लखी ठे, विशेषे तत्वज्ञानीउंधी अथवा सूत्रोथी समजी लेवुं.

६ अधिकरण—सर्वे लौकीक कार्यमां जूमि, काल अने आकाश ठे. तेम अहिंआं आत्म सिद्धिरुप अलौकीक कार्यमां मनुष्य गति वज्ररुपजनाराच संघयण तथा काल लब्धिनो परिपाक जाणवो. एम ठ कारक जाण्या विना जे उपदेश देवो ते पोताने तथा परने प्राय रागद्वेषनु कारण अने नव त्रमणनुं कारण जाणवु, माटे शुद्ध कार-

कना जाण पासे मोक्षरूपी कार्यनी प्रवृत्ति समजी एवाज सद्गुरुनी निश्राए वर्त्तवुं तेथी समजावनी प्राप्ति थाय, पोते पण कारक ज्ञान विना कार्यनुं करवुं ते रागद्वेष रूपी विषमता पामवानुं कारण ठे. यथार्थ कारक प्रवृत्ति जाणी मोक्षरूपी कार्य करवुं तेथी समजावनी प्राप्ति थाय. वर्णादि जरु धर्मवंत पुद्गल अने अन्य जीव उपर ममत्व अने रागादि करी मारा कर्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, रमणता, दान, लाजादि सर्वे गुणने केम आवरुं ?

वली स्वगुण आवरणनी परंपरा रागादिक विकार केम उपजावुं ? मारुं ज्ञानादिक धन मारी सत्ता चूमिमां अखंरु ठे. परथी देवुं अग्र परने देवुं ते माराथी वनी शके तेम नथी. परथी मारा सुख दुःखादिकनी हाणी वृद्धि निश्चयथी थइ शकती नथी तो समय मात्र पण पररण करवुं मने घटे नहीं.

स्वजाविक धर्म—मारा कर्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, रमणताने अनादिना अबोधथी उलटा प्रवर्त्ताववाथी थती रागादिक परिणति मटाडवा, स्वकर्तादिक धर्म शुद्ध नये प्रवर्त्तावतां कर्तादिक परिणामनी विषमता मटी समजावरुप सामायक थाय.

१ कर्ता—हुं शुद्ध चेतन मारा ज्ञानादिक स्वजाविक कार्यनो कर्ता स्वद्रव्यादिकमां एकज नित्य अबाधितपणे हुं. जरु पुद्गल स्वजावनो हुं केम कर्ता थउं ? पुद्गल चपल, जरु, अनंत जीवनी एंठ तथा सडण परुण विध्वंसणादि धर्म सहित ठे. ते पोतेज अनंत परमाणु जेगा थइ औदारिकादि आठे वर्गणा तथा संस्थानादि तथा वर्णादि बहुरूपे थाय ठे. तो तेनुं मिथ्या कर्तापणुं मानवुं मने न घटे.

२ जोक्ता—जेथी परिणाम विश्रांतीने पामे तेज जोग धर्म. तेतो मारा ज्ञान दर्शन चारित्रादि स्वतंत्र धर्ममां समाधिरुप अनंत जोग धर्म ठे, पण पुद्गल जे चपल जड अनित्य एंठ तेमां स्थिरतारुप

समाधि होय नहीं, तो एक पुद्गल इष्टमानी रागी अने एक अनिष्ट मानी द्वेषी थइ पुद्गल मांहे जोग धर्म मानी पुद्गल जोगे रींजी मारा स्वज्ञोग गुणने आवयों. पुद्गल इव्य के जे जगत् जीवनी एंठ दरेक जीवे विविध वर्णारूपे परिणमेला अन्तंती वार विषय कपाय जावे जोगव्या, लोकाकाशना सर्व प्रदेशे नवि नवि गति योनी प्राण प्रयासि करतां वारंवार स्पर्शा, तारुना तर्जना ठेदन जेदन आदि महा जयंकर वेदनाळ जोगवी जोगापणे विषय जोग अणमिलते प्रयासनी वेदना जोगवी परजावनो कामी थइ वारंवार जव ज्रमण करवुं ते जोग गुणनी विषमता मने केम घटे? ने जिन वचनामृत चाखी स्वजाविक जोग जोगववाने कोण मूर्ख प्रमाद करे? हुं तो ज्ञानादि स्वगुण समाधिनी जोगी थइ रहुं मारा इव्यादि चार मांहे जगत्ना इव्यादि चार नथी, मारो अन्तंतो जोग धर्म मारा इव्यादिक मांहेज ठे पण जगत्ना इव्यादिक मांहे नथी अने शुरू निश्चय नये मारे तथा पुद्गलने संबध नथी तो मारे स्वजाविक जोगधर्म ठोनी जरुमां जोगी थवु न घटे एम जाणी सम्यक्त्वान् जीव विरक्त थाय

३ ग्राहकता—मिथ्या जावे मारो ग्राहकता गुण विषम थयेलो ठे ते मारे समपणे करवो जोइये. ज्ञान दर्शन चारित्रादि रिद्धि तेनेज हुं ग्रही शकुं पण पुद्गलना वर्णादिक मारामां आवी शके नहि तो मिथ्या अजिमान केम कइं? समय समय ज्ञान दर्शनादिना उपयोगनी नवि नवि प्रवृत्तिनुं थवुं तेज मारो स्वकाल ठे, अने समय समय नवा वर्णादिकनुं उपजवु ते पुद्गलनो स्वकाल ठे ज्ञानादि स्वगुणरूप ग्राहने आत्मा ग्राहकज ग्रही शके तेमज वर्णादि पुद्गल ग्राहने पुद्गलज ग्रहण करी राखे जेम सोनाना पितादिक गुणोने सोनुंज ग्रहण करी राखे अने त्रांवाणा रक्तादिक गुणोने त्रांजुज ग्रहण करी राखे ठे. तो मारे परइव्यादिना ग्राहनी शी जरु ठे? जावथी

मारा ज्ञानादि कर्त्तादि गुणो रूप लक्ष्मी मने सुख तथा जोग आप-
नारी अने दुःख दुरितथी वचावनारा ग्राह्यो मारामांज ठे. कोइ
द्रव्यनी सत्ता कोइ द्रव्यमां जती आवती नथी मारे धननी जरुर
नथी जेथी विषयना विषम विकार उपजे ठे अने विषयोनी अने
मानादिनी श्वाथीज धननी ग्राहकता थाय ठे. पण हुं चेतनघन विषय
विकारथी रहित तुं विषय विकारतो औदारिकादि शरीरमां ठे. हुं ते
औदारिकादि शरीरने जाणुं तुं, ए मने जाणता नथी, एवा निर्विकारी
मारा रूपने ठोकीने जड जे औदारिक शरीरमां मारुं मनन करी
एना माटे क्रिया क्लेश तथा संकल्प विकल्प हुं केम करुं ? स्त्रीनी
ग्राहकता मने न घटे. काम रोग मारा आत्म अंगमांहे नथी. हुं शुद्ध
ब्रह्म, मारा ब्रह्मचर्य आचरण ठोकीने नवद्वारे दुर्गंधि वहेतुं रस
रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्यरूप सात धातु, सात मल, विष्टा
मूत्र जरवानी कोठी जेवुं रोमे रोमे दुर्गंधे श्रवतुं वायुपित्त कफ जल-
दर जगंदर प्रमेहादिक अनेक दुःखोनी खाण, कृणमां शोचतुं, कृणमां
विकराल, जयंकर, अनिष्ट दुर्गंधवा लायक देखातुं प्रेत रूप शरीरने
माटे कोण मूर्ख स्त्री आदिकनी ग्राहकता करे ?

हुं एकज तुं पुद्गलनी पेठे बहु परमाणुथी बनेलो ऊपचरित द्रव्य
नथी पण फक्त ज्ञान रूपज तुं. तिहांतो अशुद्धता होयज शानी ?
जिहां अन्य बीजुं मले तिहांज अशुद्धता होय पण मारा एक पणा-
मां अन्य प्रवेश करी शक्तुं नथी तो जरुर हुं एकज तुं तो शुद्धज तुं.
तो जे एक होय ते नित्यज होय पण जे अन्य अन्य परमाणु संजोगे
बनेलां द्रव्यो स्त्री पुत्रादि घर वस्त्र आचरणादि नित्य होय नहि,
जेनो संजोग तेनो अवश्य विजोग होयज. हुं अन्य संबंध विना
एकज तुं तो अविनाशी पण तुं. अने कामादि रोग ते तो अनंता
परमाणुथी निपजेली वर्गणाउथी बनेलां वीर्यादि रस रुधिर मांस
मारा मांहे नथी पण ज्ञानादि दानादि शक्ति तेज मारुं वीर्य ठे. स्त्री

आदिकनी ग्राहकता मने केम घटे? मारुं धन चोर देखी शके तथा चोरी शके तेवुं नथी, शीत ताप वरसाद मारा अरुपी अंगने लागी शके तेम नथी, मारो माल मिलकत मारा असंख्यात प्रदेशरुप सत्ता नूमि मांहे अतूट अक्षय अखंड ठे ते कोश पण खंडित करी शके तेम नथी. सोनानी पीलाश सोनाथी न्यारी करी चोरी जाय तो मारी सत्ता धनने पण लेइ शके माटे मारे घरनो शो खप ठे? मारे पुद्गलनो शो खप ठे? एम अनेक ग्राहकता पुद्गलमां अहंपणुं जाण्या मान्याथीज थाय ठे कया दुःखने मटाडवा तथा कया सुखने वधारवा पुद्गल वस्तुनी ग्राहकता करुं? पण में श्री गुरुना परम अमृत रुप वचन रसने पीधो हवे परद्रव्य माटे परनी ग्राहकता मने न घटे.

॥ दोहा ॥

प्रवचन ग्रथे ज्ञाखीज, पूर्णानंद निजमांहि ।

विषय विष उत्तरी गयो, तव पुद्गल खप नांहि ॥

पर पद आतम द्रव्यको, कहन सुनन कवु नांहि ।

चिदानंद धन खेलही, निज पदतो निजमांहि ॥

एटले मारुं पद मारामां ठे परग्रहणवुद्धिए ग्राहकता गुण मिथ्यात्व अवस्था मांहे विषम कयो पर मांहे रक्त थड परग्रहणवुद्धि करी अथवा परमांहे छेपी कलुपित थइ निज गुण ग्राहकता चूक्यो; ते रागादि मने न घटे, मारे परथी कांइ काम नथी एम उदासिन्न-वृत्ति करी पर ग्राहकतानी बुद्धि ठोकुं, ते समजावनी आय (लाज) कहीए

व्यापकता—व्यापक द्रव्य अने व्याप्य एटले गुण जे सोनुं द्रव्य ते व्यापक ठे, अने जाराश, चीकाश, पीलाश आदि जे गुणो ते व्याप्य ठे. तेम हुं अरुपी आत्मा, ते व्यापक हुं. मारा ज्ञानादि गुणो-

ज मारामां व्याप्य ठे. परमांहे मारुं कांश्च नथी. व्याप्य व्यापक अचेदपणे हुं एकज बुं. तो त्रिन्न ड्रव्ये मारे व्यापकता करवानुं शुं काम ? जेथी मारो व्यापक गुण पुद्गल मांहे व्यापी विषमताने करे ठे. जेम कोश् बलता घरमां पेशी पोते बलवानी वेदना जोगवे. ठे, फरता चक्र उपर चढी पोते फरे ठे, तेम अनंत पुद्गलथी बनेली चीजो,—सरुण परुण. विध्वंसन रुपमां व्यापी रागद्वेष करी शांत गुणने चूकी व्यापक गुणनी विषमता करवी मने केम घटे ? हेय मान (ढांडवा योग्य) पर वस्तुनी व्यापकता ठोकी निज व्याप्य निजमां स्थिर करी स्वप्नावे वर्त्तवुं, ए समप्तावनो लान्न ते सामायक जाणवुं.

रमणता—रमणता गुणथी अनंत पुद्गल संयोगी विनाशी जगत् जीवनी एंठ एवा धन, स्त्री आदिने अज्ञानथी मनोहर जाणी ते मांहे चित्तनुं रमवुं. एकने अनिष्ट जाणी द्वेषनी वेदना वेदवी, एकने इष्ट जाणी राग रीजे रमवुं, ते मने न घटे, केमके जेम हजारो मणनो धूळनो ढगलो करी तेमांहेथी स्त्री, वाग, गजादि विविध घाट सुरुप तथा कुरुप बनावी एकने इष्ट एकने अनिष्ट कटपी दुःखी, हर्षित-थवुं. तेमज चौदराज लोक मांहे जरेला पुद्गल ड्रव्य अनंत परमाणु रुप, अनंत वर्गणा, अनंत खंधरुप सर्वे जरु ज्ञावे सामान्य; सरुण, पडण, विध्वंसन, मिलाण, विखरण गुणे सामान्य एवा पुद्गलो मां-हेथी बनेलां धन, पुत्रादिने रम्य जाणी चित्त रमाववुं, अथवा अ-रम्य जाणी जुगुप्सा करवी. ते मारा ज्ञानादि शुद्ध रम्य रमण परि-णाम रोकी-चूकी मिथ्या रमण करवुं मने न घटे, हुं शुद्ध चेतन राजा बुं. एवा पुद्गल विषनी आशार्थी दुःखीत थवुं (जटकवुं) मने न घटे. एम स्वपर विवेक ग्रही निज रम्य रमण परिणामी थवुं एज मारो स्वप्ताव ठे. ए विना मारा ज्ञानादि गुणने विषम करी अज्ञानथी दुःखो सह्यां. शुद्ध दर्शन विना मिथ्याद्रष्टी थश् परपदमां

आपो लखी जव ज्रमण करतां जयंकर विकारो सह्या चारित्र गुणनी विषमताए पराचरण एटले विषयकपायादि आदरी विषयकामना शांति अर्थे विषय जोगववाना पदार्थो मेलववा बहु प्रयास करी क्रोधानले धगधगित पोते क्रोधानलमांहे दुःखित थयो कोपाग्निए अन्य जीवोने तपावी, मारी, ताडी, वैरादि बांधी बहु जव ज्रमण जन्म मरण वियोगादि सह्यां, माने चढी अपमान पामी अनेक वेदनाउ सहन करी, माया आदरी आर्त्त रौद्र ध्यानमां वर्त्ती स्त्री आदि पर्याय पामी परवशादि बहु दुःखो सह्यां, लोजे लागी ताप तृपा जूख वेठी, आराम ठोनी दरिया हुंगर विकट देश प्रवेश करी परतत्रादि पामी प्राणघात पर्यंत दुःखो सह्यां, परहास्य करी मित्र समान परजीवने कपाय ऊपजावी पोते कपायी थइ निज समान सर्व स्वजाति जीव ड्रव्यथी वैर परिणाम करी वैरनी परपराए बहु दुःखो सह्यां, पुद्गल वर्णादिमांहे रक्त थइ रींक मानी स्वसत्ता चूकी स्वगुण वियोगे पुद्गल संयोगे बहु दुःखो सह्यां, विनाशीक जे पुद्गल ड्रव्य धन कुटुंब परिवार आयुष्य कामजोगनी शक्ति कुधादि शरीरनी शक्तिउने राखवा परिणामी थइ ते शक्तिउनो नाश थतां जयज्जीत थइ जयंकर जय वेदनाउ जोगवी ते ठतां पण स्थिर न रहेवा लायक एवी पुद्गलीक शक्ति पुद्गलीक रिद्धि विनाश थतां बहु शोकातुरी जोगवी, मलमूत्रनुं पूतलुं चर्म पटले ढंकायलुं, स्नान विलेपनादिके, वली वस्त्र आचरणादिके शणगारी अंदरनी अशुचि जूली कोइ देखीती अशुचि देखी डुगंठा कीधी डुगंठानो परिणामी थयो, डुगंठानी वेदनाउ वारंवार जोगवी, वेद कुदय जे मदन परिणाम ते पण औदारिकादि शरीर माहे थता विकारमां ममत्व करी, रमण करी ते विकारनी विषमताने निवारवा अनेक परतंत्रता जोगवी जेम विषधरनुं विष चढ्याथी मूर्ठादि वेगो उपजे तेम कामविषयना वेगे आकरां दुःखो सह्यां एम अनेक परिणामे पराचरणी थइ निज सत्ताथी

गुणने सोनुं ठोरुतुं नथी. तेम जे सोनानो प्रदेश ते मांही त्रांवाना प्रदेशे प्रवेश कर्यो नथी माटे कोइ द्रव्य कोइ द्रव्यनो प्रदेश अन्य द्रव्यना प्रदेशमां प्रवेश करी शकतो नथी. वली कालथी त्रांवाने गलवामां जेटलो समय थाय ठे तेटला समयमां सोनुं गली शकतुं नथी. वली जेटलो समय सोनानी स्थिति रहे ठे तेटला समय त्रांवानी स्थिति रहेती नथी. वली सोनानी उत्पत्ति प्रलयनो जे समय तेज त्रांवानी उत्पत्ति प्रलयनो समय थाय नहि. एक द्रव्यनी काल परिणति वीजानी काल परिणतिमां प्रवेश करी शके नहि. सोनानो स्वप्नाव त्रांवामां आवतो नथी. कारण के वस्तु द्रव्यत्वपणे पोताना सर्व प्रदेशे स्वगुण वर्तनाए परिपूर्ण. जरी ठे तिहां अन्य प्रवेशनो अवकाश नथी. जेम मीठानी कांकरी पोताना स्वप्नाव द्वारगुणे सर्वे अंगे जरी ठे तिहां मीठश खाटाश आदिने रहेवानो अवकाश नथी तेमज सर्व प्रदेशे धोलाश अने कफहारकादि गुणोथी सर्व अंगे परिपूर्ण ठे तिहां अन्य गुणनो प्रवेश संज्ञवेज नहि. शाक मांहे विविध तरेहना मशाळा जेगुं आवेलुं मीतुं पोताना द्वारादि स्वप्नावने तथा कफ हारकादि गुणोने ठोडतुं नथी तेम मारा द्रव्य क्षेत्र काल जाव मांहे पुद्गलना द्रव्य क्षेत्र काल जावनो प्रवेश नथी पण मिथ्याद्रष्टिण हुं मन वचन कायाना जोगरूप पुद्गलो तथा तेना संबधिक धन कुटुंबादिक एउने हरकत करनारा अन्य पुद्गलोने अनिष्ट जाणी द्वेषी केम थाऊं ? जोगने वशे ग्रहेला पुद्गलो मारा होय नहि. हुं द्रव्य क्षेत्र काल जावथी अनादिथी अनंता काल सुधी निश्चयनये चैतन्य शक्तिमय शुद्ध तुं-बुद्ध बुं. सत्ता जोतां सिद्ध समान तुं अलख अतुल अविचल चिद्द्विलास प्रकाशवान स्वसुख स्थानक हुं पोतेज तुं. त्यां द्विधा नथी. तिहां कोइ मने अनिष्ट केम शके ? मारी सत्ताचूमिमांही मारी स्मृद्धि सहित वसुं तुं ते इन्द्रिय गोचर नथी. मारुं जे आत्मिक धन ते

मारथी प्रदेशांतर थाय नहि, माटे, निर्जय निराकुल ठतां अनिष्ट संजोग विना जूवुं अनिष्ट संजोगनुं ध्यान केम करुं? हुंज मारा लक्षणने जूली मारथी विलक्षण जे पर पुद्गल इव्य चपल परिणामी राख्या रहे नहि एवामां आपो मानी मारा सम परिणामनी समाधिने चूकुं तुं तेथीज में अनंता जव ज्रमण कर्या हवे हुं एवा अनंत ऊपाधियुक्त शरीरमां आपो मानी हुं अनिष्ट संजोगथी विपमता करुं नहि. पण ते विपमता ठोडी निरुपाधि आत्म समाधिमा समपरिणामे स्थिरथोज रहूं.

पीना चितवन आर्त ध्यान—आत्मा पोते अवाधित, अस्पर्शी, अनंत कालथी अनंती पुद्गल वर्गणाउं साथे गति योनि करतां आत्मानो प्रदेश मात्र खर्यो अथवा घसायो नथी कारणके स्पर्शवान् पुद्गलो अस्पर्शी आत्माने स्पर्श करी शकता नथी. पीना चितवन ए पण देह बुद्धिथी थाय ठे, माटे जरु देहनी अंदर आपापणु मानी हु जरु जाव केम जोगवु ? समण परण विध्वंसन स्वजाव औदारिकादि शरीरमां होय ठे, पण कोड रोगादि वेदना मारा अंगमां नथी. तो हुं अठती वेदनाने केम जोगवुं ? एवी वेदनावाला शरीरमांथी आपापणानो लक्ष ऊठावी अव्यावाध सहजानंद स्वभावमां लक्ष देइ स्वभाविक समाधिमांहे स्थिर थवुं तेथी पीनाचितवन मटी निर्विकल्प समाधि मले

अग्र शौच आर्त ध्यान—एटले जविप्य काले मारुं शु यशे ? मारो कोण आधार ठे ? इत्यादिकनुं चितवन मिथ्या इष्टीएज थाय ठे. पण मारो आत्म इव्य त्रणे काल चेतनमूर्ति ठे, पर परिणतिना संयोगथी जरुना ममत्वनी चपलतामां हुं व्यापेलो तु, हवे श्री गुरु चरण पसाए जिनेश्वरना अमृत समान वचनोनो स्वाद खेड मारुं मिथ्याविप कंइक उत्तयुं ठे, तो परनुं ममत्व करी हुं आगामी कालनी चिंतान करुं.

ठप्पय ठंद.

हों निहचें तिहुँ काल, शुद्ध चेतनमय मूरति ।
 परपरिनति संयोग, जई जफता विस्फुरति ॥
 मोह करम परहेतु पाइ, चेतन पर रचै ।
 ज्यों धत्तूर रस पान, करत नर बहुविध नचै ॥
 अवसमयसार वर्णन करत, परम शुद्धता होउ मुऊ ।
 अनयासवनारसिदास कहि, मिटौ सहज भ्रमकी अरुऊ ॥

निश्चय नथी हुं त्रणे काले शुद्ध चेतनमयमूर्ति (पिंन) तुं, पर
 परिणति एटले पुद्गल परिणतिना संयोगथी जफता रूपविष चढ्युं तेथी
 चपलता थइ, मोहनि कर्मआदि परहेतु पामीने चेतना निज स्वरूपने चूढ्यो
 ठे, पोतानो लक्ष परस्वरूपमां रमतां स्वसत्ता द्रष्टिगोचर करवानो अव-
 काश मढ्यो नथी, देखी परनो कर्ता जोक्ता थयो ठे, जेम धत्तूरनो रस
 पी निशो चरवाथी, मनुष्य बहुविधे नाचे हसे ठे, तरेह तरेहवारना
 चाला करे ठे, तेम परममत्वी जीव जेने मोहरूप मदिरा पीधी ते अनेक
 तरेहना हास्य विद्वानापादिक करे ठे. हवे समयसारनुं वर्णन करतां
 एटले जैन सिद्धांतथी आत्म परिणति आत्ममय बखाणतां मने
 परम शुद्धतानुं उलखाण थयुं, अनयास एटले बीजा शास्त्रोनो प्रयास
 कर्याविना सहज सिद्ध समान आत्म स्वरूपने (शुद्ध ब्रह्मने) जा-
 णवा नहि देनारो पुद्गलमां अहंपणानो भ्रम अनादिथी अनात्म
 संगे थएलो तेनी अरुऊट मिथ्या मतमां मग्नता लागी रही हती ते
 मटी जाउं.

समयसारनो अर्थ—जे वचन आत्मानी परिणति आत्ममय ब-
 तावनार तेज वचन जिनेश्वरनां जाणवां, अने पर परिणतिने आत्म-
 मय बतावे ते जिनेश्वरनुं वचन नथी माटे स-मय—कहेतां आत्ममय

पुण्यानी उदय भया, ए पुण्या अनंत गुणोना धणी हे, मोको सुखना
 देवे ही एमनी सेवा तिकि करीये, आज मागे पाप हरे भया, मोटा
 मागे डोनी पुण्यानी समगम भया, आज मने एमनी दर्शन भया,
 वली तेना पुण्याना सेवापथी चित्ता महे आज अनंत पाप भया, आज
 णामोर्तुं वडिमान ते पणु समजावुं कारण मोटे समजाव कर्हीए.
 कर्हीए, देहा तरेवना, तरेवना, रगादिंक रहित मधुर्य परि-
 देव उमंगुं आवुं, चित्ता प्रमादुं प्रसवुं ते प्रमाद जावना
 शासनना प्रभावकी आदिने देवी जाणी पोतना चित्ता तेव मजेना
 श्रित अस्मासी, समकृत, जित्थरना वचनना विस्तर करवा बाळा
 चाणीदिंक स्वरेय रमण करत, सहेजानदी, डोनानदी, दर्शनानदी,
 पोतना धर्माचरु अने बीजा पण स्वय समयना जाण एना आ-
 बीजा प्रमाद जावना कर्हीए हीए.

सामाजिक जाणुं.

मित्र जावना जाणुवी, देहा सर्व जीवो जपर समपरिणाम करवा ते
 नहि, सर्व पोतना डोनानदना तौका थाव एम चितवन करुं ते
 वादिंकने वश रहेवा हेज नहि. वली कोरुं वीलकल वुं चितवुं
 अगर हेज पण मारी शिकि विशेष हेय तो एक जीवने पण मिथ्या-
 हे, मारी जे शिकि हे ते कोरवी शरिता तावाथी जीव वधुर्विसे ठावुं
 पही विषय कषयादिंकनी वेदना वेदी तवयमणना तापने योगवे
 वुं कल्याण वाहावुं जेम के मागे जीव मित्रो मिथ्यावादिंकने वश
 वुं, जेम पोतनुं डेह डेहाए तेम मित्रुं पण डेह विचारुं, सर्व जी-
 प्रथम मूर्ती जावना कर्हीए हीए-सर्व जीव साथ मित्रजावुं चित-
 (१) मूर्ती (२) प्रमाद (३) मधुर्य (४) कोराय.

जाववी ते नीचे प्रमाणे.

ए अखंड आत्म संपदनुं योगवुं. हेवे धर्म स्थाननी चार जावनावे
 ठाववी सिद्धपदने आप. एम केपतीत स्थान करी परम स्थिरता-

दोही: रूप करवा नहि, मावुं, ताडुं, जगती, जगदी नहि करवा
 विरयना, हिमा, जल, व्यभिचार, व्यसन विरि अनाचारने सेवना
 अजाण, देव गुरु धर्मादि तत्वेन नहि जाणतां अविनय, आशयाना,
 आ सत्सारां अनेक जीवो कर्मन वश पडवता; पोताना स्वधरणा
 श्रीजी मध्यस्थ जावना कहीए दीए.

जव कोभा कोभा कही, करतीं सर्व जपाय ॥

॥ दोही ॥ समकीत दायक गुरु तोणी, पच्युवयार न थाय ।

प्रमादित थुं ते पण समजाव जाणता.
 णामां रडेवुं एज मने परम प्रमादुं कारण ते. गुणीना गुणानुवादमां
 करवावावाते हुं कवी रीते गीतुं ? माज प्रमाद सहित तेमनी आ-
 सोदना केरपी सोडित जीवोत जिनवचन सुधारस वाटी सर्वत
 रनां वचनेष परम अमृत पाडे परम आदरुद उपजाववावाला,
 मागो सरखाना मिथ्यावादि रोगीनी निर्वृत्त करवावाला, जिनश्व-
 कः. एमने तो रोगादिक सर्व रोगीनी जक सुखी वावकी नांवी ते,
 मायुं के पण कांड डःखुं नथी के ते रोग टावताने हुं सेवा नाकि
 परम पुरुष तो आत्मीक पुणानंदना योगी ते, रोग रहित ते, जेवुं
 जातमां जे आपवना पदाथो ते तो जगत् जीवनी अज ते ने ए
 परम पुरुष जेमां कोड वाते खामी नथी तेमने हुं शुआपी थोक ?
 आपुं. विपयनी नीख जोडवा, सोति नगरुं राज्य देखावुं, एवा
 वाळवाने कोण समर्थ थाय ? जेने अनंत मरण टाळी अनंत जीवन
 उपकार ए उपकार बीजा थकी निपज नहि, एवा उपकारोना वदवा
 पदवाचके, दुर्गाति पडवाने वारे एवा जे गुरु महाराजानो महा मोदी
 विनाकारणे उपदेश करी धर्म पमाके, शुक मारुंसां वावी मोझे
 साकोव जगम परमात्मा रुप अहो एमनी उपकार । अज्ञानी जीवोने
 लागी स्वधरमणे रमण करवावाला, वली माग धर्माचार्य आ कोवे
 दातार ते, तत्त्वज्ञानी तत्त्वविज्ञानी तत्त्वशास्त्री, स्वधरना जाण, पर-

दवाएलो ते प्रगट करवाने जिनोक्त जे व्यवहार ते कारण धर्म अथवा तारण धर्म कहीए व्यवहार कियारूप धर्म ते निमित्त कारण ए वहारनुं ठे. श्रुत तथा चारित्र धर्म ते उपादान ठे. तेनुं साधन उत्सर्गानुजायी शुद्ध व्यवहार ठे. वस्तुनो सत्तागत शुद्ध परिणाम स्व-गुण प्रवृत्ति कर्त्तादिक अनतानद रूप सिद्धावस्थाए रह्यो ते एवंभूते उत्सर्ग उपादान शुद्ध धर्म ठे ते धर्मनुं ज्ञासन रमण स्थिरतापणे चेतन तन्मय उपयोगे एकत्व पणे चितवन ते धर्म ध्यान कहीए

हवे तेनी चार ज्ञावना ठे ते ध्याववी—ज्ञानज्ञावना, दर्शन-ज्ञावना, चारित्रज्ञावना, वैराग्यज्ञावना हवे ए चार ज्ञावनानां लक्षण (१) ज्ञान ज्ञावनाथी निश्चलपणुं थाय एटले परवस्तुमां आपो ज्ञासे नहि, पोताना समज्ञावमां स्थिरता पणुं आवे (२) दर्शन ज्ञावनाथी मुंजाय नहि एटले मत्र तत्र देवदेवीना चमत्कार प्रमुख देखी साचुं माने नहि, जाणे के ए सर्वे परज्ञाव ठे, कृत्रिम वस्तु ठे, ए सर्वे मारे असत्य एटले निरुपयोगी ठे अने अकृत्रिम वस्तु जे आत्म स्वरूप अनंत गुण पर्याय सहित तेज सत्यपणे माहरुं ठे

३ चारित्र ज्ञावना—पूर्वकृत कर्म निर्जरे अने आत्मानी परिणति आत्म ज्ञावमां रहे, नवां कर्म न उपाजें ते

४ वैराग्य ज्ञावना—स्त्री आदिना संग तथा पौञ्जलिक कर्म सुखे तजाय, सशय मात्र न रहे. ए चारे ज्ञावनानुं स्वरूप जाणवुं पुद्गल जोगथी उदासिन्नवृत्ति थाय. जेने सम्यक्त्व निर्मल ठे तेने जोगमां मशता होय नहि पण कोइ अणसमजु जीव एम जाणे के झूने देवगुरु धर्मनी श्रद्धा ठे, हुं समकीती तुं, तेथी मने कंइ कर्म धणी ध्यानथी झुन निर्जय थइ विषयो जोगवे अथवा संसारी सर्वे ठे तेज धर्म शुद्ध ध्यान दण जे समये जोगमां मशता ठे ते समये माटे जोगथी विरक्त थइ सजायती होती नथी ए वावत स्याद्वाद

नयथी जाण्या विना पोते जोगादिकनी मग्नतामां वर्त्ते, अन्यने वर्त्तावे तो ते अनंत संसारी थशे तेणे जिनेश्वरनी आज्ञा यथार्थ जाणी नथी कह्युं ठे के-

उक्तंच सर्वैया तेवीसा-सम्यक्वंत सदा उर अंतर, ज्ञान विराग उन्नै गुण धारै, जासु प्रजाव लखै निज लक्षण जीव अजीव दशा निरवारै, आत्मको अनुज्ञौ करी व्है थिर, आपु तरै अरु औरनि तारै, साधी सुद्रव्य लहै शिवशर्म सुकर्म उपाधि व्यथा वमिहारे ॥

मनहर बंद.

जबलगु जीव शुद्ध वस्तुकों विचारे ध्यावे ।
 तब लगु जोगसों उदासि सर्वंग है ॥
 जोगमें मगन तब ज्ञानकी जगन नाही ।
 जोग अत्रिलाषकी दशा मिथ्यात अंगहे ॥
 तातें वीषैजोगमें मगनसो मिथ्याती जीव ।
 जोगसों उदासी सो समकिति अत्रंग है ॥
 ऐसी जानी जोगसों उदासी व्है मुगती साधै ।
 यहै मन चंग तो कठौतमांही गंगहै ॥

सम्यक्वान् जीव सदा पोताना उरमां ज्ञान अने वैराग्य बन्ने गुणने धारण करे ठे. ज्ञानना पसायथी निज आत्म लक्षणने उलखी आत्मजाव मांहे स्थिर थाय, अने अजीव दशाने मिथ्या जावे ग्रहण करेली ठे तेने वैराग्य पसाये निवारे अने आत्मानुभवमां स्थिर थाय, पोते पण विज्ञावरुप जलथी तरी उपर आवे, अने अन्य नव्य जीवोने पण परजोग रसरुपी जलथी जरेला संसार समुद्रथी तारे, पोतानी सत्ता दृष्टीगोचर करी स्वतंत्रत्वं वर्त्ते, अने कर्म उपाधिनी

वेदना वर्मा नांखे. जीहां सुधी जीव पोताना ज्ञानानंदी शुद्ध स्वरूपने विचारे, ध्यावे, लक्ष्मां राखे, पोतानी शुद्धतामां रमण करे, त्यां सुधी सर्वांगे जोगथी उदासिन्नपणुं होय, पण जे समये जोगमां मग्न होय ते समये मिथ्यादशा ठे, अने ज्ञानमां जागृत दशा नथी केमके जोग अजिलाप मांहे वर्त्तवुं ते तो मिथ्यात्वनुं अंग ठे. तेथी विषय जोगमां मग्न रहे ते जीव मिथ्यात्वी कहेवाय, अने विषय जोगथी उदासी रहे ते अजंग पणे समकृती ठे. चित्तरुपी कथरोट जोग परिणाम विना चंग निर्मल ठे, तेमां आत्म परिणतिरुप गंगा वहीज रही ठे. एवुं जाणीने अहो जव्य जीवो! जोगथी उदास थइ मुक्ति साधवी समजावनुं सेववुं ए मुक्तिनुं साधन ठे, पूरण समजावतो वारमें गुणठाणे थाय, पण सम्यक्त प्रगट थया पठी पूरण समजाव रुपी साध्य डष्टीमां राखी जेम जेम समजाव प्रगट थाय, तेम विधि नीषेध चाल आदरी श्रावक तथा साधु सर्वे समजावना उद्यममांज प्रवर्त्ते एम वैराग्य जावनाथी परपदनो ममत्व वृटी समजाव आवे सिद्धि थाय.

सामाश्य वयजुत्तो, जावमाणे होइ नियम संजुत्तो ।

विन्नइ असुहं कम्मं, सामाश्य जत्तिआ वारा ॥

सामायक व्रत युक्त ज्यांसुधी मनने विषे सरखे नियमे संयुक्त होय त्यांसुधी अशुभकर्मने तोडे, जेटली वार सामायक जावमां होय तेटली वार सामायक करनार श्रावकने पण साधु जेवो जाणवो, ए माटे बहु सामायक करवां, माटे साधुने तथा श्रावकने समजाव जाववो, समजावना परिणामी थवुं तेमां जेद नथी एवी रीतनी जे जावना जाववी, अथवा एवी जावनामां जेनुं चित्त स्थिर थाय ते धणी ध्यानथी समजाव करी स्थिर जावने पामे, माटे तेवा प्राणी जे ठे तेज धर्म शुद्ध ध्यान करवाने योग्य ठे, वाकी बीजा अयोग्य ठे, माटे जोगथी विरक्त थइ समजावे वर्त्तवुं, मन अतिशय चंचल ठे

ढोडावी सिद्धिपदने आपे. एम रुपातीत ध्यान करी परम स्थिरता-
ए अखंरु आत्म संपदानुं जोगववुं. हवे धर्म ध्याननी चार जावनाउं
जाववी ते नीचे प्रमाणे.

(१) मैत्री (२) प्रमोद (३) मध्यस्थ (४) कारुण्य.

प्रथम मैत्री जावना कहीए ठीए—सर्वे जीव साथे मित्रजावनुं चिंत-
ववुं, जेम पोतानुं इष्ट इष्टीए तेम मित्रनुं पण इष्ट विचारवुं, सर्वे जी-
वनुं कल्याण चाहावुं जेम के मारा जीव मित्रो मिथ्यात्वादिकने वश
पडी विषय कषायादिकनी वेदना वेदी जवत्रमणना तापने जोगवे
ढे, मारी जे शक्ति ठे ते फोरवी शत्रुना तावार्थी जीव वंधुर्जने ढोडावुं
अगर हजु पण मारी शक्ति विशेष होय तो एक जीवने पण मिथ्या-
त्वादिकने वश रहेवा देजं नहि. वली कोइनुं बीलकुल बुरुं चिंतववुं
नहि, सर्वे पोताना ज्ञानानंदना जोक्ता थाउं एम चिंतवन करवुं ते
मित्र जावना जाणवी, इहां सर्वे जीवो उपर समपरिणाम करवो ते
सामायिक जाणवुं.

बीजी प्रमोद जावना कहीए ठीए.

पोताना धर्माचार्य अने बीजा पण स्वपर समयना जाण एवा आ-
चार्यादिक स्वरूप रमण करता, सहजानंदी, ज्ञानानंदी, दर्शनानंदी,
श्रुत अज्यासी, सम्यकवंत, जिनेश्वरना वचनना विस्तार करवा वाळा
शासनना प्रजावको आदिने देखी जाणी पोताना चित्तमां तेउं मखेतो
हर्ष उमंगनुं आववुं, चित्तमां प्रमोदनुं प्रसरवुं ते प्रमोद जावना
कहीए, इहां तत्त्ववेत्ता, तत्त्वजोगी, रागादिक रहित मध्यस्थ परि-
णामीर्जनुं बहुमान ते पूर्ण समजावनुं कारण माटे समजाव कहीए.
वली तेवा पुरुषोना मेलापथी चित्तमां महा आनंद प्रगट थाय. आज
मारे ज्ञानी पुरुषोना समागम थयो, आज मने एमनां दर्शन थयां,
हवे हुं एमनी सेवा जक्ति करीश, आज मारां पाप दूर थयां, मोटो
पुण्यनो उदय थयो, ए पुरुषो अनंत गुणोना धणी ठे, मोद सुखना

कर्म बंध करे अने जे जे समय मन वचन कायाना जोग स्थिर रहे ते काल पण रुडो जाणवो. एटले दिवस रात्री घडी पहोर पल स्थिर उपयोगमां वत्ते ते वेळा धन्य करी मानवी एज सामायक ठे. जेथी पोताना ध्याननो व्याघात थाय त्यां न जवुं. वली वाचना, पृष्ठना, परिश्रटना अनुप्रेक्षा, ए मारे धर्मनां आलंवन ठे माटे समजावने माटे अवश्य एज करणी ठे ए करणीनुं आलंवन न होय तो ध्यान रुपी मेडी उपर चढी शके नही अने आलंवन वालो रुमी रीते चढी शके परमात्माए मन वचन कायाना जोगनी स्थिरताने ध्यान कहुं ठे एज समजाव जाणवो ते माटे धर्म ध्यान कहीए ठीए ते धर्म ध्यानना चार पाया ठे

(१) आज्ञा विचय (२) अपाय विचय (३) विपाक विचय (४) संस्थान विचय-

आज्ञा विचय—वीतराग देवनी आज्ञानेज आत्महितकारी माने सदहे—जगंतते ठ ड्रव्यनुं स्वरुप वताव्युं ठे, ते साते नये करी चार प्रमाणे करी चार निक्षेपे करी इत्यादिक जेम जाण्या ठे ते मध्ये पांच ड्रव्य अजीव जाणी तजवा कह्या ठे एक आत्म ड्रव्यना शुद्ध गुण पर्याय आदरवा कह्या ठे ते आत्म स्वरुपनी उलखाण माटे स्याद्वाद स्वरुप नित्यानित्य पक्ष निश्चय व्यवहार प्रमुखे करी तेनुं स्वरुप विचारी नि संदेह पोताना स्वरुपनुं ध्यान करे ए परमात्मानी आज्ञा प्रमाणे यथार्थ उपयोग जासन थये थके हर्ष उपजे ते उपयोगमां निर्धार जासन थयुं. तेनुं रमण करवुं ते अनुजवीने तन्मय थवुं तेने आज्ञाविचय धर्मध्यान कहीए. उक्तंच.

अप्पाणंजावे विहरमाणे गोयमा खिणेगम् मक्कये पमायं ।

इत्यादिक सूत्रोथी जाणवुं—हे गौतम! शुद्ध निर्मल ज्ञान दर्शन संयममय आत्माने जावतां विचरवुं ह्यण मात्र पण प्रमाद करवो

जिन वीतरागनां वचन नथी पाम्या ते पुरुष तिदण आकरा
दुःखो पामे, वली जिन वचन पामी प्रमाद करे ते प्रमादी घोर दुःख
रुप संसारमां ञटके.

णाणं नरस्स सारं, सारं णाणस्स सुद्ध सम्मत्तं ।

सम्मत्त सार चरणं, सारं चरणस्स निव्वाणं ॥

नरञ्चवनुं सार ज्ञान ठे. ज्ञाननुं सार सम्यक्त ठे. सम्यक्तनुं
सार चारित्र ठे. अने चारित्रनुं सार निर्वाण ठे. ते ज्ञान जिनेश्वरनी
आणामां वर्त्ततांज ठे.

अपायविचय—अनेक संसारी जीव अनंत समाधिमय पोतानुं
आत्म स्वरुप नूली कर्मने वश पड्या दुःखी थाय ठे. शायी के अ-
ज्ञान, राग, द्वेष, कपाय, आश्रवना वशे. पण हे चेतन ! तुं तो हवे
जाण पुरुष थयो, पुद्गल वस्तुमां पोतापणुं मानी पर कर्त्ता पर जो-
क्तादि परिणामपणे केम थवुं ? हे चेतन ! ए वस्तु जरु तारी
नहि, ए तुं नहि, तुं चैतन्य ठे, ए जरु ठे. तारुं तो अनंत ज्ञान,
दर्शन, चारित्र, वीर्य ठे. वली निश्चय नये तुं शुरू, वुरू, अविनाशी,
अजर, अनादि, अनंत, अक्षय, अक्षर, अनक्षर, अचल, अकल,
अमर, अकमी, अनामी, अबंध, अनुदय, उपयोगी, अचेदी, अवेदी
अठेदी, अखेदी, अकषायी, असखायी, अलेसी, अशरिरी, अना-
हारी, अव्याबाध, अनावगाही, अगुरुलघु परिणामी, अतींद्रिय,
अप्राणी, अयोनी, असंसारी, अमल, अपरंपर, अनाश्रित, अकंप,
अविशुद्ध, अनाश्रव, अलख, अशोकी, असंगी, अनाकार, अमूर्ति,
लोकालोक ज्ञायक हुं. तारी ज्ञायकता रुप निर्मल स्फटिक मणिनी
जलकमां जगत्ना सर्वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, त्रिकालवती उत्पाद्
व्यय ध्रौव्यनुं प्रतिज्ञासन थइ रह्युं ठे. वली तारी जगमग दर्शन
ज्योतिमां षड्द्रव्य दर्शी रह्या ठे. वली एवी ज्ञान दर्शननी स्थिर

परिणति सदाए अखंड धाराए परिणमी रही ठे. वली नारी चैतन्य शक्ति अखंड, अतूट, अखूट, अपरंपार, निराधार, नि संग, निर्जेय, अनाकुल ठतमां ठती ठे. तुं स्वगुण जोगी, स्वसत्तादानी, निजस्वरूप रम्यमां रमण करवावालो शुद्ध चिदानंद तुं, ठतां जरु पुद्गल के जेमांही दुःख श्रम विषय विपना विषम विकारो, कपाय अग्निरूप दावानल ठे तथा बहु रोगनी खाण सरुण, परुण, विध्वंसन, प्रेत-रूप ठे तेमां शुच अशुच मानी केम विषय विकारनो जोगी थाजं तुं ? एम पुद्गल जावने अपाय जाणी सहजानंद आत्म स्वजावमां स्थिर परिणामी थवुं ते समजाव जाणवो.

विपाक विचय—हवे विपाक विचय ध्यान करी समजाव करवो ते कहं तु आपणो आत्मा परमात्मा सरखो सिद्धनो साधमीं ठे ते पोतानुं स्वरूप अणजाणतां आ संसारमां खुतो ठे ते स्वरूप विचारता एम जासन थाय ठे के जे परायो संग कीधो ते माहे राची माची रह्यो तेथी कर्मने वश पड्यो दुःखी थाउ तुं ते कर्म विचार कहे ठे. जीवनो ज्ञान गुण ज्ञानावरणीए दाव्यो ठे, एम दर्शनावरणादि यावत् वीर्य गुण अंतराय कमें दाव्यो ठे एम आठ कर्मथी जीवना आठ गुण दवाणा ठे, तेथी आ संसारने विपे जीवने जन्म मरण अनंतां करवां पने ठे. ने सुख दुःख पोते पोतानां करेलां कर्मथी जोगवे ठे ते सुख वास्त्विक नथी मिथ्याइष्टिए कल्पनाथी सुख मान्युं ठे ते सुखमां राचवुं नहीं. जेम स्त्री चार शेर रुपानां सांकलां पगे पेहेरी सुख माने ठे. वली कान तुटता सुधी काने पहेरवाना आचूपण पहेरी कल्पनाथी सुख माने ठे पण तेज आचूपण पुरुपने पहेरावीए तो सुख माने नहीं. तेम पुण्य उदयथी धन अने विषयना जोगोमां मिथ्याइष्टिए कल्पनाथीज सुख मनाएलुं ठे. एवा कल्पित सुखमां हे चेतन ! तारे राचवुं न घटे. वली दुःख ते पोताना पूर्वना अशुच कृत्य कर्मना उदयनो विपाक ठे. ते तारी आत्म स-

त्तामां नथी. तुं तो अखंरु ज्ञानमुद्रा शुद्ध सत्तावंत ज्ञाननो पुंज एक नित्य अबाधित तुं. माटे एवा पुद्गलोने दूषित जोइ तारो लक्ष ते मांहे जवा देवो नहीं. एटले शुद्धमां रागी, अशुद्धमां द्वेषी थवुं नहीं. ए कर्मनुं स्वरूप विचारवुं. ते प्रकृतिबंध, स्थितिवंध, रसबंध, प्रदेश-बंध ए चार बंधनां स्थान विचारवां तथा उदय, ऊदीरणा, सत्ता, तेना स्वरूपनुं चिंतवन करवुं. एवा कर्म परिणामथी उदासिन्नवृत्ति करी, एकाग्र चित्त करी आत्म स्वभावमां स्थिर थवुं ते समजाव कहीए.

संस्थान विचय—त्यां ऊत्पाद्, व्यय, ध्रौव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञावादि विचारे, पर्याय लक्षणे जूदा जूदा जेदे करीने, नाम स्थापना द्रव्य ज्ञाव जेदे करीने चौद रज्जु लोक केवो ठे—ऊंचपणे चौद रज्जु ठे. ते मध्ये सात रज्जु नीचो अधो लोक कहीए. अने विचाले अढारसें योजन मनुष्य लोक ठे तेने तीर्षो लोक कहीए ने उपर कांश्क ऊणो सातरज्जु उर्ध्व लोक ठे, ते मध्ये देवता वैमानीक ते उपर सिद्ध क्षेत्र जे मांहे सिद्धना जीवो अनंत समाधिना जोगी रह्या ठे. एवो चौदरज्जु लोक तेना सर्व प्रदेश एटले लोकाकाशना सर्वे प्रदेश मारा जीवे अनंतकाल संसारमां जमतां जन्म मरणे करी स्पर्श्या ठे. वली ए लोकने विषे पंचास्तिकायनुं अवस्थान तथा परिणमन द्रव्य गुण पर्यायनुं अवस्थान त्यां पोताना कर्मनो कर्ता अने चोक्ता आत्माज ठे अने ते आत्मा अरूपी अविनाशी उपयोग लक्षणे युक्त ते पण पोतेज ठे तो एवा चौदरज्जु लोक मांहे रहेला माराथी चिन्न ते अन्य पदार्थ मने स्थिरतानुं स्थानक नहीं. मने स्थिरतानुं स्थान असंख्यात प्रदेशरूप मारी सत्ताचूमिज ठे. एम परवस्तुनो राग ठोकी आत्म स्वभावमांहेज स्थिर थवुं ते समजाव जाणवो.

हवे धर्म ध्याननुं स्वरूप संक्षेपथी लखीए ठीए—कर्म जनित समुद्र वखाणिए ठीए, एटले कर्म करी प्राप्त थयो एवो जे नवसमुद्र

ते जन्म जरा मरण रोग जले करी संपूर्ण जरेलो ठे, एमां मोह रूप मोटा जमरा पडी रखा ठे ने कामरूप वरुवानल लागी रही ठे, जेमां कपाय रुपी चार पाताल कलशा ठे ते मध्ये आशा रुपी मोटो वायु प्रचक्र वेगे समुद्रना जलने कल्लोले प्रेरे ठे, महा विकल्परुपी कल्लोल उठली रखा ठे एवो मोहरूप उरूत जव समुद्र ठे मनमांहे विश्रांत कहेतां हर्ष शोकनुं थवुं ते रुपी वेल समुद्रमां फेली रही ठे, नेनी अरुजाटमां पनेला जीवने निकलवु महाडुष्कर जाणवुं. वली त्यां याचना रुपी सेवालनो समुह घणो ठे अने दुःखे पूर्ण थाय एवी जे जोग तृष्णा ते समुद्रनो मध्य जाग ठे. अज्ञान रुपी वाढलानी घटा घनघोर अंधकार करती ठायी—व्यापी रही ठे आपटा रुपी विजलीना विपम ऊवकारा थइ रखा ठे कटाग्रह रुपी मोजां अद्भुत उठली रखां ठे वली त्यां विविध जातिना रोगरूप मद्य कष्टादिक जलजलु घणां उठली रखां ठे. वली चंचलता रूप शून्यपणा रूप गर्वरूप जे जे दोपो ते ते मोटा पर्वतो ज्यां ठे एवो जवसमुद्र तेने विचारवो. हवे तेवा जव समुद्रने तरी पार पामवानो उपाय कहीए ठीए ज्यां सम्यक्त रूप द्रढबंधन वांधेलां अठार हजार शिलांग रूप पाटीयां ज्यां जनेलां ठे त्यां ज्ञान रुपी निर्यामक जाऊना चलावनार ठे. संवर कीचे करीने पाटीआनां आश्रव रूप त्रिडोने पूर्यां ठे. जे मनोगुप्तिरूप गुप्त सुकान तेने समुचाले आचाररूप मंमपे करी दीपतु—शोचतुं उत्सर्ग ने अपवाद मार्ग वच्चे चालतुं एवुं जे जाऊ तेने विपे आत्म शुचटनुं सैन्य चढयुं के जेमां शुद्ध अध्यवसाय रुपी घणा बलवंत शुचटो ठे. वली ते वहाणने जला स्थिर जोग रुपी कुवास्थज ठे ते स्थंज उपर थापेलो अध्यात्म रुपी सढ ते वहाणने चलावे ठे. हवे ते अध्यात्म रूप सढ थकी प्रगट थयो जे तप रुपी पवन अनुकुल बहेतो थको वहाणने चलाववाना वेगे करीने संवेग रुपे चालतुं वहाण वैराग्य (उदासिन्नता) मार्ग मांहे

चारित्र रूपी जाऊ महा वेगे चाट्युं जाय ठे तेनी अंदर महा मुनिराज बेठा ठे, महा रिद्धिना धणी ठे, तेमनी अनित्यादिक जे नली जावनाउं ते रूप पोतानी पेटी ते मांहे ज्ञानरूपी रत्न नरेलां ठे. ते पेटी पोतानी पासे राखेली ठे. एवी रीते जे मुनिश्वर प्रवर्त्ते ठे ते निर्विघ्नपणे मोक्ष नगरनुं राज सुखे पामे. हवे एवी रीते मोक्ष नगरे जतां संसारनी मांहे एक मोटो मोह नामे पट्टीपति ठे. ते सर्वे क्रोधादिक चीलो विगेरे कर्म परिणामनो राजा ठे, ते महा जोरावर ठे. इंद्र, चंद्र, नागेंद्र पण एने जीतवा समर्थ नथी एवो जोरावर मोहराजा तेने खबर पकी जे आ चारित्ररूपी जाऊमां ज्ञानादिक धनथी नरेला मुनिराज मांहे वेठेला ठे अने ते मोक्ष नगरे जाय ठे, एवी खबर पढतांज मोहराजा जराक शोकातुर थइ विचारे ठे के हवे आळसु थइ वेशी रहे कंइ सरे नहीं, जो वेशी रहीए तो सर्वे संसारनुं नाटक बंध पकी जाय, माटे पोताना मुख्य अधिकारीउं राग केशरी अने द्वेष गजेंद्रने हुकम आप्यो के, दुर्ध्याननामा टंके लने जडदीथी हुकम आपी सर्वे हथियार अने शुनटो युक्त आपणा दुर्बुद्धि जहाजने तैयार करावो. वली दुष्टाचार प्रमुख जाऊ ते पण सज करो, एवो हुकम मलतांज राग केशरी आदिके पोतपोताना अधिकार प्रमाणे लमाइनी सामथ्री लेइ शुनटो सहित वहाणो तैयार कर्या. अने मुनिराजना चारित्र रूपी वहाणना सन्मुख थया, ते मुनिराजना चारित्र धर्म प्रधानना शुनटो. स्थिरता रूपी मंडपमां बेठा हता तेने खबर पढतांज पोताना मालिकने सचेत कर्यो अने तुर्तज रणमंरुप नूमिए चारित्र धर्म राजानुं सैन्य सर्वे एकठुं कर्युं. तत्त्व चिंता प्रमुख वहाणो पण सर्वे साथे लाव्या अने लागलाज सम्यक्त प्रधान वहाणना मालिके मोह राजानो जे मिथ्यात्व रूपी मोटो शुनट तेने उभाव्यो—प्राण रहीत कर्यो. जे महा पराक्रमी महा विषम काम करनारो एवा प्रधानने सहेजमां एक वीलाए हएयो अने ऊपशम

नामा शुचते मोहराजाना रणथंजने तोड्यो द्वांति शुचते ऊपशम रूपी खड्गनी धाराए क्रोधरूपी मोहना योद्धाने एकज घामां धरणीए ढाड्यो. मार्दवरूपी शुचते पोताना वज्रे करी आठ सुवा सहित मान शुचटने हणयो. आर्यव शुचते सरलता रूपी औपधी पाइने कपट चोरटाने नाश कर्यो. निस्पृह नामा शुचते समता रूपी वाणे करी लोचरूप लुंटेराने पाड्यो. अढारसें शीलंग रथनो धोरी एवो शीलरूपी शुचट तेणे कंदर्प शुचटनो अंत आय्यो. वैराग रूपी शुचते हास्यादि पद शुचट सहित राग केशरीने तथा द्वेष गजेंडने प्राण मुक्त कर्या. श्रुत ज्ञान जोगादिक शुचटोए निद्रादि शुचटोने हणया, धर्म ध्यान शुचते महातिदण जेदक हृथीयारोवडे मोहना विविध शुचटोने ठिन्न चिन्न करी अगोअंगथी जूदा कर्या. शुक्ल ध्यानरूपी शुचते कृपक गुणरूप वाणोना प्रहारे करीने तुपेला अने जाहेर मोहादिक सर्वे कर्म परिणामना शुचटोना अंत आय्यो तेवारे ते मुनिराज परम समजावने प्राप्त थइ निश्चित आत्मिक अमर राज्यने-पाम्या एम आत्मानुं अने मोहराजानुं वनेनु जोर विचारी शत्रुथी पोतानुं सवायुं बल फोरवी मोह परिणामने जीती समजाव करवो. परअनुरागे प्रवर्त्तवुं तेज वध ठे अने स्वगुण अनुयायीपणे प्रवर्त्तवुं तेथी मुक्ति ठे. केटलाक आचार्योनुं एवुं कहेवुं ठे के धर्म ध्यान ठठा गुणगणायी ते आठमा गुणगणा सुधी होय, वली केटलाक आचार्योनुं कहेवुं एवुं ठे के जो धर्मध्यान चोथे गुणगणे न होय तो वस्तुना धर्म जाण्या विना सम्यक्त रहे नहि माटे अर्हीआं लखवानुं एटलुज ठे के धर्म ध्याननो मनोरथ करवो ए पण धर्मध्यान मांहेज गणीए. वली बीजी रीते चार ध्यान कक्षां ठे तेनां नाम-पिं-रुस्थ (१) पदस्थ (२) कृपस्थ (३) कृपातीत (४)

(१) पिंरुस्थ—हवे पिंरुस्थ ध्याने करीने सम परिणाम करवो ते कहिये ठीए पिंरुस्थ कहेतां शरीरनी अंदर असंख्यात प्रदेशी

आपणो निर्मल आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणोए व्यापी रह्यो ठे, ते सिद्ध परमात्मा सरखो हुं एकज निर्मल तत्त्व तुं. पुद्गलादि अन्य पिंडमां मारे कांइपण चेष्टा करवी अथवा ए विषे बोलवुं. अथवा ए विषे इष्टानिष्टनुं चिंतववुं मने न घटे. एम पुद्गल पिंडथी निवर्त्ति शुद्ध परिणामे रहेवुं ते समजाव जाणवो. सिद्धना पिंरुने विचारी अने पोताना पिंडने पण तेज रूपे विचारी निर्धार करी स्थिर समाधि पदने जोगववुं.

(५) पदस्थ—अरिहंतादि पांच पद अथवा नवपद आत्मानां आत्मा मांहेज ठे. जेम त्रेवीशमा तीर्थकर पार्श्वनाथ अरिहंते धरणे-इने पूर्वना नागना जवमां कांष्टअग्निमांहे बलतो जोइ कह्युं. “ ॐ असिञ्चा उसायनमः ” एटले के हे चेतना! जे जीवे रागादि परिणामनो अंत कर्यो तेज अरिहंत पदने पाम्या. तेम अरिहंत-पद प्रगट करवानी शक्ति तारी चेतनामां ठे तेज तुं सत्तागते पोतेज अरिहंत रूपी तुं. तेज अरिहंत पदने प्रणम एटले अरिहंत पदनो परिणामी था. वली “ सि ” एटले केवल ज्ञानादि स्वसंपदा प्रगट पणे जोगवता एवा जे सिद्ध परमात्मा ठे तेवोज तुं आत्मा सत्ताए सिद्ध समान पोतेज तुं. पोतानी स्वसंपदा चूकी मिथ्याद्रष्टिए आ नागना देह रूपी अस्थि, मांस, रुधिरादिकना पिंरुने पोतापणे मानी तुं पोतानी स्वगुण संपदाने न चूक. अनेक जीवो पर परिणामिकता मूकी स्वगुण पर्यायना कर्ता, जोक्ता, स्वगुण पर्याय मांहेज निज उपयोगनी व्यापकता, ग्राहकता, रमणता करतां स्वतंत्र स्वजाव सिद्धिनी व्यक्तिना जोगी थया. तो सिद्ध पद प्रगट करवानी सत्ता ताराज आत्मांमां ठे तो तुं पण ते सत्तानो परिणामी था. वली “ आ ” एटले आचार्यपद ते ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचारनुं आचरण करनार ते आचार्य आत्माज ठे. तुं

पण ज्ञानाचारादि पंचविधि आचारनो, परिणामी थाय तो आचार्य पद तारामांज ठे माटे आचार्य पदने प्रणम, आदर.

हवे “ जु ” ष्टले उपाध्याय पद ते द्वादशांगनु जाणवु, जणवु, जणाववुं ते शक्ति पण आत्मानी अंदरज ठे. तो तुं पण उपाध्याय पदने प्रणम, आदर

वली “ सा ” ष्टले साधुपद—पोताना स्वरुपे शुद्धोपयोगे अप्रमत्तजावे ष्टले गफलत रहित सचेत थइ परद्रव्ये राग द्वेषवंत न थाय, तेज शिव मार्गने साधे अने तेनेज साधु कहीए तो अप्रमत्तजावे रहेवानी सत्ता आत्मांहेज ठे, तो तुं पण अप्रमत्त जावनो परिणामी थइ साधुजावनुं सन्मान कर एम पंचपरमेष्ठी पद आत्मांहेज ठे. माटे आत्मपदनुं ध्यान करतां पंचपरमेष्ठी पदनु ध्यान थाय ठे, अने पंचपरमेष्ठी पदनुं ध्यान करतां आत्मपदनुं ध्यान थाय ठे एम समजवु. वली वीजां चार पद मेलवी नव पदमय आत्मा जाणवो ते कहीए ठीए

सम संवेगादिक गुणा, ह्य उपशम जे आवेरे ।

दर्शन तेहज आत्मा, शुं होय नाम धरावेरे ॥

वीर जिणोसर उपदिशे ० ॥

सम, संवेगादि शब्दथी निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्यता ए पांच गुण ते मिथ्यात्वना ह्य तथा उपशमथी आवे तेथी जे सम्यक् दर्शन प्रगटे तेने सम्यक् दर्शन कहीए ष्टले जे मिथ्यात्वे द्वाएलो दर्शन नामा आत्मानो गुण दर्शन रूप प्रगट थयो ते आत्मानोज ठे पण अन्य द्रव्यनो नथी माटे दर्शन गुण ते आत्माथी अजिन्न माटे आत्माज ठे पण हमे समकीती ठीए एम जूतुं नाम धराववाथी शु थाय ?

ज्ञानावरणी जे कर्म ठे, क्षय उपशम तस थायरे ।
तो होय एहज आतमा, ज्ञाने अबोधता जायरे ॥ वीर० ॥

हवे ज्ञानपद कहीए ठीए. ज्ञानावरणी जे कर्म ठे तेनी पांच प्रकृति ठे. ते उपशम अथवा क्षय थाय एटले आत्मानो ज्ञान गुण ज्ञानावरणी कर्म दबाएलो आवरणना क्षय तथा उपशम अथवा प्रगट थयो ते ज्ञान गुण आत्मानो आत्माथी अजिन्न माटे आत्माज ठे.

जाणो चारित्र ते आतमा, निज स्वप्नावमां रमतारे ।

लेश्या शुद्ध अलंकार्यो, मोह वने नवि भ्रमतारे ॥ वीर ॥

अर्थ—विज्ञावथी विराम पामी विषयादिकनुं रमण ठोडी निज स्वप्नावमां एटले पोताना ज्ञानादिक स्वप्नावमां शुद्ध लेश्याना अलंकार युक्त रमण कर्ता आत्माने चारित्र कहीए. पण पुद्गल सत्ताचूमी जे परमाणु वर्णारूप वर्ण गंध रस स्पर्श संघयण संस्थानादिकनुं स्थानक तेज मोहने रहेवानुं वन ठे. तेमांहे चित्तनुं रमावतुं—भ्रमण करवुं तिहां चारित्र न होय पण पराचरण होय. ते पराचरण तजी आत्मा पोते पोताना आत्म स्वप्नावमां रमण करे तेने चारित्र कहीए माटे चारित्र ते आत्मा ठे.

इच्छा रोधे संवरी, परिणति समता योगेरे ।

तप ते एहज आतमा, वर्त्ते निज गुण जोगेरे ॥ वीर ॥

अर्थ—आत्मा पोताना ज्ञानादिक गुणनो जोगी अइ स्वगुण संतोषे तृप्त रहे. पण पुद्गलना स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्दादिना विषयनी इच्छा न करे, पोताना शुद्ध उपयोगने न चूकतां इंद्रियादिकने संवरी राखे के जेथी अशुद्ध उपयोग रूप परद्रव्य गुण पर्याय जोगववानी इच्छा थाय नहि. पोतानी परिणति पोताना द्रव्य क्षेत्र काल जावे

समता योगे करे, परयोगे थएली परिणतिने पर विरक्तताए समजाव करी पोतानी परिणति स्वजाव योगे करवी, तेने तप कहीए. माटे आत्मानि परिणति परयोगथी वारी आत्मयोगे करी आत्म स्वजावने जोगवतो तृत रहे तेनेज तप कहीए. माटे ते पण आत्माज ठे एम नव पदमांहे एकज आत्मपणुं ठे, एकज आत्मजावमांहे नव पद ठे. ए माहेला अरिहंतादि पंचपरमेष्ठी पदने आत्मसत्तामांहे धारतो नाग पार्श्वनाथ अरिहंतना अतिशय युक्त वचनोए सम्यक्त्व पामी धरणेद्र पदवी वयो वली अरिहंतादि पंच पदना अथवा नवे पदना ड्रव्यगुण पर्याय अने पोताना गुण पर्याय अचेदपणे विचारतां, ध्यावतां, रमण करतां पोतेज आत्मा अरिहंतादिक पदनी व्यक्ति एटले प्रगटताने पामे एम चोवीशमा तीर्थकर वर्द्धमान स्वामीए उपदेष्टुं ठे. आत्मा आत्मध्यानथी पोतानी रिद्धिने प्रगट करे एम पदस्थ ध्यान करी परद्रव्यथी विरक्त थइ सम परिणामे स्थिर थवुं तेज सामायक जाणवु.

रूपस्थ ध्यानथी समजाव करवो ते कहीए ठीए रुपी शरीरमां रह्यो एवो हुं अरुपी चेतन मारुं रूप ज्ञान ठे ए शिवाय अन्य रूप मारुं नथी अनंत गुण पर्याय सहित हुं ज्ञायकरूपे तुं, ज्ञायक शक्ति मारी मारामां ठे, पुद्गल पर्यायमा अहपणे ममत्व करी हुं रागी द्वेपी केम थाउं ? एम सम परिणामे रहेवुं.

रूपातीत ध्यानथी समजाव करवो ते कहीए ठीए—रूपातीत ध्यान शुक्ल ध्यानना धरनुं ठे पण अहिंश्यां समुदाये जेगु आव्यु ठे तेथी कह्युं ठे. पण ए ध्यान शुक्ल ध्यान जेगुं समजवु. अहिंश्यां मार्गणा, गुणस्थान, नय, पद्म, प्रमाण, मति आदि ज्ञान, ह्य-उपशमजाव सर्वे ठोडवा योग्य ठे. ते अहिंश्यां खपमां आवे नहि. अहिंश्यां तो सिद्ध परमात्माना शुद्ध मूल गुण तेज रूपे पोताना आत्मतत्त्वने जाणी तन्मयताए थवुं एज ध्यान सकल विजावथी

ढोडावी सिद्धिपदने आपे. एम रुपातीत ध्यान करी परम स्थिरता-
ए अखंरु आत्म संपदानुं जोगववुं. हवे धर्म ध्याननी चार जावनाउं
जाववी ते नीचे प्रमाणे.

(१) मैत्री (२) प्रमोद (३) मध्यस्थ (४) कारुण्य.

प्रथम मैत्री जावना कहीए ढीए—सर्वे जीव साथे मित्रजावनुं चिंत-
ववुं, जेम पोतानुं इष्ट इढीए तेम मित्रनुं पण इष्ट विचारवुं, सर्वे जी-
वनुं कढ्याण चाहावुं जेम के मारा जीव मित्रो मिथ्यात्वादिकने वश
पडी विषय कषायादिकनी वेदना वेदी जवत्रमणना तापने जोगवे
ढे, मारी जे शक्ति ढे ते फोरवी शत्रुना तावाथी जीव वंधुउंने ढोडावुं
अगर हजु पण मारी शक्ति विशेष होय तो एक जीवने पण मिथ्या-
त्वादिकने वश रहेवा देजं नहि. वली कोशुं वीलकुल बुरुं चिंतववुं
नहि, सर्वे पोताना ज्ञानानंदना जोक्ता थारुं एम चिंतवन करवुं ते
मित्र जावना जाणवी, इहां सर्वे जीवो उपर समपरिणाम करवो ते
सामायिक जाणवुं.

बीजी प्रमोद जावना कहीए ढीए.

पोताना धर्माचार्य अने बीजा पण स्वपर समयना जाण एवा आ-
चार्यादिक स्वरुप रमण करता, सहजानंदी, ज्ञानानंदी, दर्शनानंदी,
श्रुत अज्यासी, सम्यकवंत, जिनेश्वरना वचनना विस्तार करवा वाळा
शासनना प्रजावको आदिने देखी जाणी पोताना चित्तमां तेउं मखेतो
हर्ष उमंगनुं आववुं, चित्तमां प्रमोदनुं प्रसरवुं ते प्रमोद जावना
कहीए, इहां तत्त्ववेत्ता, तत्त्वजोगी, रागादिक रहित मध्यस्थ परि-
णामीउंनुं बहुमान ते पूर्ण समजावनुं कारण माटे समजाव कहीए.
वली तेवा पुरुषोना मेलापथी चित्तमां महा आनंद प्रगट थाय आज
मारे ज्ञानी पुरुषोना समागम थयो, आज मने एमनां दर्शन थयां,
हवे हुं एमनी सेवा जक्ति करीश, आज मारां पाप दूर थयां, मोटे
पुण्यनो उदय थयो, ए पुरुषो अनंत गुणोना धणी ढे, मोद सुखना

Δ (१) पिंडस्थ—ज्ञानादिक अनंत पर्यायनो एकं पिंडं हं आत्मा
वर्णादि अनंत पर्यायनो पिरु पुद्गल विगरे पर पर्यायनो पिरु हं नथी.

(२) पदस्थ—ज्ञान दर्शनादि अने टान लाजादिनुं स्वामित्व
ते माहरुंपद ठे, वर्णादि शब्दादि परपद ते माहरुं नथी.

(३) रुपस्थ—ज्ञायकरुप माहरुं ठे, वर्णादिरुप माहरुं नथी.

(४) रुपातीत—अनंतगुण व्यक्तसिद्ध अरुपी समान हं रुपा-
तीतं.

बीजा ग्रंथोमां ए चार ध्यान जूठी रीते लख्यां ठे पण अहियां
मूल अध्यात्म रीते लख्युं ठे.

रनां वचनरुप परम अमृत पाइ परम आब्दाद उपजाववावाला,
मोहना फेरथी मूर्तित जीवोने जिनवचन सुधारस वांटी सचेत
करवावाखाने हं केवी रीते रीजवुं ? मात्र प्रमोद सहित तेमनी आ-
णामां रहेवुं एज मने परम प्रमोदनुं कारणे ठे. गुणीना गुणानुवादमां
प्रमोदित थवुं ते पण समजाव जाणवो.

॥ दोहा ॥ समकीत दायक गुरु तणो, पच्चुवयार न थाय ।
जव कोमा कोमे करी, करतां सर्व उपाय ॥

प्रीजी मध्यस्थ जावना कहीए ठीए.

आ संसारमां अनेक जीवो कर्मने वश पडेला, पोताना स्वरुपना
अजाण, देव गुरु धर्मादि तत्त्वने नहि जाणता अविनय, आशातना,
विराधना, हिंसा, जुठ, व्यजिचार, व्यसन विगरे अनाचारने सेवता
देखी छेप करवो नहि, मारवुं, ताडवुं, जगणे, जयराइ नहि करतां

तेज उपर दया लाववी के आ बापडा केवी रीते अने क्यारे धर्म पामे. पोताथी तेजने बोधी शंकाय एवं होयतो बोध आपी मार्गमां लाववा. कदापि बोध न पामे तो बीजाने बोध देवानी सत्ता मारा आत्मामां नथी. पोतानी जवस्थिति पाके मार्ग सन्मुख थशे एम जाणी मध्यस्थ परिणामे रहेवुं ते समजाव जाणवो.

चोथी करुणा जावना कहीए ठीए.

सर्वे जीवो सत्ताए सिद्ध समान ठे. कर्म वशे शरिरादिकना ममत्वे अशुच उदये करीने जन्म, मरण, जय, शोक, रोग, वेदना वियोग, ठेदन, जेदन, तारुन, तर्जन आदि अनेक वेदनाने सहे ठे; पण एवा मुज समान जीवोने ड्रव्य अने जावथी हुं केम दुःखी करुं ? चांपवुं, चगदवुं, ठेदवुं, प्राणघात करवो, जय त्रासादिक पमारुवुं मारा तनमन वचनथी न थाय; माटे हुं सावचेत रहुं. मने उदय आवेला कृत्यो करवां पदे ठे ते उपयोग ठोडी न करुं अने संजम निर्वाह अर्थे जो कांइ करवुं पदे तो परमेश्वरनी आणाए उपयोग राखी करुं. वली हुं कोइ जीवने पण त्रिकाले दुःखनो कारण न थाऊं. वली मिथ्यात्व कषायादि उन्मार्गमां न पाऊं, न चलावुं, पण जेम बने तेम आत्म समाधिना जोगी करुं. ते करुणा जावना जाणवी. एम मैत्रादिक चारे जावना जावतां समजाव पामिए.

शुक्लध्यानथी समजाव करवो ते दखीए ठीए.

मारा ज्ञानादि गुणो सरवे पुद्गल ममत्वे विषम जावने पामेला ठे. एटले शरीरने पोतापणे जाणतां, मानतां, अनुभवतां कोइ पुद्गल इष्ट अने कोइ पुद्गल अनिष्ट, वली केटलाक जीवो ऊपर इष्टता अने केटलाक जीवो उपर अनिष्टतानो संकल्प थाय ठे; तेज संकल्प विकल्पना विकारे विषमता पामेला मारा गुणो समजावे करी विषमता मटाकी आप आपणुं पराक्रम प्रगट करी पोतपोताने कामे लागे. जेमके ज्ञान, निर्मल ज्ञानरूप कार्य करे. दर्शन, केवल दर्शन-

रूप कार्य करे चारित्र्य ते शुद्ध रमणाण्ड कार्य करे एम सर्वे गुणो
 आप आपणा स्वजावेज प्रगट थाय. ते शुक्ल कहेतां निर्मल ध्याने
 वने ते शुक्लध्यान पर आलंबन विना आत्म स्वरूप उलखी
 (जाणी) ने तन्मयपणे ध्यावे. एवं ध्यान ते शुक्लध्यान कहीए.
 जे पुरुष शांत दांत होय ते पोताना आत्म स्वरूपने विषे रमे. वीजो
 पुरुष शुक्लध्यान योग्य नथी. केमके सिद्धनो पण एज स्वजाव ठे.
 साधके पण एज स्वजाव आदरवो वीजा आचरणथी ए वस्तु मले
 नहीं. ते शुक्लध्यानना चार पाया ठे तेनां नाम. (१) पृथक् वितर्क-
 सप्रविचार (२) एकत्व वितर्क अप्रविचार (३) सूक्ष्मक्रिया अनि-
 वृत्ति (४) अने व्युत्तिन्नक्रिया अप्रतिपाति

तेमां प्रथमना वे पायानुं अप्रमत्तजावे ध्यान थाय अने पाठ-
 लना वे पाया केवलीने ध्याववाना ठे अने ए ध्यानना विश्रामने विषे
 अनित्यादि जावनानो त्याग न थाय. त्रम रहित पणे जे जावना
 ठे ते ध्यानना प्राण जाणवा.

हवे ए ध्यानने विषे लेश्या त्रण होय तेनां नाम

(१) तेजोलेश्या (२) पद्मलेश्या (३) शुक्ललेश्या.

ए ध्यानने विषे वर्ततो जीव जेदनो जजनार थाय तेनुं चिन्ह ए
 ठे जे आगमनी श्रद्धा पूर्ण होय, ए ध्यान थकी ऊत्तम धर्म प्रगटे.
 ए थकी स्वर्गना सुखनी प्राप्ति थाय मोटुं पुण्यानुबंधी पुण्य कृपाजें
 पण ए थकी मुक्ति थाय नहीं हवे मुक्ति थवा रूप शुक्लध्यान ते
 कहीए ठीए—त्यां प्रथम समपरिणाम थाय कपट रहितपणे जीवने
 मुक्तपणुं धारण करतो शुक्लध्यान एटले निर्मल ध्यानने ध्यावे ठ-
 मस्थपणे आत्मजावमां मन धरीने रहे त्यारे राग द्वेषने जीते ते
 धणीनी मुक्ति थाय. हवे ते पायानो विचार कहीए ठीए

पृथक् वितर्क सप्रविचार नामा पहेलो पायो—एटले जी-

वथी अजीव जूदो करवो. अने स्वप्नावथी विज्ञाव जूदो करवो—पृथक् कहेतां जिन्न जिन्न जूदा वहेची नांखवा. स्वस्वरूपने विषे तथा द्रव्य पर्याय विषे पृथक् पृथक् पणे ध्यान करवुं. पर्याय गुणने विषे संक्रमण करवा. गुणने पर्याय विषे संक्रमण करवा. एम स्वधर्मने विषे धर्मा-तर जेद ते पृथक् कहीए. एनो जे वितर्क कहेतां श्रुत ज्ञानादि उप-योग एटले त्यां नाना प्रकारना नय निक्षेपा प्रमुखनो विचार ते श्रुत-ध्यान ध्यावुं थयुं. त्यां अर्थ अक्षर जोगादिकनो जे विचार तेनुं मां-होमांहे संक्रमण करवुं अथवा जिन्न जिन्न करवुं अथवा ठ द्रव्यना गुण पर्यायमां रमण थाय ठे. एवी रीते न्यारो न्यारो स्वपर विचार एटले आत्म द्रव्य जिन्न विचार. पुद्गलादि पांच द्रव्यने पर जाणी अथवा स्वजीवद्रव्य सिवाय षट् द्रव्यने परजाणी तेनो विकल्प टाली पोतानो ऊपयोग प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय एक एकनो जूदो जूदो विचार थाय. ते पृथक् कहेतां जे निर्मल अने वितर्क कहेतां स्वपरनो विचार करवो. एवी रीते एकाग्रपणे जे ध्यान ते पृथक् वितर्क स्वपर विचार नामा पहेलो पायो जाणवो. एवी रीते परत्यागी स्वसत्ता स्वरूपमां ऊपयोग थीर करे ए पद्द सर्वे शुद्ध व्यवहारनो ठे तेने ज्ञान थकी जेद ज्ञान कहीए. ध्यान थकी शुक्ल ध्याननो पहेलो पायो कहीए. ए पायावालो स्वर्ग गति पामे ए पायो आठमा गुण-गणार्थी अग्यारमा गुणगणा सुधी होय. ए पायावादाने त्रणे जोग ऊत्कृष्टतानुं साधन थाय.

हवे एकत्व वितर्क अप्रविचार नामा बीजो पायो—एटले पोताना आत्म द्रव्य सिवाय अन्य जीव द्रव्य तथा धर्मादिक पांच द्रव्यना द्रव्य गुण पर्यायनुं ध्यान ठोडी एक पोतानाज गुण पर्याय पोतामां एकत्वपणे ध्यावे एटले द्रव्य गुण पर्यायमय एकज हुं आत्मतत्त्व हुं, निर्मल सिद्ध परमात्तामां अने पोतामां कांइ जेद जाणे नहि, पोताना ज्ञानादिक अनंत गुण पर्यायनुं एकत्वपणुं एक

समये परिणतिनुं पोतानाजः स्वरूपथी तन्मयतानुं करवुं, माटे एकत्व वितर्क अप्रविचार कहिए पण इहां वितर्क कहेतां, शुच ज्ञाना-
वलंबीपणे, अने अप्रविचार कहेतां विकल्प रहित, दर्शन ज्ञाननो-
समयांतरे कारणता विना, रत्नत्रयीनुं एकसमयी कारण कार्यतापणे
जे ध्यानने वीर्य उपयोगनी शक्ति ठे, तेथी एकाग्रपणे होवथी।
एज स्थानक विषे त्रणे जोग शुरू होय, अने वितर्क कहेतां विचार
ते पण थोमोज होय, एटले मननुं चंचलपणुं थोडुं होय, जेम समुद्र
पवन रहित स्थिर थाय, तेम मन विकल्पनाः कल्लोलो वगरनुं स्थिर
थाय, एटले अहिआं विचार ठे पण सूक्ष्म ठे, एटले ए ध्यान अवधि-
ज्ञान, मनःपर्यवज्ञाननो उपयोग देतां वनी शके नहि शामाटे के
अवधि, मनःपर्यवज्ञानतो परानुयायी ठे एनो विषय रुपी ड्रव्यने
जाणवानो ठे, अने आ ध्याननो विषय स्वअनुयायी अने अरूपी
ड्रव्यने जाणवानो ठे माटे ए वेनो उपयोग अन्योअन्य प्रतिपद्धी ठे
ते माटे ए ध्यान श्रुतज्ञानोपयोगथी निपजे, ए ध्यान थकी निर्मल
केवलज्ञान पामे, पण ए ध्यानथी मुक्ति पामे नहि, शामाटे के ए
पण योगादि ग्राहि ठे, ते कारण माटे. एवी रीते एकाग्रपणे ए ध्या-
नने विषे प्रवर्ते तेने एकत्व वितर्क अप्रविचार नामे बीजो पायो
जाणवो, आ उपला ध्याननो विषय आगला पन्तितोना लखाण उप-
रथी लख्यो ठे पण मारा अनुभवमां नथी. कारण के विषय कपा-
यथी विराम पामेलो नहि, एवो हुं तेथी एवी बुद्धि मारामां क्यांथी
होय ? माटे आ विषय कोइ अनुभवी. पुरुषोनी गुरुगमथी समजी
लेवो, उपरना ध्यानमां पवन रहित जेम टीपक अमोल शिखाए रहे
ठे, तेम विकल्प रहित मननी स्थिरता थाय ठे, ए ध्यान पर्यायरूप ठे,
वारमा गुणगणाना अत सुधी ए ध्यान ठे-

हवे सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती नामे बीजो पायो-बीजा पायाना
अंते केवलज्ञान पामी तेरमा गुणगणामां केवलज्ञान दर्शन उपयोगमां

वर्ते इहां बीजुं ध्यान ठे नहि, तेवारे तेरमाने अंते चौदमे जतां त्रीजो पायो शुक्लध्याननो जाणवो. एक काय योग वाहिरथी रुंधेलो ठे. तथा मन जोग, वचन जोग, समस्त रुंधेला ठे. तथा केटलाक आचार्य कहे ठे के वाहिरज रुंधेला ठे, एवी रीते वादर जोग रोकतीने तथा वचन कायाना, सूक्ष्म जोग रोकती अयोगी थयो, त्यां अप्रतिपाती आत्मानुं निर्मलवीर्य अचल परिणाम ते सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती पायो जाणवो, सत्ताए पंचाशी प्रकृति हती ते मध्ये बोहोत्तेर खपावीने बाकीनी तेर रही, ए त्रीजो पायो जाणवो.

हवे चोथो पायो उच्चिन्नक्रिया निवृत्ति नामे कहिए ठिये. जे जोग कायानो सूक्ष्म रह्यो हतो, ते पण रोक्यो, एटले सर्वे जोग रुंध्या, ते सर्वे क्रियानो इहां उठेद थइ गयो, अने इहां शैलेशिकरण करे, एटले शैल कहेतां, पर्वत जेम कोइ पवनथी कंपे नहि तेम अजोगी मुनिश्वर शैलेशिकरणे प्होंच्या थका निःकंप पणे रहे. तेर प्रकृति जे रही हती तेनो पण त्यां दाय करीने अकर्मा थाय, सर्व क्रिया रहित थइने स्वस्वरूप प्रगट करे ए ध्याननुं नाम समुच्चिन्न क्रिया-शुक्लध्यान पण ठे, हवे ध्याननो चोथो पायो ध्यातां थकां शरीर, अवगाहना, आवखुं ए सर्व थकी अलगो थइने मोक्षमां जाय ए शुक्लध्याननो चोथो पायो कह्यो.

हवे ए शुक्लध्यानना चार पायानां फल कहे ठे. प्रथमना जे बे पाया ठे तेमांना पहेला पायाने ध्यावावालो—ऊपशम जाव होवार्थी पुरेतो देवल्लोके जाय, अने द्वायक जाववालो बीजो पायो अंत सुधी पुरो करी केवलज्ञान पामे. अने ऊपरना बे पायामांना सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाती पायामां मरण ठे नहि. अने चोथे पाये प्होंचीने मोक्षे जाय ए पाठा पडे नहि. माटे ए त्रीजो अने चोथो बंने पाया मोक्ष गतिना दातार जाणवा. शुक्लध्यान वालो यथार्थ पदार्थ देखे, आ-

श्रवनो नाश देखे, ने ससार स्वरूप ए चवनो परंपरानुं कारण देखे
 अन्य पदार्थों सर्वे आत्मा थकी विपरीतपणे जाणे. ए शुक्लध्या-
 नना विसामामां एवी रीते जाणे देखे तथा शुक्लध्यानना त्रणे
 पायामां उत्कृष्ट शुक्ललेश्या जाणवी चोथो पायो जे ठे ते तो
 लेश्या रहित ठे तो बीजा दोष तो होयज क्यांथी ? पण शुक्ल-
 ध्यानना पहेला पायाथी शुक्लध्यानवालांना जोग पण सर्वे शुद्ध
 होय. ए शुक्लध्याननुं लक्षण कहिए ठिये अहिंसक होय, मोह
 रहित होय, स्वपर विवेकी होय, तत्त्वबुद्धि होय, वली अबंध थयो
 माटे उपसर्ग, परिसहथी कपे नहि, निर्भयपणे वर्त्ते, सूक्ष्म अर्थने
 विषे पण मुंजाय नहि, निःशंकपणे रहे, मोह मायाना लक्षण थकी
 तथा सर्व संजोग थकी जूदो रहे, ए सर्वे विवेकनां लक्षण जाणवां,
 देह तथा उपकरणनी त्याग बुद्धिए असंग अनुष्ठाने वर्त्ते, एवी रीते
 जे मुनि ए लक्षणे ध्यानादिकने विषे प्रवर्त्ते, ते ज्ञान पामे ए रीते
 ध्याननो क्रम जाणीने जे प्रवर्त्तवुं एज परमात्मानो आज्ञा ठे, एवी
 रीते ते आज्ञानो अज्यास करशे ते संपूर्ण अध्यातमज्ञानी थशे
 हवे ए ध्याननो महिमा कहिए ठिये

के ज्यां एवुं परिपक्व उत्कृष्ट ध्यान पामे थके इन्द्र, चन्द्र, नागें-
 द्रनी पदवीने तो ए मुनीश्वर तृण वरोवर गणे ठे शामाटे के आ-
 त्मानो प्रकाश सुखे करे, एवु ज्ञान प्रगटे, ने वली चवनो नाग करे
 माटे एज ध्यानने सेवो, अने जे कामातुरी होय ते पण कामदशाने
 ठोके, शामाटे के जम स्वभाव जाणीने विषय सुखनो त्याग करे, पण
 रागदशा ठांडवी तो घणी डुप्कर ठे, अने जे ध्यानवंत मुनीश्वर ठे,
 ते तो परमात्मारूपज साक्षात् दरशे ठे, ते ध्यानमा तृप्ति पामीने
 फरीने ने रागादिक न वठे, अने बीजा जे जीवो रक्षा तेने रात्रि
 सर्व निद्रामां जाय ठे, अने ध्यान दशावालाने रात्रि तो उंघव, महो-
 घव सरखा आनंदमां जाय ठे, जेम हवड कुवानुं पाणी मोळाएलुं

बगमेलुं होय, तेवुं ध्यान विनानुं मन जाणवुं. अने जेने सर्व थकी सिद्ध फलनी इच्छा होय ते ध्यानरूपी घटमां मनरूपी जल जरे तो निर्मल थाय, जेम हवरु कुवानुं पाणी घटमां जरवाथी निर्मल थाय ठे, ते प्रमाणे जाणवुं. सर्व क्रियानुं फल ते ध्यानथीज ठे. अने ध्यान ते परमार्थनुं कारण ठे. वली अतिशय अनिष्ट विषयपणुं होय अने घणे प्रकारे ते ऊदयना कष्टमां पड्यो थको पण निश्चलपणुं न ठंके तेने आत्मा विषे लीन कहीए. प्रगट दीठो जे मोक्ष सुखरूप सूर्य तेने केम ठोके? अपितु नज ठोके. वली जेणे शास्त्रना विचारथी नास्तिकत्ताव तदन हण्यो ठे, तेनुंज ज्ञान मोटुं ठे. जेम सूर्यना तेजमां चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारा तथा दीपकनुं तेज समाइ जाय ठे, तेम ध्याने करीने जेदाणो ठे अज्ञानरूप अंधकार जेनो ते प्राणीने महा आनंद रूप आत्मानुं तेज ते अनुभव ज्ञानमां शोभी रह्युं ठे. वली ते प्राणीने घणा कालनो समता स्त्री साथे वियोग हतो ते एक क्षणमां जाग्यो अने संयोग थयो. एवो ध्यानरूपी परममित्र मारे परम हेतु ठे. ने मने परम वहालो ठे एम ध्यानी पुरुषो कहे ठे. संसारना कृत्रिम मित्र थकी शुं ?

हवे ध्याननुं घर वखाणीये ठिये—के ज्यां कामरूपी ताप तो ठे नहीं ने शीलरूप शीतल सुगंधे जरेली बेठको ठे, त्यां वली मोटी समतारूपी तलाइ कहेतां गादी तकीए बेठो ठे. एटले ध्यान मंदि-रमां आत्मा बेठो थको, निवृत्ति राणी साथे परमानंदने जोगवे ठे वली ज्यां शीलरूप सिंहासन ठे. इंद्रियदमन रूप शांतजल जरेलुं ठे. समतारूपी पोलीया खडा ठे. आत्मा परमात्मां अंतर रह्यो नथी अने पंक्ति लोकोना ऊघडा विवाद घणा हता ते ए स्थानके ध्यान-रूपी संधिपाले सर्वे तोडी नांख्या. अने तत्क्षण आत्मा अने परमा-त्माने अचेदपणे करी दीधो.

इवे अमृत रस वतावीए ठीए—अजाण लोको घणे ठेकाणे
अमृतरस माने ठे पण ज्ञानी लोकतो ध्यान विपेज अमृत माने ठे.

स्वागतावृत्तम् ॥

कामृतं विषञ्जते फणिलोके । क्वद्वयिण्यपि विधौ त्रिदिवे वा ॥
काप्सरो रतीमतां त्रिदशानां । ध्यान मेवतदिदं बुध सेव्यं ॥
गोस्तनेषु न सितासु सुधायां । नापि नापि वनिताधर विवे ॥
तं रसं कमपि वेत्ति मनस्वी । ध्यान संजवधृतौ प्रथते यः ॥

अर्थ—नाग लोकमां अमृत क्यां थकी होय ? ए विचारा विषयमां
रंगाइ गएला ठे. कोइ कहेशे के चंद्रमामां अमृत ठे तोपण ते वात
जासन थती नथी कारणके ते दिने दिने क्षीण थतो जाय ठे. ज्यां
क्षीणपणुं होय त्यां अमृत न होय कोइ कहेशे के देव लोकने विपे
अमृत ठे ते पण संजवतुं नथी, देवलोको पण अत्यंत विषयरसे व्यास,
अप्सराना रंगमां रंगाएला ठे र्पादि बहु दोपोए करी अने मरणा-
दिना जये करी व्याकुल ठे माटे फक्त ध्यानमांज अमृत ठे ते माटे
हे पंक्ति । ध्याननुंज सेवन करो

बीजा उंदनो अर्थ—केटलाक लोको गायना दुधमां अमृत
माने ठे. कोइ साकरमां माने ठे. केटलाक छीना उष्टमां अमृत माने ठे
पण जे जे ठेकाणे लोको अमृत वतावे ठे ते अमृत नहीं ठतां विप-
यादिक विकार केरमय ठे पण ते अमृतरस नथी अने अमृतरस ते
तो अपूर्व ठे, तेने तो अनुजवी पुरुषोज जाणे ठे. अमृतरस चाख्या
पठी बीजो रस चाखवानी तृष्णा होती नथी माटे शुक्लध्यानरूपी
अमृतनो आस्वाद लेनारोज मुक्तिना सुखने पामे ठे. ए चार ध्यान-
मांथी प्रथमनां आर्त्त रौद्रध्यान अवश्य ठांनुवा योग्य ठे अने धर्म-
ध्यान आदरवा योग्य ठे. ए धर्मध्यानथी. मुक्ति नथी पण मुक्तिनुं
कारण थाय अने देवलोकना सुखने पामे. अने शुक्लध्याननां प्रथ-

मना वे पाया तेमां ऊपशमीने पहेलो पायो ते स्वर्गना सुखनो दातार ठे अने द्वायकवालो वीजो पायो पामे ते केवलज्ञान अने मुक्तिनो दातार ठे. एथी कोइक जीव स्वर्गने पामे पण घणा जीवो अहिं-
 आंथी उंचे चढी मुक्तिने पामे. जे पहेलो पायो आठमार्थी ते दशमा गुणठाणा सुधी ठे त्यां मरण नथी. अहिंआं जे स्वर्गनी गति कही ते नीचला उपला गुणठाणाने आश्रये कही ठे. मरण थवानुं होय तो ठे सातमे आवीने मरण करे अने चडेतो अगीआरमा गुणठाणे जइने मरण करे केमके अगीआरमा गुणठाणे शुक्लध्याननो पहेलो पायो संज्ञवे ठे. अने आठमा नवमा अने दशमा गुणठाणे मरणनो अज्ञाव ठे अगीआरमावालो मरण करेतो सर्वार्थसिद्धि विमाने जाय. ने आठमार्थी चढतां अगीआरमुं न स्पर्शतां वारमा गुणठाणे जायतो ते अवश्य चौदमे गुणठाणे जइ सिद्धि पदने पामे. दशमा गुणठाणाना अंते मोहनिय कर्मनो द्वाय करे तो वारमेज जाय पण अगीआरमे जाय नहीं. वारमा गुणठाणे गएलो जीव शुक्लध्या-
 ननो वीजो पायो ध्याय. त्यां त्रण कर्म जे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ने अंतराय तेनो नाश करे. अने मोहनिय कर्मनो तो दशमाना अं-
 तेज नाश कर्यो ठे. एम चारे घनघाती कर्मनो द्वाय थयो. ए चारे कर्म आत्मगुणनी घात करवावालां हतां माटे घातीकर्म कहेवाय. वाकीनां चारकर्म ते आत्मगुणनी घात करतां नथी माटे ते चारने अघातीकर्म कहीए. ते तो शुभाशुभ फलने देखारुनारां ठे. पण जे घातीकर्म ते वीजा पायाना ध्यानथी नाश थाय. ते धणी केवलज्ञान पामे पण मुक्ति पामे नहीं; कारणके वारमा अने तेरमा गुणठाणे मरण नथी पण तादृश्य मुक्तिनुं कारण ठे. त्रीजो पायो अयोगी-
 पणाने आपे पण मुक्ति न थाय. कर्म प्रकृति वहोतेर खपावे. आत्माने हलको करे अने चौथो पायो ध्यातां थकां सर्वे कर्मनो नाश करे ए पायाना अंते मुक्ति पामे.

हवे जे ध्यान कह्युं तेनो सार संक्षेपथी देखामुं तुं—परजावनो त्याग करी, मननी चपलता टाली आत्मस्वभावमां स्थिर थवाथीज मुक्ति थाय. एवा जीवने अहिंसां जीवतां पण मुक्तिज ठे एम जाणतुं.

मामुञ्जह मारञ्जह, माइस्सह इठणिठ अत्येसु ।

थिरमिठह जइचित्तं, विचित्त जाणप्पसिंहीए ॥

हे जव्य जीवो ! ध्यानना अनेक प्रकार ठे ते ध्यान सिद्धि करवा माटे इष्ट अनिष्ट वस्तुमां मोह करशो नहीं, राग करशो नहीं, अने द्वेष पण करशो नहीं अने चित्तने आत्म स्वभाव मांहे स्थिर थापो.

मा चिठह मा जंपह, मा चित्तह किंचिजेण दोइ थिरो ।

अप्पा अप्पम्मिरजं, इण मेव परं द्वेज्जाणं ॥

हे जव्य जीवो ! तमे कांइ शरीरनी चेष्टा न करो वचनना जल्प न करो. मनमां शुच अशुच संकल्प चितवन न करो आत्माना परम स्वभावमां लक्ष स्थिरथोज करी रीज पामी रहो एम परम ध्यान होय मिथ्यात्वभावथी जीव विषमताने पाम्यो ठे ते सम्यक्भाव समजाव करवो. जीव अनादिनो ज्ञान गुणे युक्त ठतां पुद्गलनो संगी पोताना अगुणलघु स्वभावमांहे जासता अनेक ज्ञेय पदार्थोमां ममत्वथी हुं अने मारुं मानी पर पुद्गल रूपने ए हु तु एम जाणी पुद्गलमा रहेला जे वर्णादि स्वभाव अने मिलण विखरण रुपादि जे पर्याय तेमा रागी द्वेषी थइ ज्ञान अज्ञानरूप, दर्शन अदर्शनरूप, चारित्र पराचरणरूप, वीर्य बाधकरूप (करणवीर्य रूप), तप अतृप्तिरूप (अस्तोपरूप), स्वामित्व परस्वामित्वरूप, कर्त्ता परकर्त्तारूप, जोक्ता परजोक्तारूप, ग्राहकता परग्राहकतारूप, व्यापकता परव्यापकतारूप, रमण पररमणरूप, दान पुद्गल विषयादि परिणामी,

लाज पुद्गल धनादिनो, जोग पुद्गल पर्यायनो जोगी, ऊपजोग पुद्गल गुणनो, अने वीर्य इंद्रिय कार्यमां, ए प्रमाणे अनंत गुणो विषमताने पाम्या. ते मात्र परपुद्गलने पोतापणे जाणवाचीज थयुं. तो पोतानुं स्वरूप ज्ञानादि सत्तावंत जेम ठे तेम यथार्थ जाणवाची. सर्वे विषमता मटी समजावनी प्राप्ति थाय.

हीराचंद नामना एक गृहस्थने में पूठयुं के तमे कोण ठो ? ते बोड्यो के हुं हीराचंद तुं. में तेने पूठयुं के आ शरीरनी अंदर मांस, रुधिर, हारुकुं, चामकुं आदि अनेक पदार्थो ठे. तेमां हीराचंद तुं एवं जाणनार कोण ? तो ते बोड्योके सर्वे मलीने हीराचंद. में तेने पूठयुं के तमे हीराचंद तुं एवं जाणनार एक ठो के अनेक ठो ? हाडकुं, चामकुं, मांस आदि अनेक पदार्थनुं जाणनार कोण ठे ? हाड, चर्मादि अनेक तत्वोथी बनेलां ठे, ते तत्वो अनेक परमाणुंथी बनेलां ठे. अने ते समये समये जुनां विखरे अने नवां आवतां जाय ठे. तेमांथी पूर्व अपर समयना अनुभववालो कोण ठे ? अनुभवतो एकज स्थानकमां स्थिर रहेतो देखाय ठे. तो ते अनुभववंत कोण ठे ? त्यारे ते कहे ठे के हुं ए वात कांइ जाणतो नथी. पण एटलुं जाणुं तुं के आ शरीर तेज हुं तुं. शरीर ए हुं तुं एवं जाणनार तमे एक ठो के बहु ठो ? ते कहो. त्यारे हीराचंद कहेके बहु मलीनेज एक थाय ठे. पण कोइ चीज एकली होती नथी. में तेने कहुं के बहु चीज मलीने शाक थाय ठे. ते एक शाक कहेवाय ठे पण खाराश बहु चीजोए मलीने करीके एकला लूणनीज थइ ? बहु चीजो मलीने खाराश थइ नथी. जेटली शाकमां चीजो पडी ठे तैणे आप आपणा गुण, स्वाद, विगेरे ठोड्यां नथी. ने एकला लूणे खटाश, खाराश, विगेरे बहु स्वाद पण कर्या नथी. मात्र लूण पोताना खाराश गुणनेज करे ठे. तेम ज्ञायकता शक्तिना कर्ता तमे एक चेतनाज ठो. जेम शाकमां जेगुं थएलुं लूण पोताना खाराश स्वजावने, पाचन

शक्तिने, दस्त साफ करवा विगेरे पोतानी शक्तिने ठोडतुं नथी अने
हिंग, आमली विगेरे परशक्तिने ग्रहण करतुं नथी तेम शरीरमां
रहेलो आत्मा पोतानी ज्ञानशक्तिने ठोमतो नथी अने रुधिर
मांसादिनी शक्तिने ग्रहण करी शकतो नथी माटे आत्मा एकज
चैनन्य शक्तिवंत, नित्य, अबाधित शाश्वतो ठे शरीर बहु परमाणुनो
पिरु ए तमने जाणतो नथी पण शरीरने जाणवावाला तमेज एक
शुद्ध चेतना पोतानी शक्ति सहित ठो तेथी स्वपर स्वरूपने जाणी
परस्वरूपनुं ममत्व त्यागी पोतानी चेतनाशक्तिमां स्थिर थवुं

हवे वार जावनानां नाम लखीए ठीए. (१) अनित्य (२) अ-
शरण (३) संसार (४) एकत्व (५) अन्यत्व (६) अशुचि
(७) आश्रव (८) संवर (९) निर्जरा (१०) लोकस्वजाव
(११) बोधि दुर्लभ (१२) धर्म जावना.

पढम मणिच्च मसरणं, संसारो एगया य अस्सुत्त ॥

असुइत्तं आसव सं, वरो अ तह णिज्जरा नवमी ॥ १ ॥

लोगसहावो बोही, उल्लहा धम्मस्स साद्गगा अरिहा ॥

एअ्याउं जावणाउं, जावेअव्वा पयत्तेणं ॥ २ ॥

(१) अनित्य जावना—आ संसार अनित्य ठे. धन, कुटुंब,

राज्य, लक्ष्मी, शरीर, चपल पुद्गल परमाणुंथी बनेलां ठे ते स्थिर
रहे नहि सध्या रंग समान, बली पाणीना परपोटा जेवा डाचनी
अणी ऊपर रहेला जलविंडु जेवां, वादलानी ठाया जेवां चपल,
विनाशिक ठे आपणी इच्छाए चालतां नथी तेम आ शरीर अने
इंद्रियादिकनी शक्ति, बली कामजोगादिकनी शक्ति ते पण राखी
रहेती नथी तेम आपणी इच्छाए पण चालती नथी एवा अनित्य
पदार्थ ऊपर पोतानुं सिद्ध समान आत्मस्वरूप चूकी कोण मूर्ख
राग करे ?

(१) अशरणज्ञावना—मरण समये चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थ-कर आदि गमे तेवा मोटा पुरुषोने पण धन, कुटुंबादिक कोशपण बचावी शकतुं नथी. तेम रोगादिकनी वेदनाने पण कोश मटाफी शकतुं नथी. एटले कोश कोशनुं शरण थतुं नथी. संसार मांहे जन्म मरण अने नरकादि दुर्गतिनी वेदना मटाडवाने स्त्री, धर्णी, पुत्र, माता, पिता, सज्जन, हेतु, नोकरो विगेरे कोशपण शरण थतुं नथी. पण दुर्गति आदिथी बचाववाने एक आत्मधर्म एज शरण थाय ठे. अने आत्मधर्मना दातार पोताना धर्माचार्य ते पण व्यवहारथी शरण जाणवा. एम अशरण ज्ञावना जाववी.

(३) संसार ज्ञावना—आ संसारने विषे सर्वे जीव, लोका-काशमां रहेला सर्वे पुद्गलोने विषयज्ञावे तथा कषायज्ञावे, तथा सर्वे वर्गणा पणे जोगवी चूक्या ठे. जे पोतानी माता हती ते स्त्री तथा जे स्त्री हती ते माता, जे पिता हतो ते पुत्र तथा पुत्र हतो ते पिता, शेठ हतो ते नोकर तथा नोकर हतो ते शेठ, ज्ञीख आपनारो हतो ते लेनारो थयो तथा लेनार हतो ते आपनार थयो, तथा शत्रु ते मित्र, मित्र ते शत्रु, जे सुंदर ठवीवाला महा बलवंत हता ते कोढादिक महारोगोए पीमित, दीन, दुःखीया, दरिद्र थया, जे निगोदावस्थामांहे बहु दुःखना जोगी हता ते देवादिक रिद्धिने पाम्या, अने जे देवादिक रिद्धिवंत हता तेज एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, नरकादि परतंत्रपणे वेदनाना जोगदारी थया, वली जे महंत पूजाने पामता हता तेज महा निंदवा योग्य थया, केशर चंदन पुष्पादिकना जोगी हता तेज केशर चंदनादि एकेंद्रियनी गति पामी पोताना अंगे ठेदन जेदननी वेदना सही अन्य जीवोने जोगना कारण थया, एवी एवी रीतना अनेक संबंधो संसारने विषे सर्वे जीवो करी चूक्या ठे. एवो विकराल जयंकर विचित्र

गतिवालो आ संसाररूप समुद्र अथाग जाणी हे चेतना । तारे पोतानुं आत्मतत्त्व चूकी, आ संसार समुद्रना किनारे निर्जय रहेवुं ए तने घटतुं नथी एवा संसारमां भ्रमण करतां हे जीव । तें अनंत पुद्गल परावर्तन कर्या, हवे तारी निर्मल ज्ञायकता शक्ति संजाली तारी सत्तानूमिमाहे प्रवेश कर संसार भ्रमण करतां रागादिक विपमता परिणामे करी तारा ज्ञानादिक गुणथी खाली रह्यो हवे संसार भ्रमणने वधारवावाला एवा रागादि परिणतिना विपमजावने तुं न कर. ए विपमताने मटाडी समजावनो लाज लेवो ते सामायक जाणवुं.

(४) एकत्व जावना—आ जीव संसारमां पोते एकलोज आवे अने पोते एकलोज जाय, सुख दुःखादि विपाक पोते एकलोज जोगवे. पण तेमाहेथी कोड जोगववा लागे नहीं तेम पोताना ज्ञानादि गुणो ते पण पोते एकलोज पामे, जोगवे, एम एकत्वजावना जाववी.

(५) अन्यत्व जावना—पोतानो आत्मा ज्ञानरूप ठे अने शरीर जड अचेतन ठे परस्पर जिन्न ठे. आत्मा ते शरीर नथी अने शरीर ते आत्मा नथी शरीरना वर्ण गंध संस्थानादि ते आत्माना नहीं अने आत्माना ज्ञान दर्शन चारित्रादि ते शरीरना नहीं जे शरीरनुं ते सर्वे आत्माथी अन्य ठे. धन, सज्जन, राज्य, वागादि सर्वे आत्माथी अन्य जाणी ते उपरथी ममत्व अने रागादि गोडी उदासिन्नपणे पोताना स्वरूपमां स्थिरयोज थवुं.

(६) अशुचि जावना—शरीर ते रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य, परु, आंतरनां, नसो, जाल, विष्टा, मूत्र, पित्त, श्रेष्म आदिनु पिड त्वचापके टंकायसुं, ठेकाणे ठेकाणे केशोना कुंठ अने श्वांथी व्यासठे पुरुपना नव अने स्त्रीना चार छारे नगरना खाडनी पेठे डुगंधी वहेती रहे ठे एवु शरीर कोड कावे पण पवित्र होतुं

नथी, हजारो समुद्रना पाणी अने पृथ्वी जेटली माटीथी मोंहुं धोइ पठी एक कोगलो मोंढामां जरी पीवाना पाणी जेगो नाखी कोइने पीवा आपे तो ते शुरू कहेवातो नथी. वली कोढ, जलोदर, जगंदर, वली क्रमीजीवोए करीने आकुल अने कंठमाल, रुढमाल, कठोदर, सफोदर, जूख, तृषा, काम आदि अनेक रोगोनुं उपादान जे मांहे अनेक रोगोथी व्याप्त क्षीणमां निकुं, क्षीणमां फीकुं, प्रेत सरखुं एवं आ शरीर ते उपर, निर्मल आत्म अंग, अजंग, अविचलसुखनी खाणने चूकी कोण मूर्ख राग रसे रींजे ? एम जाणी शरीरादिकनो राग ठोकी निर्मल आत्म अंग मांही स्थिर थवुं, ते समजाव जाणवो.

(७) आश्रव जावना—वली मिथ्यात्व एटले उलटी सह-हणा अने कांइनुं कांइ जाणवुं, अविरति, प्रमाद, कषाय, अने मन, वचन, कायाना योग ए पांचे रस्ते कर्म परिणाम आवे ठे. आत्मा कर्मपुद्गलवर्गणा साथे वंधाय ठे. ते ज्ञानानंदी पोतानुं स्वरूप पोताना उपयोगमां राखवाथी अने मिथ्यात्वादिकथी परजावनो रस न आवे, एवी संजालथी रोकवुं. वली दानादिके करी शुचकर्म वंधाय ठे, अने विषय कषाय परिणामे अशुच कर्म वंधाय ठे, एवी वंध प्रकृति आत्मसत्ताने चूकावनार संसार ज्रमण कराववावाली हेय जाणी आश्रवना परिणाम तजी चैतन्य परिणामी थइ सत्ता समाधि मांहे स्थिरथोच थवुं, ते समजाव जाणवो.

(८) संवर जावना—वली जे क्रिया बाह्य प्रवृत्ति अने अंतर परिणामथी आश्रवनुं रोकावुं थाय, ते संवर जावना. जेम ह्रमादिक परिणामे क्रोधादिक आश्रवनुं रोकावुं थाय, मिथ्या परिणामे आवता आश्रवनुं रोकावुं सम्यक्त जावे थाय, अविरति एटले पंचइंद्रिय अने धनादिकना जोगमां राग रक्ततानुं विरक्त परिणामे रोकावुं थाय, मन, वचन, कायाना योगनी अशुद्ध जावमां प्रवृत्ति ते पलटावीने

ज्ञानादिक आत्म गुणमांहि प्रवर्त्ताववा अने आत्म धर्मना दातार एवा देवगुरु शास्त्रना आदर सन्मान मांहि प्रवर्त्ताववा, वली प्रमाद जावे आवता कर्म रस परिणामने शुद्ध उपयोगे शुद्ध सत्तारसी परिणामे रोकवा ते आठमी संवर जावना जाणवी.

(ए) निर्जरा जावना—जेम कोइ वस्तुमां टावी राखवाथी आंवातुं फल पाके ठे, तेम तपे करीने कर्मनु पचावतुं, पूर्व संचित कर्मनु खरवुं ते निर्जरा. ते निर्जरा अकाम, सकाम वे चेदे ठे अकाम निर्जरा शुचाशुच कर्म उदय आवेलां जोगववाथी थाय ठे, ते कंड वंठित फलने आपे नहि सकाम निर्जरा कर्मनु अनिष्टपणु जाणी ज्ञान शक्ति कर्म रस जावने अर्थे पदविधि बाह्य, पदविधि अच्यंतर तपे करी कर्म रसने निरस करवो ते आत्म परिणाममा जरेलो कर्म रस, शुद्धात्म जावना कामी थइ ठोरवो तेने सकाम निर्जरा कहीए ते सकाम निर्जरा ज्यां सुधी देहने पोतापणे जाण्यो ठे त्यां सुधी वनी शके नहि. अने अकाम निर्जरा तो मिथ्याद्रष्टीएअनंतीवार करी ते कंडलेखे आवी नहि, जे माटे जिनेश्वरनी आझाए तपश्चर्या आदरवी, माटे जीवाजीव परिणामने जाणी, पर परिणाम मांहे राग, रीज, खीज तजी पोताना शुद्धात्म जावमां स्थिरजावे रहेतुं, पोताना ज्ञानादिक स्वजावना जोगी, अनुभववी थइ अखरु धाराए आत्मानंद आस्वाद लेवो. पुद्गल वर्णादिक उपरनो रस ज्यां सुधी आत्म परिणाम मांहेथी निकलतो नथी त्यां सुधी निर्जरा यती नथी. माटे बाह्य अने अच्यंतर तप आत्म परिणाममांथी पर परिणतिनो रस काढवाना निवर्त्तवाना कामी थइ द्रव्य जावथी आदरवो, अतर परिणाममांहेथी पुद्गल गुण पर्यायनो रस काढवानो जाण्याविना वाहिरना तपादिक करनार वाल तपस्वीनी पेठे मात्र कायक्लेश करे ठे. माटे पुद्गल रसे रीजेला आत्म परिणामने जिनवाणी रसे धोइ, आत्मरसे रक्त थइ, परमा-

नंद जोगी थवुं, पुद्गल रसे रींजेलो चेतना अनंत कालथी कर्म विपाकना कटुक रस जोगवी वारंवार जन्म मरणादिक करतो मोहनी निंद मांहे अचेतन सरखो थइ, जन्मताथी जन्मवत् वनी रह्यो ठे, तेज कर्म रस अजावे सरस सुरसे रसी थइ परमपूज्य पदने पामे; माटे कर्म रसनी रींज, राग, तजी समजावे वर्तवुं ऊपर जे बाह्य अच्यंतर तप लख्यो ते नीचे प्रमाणे.

अणसणमूणोअरिया, वित्तीसंखेवणं रसञ्चाउ ।

कायकित्तेसो संलीणया य वज्जो तवो होई ॥

अणसण—अन्ननी इष्ठानो निरोध ते अपवास, ठठ, अठमादि अने एकासणादिक ते इत्वर अणसण जाणवुं; अने आयुष्य निकट जाणी मास, पद्द, अगर केटलाकदिवस पहेलां जावजीव सुधी अन्नादिकने न इष्ठवुं—ठोरुवुं, ते यावत्कथिक अणसण जाणवुं.

उणोदरी—पेट पुरुं जरवानी इष्ठा नहि, एटले जात पाणीनी न्यूनता करवी, तथा उपकरणो तेमज रागादिक कषायनी न्यूनता करवी.

वित्तीसंखेवण—शरीरना जोग ऊपजोगनी वस्तु संजम अर्थे जे वापरवामां आवे ठे तेमांथी घटाडवुं, एटले सय्या, आसन, आहारा दिकमांथी घटारुवुं.

रसञ्चाउ—एटले—दहीं, दुध, घी, तेल, मीठाश, पकवान सुखडी प्रमुख, ए ठ विगय तथा मद, मदिरा, मांस, मांखण अने पंचेंद्रि-उना विषयोने इष्ठवुं नहि, अने विषयोना कारण धन, स्त्री आदिने इष्ठवुं नहि, जोगवुं नहि.

कायकित्तेस—काया उपर लोचादिक कष्ट पडे अगर बावीस परिसह आव्या ठतां पण असंयमनी इष्ठा नहि.

संलीणया—अने चार जेद ठे, ईन्द्रियसंलीनता, कपाय संलीनता, योग संलीनता, विविक्त चर्या संलीनता. कपायने इच्छवा नहि आदर करवा नहि, मन वचन कायाना जोग असंजममां प्रवर्त्ताववाने इच्छे नहि इंद्रियोने विषयमां प्रेर्यानी इच्छा नहि, संजम यत्ना न रहे एवी वस्तुने इच्छवी नहि.

एम ठ प्रकारे वाह्य तप जाणवो, ते सर्वथी अने देशथी एवा वे जेदे जाणवो, अतर द्रष्टीविना उपर लख्या प्रमाणे वाह्य तप मिथ्या-द्रष्टी जीव पण करी शके, अने वाह्य शरीरने तपावे माटे वाह्य तप जाणवो.

पायञ्चित्तं विणञ्जं, वेयावच्चं तद्देव सज्जाञ्जं ॥

जाण उस्सग्गो विञ्च, अञ्जितरञ्जं तवो होई ॥

अर्थ—पहेलुं (पायञ्चित्तं के०) प्रायश्चित्त तप एटले कीधेला अपराधनी शुद्धि करवी कपट रहितपणे लागेला दोपने गुरु आगल प्रकाश करी तेनी गुरु मुखथी आलोचना लेवी तेना दश जेद ठे मात्र गुरुनी आगल पोताना करेला अपराधनु कथन करवु तथा गोचरी प्रमुखनुं जे आलोचवुं ते पहेलु आलोचन प्रायश्चित्त. पूंज्याविना पातरुं प्रमुख परठववाथी मिळामि डुक्कड देवुं ते वीजु प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त. शब्दादिक विषय उपर रागादिक कर्याथी तेनुं आलोचन करवुं अने वीजुं मिळामि डुक्कड पण देवुं एटले वन्ने वानां करवां ते वीजुं मिश्र प्रायश्चित्त अशुद्ध ज्ञात पाणी प्रमुखनो जे त्याग करवो ते चोथुं विवेक प्रायश्चित्त. कुस्वप्नादिक दीगथी कायोत्सर्ग करवो ते पांचमुं कायोत्सर्ग प्रायश्चित्त पृथ्वीकाय प्रमुखनो सघट थवाथी नीवी प्रमुख जे ठमासीपर्यंत तप करवुं ते ठहुं तप प्रायश्चित्त पृथ्वी आदिकनो संघट थवाथी कांश्क दिहा पर्यायनी न्यूनता थइ होय ते अपराधनुं निवारण करवाने जे दुर्दम तप करवो

ते सातमुं ठेद प्रायश्चित्त. मूल गुण जंग थवाने लीधे सर्वथा व्रत पर्यायनुं ठेदन थवाथी फरी जे महाव्रत लेवां ते आठमुं मूल प्रायश्चित्त. अति संक्लिष्ट परिणामे करी कोइनो घातपात थइ गयो होय, तो सूत्रोक्त विधिए करी तप करवुं, अने त्यार पठी फरी महाव्रतने धारण करवां ते नवमुं अनवस्थाप्य प्रायश्चित्त. साधवी अथवा राजानी राणी प्रमुख स्त्रीने विषे संजोग थइ गयाथी वार वर्ष पर्यंत क्रियासहित अने लिंगादिक जेदे रहित तीर्थप्रज्ञावना करी, फरी दीक्षा लेइने जे गढमां आववुं ते दशमो पारांचित प्रायश्चित्त. ए दश प्रकारे प्रायश्चित्त तप कह्युं.

विणञ्जो-विनय तप, एटले गुणवंतादिकनी जक्ति करवी, तथा आशातना टाळवी इत्यादिक एना सात जेदे ठे. तेमां प्रथम ज्ञाननो विनय पांच जेदे ठे. त्यां मत्यादि पांच प्रकारना ज्ञाननी बाह्यथी सेवा करवी ते पहेलो जक्ति विनय, पांच ज्ञाननुं अंतरंग प्रीतिसहित बहुमान करवुं ते बीजो बहुमान विनय, पांचे ज्ञाने करी दीठेला जाणेला पदार्थोनी सम्यक् प्रकारे जे अनुजवथी ज्ञावना करवी ते बीजो ज्ञावना विनय, पांचे ज्ञाननुं विधिए करी ग्रहण करवुं ते चोथो विधि ग्रहण विनय, अने पांचे ज्ञाननो जे अज्यास करवो ते पांचमो अज्यास विनय.

बीजो दर्शननो विनय बे जेदे ठे,

(१) शुश्रूषा एटले गुरु आदि संगे उचित क्रियानुं साचववुं.
(२) अनाशातना विनय एटले अनुचित क्रियाथी निवर्तवुं अथवा आशातना करवी नहि. एवी रीते दर्शननो विनय बे प्रकारे ठे. ए बे प्रकारनो विनय ज्ञान दर्शन चरणादि आत्मगुणे अधिक धर्माचार्यादिनो करवो ते शुश्रूषानुं स्वरूप अनेक प्रकारे ठे. (१) सत्कार एटले स्तवन तथा वंदनादिक करवां. (२) अज्युहान एटले आसनथी

उभुं. (३) सन्मान एटले वस्त्र तथा पात्रादिके करी पूजा करवी.
 (४) आसनपरिग्रहण एटले अति आदरे करी आसन लावी
 आपीने स्वामी । आ आसन उपर वेसो एम मुखयी कहेवुं तेमज
 (५) आसननुं प्रदान एटले मात्र मुख थकी कहेवुं एटलुंज नहीं
 पण ते प्रमाणे आसन देवुं (६) कृतिकर्म एटले वंदना करवी ए
 साधु प्रमुखनी अपेक्षाये जाणवुं (७) अजलिग्रहण एटले हाथ
 जोडवा (८) आवताने सामे जवुं (९) वेठेलाने (पर्युपासना)
 सेवा करवी (१०) जनाराने वोलाववा जवुं ए दश प्रकारे शुश्रूपा रूप
 पहेलो विनय थाय ठे

वीजा अनाशातना विनयना पिस्तालीश जेद ठे ते कहे ठे (१)
 रूपजादिक चोवीश तीर्थकर (२) जिन प्ररूपित धर्म (३) धर्मा-
 चार्य अथवा प्रब्रजाचार्य (४) व्याख्यान करनार वाचना दातार
 (वाचक) (५) वय, पर्याय तथा श्रुत ए त्रण प्रकारना थिविर
 (६) कुल, ते चंड्रादिक एक आचार्यनी सतति (७) गण ते
 पोतपोतामां सापेक्ष कुलनो समुदाय कोटिकादिक (८) संघ ते
 ज्ञानादिक गुण सहित साधु समुदाय अथवा गण समुदाय रूप विपे
 (९) सांज्ञोगिक, ते एक मंडलिमां जे साथे व्यवहार होय ते
 (१०) क्रियामा जे पोताना सरखी क्रियावाला होय ते एमनी साथे
 मतिज्ञानादिक पांच ज्ञान मेलवतां पदर थया तेने विपे (१) आ-
 शातनानो त्याग करवो, तेमज (२) जक्ति सहित बहुमान करवुं,
 तथा (३), ठता गुण वर्णवीने यशः कीर्त्ति दीपाववी एवी रीते
 पूर्वोक्त पंटरने ए त्रणे गुणतां अनाशातना विनयना पिस्तालीश जेद
 थाय ठे. ए अनाशातना रूप वीजो विनय कह्यो.

त्रीजो चारित्रनो विनय पांच जेदे ठे. ते कहे ठे.—सामायिक
 प्रमुख पांच चारित्रोनी सहृहणा करवी, तेमज कापाये करी फरसवुं,
 आदरवु, पालवु तेमज जव्य प्राणीनी आगल प्ररूपणा करवी

त्रण प्रकारना योगनो विनय कहे ठे:—आचार्यादिकोनो सर्व-
कालने विषे मन, वचन, तथा कायाये करी विनय करवो. एटले मने
करी मातुं चिंतवुं नहीं. वचने करी मातुं बोलवुं नहीं. तथा कायाये
करी माठी प्रवृत्ति करवी नहीं. तेवी रीतेज ते आचार्यादिकने विषे
मन, वचन अने कायाने शुज प्रवृत्तिमां उदीरवां, प्रवर्त्ताववां ए रीते
त्रण प्रकारे योगनो विनय ते पूर्वोक्त त्रण विनयनी साथे मेलवतां ठ
जेद विनयना थया.

सातमो लोकोपचार विनय सात जेदे ठे. ते कहे ठे:—(१) गुरु-
प्रमुख जे श्रेष्ठ पुरुष होय तेउनी समीपे वसवुं, (२) आराधवा
योग्य पुरुषनी श्वाये प्रवर्त्तवुं, (३) पोतानी ऊपर उपकार करे तेनी
ऊपर पाठो प्रत्युपकार करवो, एटले गुरुने जो हुं विनये करी प्रसन्न
करीश, तो ते मने शास्त्र दान देशे, एवा अजिप्राये करी गुरुने ज्ञात
पाणी प्रमुख लावी देवुं, (४) तेमज ज्ञानादिक साधन माटे
जे ज्ञात पाणी प्रमुख आपवां, (५) तथा दुःखे करी पीनाएला जे
ग्लान तेनी औषधादिके करी गवेषणा करवी (६) तेमज देश
तथा कालनुं जाणवुं, जे अवसरे जे ऊचित होय, ते अवसरे ते करवुं,
(७) वनीलो (ज्ञानादि गुणे वर्द्धमान) संबंधी सर्व कार्योंने विषे
अनुकूलपणुं एटले तेमनां कार्य करवामां उजमाल रहेवुं. इति ज्ञावः
एवी रीते लोकोपचार विनय सात प्रकारे ठे. एम विनयना सात जेदे
करी बीजुं विनय तप जाणवुं. यद्यपि विनय तो एकज ठे तथापि
ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मन, वचन, काया, अने लोकोपचार, ए सात
विषये करी विनय करीए तेथी बीजो विनय तप पण सात प्रकारनो
कह्यो.

वेयावच्चं—वैयावृत्य तप एटले ज्ञात, पाणी प्रमुख संपादवा रूप
उपष्टंज दृष्टे, ते दश जेदे ठे. यथा:

आयरिय उवजाए, थेर तवस्सी गिलाण सेहाण ।

साहम्मी कुल गण सं, घ वेयावच्चं ह्वइ दसहा ॥

आचार्य ते जेनी पासेथी धर्म प्राप्त थाय ठे ते. उपाध्याय ते जे विद्या अच्युस करावे ठे ते स्थविर, ते ज्ञान, पर्याय, तथा वय, ए त्रण प्रकारे तपस्वी ते ठठ अठम प्रमुख तप करनार होय ते (गिलाण के०) जे रोगी होय ते. सेहाण ते शिष्य नवी दीक्षा लीधेलो होय ते. साहम्मी ते समान धर्मवान् होय ते. (कुल के०) चंद्रादिक कुलवान् होय ते. गण ते कोटिक प्रमुख. संघ ते समुदाय रुप होय ते. एवी रीते ए दशनी अशन, पान, वस्त्र, पात्र, तथा औषध प्रमुखे करी यथायोग्य सेवा करवी, तेने त्रीजो वैय्यावृत्य तप कहे ठे.

(तदेव के०)—तथैव एटले तेमज चोथुं (सज्जारुं के०)

स्वाध्याय ए नामनुं तप, ते पांच जेदे ठे, यथा “

वायणा पुठणा चैव, तहा य परिअट्टणा ।

अणुप्पेहा धम्मकहा, सज्जारुं होइ पंचहा ॥”

(वायणा के०) वाचना, ते पोते जणवुं, शिष्यादिकने जणावुं, तथा वांचवुं पृठना, ते जे सूत्रार्थमां संदेह पढ्याथी गुर्वादिकने पूठवुं ते (तहाय के०) तेवी रीतेज (परिअट्टणा के०) परिवर्तना, ते पूर्वे शीखेलो जे अर्थ तेने फरी संजारवो ते अनुप्रेक्षा, ते पूर्वे धारेला अर्थनुं चिंतवन करवुं ते. तथा वार अने चार जावनानुं जावुं. (धम्मकहा के०) धर्म संबंधी कया कहेवी अथवा धर्मोपदेश करवो ते ए प्रकारे स्वाध्यायतप पांच जेदे थाय ठे ते कहुं.

स्वाध्याय एटले समयरुप जिनेश्वरनां वचन. जे वचन वने आत्मा आत्म अनुभवने पामे एवां वचननुं वांचवुं, जणवुं, जणावुं, चिंतवुं, ते स्वाध्याय तप जाणवुं.

५ (ज्ञाणं के०) ध्यान ते आत्मवीर्यं मन वचन कायाना जोगद्वारा न प्रवर्त्तावतां त्रणे जोगने स्थिर राखी शुद्धात्मज्ञावमां उपयोग स्थिर राखवो ते ध्यान तप जाणवो. ध्यान विषे आ ग्रंथना ध्यानाधिकारमां तथा अनुत्तव प्रवेशिका नामना ग्रंथमां विशेषे कहुं ठे तेथी अहिंआं लख्युं नथी.

६ (उस्सग्गोविअ के०) कायोत्सर्ग तप पण द्रव्यथी तथा ज्ञावथी वे चेदे ठे, तेमां द्रव्योत्सर्गना चार चेद ठे, अने ज्ञावोत्सर्गना त्रण चेद ठे, तिहां प्रथम द्रव्योत्सर्ग कहे ठे.

(१) गढनो त्याग करी जिनकटपादिक जे आदरवो, ते पहेलो गणोत्सर्ग; (२) अणसणादिक त्रत लश्ने शरीरनो जे त्याग करवो, ते बीजो देहोत्सर्ग; (३) कटपविशेषे ऊपधिनो जे त्याग करवो, ते त्रीजो उपध्युत्सर्ग, (४) अधिक तथा अशुद्ध अशनादिक चारनो त्याग करवो, ते चोथो अशुद्धतपाण उत्सर्ग. ए चार प्रकारे द्रव्यथी उत्सर्ग जाणवो. उत्सर्ग एटले त्याग करवो, ए अर्थ समजवो.

हवे ज्ञावोत्सर्गना त्रण चेद कहे ठे १ क्रोधादिक चार कषायनो जे त्याग करवो ते पहेलो कषायोत्सर्ग. २ नरकादिकना जवनुं आवखुं बांधवानां कारण, जे मिथ्यात्वादिक ठे, तेनो जे त्याग, ते बीजो ज्ञावोत्सर्ग अर्थात् संसारोत्सर्ग. ३ बंधनां हेतु जे ज्ञानावरणादिक कर्म ज्ञानप्रत्यनीकपणादिक ठे तेनो जे त्याग, तेने त्रीजो कर्म उत्सर्ग कहिये. ए ज्ञावथी उत्सर्ग त्रण चेदे कह्यो, एथी कर्मनी निर्जरा थाय ठे. ए रीते ए ठ प्रकारे (अङ्गितरजंतवो के०) अन्यंतर तप (होई के०) ठे. ए ठ चेदने सम्यक्द्रष्टि जीव तप करी माने. एम ए बार प्रकारनां तपे करी निर्जरा तत्त्व कहुं.

(१०) लोकस्वरूप ज्ञावना—केड उपर बे हाथ देश वन्ने पग पसारी. ऊचेला पुरुष जेवो समआकार षट् द्रव्यात्मक पूर्व पर्याये विनशे नवा

पर्याये उत्पन्न थाय ड्रव्यथी निश्चल रहे एवो चौद रज्जु प्रमाण लोक
 ठे. तेनुं नीचेनुं तलीज उधा बालेला सरावला सरखुं अने मध्यज्ञाग
 जाखर सरखो उपरनो ज्ञाग मृदंग सरखो एवो जे लोक ते मांहे हुं
 सर्वे ठेकाणे उत्सर्पिणी अवसर्पिणीना सर्वे समयोमां ने लोकाकाशना
 सर्व प्रदेशे पुद्गलनी सर्वे जातीनी वर्णणामां जन्म मरणे करी रोग,
 जय, शोक, वियोग, अज्ञान कपायादि महा वेदनाउं जोगवी चूक्यो.
 ते जरु शरीरमाहे आत्मबुद्धिए करी रागादिकना विकारोथी सुख
 दुःखादिना संकटपो करी स्वरूप रमण अवकाशने न पाम्यो तेनुं
 फल हतुं हवे चितामणीरत्न समान दुर्लज मनुष्य जव, वली तेथी
 दुर्लज वीतराग देव, तथा आत्म समाधि वतावनारा गुरु, अने मि-
 थ्यात्व रागादिना जयथी ठोमावनारो वीतराग प्ररुपित धर्म, तेने
 ठोमी चौद रज्जुलोक मांहे रहेला माराथी जिन पदार्थो उपर
 रागादि विषम परिणाम करी एवा चौद रज्जुप्रमाण लोकमां हुं
 ज्रमण केम करुं ? एम समपरिणामे वर्तवुं ते सामायक जाणवुं ए
 लोकस्वजाव नामा दशमी जावना जाणवी

(११) बोधि दुर्लज जावना—चक्रवर्ती आदिक रिद्धि, रूप,
 बल, पराक्रम, स्त्री पुत्रादिक मन गमता जोगोनी प्राप्ति संसारमां
 जमता अनती वार पाम्यो. वली अकामनिर्झराना योगे पुण्यना सं-
 जोगथी मनुष्य जव, आर्यदेश, निरोगीपणुं, धर्म श्रवणादिक, तथा
 बालचारित्र, बाह्यथी आचार्य पद, पूज्यपणुं अनतीवार प्राप्त थयु तो
 पण सम्यक्त प्राप्त थवु ते अति दुर्लज ठे मांटे राज्यरिद्धि, बल, स्त्री
 आदि तथा बाह्यथी धर्मप्रवृत्ति अने साध्यशून्य क्रिया आचार्यादि
 पूज्यपदनो राग ठोमी सम्यक्त जावनी डढताने वधारी समजावे
 स्थिर थवुं ते अगीआरमी बोधिदुर्लज जावना जाणवी.

(१२) धर्म जावना—डुस्तर संसार समुद्रथी तारवाने प्रवहण
 समान श्री जिनेश्वरनी वाणीए प्ररुपेलो दशविध हांत्यादिक धर्म

तथा रत्नत्रयात्मकधर्म ते पामवो दुर्लभं ते तथा धर्मना साधन अरिहं-
तादिकनो जोग तेपण पामवो दुर्लभं ते माटे पामीने प्रमादी थइ पर
वस्तुना रागमां रक्त न थवुं. एम वारमी धर्म जावना जावी सम
परिणामी थवुं. एम वार प्रकारे जावना जावी समपरिणामी थवुं. तेज
ज्ञानादिक आत्मगुणना लाज्जरूप व्यापारे आत्मानो जाव प्रगट करवो.
एज सामायक जाणवुं.

खुहा पिवासा सी जएहं, दंसा चेला रइच्छिउ ।
चरिआ निसिहिया सिजा, अक्कोस वह जायणा ॥
अलाज रोग तण फासा, मल सक्कार परीसहा ।
पन्ना अन्नाण सम्मत्तं, इअ बावीस परीसहा ॥

आ झुधादिक परिसह आव्या ठतां पोताना निज आत्म स्वरूपने
अणाहारी, अक्षय, अखंड विचारी क्रोधादिक न करतां आत्मवीर्ये
करी आपणी ज्ञायकतामां समजावे स्थिरथोज रहेवुं ते समजाव
जाणवो.

एकता ज्ञान निश्चय दया, सद्गुरु तेहने जाखे ।
निर्विकल्प उपयोगमां, निज प्राणने राखे-आत्म०

हुं ज्ञान हुं मारा स्वरूपमां जासता ज्ञेयरूप षट् द्रव्य परपदार्थोथी
मने कांइ प्रयोजन नथी, ए उपयोगे परसंबंधे रागादि परिणामे
बंधाएली आत्मपरिणति परसंबंधथी ठोनी पोताना स्वरूपथी तन्मय
करी, सर्वे संकल्प ठोनीने, निर्विकल्प जावे स्थिरथोज, स्वरूप अजेदे
तन्मयताए राखे. संकल्प विकल्प परिणामे हणाता आत्मवीर्ये ज्ञा-
नादि प्राणने निर्विकल्प परिणामे एटले निर्विकल्प उपयोगे बचावे ते
निश्चयदया कहीए. माटे अहिंआं समजावनेज दया कही. जिनशा-
सनमां समजाव एज मुख्य साध्य ठे.

देशी कमखानी ॥ शुद्ध समजाव ठे, साध्य रूदये जिहां ।
वचन सापेक्ष क्रिया ठे, साधन तिहां ॥

हवे समयसार सिद्धांतनो सार बतावे ठे.

सवैया इकतीसा.

आचारिज कहे जिन वचनको, विस्तार अगम अपार है
कहेंगे हमकितनो!, बहुत बोलवेसो न मकसूद चुप जली,
बोलीए सुवचन प्रयोजन है जितनो, नानारूप जलपसो नाना
विकल्प उठे, ताते जेतो कारिज कथन जलो तितनो, शुद्ध
परमात्मको अनुजौ अच्यास कीजे, यहै मोख पंथ परमा-
रथ है इतनो.

॥ दोहा ॥ यह निचोर या ग्रंथको, यह परमरस पोष ।

तजे शुद्ध नय बंध हे, गहे शुद्ध नय मोष ॥

कुंदकुंद आचार्य कहे ठे के जिनमहाराजना वचननो विस्तार
अगम अपार ठे. हुं केटलो कही शकुं ? घणुं बोलवानी मतलब
नथी चुप रहेवुं ते ठीक ठे, अने जेटलुं प्रयोजन ठे तेटलुंज सुवचन
बोलवु पण नानाप्रकारनुं बोलवुं.—जल्प करवार्थी नाना प्रकारना
विकल्प उठे तेथी जे एक कार्य ठे तेटलुंज बोलवुं बस ठे शुद्ध नये
परमात्मानी निर्मल सत्ता झटीगोचर करी अनुभव आस्वाद खेवो
एटले निर्मल आत्मद्रव्यना अनुभव योगनो अच्यास करवो. एज
मोक्ष मार्ग ठे. एटले आखा समयसारना कथनमां एज परमार्थ ठे
आहिंआं विकल्पने समजावनो नाश करनार जणावी हुंकामां मोक्ष
मार्ग कह्यो. एज विकल्प तजवार्थी समजाव आवे. अने समजाव
आववार्थी शुद्धात्म अनुभव थाय शुद्धात्म अनुभव एज आत्मानी
सिद्धि ठे.

दोहरानो अर्थ—आ समयसारनुं रहस्य एज ठे, अने एज उत्कृष्ट रसनो पोषक ठे. के जे शुद्ध नयनी चाल ठोडवाथी बंध ठे, अने शुद्ध नयनी चाल ग्रहण करवाथी मोक्ष ठे.

समज्ञाव विना ज्ञान कहेवाय नहि, कारण के सर्वे जीव सामान्य ठे, अने पुद्गले पुद्गल सामान्य ठे तेने इष्टानिष्ट अगर शुचाशुच जाणवुं ते ज्ञान केम कहेवाय ? अने एक सरखी वस्तुने जूदी जूदी कल्पवी ते मिथ्याज्ञावने समज्ञाव शीरीते कहीए ? अपीतु नज कहेवाय. पण ए तो विषम ज्ञावज ठे.

दोहा. ज्ञान नहि समज्ञाव बीन, नहि ज्ञानविना समज्ञाव ।
ज्ञान ज्ञानु परकाश जीहां, तम रागादि अज्ञाव ॥

अर्थ—रागनो कर्ता मिथ्यात्वी जीव पोतेज ठे. सम्यक्त ज्ञावमां राग नथी. अने रागमां सम्यक्त ज्ञाव नथी. जेम उदेपुरनो रहेवा-वालो एक वेपारी धन कमावाना अर्थे दूर देशावर जइ अत्यंत मुशी-बते रुपैया सात लाखने आशरे धन उपार्जी किंमती अने वजनमां हलकां पोतानी पासे गुप्त रीते रही शके एवां मणी माणैक लइ फाटेलां जुनां कपमां पेहेरी पोताना देशमां आववा नीकद्वयो, गामना नजीक आवतां वे कोसने आशरे घांटी ऊपर सांजनी बखते एक सुंदर बंगलो जोयो ते बंगलाना चोक ऊपर मनोहर आसन उपर रतिसमान रुपवंती मां आंख, अने हाथना चालाथी कामी पुरुषोने आमंत्रण करती होय एवी युवा स्त्री बेठेली जोइ पेलो पुरुष मोहीत थयो. जाणैके मने चाहाय ठे, एम राग रसे रींजी चित्तमां प्रमोद मानतो पोतानी साथवाला न जाणे माटे तेउने कांइ बानुं बतावी साथ ठोनी बंगलाथी आगल आवतां थोमेकदूर आजुवाजु घांटी मांहे चोर, व्याघ्र आदिना जयने न गणकारतो तपासवा लाग्योके एने संज्ञालनार अहींआं कोइ ठेके नहीं. पठी संज्ञालनार नहीं जणावाथी तेनी नजीक आवी विविध

तरेहना वचनो उच्चार करवा लाग्यो पैली स्त्रीए कांइ जवाव दीधो नहीं पण हस्तुं मुख अने आंखो देखी नजीक नजीक आवी आखरे ते स्त्रीनो हाथ पकड्यो एटले जणायुं के आ तो आरस पापाणनी युक्तिथी वनावेली कृत्रिम स्त्री ठे एम जाणवाथी सर्वे उमेद निष्फळ थया एटले रातनुं अंधकार जोइ गजरावा लाग्यो. मारा साधवाला क्यां गया व्याघादिनो जय ठे हवे हुं विषम अटवीमां शुं करीश ? वली मार्गनो पण हुं अजाण तुं. आ जयंकर अटवीथी मने वचावनार कोण ठे ? हे देव ! आ शुं थयुं एम विद्याप करतो प्राण अने धननी आशा ठोनी आखी रात दुःखमां गमात्री, वचमां धन तो चोरोए वुंठयुं अने ते चोरोनो मार पण सखो ठेवट जीवितने चाहातो पोकार करतो हतो तेवामां प्रजात जगवानी समये नगरनी नजिक रहेनार सत्पुरुषे दु खीत पुरुषनो स्वर सांजली, जरायुं ठे दयारूपी अमृतरसे रुदय जेनुं एवो परोपकारी पुरुष पेला माणसने पोकारी कहेवा लाग्यो के तुं केम दु.खी थाय ठे मारी पासे आव, तांरुं गाम अने घर हुं तारी दृष्टिए वतावुं. एम ते सत्पुरुषनां वचन पोतेज कबूल करी पोतानी घर संपटानो जोगी थयो तो ए पंथी पुरुषने कोणे रोक्क्यो हतो ? मात्र पापाणनी पुतलीने पोतानी जुलथी खरो आनंद आपनारी साची स्त्री मानी राग रसे रींकी अटवीमां रोकायो. तेम मिथ्यात्वी जीव जड पुद्गल ड्रव्यमां पोतापणुं अने पोताने लायक जोग आनंद मानी पोतेज रोकाइ रखो वली ते सत्पुरुषनां वचन पोतेज मानी दयालु पुरुषना कहेवा प्रमाणे चाली पोताना घरने पाम्यो. तेम रागादिथी उपजेलु विषमपणुं एटले शुचाशुचपणुं पोतेज तजी सद्गुरुना अमृत समान वचन अंगीकार करी तेथोनी आझाए चाली आनंदपुरीमां पोतानीज लक्ष्मी-पोतेज वरे अहिंआं अज्ञान तजी विषमपणुं मटारुहुं तेज सामायिक जाणवु.

॥ पंचप्रमाद ॥

मज्जं विसय कसाया, निद्रा विकहा य पंचमी ज्ञणिया ।

ए ए पंच पमाया, जीवं पामंति संसारे ॥

मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा, ए पांच प्रमाद जीवने संसारमां त्रमण करावे ठे माटे तजवा.

॥ निद्राथी थती हानी ॥

जइ चउदस पुव्वधरो, वसई निगोएसुऽणंतयं कालं ।

निद्रा पमाय वसओ, ताहोहिसि कह तुमं जीव ॥

ज्यारे निद्रारूप प्रमादना वशथकी चौद पूर्वधर निगोदने विषे अनंताकालसुधी रहे ठे. तो हे जीव! ताहरुं शुं थशे? अर्थात् तुं जो निद्रा प्रमादने वश पड्यो तो कदि पण उंचो आवी शकीश नहीं. जुठं चुवनजानुं केवलीना चरित्रमां चुवनजानुं केवलीनो जीव पूर्व-लाजवमां चौद पूर्व ज्ञण्या त्यारे कर्मपरिणाम राजानो महान् अधिपति मोहराजा विलखो थयो के मारा तावामांथी आ जीव चारित्र धर्म राजाना सहायथी मुक्ति नगरे सिधावाने तैयार थयो ठे. हवे जो कदापि हुं जद्यम नहीं करु तो सर्वे संसार खाली थइ जशे. एम विचारी शोकातुर थइ बेठो ते देखी तेनी दासी निद्रा विचार करवा लागीके आपणो मालीक चिंतातुर ठे, जो भारा सरखुं काम होय तो हुं बजावी लावुं. जेथी मारा स्वामिनी प्रसन्नता मारा उपर बनी रहे. एम जाणी बोली के प्रचु आज चिंतातुर केम दीसो ठो? आपणे रागकेशरी अने द्वेषगजेंद्र आदि मोटा मोटा जोऽऊठं महान् पराक्रमी ठतां, शत्रु आदिकनी हरकत टालवामां पाठा हठवुं नहीं. हुं आपना दासनी दासी हुं तो पण जो आपनो अजिप्राय मने जणावो अने आशीष आपो तो आपनी कृपाथी हुं पण काम बजावी लावीश. एम निद्रा दासीनां वचन सांजली मोहराजाए

पोतानो अजिप्राय जणावी आशीप सहित हूकम आपतांज ते निद्रा
टासी चौद पूर्वधारी मुनि महाराजना अंगमां प्रवेश करी उपयोग
चूकावी ते मुनिना आत्माने मान आदि मोहराजाना मोटा सुन्नटोने
तावे कयों. ते कषायोए मुनिने नरकमां लइ केटला काल सुधी
महान् विटंवना ऊपजावी बहु ससार जमाव्यो. माटे मोहराजानी
नानामां नानी टासीना पण विश्वासे रहेवुं नहीं चौद पूर्वधा-
रीनी पण एवी दशा थइ तो मारा सरखानी शी गति ? माटे निद्रा
प्रमादने वइ थइ उपयोग चूकवो नहीं अने जो आपणेज उपयो-
गने नहीं चूकीए तो मोहराजाना वापनुं पण जोर चालवानुं नथी.

॥ कषायोनुं फल ॥

जं अज्जिअं चरित्तं, देसूणाए अ पुव्वकोमीए ।

त पुण कसायमित्तो, हारेइ नरो सुहुत्तेणं ॥

आठ वर्ष उठां क्रोड पूर्व वर्ष पालेवुं चारित्र शुचपरिणाम-
रूप, ते एक मुहूर्त्त मात्रना कषायथी नाश थाय ठे माटे उपयोग
राखी समजावने चूकवो नहीं

॥ चारे कषायोना दोपोनुं जुहुं जुहुं वर्णन करे ठे ॥

अनुपुपुत्तम् ॥ कोहो पीई पणासेई, माणो विणाय नासणो ।

माया मित्ताणि नासेई, लोहो सब्ब विणासणो॥

क्रोध प्रीतिनो नाश करे ठे मान विनयनो नाश करे ठे माया
मित्राश्नो नाश करे ठे. लोच सर्व गुणोनो विनाश करे ठे.

चारित्रनी प्रधानता. आर्यावृत्तम्

सुवहुंपि सुअमदीअं, किं काही चरण विप्पहीणस्स ।

अंधस्स जह पलित्ता, दीव सयसइस्स कोमीउं ॥

अर्थ—अत्यंत ज्ञानाच्यास कयों होय, तोपण चारित्र रहितने

ज्ञान शुं करे ठे? अर्थात् कांइ पण अवबोध करी शकतुं नथी. जेम लाखो क्रोमो प्रज्वलित करेला दीपको आंधळाने कंइ बोध करी शकता नथी. ज्ञानतो तेनेज कहीए के ज्यां परजावने पोतापणे न मनाय अने परजावनुं आचरण थाय नहि, पण आत्मजावमां आत्मपणुं मनाइ आत्मजावनुं आचरण थाय ते उत्सर्ग चारित्र ठे. ते प्रगट करवानां कारणो हेय उपादेय रूप क्रिया परिणतिने पण चारित्र कहीए. कारणमां कार्यनो आरोप करी नैगम नयथी कार्य कहेवाय ठे. उक्तंचः—कारण कार्याध्यारोप इति वचनात् हेय उपादेय रूप क्रिया परमेश्वरनी आज्ञा प्रमाणे न आदरे तो उत्सर्ग चारित्र पण शाना बलथी आवे? माटे उत्सर्ग चारित्रने जन्म आपनारी हेय उपादेयरूप क्रिया आदरवी. स्वजाव आचरण रहित मात्र कंठे करेलुं ज्ञान ते परमार्थे ज्ञान नथी एटले द्रव्य जाव प्रवृत्ति विनानुं ज्ञान ते कांइ लेखानुं नथी.

दोहा—ज्ञान कहीजे तेहने, राग रहे नहि रंच ।

रवि सन्मुख कहो किम रहे, अंधकार प्रपंच ॥

अर्थ—जेम सूर्यना किरणमां अंधारु रहि शकतुं नथी तेम साचा ज्ञानमां पुद्गल विषयो जला जणाइ तेनो राग रंच मात्र रही शकतो नथी. ज्ञान अने चारित्र ए अजिन्नपणे आत्माना गुण आत्मार्थी तन्मय होय ए शिवाय ज्ञान ते उपचार मात्र ठे.

अप्यपि सुअमहीअं, पयासगंहोइ चरण जुत्तस्स,

इक्कोवि जह पईवो, सचख्खु अस्सा पयासेई ॥

अर्थ—चारित्र युक्त पुरुषनो अदृपगुण श्रुतान्यास प्रकाश करनार थाय ठे. जेम चहुवालाने एक दीपक पण प्रकाश करेठे तेम जाणवुं.

बहिरुअंतर किरिया, रोहो अवकारणप्पणासंठ

णाणीस्स जं जिणुत्तं, तं परमं सम्मचारित्तम् ॥

अर्थ—बाहिर अंतर क्रिया (मन वचन अने कायानी क्रिया) मोडीने ज्ञानी मुनि पोताना आत्मस्वभावमां समजावे रहे ते निश्चय चारित्र ठे. तेज खरो समजाव जाणवो.

द्रव्य चारित्रनुं लक्षण.

असुहादो विणिवित्ती, सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं ।

वद समिदि गुत्तिरूवं, ववहारणया दु जिण जणिय ॥

अर्थ—हिंसा विषयादि अशुभ कर्म तजीने पंच सुमति त्रण गुत्ति सहित विनय वैयावच्च अथवा ज्ञान ध्यानादिक आत्मगुणने प्रगट करवा रुप शुभ कर्म ते द्रव्य चारित्र जिनेश्वरे कहुं ठे.

जयणा य धम्मजणाणी, जयणा धम्मस्स पालणी चेव ।

तववुद्धिकरी जयणा, एगंत सुहावहा जयणा ॥

जयणा ए धर्मने जन्म आपनारी माता ठे, जयणा धर्मनुं पालण करनार ठे जयणा तपनी वृद्धि करनारी ठे, जयणा एकांते सुखनेज आपनारी ठे माटे जयणा एज सामायक ठे,

खंती सुहाण मूलं, मूलं धम्मस्स उत्तमा खंती ।

हरइ महाविज्जा इव, खंती दुरियाइ सव्वाइं ॥

दामा सुखनुं मूल ठे, धर्मनुं मूल उत्तम दामा ठे, महा विद्या जेवी दामा सर्वे दुरितने हरे ठे

अनुष्टुप्—इयं नाण क्रियाहीणं, हया अन्नाणओ क्रिया ।

पासतो पंगुलो दहो, धावमाणो अ अंधओ ॥

क्रिया रहित जे ज्ञान ते हणाएलुं ठे, अने ज्ञान रहित क्रिया पण हणाएली ठे एटले क्रिया ऊलटा फलने आपनारी थाय ठे, अर्थात् ज्ञानवडे हेय, उपादेय, जणाय ठे. क्रियावडे हेय उपादेय

कराय ठे. एकथी बने नहि. जेम पांगलो अग्नि देखतां ठतां दाज्यो अने आंधळो दोडतां ठतां दाज्यो, तो ज्ञानवडे राग अने रागनां कारण विषयादिने हेय जाणी तजवां अने ज्ञानादिक निजगुण तथा देवगुरुनी आज्ञा अने सन्मान उपादेय जाणी आदरवुं. देशनो मार्ग जाणतां ठतां पग उठाववानी क्रिया करे नहि तो ते मार्ग-नुं जाणवुं निष्फळ थयुं अने मार्ग जाण्यावगर चालचाल करे तो विषम अटवीमां जइ पके, माटे आंधळो अने पांगळो बन्ने मळी वंठित नगरे पहोंचे अर्थात् आंख अने पग बने सहित वंठित ठामे पहोंचे. जेम गाडी बन्ने पैसांना संजोगथी चाले ठे तेम ज्ञान अने क्रियाना संजोगथी मुक्ति नगरे पोहोंचाय ठे.

संजोग सिद्धि अ फलं वयंति, न हु एग चक्रेण रहो पयाई ॥
अंधो य पंगो य वणए समिच्चा, ते संपण्ठा नगरं पविट्टा ॥

पंक्ति पुरुषो ज्ञान अने क्रियाना संजोगनी सिद्धिवेज मुक्ति रूप फलनी प्राप्ति कहे ठे, कारण के एक पैके रथ चालतो नथी पण बे पैसांवजेज रथ चाले ठे. तेनुं द्रष्टांत कहे ठे. आंधळो अने पांगलो वनने विषे एकठा मळीने त्यांथी नाठा अने ते नगरमां पेशी गया तेम ज्ञानवडे जाणी क्रियावडे परजाव तजाय ठे अने स्वजावमां स्थिर थवाय ठे.

जहा खरो चंदण जारवाही, जारस्स जागी न हु चंदणस्स ।
एवं खु नाणी चरणेण हीणो, जारस्स जागी न हु सुग्गईए ॥

जेम चंदननो जार वहेनार गधेको जारनो जोगी ठे, पण चंदननी सुगंधनो जोगी नथी, तेम ज्योतिष, वैदकादिक शास्त्रनो जाणनार व्यवहारथी ज्ञानी कहेवाय ठे, पण ते स्वजाव आचरण रूप चारित्रना आचरण विना मात्र हुं ज्ञानी तुं एवा अजिमानना जारनेज उपादे ठे. पण आत्मस्वजाव आचरणना लाजने वेइ शकतो नथी

एटले चारित्र विना ज्ञान ते चंदनना चार ऊपारुवारूप ठे पण मुक्ति रूपी सुगतिनुं दातार थाय नहि.

को चक्रवट्टि रिद्धिं, चइउं दासत्तणं समज्जिलसई ।

को व रयणाइ मुत्तुं, परिगिन्हइ उवल खंमाई ॥

अर्थ—चक्रवर्तीनी रिद्धिने तजीने दासपणानो अजिजाप कोण करे? वली रत्नने मूकी टइने पत्थरनो कम्को कोण मूर्ख ग्रहण करे? अर्थात् जे लाजालाजना व्यापारथी अजाण होय ते मूर्ख तेम करे मोक्ष फळने आपनाइ जे चारित्र ते ठोडीने संसार त्रमण करावे एवा विषयादिकने मूर्खज ग्रहण करे माटे सुइ पुरुषोए चारित्रमां शिथिल परिणाम न करवा, आवेलां दुःख नाश थइ जाय ठे माटे पोते ग्रहण करेलां व्रत ठोक्वां नहि अने समपरिणाममां रहेवुं.

अहि गिलइ गलइ उअरं, अहवा पञ्चुग्गलंति नयणाइं ।

हा विसमा कज्जगई, अहिणा ठच्चुंदरि गहिजा ॥

चारित्र ग्रह्या पठी जेना ढीला परिणाम थाय ठे, तेने सापे ठच्चुंदर ग्रहण कर्या जेवो न्याय थाय ठे जो ते ठच्चुंदराने साप गली जाय तो तेनुं पेट गळे अने जो ठोकीदे तो आंखो जाय हा । इती खेदे । कार्यनीगति विषम थइ ठे एवा जेना संजम लीधा पठी संजम पालवाने शिथिल परिणाम थया होय तेने सर्वोत्कृष्टपणुं वताववाने कहे ठे

नेरइयाणवि डुरव्वं, जिज्जइ कालेण किं पुण नराणं ।

ता न चिरं तुह होइ, डुःखमिणं मा समुच्चियसु ॥

नारकीनां दुःख पण काले करीने नाश पामे ठे तो मनुष्य माटे शुं कहेवुं ? ते माटे तने आ दुःख घणा काल सुधि नहीं रहे माटे तुं खेद न कर आ शरीर उपर जे दुःख अने सुख थतुं पोताने मानवु ते सिध्याइष्टी ठे, बहिरात्मजाव ठे, माटे तजवा लायक ठे.

अंतर आत्मद्रष्टे तुं नित्य चेतनावंत निर्दोष तुं माटे ग्रहण करेलां
व्रत समजावे पावलां, चारित्र ग्रहण करेलुं ठोडी देवुं ते बहुज
अनिष्ट ठे.

वरं अग्निमि पवेसो, वरं विसुद्धेणकम्मणा मरणं ।

मा गहियव्वय जंगो, मा जीअं खलीअसीत्तस्स ॥

मोटी अग्निमां प्रवेश करवो ते श्रेष्ठ ठे वली अणशण करीने
मरण पामवुं ते श्रेष्ठ ठे पण ग्रहण करेला व्रतनो जंग करवो ते ठीक
नथी. तेमज शीलमां स्वलना सहित जीवुं श्रेष्ठ नथी. समजावने
जन्म आपनार समकित अने समकितनुं फल वतावे ठे.

व्यवहार अने निश्चय नयथी मोक्षमार्ग.

सम्मदंसण णाणं, चरणं मोक्खस्स कारणं जाणे ।

ववहारा णिच्चयदो, तत्तिय मइअो णिअो अप्पा ॥

व्यवहार नयथी सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन अने सम्यक्-
चारित्र, ए त्रणे मलीने मोक्षनुं कारण थाय अने निश्चय नयथी
सम्यक्ज्ञान दर्शन चारित्रमय एवो जे आत्मा ते पोतेज मोक्षनुं
कारण ठे.

जो अपसथ्यो रागो, वडूइ संसार त्रमण परिवामी ।

विसयाइसु सयणाइसु, इच्छत्तं पुग्गलाइसु ॥

जे अप्रशस्त राग, विषयादिक उपर अथवा सज्जनादिक उपर
ते संसार त्रमण परंपराने वधारनार जाणवो. पुद्गलादिक वस्तुने इष्ट
श्चतां; वली तत्त्वार्थसूत्रमां कहुं ठे के:-

नाम-स्थापना अव्य जाव तस्तन्यास.

अर्थ-नाम, स्थापना, अव्य, जाव, ए चार निक्षेपा? वस्तुना न्यास
एटले वस्तुमां रहेनार स्वपर्याय ठे. वस्तुथी अजिन्न ठे. तो चार

निक्षेपेथी, देव, गुरु, धर्म, आत्मा अने अनात्मा सर्वेने जाणीए तोज निर्मल समकित थाय, अने समकित थाय तोज राग द्वेषथी मुक्त थइ शकाय माटे शुरू निक्षेपानु जाणपणुं जरुर करवुं जोश्ये सूत्रोमां ऊपचारथी चार निक्षेपा पण कद्या ठे तेनुं फळ पण ऊपचारथीज कद्युं ठे माटे निरूपचरित जे मोक्ष ते शुरू निक्षेपा जाण्याथीज साधि शकाय वली ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जाव ते पण वस्तुना वस्तुमांज होय, पण परद्रव्ये ड्रव्यादिकनुं कल्पवुं ते उपचारथीज ठे. माटे ड्रव्य, क्षेत्र, काल, जावथी वस्तु स्वरूप जाणवुं जोश्ये अने ड्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, तेज निक्षेपा ठे ए विषे सूत्रोमां वधारे अधिकार ठे अर्हांथां तो मात्र एक एक गाथानी साक्षी लखीए ठिये.

दृवं गुणसमुदायं, खित्तं उंगाह वद्वणा कादो ।

गुण पञ्जाय पवती, जावो निअ वद्वधम्मो सो ॥

गुणनो समुदाय ते ड्रव्य, अवगाहना ते क्षेत्र, गुण पर्यायनी प्रवृत्ति ते काल, निज वस्तु धर्म ते जाव, एम जाणवुं ज्यांसुधी परद्रव्यनी कामना ठे त्यांसुधी राग जतो नथी, अने आत्मगुणो प्रगट थता नथी. आत्माने पोताना माटे सुखनु कारण पोतानो-ज स्वजाव ठे चौद रज्जु लोकना पदार्थनी अंदरथी आत्माने कांइ पण लेवानुं नथी तो परद्रव्यनी कामना करी पोताना स्वरूपने जूलवु ए मिथ्याजाव ठे अने एथी रागादिक उपजी जवत्रमण थाय ठे

अहमिको खलु सुक्षो, निम्ममउं नाणदंसण समग्गो ।

तम्मिठ्ठिउं तच्चित्तो, सव्वे ए ए खयनेमि ॥

एगो मे सासउं अप्पा, नाण दंसण संजुउं ।

सेसामे वाहिरा जावा, सव्वे संजोग लक्खणा ॥

अहं आत्मा ज्ञानादि अनंत गुण पर्याय रूप, अनंत स्वधर्ममय,

द्रव्यथी अखंड समुदायपणे एक तुं वली निश्चय नयथी शुद्ध तुं. यद्यपि अनादि परजावमां लुब्ध थइ च्रष्ट थको अशुद्ध थयो, तो पण स्वजातिथी मूलधर्मे अनंत ज्ञानादि गुणमय, शुद्ध निष्कलंक, निरामय, निःसंग निदोषी तुं. सर्व ममकार परजावथी रहित तुं. ज्ञानसकल ज्ञासन परिच्छेदन रूप, दर्शन सामान्योपयोग, तेहीज मय तुं. एवा शुद्ध ज्ञासन, रमण परिणमन रूपे आत्मा रह्यो थको सर्व पर उपाधिने क्षय करी स्व शुद्धस्वरूपने प्रही सर्व परजाव चेदी करी निर्मल आनंद निपजावे.

नाण पयासगसो, हगाउ तवो संयमो उगुत्ति करो,

शुद्धता एटले पोताना आत्माने सिद्ध समान शुद्ध जाणी, पोते अनंत गुण युक्त स्वद्रव्यादिकपणे एकज तुं. एज उपयोग तिदणताए एटले अत्यंत स्थिर परिणामे राखी, परद्रव्यमांहे मारे कंइ पण काम नथी. एम उदासिन्नवृत्तिए मोहरूपी शत्रुनो नाश करी आत्मस्वजाव स्थिर करी पोताना ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि गुणो शक्तिमां रहेवा व्यक्तिपणे स्वतंत्रताए करीने जयनो पडह वजाव्यो बे, माटे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, रमण परिणाममां आत्मपरिणतिनुं एकत्व करवुं. परद्रव्यनी कामना तजी स्थिरथोज सत्ता जोगी थवुं एज सामायक बे.

॥ श्लोक ॥ राग द्वेषादि कल्लोलै, रदोलं यन्मनो जलम् ॥

स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं, सतत्त्वं नेतरो जनः ॥

राग द्वेषादि कल्लोलथी जेनुं मन रूपी जल मोलाइ गयुं नथी ते आत्मतत्त्वने जुए बे ते जोनारो पोतेज परमात्मा रूप बे बीजो कोइ परमात्मा नथी.

॥ श्लोक ॥ अविद्विप्तं मनस्तत्त्वं, विद्विप्तं त्रांति रात्मनः ।

धारयेत्तदविद्विप्तं, विद्विप्तं नाश्रयेत्ततः ॥

रागादिक परिणामे रहित एवं आत्मानुं वास्त्विक स्वरूप ठे अने तेनाथी जे उलटुं जेमां आत्मानी त्रांति ते आत्माथी जुडु पर स्वरूप ठे ते माटे रागादि रहित मनने धारण करवुं एटले मन रागद्वेष परिणाम वालुं थवा देवुं नहि. रागादि परिणाम युक्त मन अनंत ससार जमावे ठे तेज मन रागादिक रहित थये परमपदनी प्राप्ति थाय ठे माटे मनने मोहनी कर्मनी प्रकृतिना संसर्गवाळु थवा देवुं नही पण शुद्ध स्वभाव संसर्गवाळुं करवुं एज सत्य सामायक समजवुं अविद्याच्यास संस्कारै रवशंक्षिप्यते मन ।

तदेव ज्ञान संस्कारैः, स्वतस्तत्त्वेऽवतिष्ठते ॥

शरीरने विपेज पवित्र अने स्थिर एवु आत्मा तथा आत्मिय विगेरे जे ज्ञान ते अविद्या, ते अविद्याना अच्यासथी उत्पन्न थएली वासना-ए अवश (विषयने अने इंद्रियोने आधिन पण आत्माने आधिन नहि) एवुं मन थाय ठे तेज मन ज्ञान संस्कारे करीने आत्म स्वरूपने विपे रहे ठे.

श्लोक—यत्र काये मुने प्रेम, तत.प्राच्यव्य देहिनम् ।

बुद्ध्या तदुत्तमे काये, योजयेत् प्रेम नश्यति ॥

मुनिने जे पोताना अथवा परना शरीरने विपे स्नेह थाय ठे ते शरीरथी बुद्धि बके आत्माने पात्रो फेरवीने तेथी पण उत्तम एवा चिदानंदमय आत्म स्वरूपने विपे जोमे ठे के जेथी काया उपर स्नेह थतो नथी.

श्लोक—आत्म विभ्रमजं दुःखमात्मज्ञानात्प्रशाम्यति ।

नायतास्तत्र निर्वाति, कृत्वापि परमं तपः ॥

शरीरादिकमां पोतापणानो भ्रम थवाथी उपजेळुं दुःख आत्म ज्ञानथी एटले आत्मांमां शुद्धात्मपणु जाणवाथी नाश पामे ठे वली

आत्म स्वरूपमां असावधान एवा पुरुषो उत्कृष्ट तप करीने पण मोक्ष पामता नथी.

श्लोक—शुभ्रं शरीरं दिव्यांश्च, विषयानभिवांठति ।

उत्पन्नात्ममतिर्देहे, तत्त्वज्ञानी ततश्च्युतिम् ॥

शरीरने विषे आत्म बुद्धि वालो पुरुष शुभ्र एवा शरीरने अने दिव्य एवा विषयोने श्छे ठे अने तत्त्वज्ञानी पुरुष शरीरनी निवृत्तिने श्छे ठे.

परब्राह्मं मतिः स्वस्माच्च्युतो बध्नात्यसंशयम् ।

स्वस्मिन्नहं मतिश्च्युत्वा, परस्मान्मुच्यते बुधः ॥

शरीरने विषे आत्म बुद्धिवालो बहिरात्मा आत्म स्वरूपथी च्छे अने रागी द्वेषी थइ खरेखर बंधनने पामे ठे. अने आत्मने आत्म बुद्धिवालो अंतर आत्मा शरीरादिकना रागथी मूकाय ठे.

जागर्ति ज्ञानद्रष्टिश्चेत्, तृष्णा कृष्णाऽहि जांगुली ।

पूर्णानंदस्य तत्किंस्याद्दैन्यं तृश्चिक वेदना ॥

तृष्णा रुपी काला सर्पना विष प्रत्ये गाऊमी विद्या समान जे पुरुषनी ज्ञानद्रष्टि जागृत ठे ते पूर्णानंदी पुरुषने शुं दीनता रुपी वीढीनी वेदना थाय ? अर्थात् न थाय.

यस्य ज्ञानसुधासिंधौ, परब्रह्मणि मग्नता ।

विषयांतर संचारस्तस्य हावाहलोपमः ॥

ज्ञानामृतना समुद्ररूप परब्रह्मने विषे हमेशां जेनो उपयोग ठे, एवा पुरुषने विषयांतरमां प्रवृत्ति ते विष समान चासे ठे.

स्वप्नाव सुखमग्नस्य, जगत्तत्त्वावलोकिनः ।

कर्तृत्वं नान्यप्तावानां, साक्षित्वमवशिष्यते ॥

स्वप्नाव सुखमां मग्न अने जगतना तत्त्वोनु अवलोकन करनार पुरुपनुं परप्तावने विपे कर्तृत्व नथी. मात्र साहित्व ठे.

परब्रह्मणि मग्नस्य श्लथा पौञ्जलिकी कथा ।

क्वामी चासीकरोन्मादाः स्फारा दारादराः क्वच ॥

जे पुरुपनी पौञ्जलिक कथा विरलताने पामी ठे, एवा परब्रह्मने विपे मग्न पुरुप क्यां ? अने सुवर्णादिथी उत्पन्नयता उन्माद तथा स्त्रीउण करेला उदार शृंगारादि हाव जाव क्यां ?

शमशैत्यपुपो यस्य विप्रुषोऽपि महाकथा ।

किं स्तुमो ज्ञानपीयूषे तत्र सर्वांग मग्नता ॥

समजावनी शितलतानुं पोपण करनार ज्ञाननुं विडु मात्र पण जे आत्माने विपे ठे तेनी महावार्त्ता थाय ठे तो ज्ञान अमृत सिंधुमां जे पुरुपनी सर्वांग मग्नता ठे तेनु वर्णन तो शुं करवुं ? माटे हे जव्य जीवो! टुंकामां मुक्ति मार्गने चाहाता हो तो समजाव रूप सामायक अवश्य प्रमाद ठोडी आदरो

यस्य दृष्टिः कृपावृष्टिर्गिरः शमसुधाकिरः ।

तस्मै नमः शुजज्ञानध्यानमग्नय योगिने ॥

जेनी ड्रष्टी सर्व प्राणीउपर कृपा वरसावे ठे, अने जेनी वाणी शमरूपी अमृतने ठांटे ठे एवा शुज ज्ञान ध्यानमां मग्न योगिने नसस्कार ठे.

वत्सकिं चंचलस्वांतो ज्ञात्वा ज्ञात्वा विषीदसि ।

निधिं स्वसन्निधावेव स्थिरता दर्शयिष्यति ॥

हे वत्स! सुखने माटे चंचल मनवालो थइ शामाटे ज्रमण करे ठे ? अने क्लेश शामाटे पामे ठे ? स्थिरता सुखरूपी खजानो तारो तारीज पासे तने वतावशे माटे स्थिर परिणामी था .

ज्ञानदुग्धं विनश्येत लोभविद्वोभकूर्चकैः ।

अम्लद्वयादिवास्थैर्यादिति मत्वा स्थिरो भव ॥

खाटा पदार्थथी जेम दुधविनाश पामे ठे, तेम अस्थिरताथी-लो-
भथी थता विद्वोभरूपी कुचाए करीने ज्ञानरूपी दुधनो नाश थाय
ठे. एम समजी पोताना स्वभावमां स्थिर था. परभावने चित्तमां
न पेशवा दे.

अचेतनमिदं दृश्य, मदृश्यं चेतनं ततः ।

क्व रूप्यामि क्व तुष्यामि, मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः ॥

आ देखातुं एवुं शरीर आदि जरु पदार्थ ठे, अने नहि देखातुं
आत्म स्वरूप चैतन्य रूप ठे माटे हुं कोना उपर रोष अने कोना
उपर संतोष करुं ? तेथी हवे हुं मध्यस्थ रूप थाजुं हुं. ए परिणामे
समभाव थाय.

इविहंपि मोक्षवहेजं जाणे पाउणदि जं मुणी णियमा ।

तस्मा पयत्तचित्ता जूयं ज्झाणं समव्वसह ॥ (द्वयसंग्रह)

ध्यान करवाथी मुनीजने वने प्रकारे मोक्षमार्गनी प्राप्ति थाय
ठे, ए माटे रुडे प्रकारे प्रयत्नशील थइने ध्यानाभ्यासमां उद्यम
करवो एज समभावनुं कारण ठे.

जंकिंचि विचिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू ।

लद्धूणाय एयत्तं तदा हु तं तस्स णिच्चयं ज्जाणं ॥ (द.सं.)

जे वारे साधु स्वरूप सन्मुख लक्ष एकत्व करीने मन, वचन,
कायानी कांश् पण क्रिया करतो नथी अने बाह्य तथा अच्यंतर
परिग्रहने पण इच्छतो नथी पण कांश्क स्वगुण पर्यायरूप चिंतवन
करे ठे तेवो मुनि शुद्ध ध्यान योग्य थाय ठे.

श्लोक ॥ ध्यानार्थाहि क्रिया सेयं, प्रत्याहृत्य निजं मनः ।

प्रारब्धा जन्म संकल्प, दात्मज्ञानाय कल्पते ॥

कल्याणकारी ध्याननी दशा तेज क्रिया जाणवी माटे स्वपरजा वधी पोतानुं मन पातुं वाली जन्म मात्रना संकल्प विकल्प ठोडीने पोताना आत्माने ज्ञानने विपेज राखीए, स्थिर करीए.

मन्यते यो जगत्तत्त्वं स मुनिः परिकीर्तितः ।

सम्यक्त्व मेवतन्मौनं, मौनं सम्यक्त्वमेव च ॥

जगतना तत्त्वने माने ठे एटले जाणे ठे ते मुनि कहेवाय ठे सम्यक्त्व एज मौन ठे अने मौन तेज सम्यक्त्व ठे जो कदापि न बोलवुं एने मुनिपणु कहीए तो पंच स्थावर बोलता नथी ते शिवाय घणा लोको बोलवानुं नेम करी वेशे ठे ते पण मौन कहेवाय नहि तेथी आत्मकार्यनी तिद्धि थती नथी पण अदरना विकल्पो तजवा तेज मुनिपणुं ठे बाहिर मौनपणुं लडू वेठा ठतां चित्त अंदर चित्तवन करे ठे के अमुक कार्य में ठीक कर्तुं अथवा अमुक कार्य ठीक न थयुं अमुक युक्ति करवाथी फलाणु काम ठीक वनशे.

वली आचारांगमां कहुं ठे के:-

जं समंति पासहा तं मुणंति पासहा जं मुणंति पासहा तं समंति पासहा—एटले जे मुनि पणुं ते सम्यक्त जाव ठे अने जे सम्यक्त जाव ठे तेज मुनिपणुं ठे

माटे सकल विकल्प रहित समज्ञाननेज मुनि पणुं कहुं माटे समजाव एज साध्य ठे,

गाथा—जो जाणइ अरिहते दव्व गुण पज्जवंतेहिं, ।

सो जाणइ अप्पाणं, मोहो खड्दु जाहि तस्सखयं ॥

जे अरिहंतने ड्रव्य गुण पर्याय सहित जाणे तेज पोताना आत्माना ड्रव्य गुण पर्यायने जाणे अने तेनोज मोह लय थाय माटे आत्म स्वरुपनुं जाणवुं तेज समजाव ठे

गाथा ॥ आत्मात्मन्येवयद्बुद्धं जानात्यात्मानमात्मना ।
सेयंरत्नत्रये ज्ञप्ति, रुच्याचारैकता मुनेः ॥

आत्मा आत्माए करीने आत्माने विषे शुरु जाणे ठे माटे मुनिने आ ज्ञानावस्था रत्नत्रयीमां ज्ञान दर्शन चारित्रनी एकता करे ठे एटले पर संबंधमां आत्माने कांइ पण काम नथी पोतानी सिद्धि पोता वडेज थाय ठे माटे परवस्तुमां इष्टानिष्ट ठोडी आत्म स्वज्ञाव स्थिर करवो.

गाथा—ज्ञानयोग स्तपः शुद्ध मात्मरत्येक लक्षणं ।
इन्द्रियार्थोन्मनीज्ञावात्समोद्ध सुख साधकः ॥

आत्मानी परिणति परपुद्गल योगे रागद्वेष परिणामी थइ ठे, तेज आत्मानी परिणति स्वस्वज्ञाव योगे करी आत्म परिणाम मांहे रक्त करी स्थिर थवुं एज शुरु तप ठे. जिहां इंद्रिय सुखनी इच्छा नथी एज मोहानुं साधक पाणुं ठे ज्ञावार्थ—आत्म परिणति परयोगे रमावतां परसंगे संसार त्रमण कर्तुं तेज परिणति आत्माना ज्ञानादिक गुणोमां रमावतां मोह जाणवुं. आत्मानी परिणति आत्मां रमाववी तेज राग द्वेष विध्वंसनुं कारण ठे माटे ज्ञानयोग तेज सामायक जाणवुं.

श्लोक—यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्चमानवः ।

आत्मन्येव च संतुष्ट, स्तस्य कार्यं न विद्यते ॥

आत्म सुखमां जे संतुष्ट ठे एटले आत्मीक सुखे करीने जेने तृप्ति थइ ठे तेने कांइ परज्ञावनी रमणता ठेज नहि. एतो पोताना स्वज्ञाविक गुणोमां संतुष्ट थइने वेठो ठे तो ते पुरुषने बाह्य वस्तुमां रमण शानुं होय ? माटे आत्म स्वज्ञावमां रहेवुं तेज समज्ञाव अने सामायक ठे.

अवकाशो निषिक्षेस्मिन्न रत्यानंदयोरपि ।

ध्यानावष्टंभतः कास्तु तत्क्रियाणां विकल्पनं ॥

आत्मज्ञानीना चित्तमां हर्ष अने शोक पेशवानो अवकाश नथी. तो संकल्प विकल्परूप विषमता, शानी होय ? अने ज्यारे संकल्प विकल्पने जीत्यो त्यारे आत्मसत्तागते रह्या जे आत्मिक धर्म ते व्यक्तिपणे एटले प्रगटपणे आवे स्वगुण संपदा सिद्ध समाधिनी चोगी थाय एटले सम परिणाममां रहे त्यां क्रिया कलापनी संकल्प विकल्प रहेतो नथी.

सूत्रमां सात प्रकारनां वचन ठे ते जूदा जूदा कारणोथी जूदी जूदी रीते प्रकृत्यां ठे एथी पण आत्मानी सत्ता जूदी कही ठे माटे आत्म सत्ता उलखी आत्म सत्ता मांहे पोतानी परिणति स्थिर करवाथी सर्वे संकल्प नाश थाय ठे सात प्रकारनां सूत्रनां वचननां नाम (१) विधिसूत्र (२) उद्यमसूत्र (३) उच्चयसूत्र (४) वर्णवसूत्र (५) उत्सर्गसूत्र (६) अपवाद (७) उत्सर्ग अपवाद सूत्र. ए रीते सात प्रकारनां वचन ठे ते सर्वे समजी लेवां अने आत्म स्वभावमां स्थिर थवु ते समजाव ठे.

स्थिरभूतमपिस्वांतं, रजसा चलतां व्रजेत् ।

प्रत्याहृत्य निगृह्णति, ज्ञानी यदिदमुच्यते ॥

स्थिरीभूत जे अंतःकरण तेनी परभावने विषे जे रमणता तेने रजोगुण कहीए. ते रजोगुणना योगे करी मननी चपलता घणी होय अने जिहां सुधी चपलता तिहां सुधी आत्मानुं कार्य थाय नहि ते तमोगुणनुं तथा रजोगुणनुं स्वरूप अन्व शास्त्रयकी जाणजो. हवे ते रजोगुणे करी चपलतापणुं पामेलुं एवुं जे मन तेनो ज्ञानी पुरुषो प्रत्याहार करीने-पानुं वालीने मनने नियह करे ठे.

श्लोक-शनैः शनैरुपरमेदवुध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, न किञ्चिदपि चिंतयेत् ॥

बुद्धि वडे धीरे धीरे मनने पाबुं वाली स्थिर करे एटले मनने किहां जवा दे नहीं मनने आत्म जावमां स्थिर करी राखे पण बीजुं कशुंए मनने विषे चिंतववुं नहीं, मात्र एक आत्म स्वरूपने विषे रमण करवुं एज प्रयोजन ठे.

श्लोक—यतो यतो निःसरति, मनश्चंचलमस्थिरं ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥

ज्यां ज्यां थकी मननुं ऊठीने बहार नीकलीने परजावमां जवुं थाय, शा माटे जे मननो स्वजाव घणो चंचल ठे—अस्थिर ठे. माटे तिहां तिहां थकी पाबुं वालीने आत्माने वश करवुं एज प्रयोजन ठे अने ज्ञानात्मानुं एज लक्षण ठे.

नामं उवणा तित्थं, दव्वं तित्थंच जावतित्थंच ।

इक्किक्कंमि य इत्तो, ऽण्णं विहं होइनायव्वं ॥

नाम, स्थापना, उव्य, जाव, ए चार प्रकारे तीर्थ, तेमां दरेकना अनेक प्रकार ठे ते जाणी लेवा. तारे ते तीर्थ कहेवाय.

दाहोवसमं तन्हा—इ ठेयणं मलपिवाहणं चव ।

तिहिं अत्थेहिं निउत्तं, तन्हा तं दव्वउत्तित्थं ॥

दाहनो उपशमावनार, तृषानो मटावनार, मेलनो डुरकरनार कारण ते तीर्थ एटले क्रोध अग्निनो उपशमावनार, विषयो अने धननी तृषानो नाश करनार अने कर्म रूपी मेलने धोनार ए त्रणे कार्यनुं कारण सद्गुरु अने तीर्थकर ते उव्यतीर्थ जाणवा. हवे जाव तीर्थनुं स्वरूप.

कोहंमिउ निग्गहिए, दाहस्स उवसमाणं हवइ तित्थं ।

लोहंमिउ निग्गहिए, तन्हाए ठेयणं होई ॥

अथविदं कम्मरयं, बहुएहिं जवेहिं संचियं जम्हा ।

तव संजमेण धोवइ, तम्हा तं जावओतित्थं ॥ संवोध०

क्रोधनो निग्रह थवाथी दाहना उपशमरूप तीर्थ थाय अने लोचनो निग्रह थवाथी तृष्णाना ठेदनरूप तीर्थ थाय, आठ प्रकारना कर्मरूपी रज बहुजवे करीने संचय करेली ते तप अने संजमे करीने धोवाइ जाय दूर थाय तेथी तेने जावतीर्थ कहीए एटले दामा मुत्ति अने तप संजमरूप शुरू उपयोग तेज जावतीर्थ ठे.

दंसण नाण चरित्ते, सुनिउत्तं जिणवरेहिं सव्वेहिं ।

एएण दोइ तित्थं, एसो अन्नोवि पज्जाओ ॥

ज्ञान दर्शन अने चारित्र्यी युक्त होय तेने सर्व जिनेश्वरोए तीर्थ-रूप कह्या ठे तेथीज रत्नत्रयी संयुक्त होवाथी तीर्थ कहेवाय ठे

ए प्रमाणे सर्वे अनुष्ठान जाणी लेवां एटले रत्नत्रयीथी सर्वे अनुष्ठान सफल थाय ठे रत्नत्रय एटले ज्ञान दर्शन चारित्र ते आत्मानाज गुणो ठे. ते रागादिक परजावथी मिथ्या प्रवृत्तिए प्रवर्त्तला ते रागादिक परजावने तजी समजावमां रहीए एटले रत्नत्रय प्रगट थाय माटे समजावनुं अने रत्नत्रयीनुं थवुं ते एकज ठे माटे समजाव एज श्रेय ठे एज उपादेय ठे

सव्वो पुव्वकयाणं, कम्माणं पावए फलविवायं ।

अवराहेसु गुणेषु अ, निमित्तमित्तं परो होइ ॥

सर्वे जीवो पूर्वजवे करेलां कर्मोना फल-विपाकने पामे ठे. अपराधने विषे अने गुणने विषे बीजातो निमित्त मात्रज ठे तो पोताना कर्म फलने जोगवतां बीजा उपर रागी छेपी थवु ए पोतानीज जूल ठे अने एज नवां कर्म वधननुं कारण ठे माटे कोइ उपर रागी छेपी न थतां पोताना समजावमां रहेवु.

गाथा—तित्थयरत्तं सम्म—त्तखाइयं संत्तमी तईयाए ।

वंदणएणं विहिणा, बंधं च दसारसीहेणं ॥

तीर्थकरणं, द्वायक सम्यक्त्व अने सांतमी नरकथी त्रीजी नर-
कनो बंध ए त्रण वानां विधिपूर्वक मुनीने वंदन करवाथी श्रीकृष्णे
उपार्जन कर्या.

गाथा ॥ बठठम दसम डुवा—लसेहिं मासद्धमासखमणेहिं ।

इतोउ अणेग गुणा, सोहा जिमियस्स नाणस्स ॥संबोधसत्तरि

बठ, अठम, दशम, डुवालस, अद्धमासखमण अने महिनाना
उपवास करवाथी जे शोचा ठे ते करतां पण रोज जमता एवा
ज्ञानी साधुनी शोचा अनेक गुणी ठे कारण के ज्ञानी एज जिनशा-
सनने दीपावनार ठे. शुद्ध तपश्चर्याथी पोतेज तरे पण ज्ञानी अनंता
जीवोनी विषमता एटले जन्म जरा मरणनी कल्पना मटावी परमा-
नंदनी प्राप्ति करावे ठे.

दंसण वय सामाइय, पोसह पडिमा अबंज सच्चित्ते,

आरंज पेस उहि—ठ वज्जए समणन्नूए अ ॥

अर्थ—श्रावकनी अग्यार पडिमा ते समजावनेज मददकारी ठे जु-
ओके (१) दर्शन पडिमामां परने परजाणी परनुं ममत्व तजाय ठे.
समकीत शुद्ध कराय ठे ने समकीत गुण निर्मल थयेथी खोटा वि-
कल्पो नाश थइ समजाव आवे ठे. (२) व्रत पडिमामां हिंसादि अ-
व्रतोथी मन वचन कायाना जोग निवृत्ति पामे ठे. (३) सामायक
पडिमा एतो खुद समजावज ठे. (४) पोसह पडिमार्थी आत्मा ज्ञान
ध्याने पोषाय ठे एटले पुष्ट कराय ठे. (५) कायोत्सर्ग पडिमार्थी स-
मतानो अच्युस वधे ठे ते पण समजावज ठे. (६) ब्रह्मचर्य पडि-
मामां कंदर्पनो राग ठोराय ठे. (७) सच्चित्त परिहार पडिमामां जीवो
उपर द्दमा थाय ठे ते पण समजावज ठे. (८) पाप परियहनुं ठोरनुं

ए पण समजावने जजे ठे. (९) आरंजवर्जक पक्किमांमां जीवनी यत्ना थाय ते पण समजावज ठे. (१०) पापिनो उपदेश नहि करवो ए पण समजावज ठे (११) श्रमण समान थइ रहेवुं ते सर्वे जूत उपर समजाव जाणवो ए अग्यारे पक्किमा समजावनां चिन्हो ठे. ने चित्तमां समजाव विना अग्यारे पक्किमा जीव वगरना चित्रामण जेवी ठे भाटे शुद्ध समजाव परिणामी थइ अग्यारे पंडिमाने आदरवी (मनोरथ जाववो).

सपत्तदंसणाई, पइदियह जइजणाओ निसुणेई ।

सामायारिं परमं, जो खलु तं सावगं विति ॥

अर्थः—प्राप्त कर्तुं ठे समकीत जेणे एटखे संपूर्ण थइ ठे दर्शनादि प्रतिमा जेने एवा श्रावक प्रतिदिवस मुनि जननी पासे परम उक्कृष्टी समाचारी सांजले एटखे समाचारीथीज समजावनुं आचरण थाय माटे निश्चय ते पुरुषने तीर्थकर जगवंत श्रावक कहे ठे. जगवंतनुं नाम देइने मतमतांतरिओ जिन वचनने वाजु मूकी पोताना वांधेला ग्रंथोने तीर्थकरना वचनो कही जोला लोकोने गुंचवणमां पाने ठे

॥ जिन पूजाना प्रकार ॥ गाथा ॥

वरगंध पुष्प अरुख्य, पइव फल धूव नीर पत्तेहिं, ।

नेविज्ज विहाणेण य, जिणपूआ अछहा जणिया. ॥

उवसंमइ दुरियवग्गं, हरइ उहं कुणइ सयल सुक्काइं ।

चिंताईयंपि फलं, साहइ पूआ जिणंदाणं ॥

श्रेष्ठ गंध, पुष्प, अद्भुत, दीपक, फल, धूप, जलपात्र, अने नैवेद्यना विधाने करीने जिन पूजा आठ प्रकारे कही ठे

जिनैडनी पूजा डुरित वर्गने उपशमावे ठे, डु.खने दूर करे ठे, समस्त सुखने उत्पन्न करे ठे अने चितातीत—चितववाने पण अशक्य एवा मोक्ष फलने साधे ठे अहिआं पण ड्रव्य पूजा जिनेश्वरना

ज्ञानादिक गुणना बहुमानार्थे होय. ज्ञानादिक गुण ते सम-
न्नावमांहेज रखा ठे, समन्नावनुं सन्मान थयुं पण जो कदापि धन
पुत्रादिक विषयिक सुखने परिणामे होय तो आश्रवमांहेज गणाय ठे.
माटे समन्नाव तेज साध्य ठे. तेज आदरवा लायक ठे.

मिञ्चाडुक्कडनुं प्रवर्तन.

जं दुक्कमंति मिञ्चा, तंजुज्जो कारणं अपूरंतो ।

तिविहेण पमिक्कंतो, तस्स खलु डुक्कं मिञ्चा ॥

जे डुष्कृतने मिथ्या करे ते डुष्कृत संबंधी कारणो फरीने सेवे
नहि अने विधिए करीने पमिक्कमे तेनुं खरुं मिथ्याडुष्कृत जाणवुं.

मिञ्चामि डुक्कनो अर्थ—गाथा.

मिञ्चामिउ मद्दवत्ते, ठत्तीदोसाण ढायणे होई ।

मिञ्चिअ मेराइठिअो, डुत्ति दुगंढामि अप्पाणं ॥

कत्ति कं मे पावं, रुत्तिय देवेमि तं उवसमेणं ।

एसो मिञ्चाडुक्कं, पयख्खरत्थो समासेणं ॥

“ मि ” मृडु मार्दवपणाने विषे ठे “ ञ्चा ” दोषोनो आढादन करवाने
अर्थे ठे. “ मि ” मर्यादामां स्थित थवा माटे ठे “ डु ” आत्मानि
डुगंढा करुं तुं एम जणाववा माटे ठे, “ क्क ” मारा करेलां पाप एम
सूचवे ठे. अने “ रु ” ते पापने उपशमवमे बाली नाखुं तुं. एम कहे
ठे. आ प्रमाणे “ मिञ्चामि डुक्कं ” शब्दना दरेक अद्दरनो अर्थ
संदेप मात्र जाणवो.

श्लोक—अन्यलिङ्गादि सिद्धाना माधारः समतैवेहि ।

रत्नत्रयफलप्राप्तेर्यथा स्याद्भावजैनता ॥

ज्ञानसाफल्यमेषैव नयस्थानावतारिणः ।

चंदनं वह्निनेव स्यात् कुग्रहेणतु अस्मं तत् ॥

जे अन्यलिङ्गी सिद्ध थया तेपण इव्यथी मोक्ष फल साधता थका रत्नत्रयना फलनी प्राप्तिके जावथी जैनपणुं पाम्या; माटे ते अन्यलिङ्गीर्तने पण समता ते एक आधारचूत हती जो नयस्थानके उतारी जोश्ये तो, ए समताज ज्ञाननुं फल ठे, ने जेम ज्ञानवने जवताप शमे ठे, तेम समता रूप चंदने करी जवताप शमी जाय ठे, पण कुग्रह के कदाग्रह अज्ञानरूप अशिवके समतारूप चंदन वली जस्म थाय ठे.

दूरे स्वर्गसुखं मुक्तिपदवी सा दवीयसी ।

मनः संनिहितं दृष्टं स्पष्टं तु समतासुखं ॥

दृशोः स्मरविषं शुष्येत् क्रोधताप क्षयं व्रजेत् ।

औद्ध्यत्यमलनाशः स्यात् शमतामृतमज्जनात् ॥ अध्या० ॥

देवलोकनां सुख तो दूर ठे. वली मोक्ष पदवी ते तो मोटी ठे अने जव स्थितिने हाथ ठे, ते वारे मननी पासे प्रगटपणे देखीए एवी समतानु सुख ते शु खोदुं ठे? समतारूप अमृत कुरुमां ज्ञान करवाना प्रजावथी आंख थकी कंदर्परूप दर्पनुं विष शोपाइ जाय ठे, क्रोधरूप ताप नाश पामे ठे, उद्धतारूप मेल ते पण दूर थाय ठे

आरुरुदुर्मुनिर्योगं, श्रयेद्वाह्यक्रियामपि ।

योगारूढः शमादेव शुद्ध्यत्यंतर्गतक्रियः ॥ ज्ञानसार० ॥

योगारूढ थवाने इच्छतो मुनि वाह्य क्रियाने पण सेवे ठे. (परंतु) अंतर्गत क्रिय एवो योगारूढ मुनि शमे करीनेज शुद्धिने, सिद्धिने पामे ठे

श्रुतपद नमीए श्रुतपद जजीए श्रुत ठे जगत आधार

श्रुत पद नमीएजी ॥ ए राह ॥

दर्शन ज्ञान चरणमय चेतन, समजावे स्थिर रहीएजी, एवी आणा श्री जिनवरनी, साधी शिवसुख लहीये—समपद० सेवोने; समपद सेवो, अनुजव मेवो, जिन शासननो सार—सम० ॥२॥

चेतन अंग अन्नंग अनुपम; एक रूप निज जाणीजी ।

ए विण अवर न आतम अर्थे, श्री जिनवरनी वाणी—सम० ॥२॥

द्रव्य जाव हिंसा नहीं एहमां, परम दया पद साचोजी ।

अनृत वचन टड्युं इहां सघलुं, शुद्ध सत्यपद जाचो;—सम० ॥३॥

नहि परद्रव्य हरण पण दीसे, शुद्ध शील इहां धारोजी ।

डुविध परिग्रह ठे नहीं एहमां, निज आतम हितकारो;—सम० ॥४॥

पापनां स्थान अठार न होवे, निज ज्ञाने निज जोवेजी ।

उदासिन्नता सहु परजावे, कर्म मेल सवि धोवे—सम० ॥५॥

संवर निर्झर मोक्ष एहमां, आश्रव बंध निकंदेजी ।

परम क्षमाने मार्दव आर्जव, मुक्ति गुण आनंदे—सम० ॥६॥

इंद्रिय विषय न चाहे चित्तमां, धन्नादिक कीम श्छेजी ।

दर्शन ज्ञान स्वचावे तृप्ती, ते परपद केम वंठे—सम० ॥७॥

शुद्ध उपयोगे स्थिरता करतां, संयम शुद्ध अच्यासेजी ।

सत्तर जेदे असंयम टाली, निज मति निजमां वासे—सम० ॥८॥

निज द्रव्यादि निजमां जासे, सत्य धर्म पण एहोजी

कर्म मलिनता इहां नवी स्पर्शे, शौच सदा गुण गेहो—समपद० ॥९॥

देहादिकनी ममता नाही, तो कंचन तृण केनुंजी, ।

तेथी अकिंचन ठे साचो, पुद्गल संग न जेहनुं—समपद० ॥ १० ॥

सिद्ध समो शुद्ध ब्रह्म लखे जे, टाली अब्रह्म जावोजी, ।

सहस अठार जेद ठे तेहना, राखे एक स्वचावो—समपद० ॥ ११ ॥

ए तीरथ ए तारण कारण, डुरित दोष सहु नासेजी, ।

वैर विरोध न किनसुं होवे, सत्ता शुद्ध प्रकाशे—समपद० ॥ १२ ॥

अरिहंत सिद्ध ने आचारज पद, समपद मांहे लहीएजी, ।

श्री उवजाय ने साधु सकलनुं, लक्षण एहज कहीए—समपद ॥१३॥

दर्शन ज्ञान चरण तप वीरज, नवपद साधन थायजी, ।

गुणवाणानी श्रेणी चढतां, समपद श्रेष्ठ सहाय—समपद० ॥ १४ ॥

ज्ञान ध्यान अनुष्ठान एह विण, जन मननी अनुवृत्तिजी ।
 पद दरशन पण एह स्विकारे, समपद अमृत वृष्टी—समपद० ॥१५॥
 द्वादश जावना सार एह ठे, चार जावना जाची जी, ।
 साधुनी पण पंच जावना, एहमां नवी रहे काची,—समपद० ॥१६॥
 इह पर लोकादिक आशंसा, समजावे नवि थायजी, ।
 पंच चरण पण एहमां दीसे, पंचाचार समाय—समपद० ॥ १७ ॥
 मन वच कायने पच इंझीनी, किरीआ एहमां नावेजी ।
 पचचीश किरिआ दूरे नाठी, सहेजे सुमति सोहावे—सम० ॥ १८ ॥
 शरीर पंचनी परिणति नहीं ए, चिदानंद घर घरणीजी ।
 प्रशमरति स्त्री नाम एहनुं, जोगीश्वर मुख वरनी—सम० ॥ १९ ॥
 आर्त्त रौद्र कुध्यान नसावे, धर्म शुक्ल प्रगटावेजी ।
 जेम जेम समपद डढतर जलसे, शीव वधु सनमुख आवे—सम० ॥२०॥
 खट आवश्यकने समकितनुं, एहज फल ठे साचुंजी ।
 सदगुरु रंग लग्यो होय जेहने, ते जन जाणे जाचुं—सम० ॥ २१ ॥
 विद्या अविद्या ए वेहु सरखी, जूग सवि मत नेदोजी ।
 समकित सार लह्या विण मूरख, हठ करी मांड्यो खेदो ॥ सम०॥२२॥
 इष्टा मिष्टा डुकरु तहत्ती, आवश्यक तिम जाणोजी ।
 निपेधीक आपुच्छा ने वली, पडिपुष्ठा मन आणो ॥ सम० ॥ २३ ॥
 गुरुने आहारादिकनुं देवुं, आमंत्रण वली करवुंजी ।
 गुरु निकट रहेवुं एम दशविध, समजावे अनुसरवुं ॥ सम० ॥२४॥
 एम बहुविध समजावनां कारण, ए अर्थे आदरीएजी ।
 अप्रशस्तता टाळी एहनी, सम संतोषे तरीए ॥ सम० ॥ २५ ॥
 रत्न चिंतामणी काम कुज सम, सम दम ठे सुख दाइजी ।
 मनसुख समपद लही शीव पावे, परम पूज्य प्रचुताई ॥ सम० ॥२६॥

॥ आठेलालनी देशी ॥

श्री सिद्धारथ नंद, विलसे परमानंद, आठेलाल, आतमतत्त जेणे
ऊपदिश्योजी ॥ १ ॥

निर्मल सिद्ध समान, जलहल केवल चाण, आ०अप्पा परमप्पा समोजी.
कीनो देह ममत्त, चूढ्यो ते निजतत्त, आ० मोहनी कर्मे घेरीउंजी.
प्रकृति अडवीस तास, करीसंसर्ग विलास, आ०अध्यवसाय असंख्यठेजी.
अविनाशी निजअंग, देहविनाशी संग, आ० विनाशी निज मानतोजी.
जेहथी तेह हणाय, क्रोध ते ऊपर थाय, आ० अवाधित पद चूलीउंजी.
मति प्रवृत्ति त्यांहि, लही निवृत्ति नयांहि, आ०खांति गुण हणियो तिणेजी.
मान करी मद अष्ट, विनय थयो तसु नष्ट, आ०सद्गुरु वचन ऊवेखियोजी.
नवि पामे ते धर्म, करतो विविध कुकर्म आ० जोग प्रवर्त्या मानमांजी.
पुद्गल संपत्ति अन्य, जाणी तेहने धन्न, आ० हरवा चित कूडो थयोजी,
नविजाणे निजरिद्धि, ते केम पामे सिद्धि, आ० सकल प्रवृत्ति मायमांजी.
सहजानंद वियोग, पुद्गलमां लखिचोग, आ०लोत्ते लक्ष रह्यो सदाजी.
वाधीकामना तेण, नवि लहतो चितचेन, आ०डंसी तृष्णा सर्पणीजी.
वित्त विषयने काज, ठंमी आतम लाज, आ०वहुविधि श्रमडुःख चोगवेजी.
चूततणां पकवान, जमतो कोइ अजाण, आ० तृप्ति नवपामे क्यमेजी.
करतो परनी हास्य, न लह्यो ज्ञानविलास, आ०अनंत हास्यस्थानकथयोजी
पुद्गलमां थइ रक्त, विण जाणे निजशक्ति, आ०योग प्रवृत्ति तिहां ठरीजी.
अस्थिर पुद्गलमां ह्य, रतिमानी रह्यो त्यांय, आ०तेक्यम स्थिर रहेवे सदाजी
अरति ऊपजी तेह, जाण्या विण निजगेह, आ०विविध प्रयत्न प्रयुंजतोजी.
अतूट अखंडित अंग, चूलि पुद्गल संग, आ०निर्जय पण जय चोगवेजी.
जमतां आ संसार, काल अनंत अपार, आ० आतम अंग अखंडठेजी.
नवि घास्यो गुणलेश, बुढ्यो न एकप्रदेश, आ०निजधन ते निज पासठेजी.
नवि जाण्यो ए मर्म, देह विषे निज चर्म, आ० शोकज इणविध ऊपन्योजी.
स्पर्शादिक निजनांहि, करीममता तेमांहि, आ० अमनोइ दुगंठतोजी.

रोग रहित निजश्रंग, निःकामी निःसंग, आ० परसगे परकामनाजी.
मोहनी प्रकृति एह, जूली निजगुणगेह, आ० तिहां त्रियोग प्रवर्तियाजी.
नवी पामे विश्राम, सकलसमय परकाम; आ० एम निजतत्त्व नवी लख्योजी.
मनसुख लही निजरूप, निर्मल सिद्धस्वरूप, आ० परमानंद पद अनुजवेजी.

॥ १७ ॥

॥ कलश ॥

गायो गायोरे समजाव सुधारस गायो, ।

बहुश्रुत साखे समपद रचता आनंद अति उलसायो ।

मोह महातम हरवा दिनमणि, शीवसुख सुगम उपायोरे ॥ सम ०१ ॥

कल्पवृक्षे कल्पलता सम, कामकुंज सुख दायो ।

सकल कर्मनी व्याधि विदारण, चिंतामणि जीम पायोरे ॥ सम ० २ ॥

जे जविजन ए गाशे ध्याशे, तसु जवत्रमण नसायो ।

संवत श्रोगणी साठनी साखे, श्रावण मास सुहायोरे ॥ सम ० ॥ ३ ॥

शुकल पंचमी बुध बोधमय, सकल विकल्प नसायो ।

सकल सूत्रने ज्ञान ध्याननो, सार एमांहि समायोरे ॥ समजाव ॥ ४ ॥

श्रीनेमि जिनवर जन्म कल्याणीक, दिवसे रंग वधायो ।

ओच्छव महोष्ठव समपद मांहि, सहज स्वरूप दिखायोरे सम ० ॥ ५ ॥

वेजलपुर निवासी शुजमति, कोदरने मणिचंदो ।

दलसुख महासुख मुलचंद वली, गहगहते आणंदोरे ॥ सम ० ॥ ६ ॥

एहतणा आग्रहथी रचीयो, सामायक प्रतिबोधो ।

सुगुण संतोकचदनी सहाये, निज आतम गुण सोधोरे ॥ सम ॥ ७ ॥

समय अन्धासे जस मति वासी, अंतरदृष्टी प्रकाशी ।

सकल जीव समजाव लही एम, विलसो निजगुण राशीरे ॥ सम ० ॥

निजगुण भृगमद जोगी समरथ, विलसे सहज स्वजावे ।

कर्मशत्रु जीति निज सत्ता, राज अखणित पावेरे ॥ समजाव ॥ ८ ॥

युगप्रधान गीरुओ श्रुतसागर, अनुभव आनंद कंदो ।

श्री मुनिदूकम पसाय लही में, रचीओ एह प्रबंधोरे ॥ सम० १० ॥

समजावे शाश्वत सुख प्रगटे, चित्त धरी निर्मल ध्यान ।

मनसुख दर्शन ज्ञान चरण लही, पामो परम कट्याणरे ॥ सम ११ ॥

॥ दोहा ॥

सिद्ध समाधि विलासमां, यावत् विलसे सिद्ध ।

तावत् समपद ग्रंथआ, अक्षय रहो प्रसिद्ध ॥ १ ॥

विस्तरजो बहु अर्थथी, करी नवि रुदय प्रकाश ।

समपद सेवे ते लहे, परमानंद विलास ॥ २ ॥

समजाव संबंधी जे रचना करी ठे तेमांहे मतिदोषथी, प्रमाद
दोषथी, लीखीत दोषथी कांइपण चूल थइ होय ते मिठामिडुकरुं,
वली सुगुण पुरुषोए सद्गुरुनी गुरुगम साथे समजी चूल टाली
निदोष परमेश्वरनां वचन आदरी आत्म कार्य सिद्ध करवुं. मनुष्य
जन्म जिनशासनपामी सफल करवो.

आ ग्रंथ रचनामां जाइ संतोकचंद माणेकचंदनी उत्कृष्ट मदद
मली ठे तेनो आ ठेकाणे उपकार मानुं बुं.

ली० दलसुखनाथजी.

श्रीरस्तुः संपूर्ण.

ॐ श्रीवीतरागाय नमः
प्रस्तावना.

आ वाचन पद शिवाय विचारवा लायक अनेक पद ठे पण अहिंआं मुख्य पणे वाचन पद लख्यां ठे एज प्रमाणे सकल सिद्धि दायक स्वपर पद विचारी स्व स्वमां अने पर परमां समावी परथी उदासिन्न वृत्ति करी निज पदमां लयलीन थवुं अहिं जूठी उपमा के अलंकार के राज्यादि अलंकारनी वातो नथी पण संवेदन ज्ञाने जाणेली, स्पर्श ज्ञाने अनुभवेली, अन्ते सूत्र सिद्धांत प्रमाणे सिद्ध थएली बीना ठे. माटे पोताना शुद्ध संवेदन ज्ञाने तथा सूत्रसिद्धांतथी मेलवी, ज्ञानवंतनी गुद्गम लेई, अनुभव ज्ञाने सिद्ध करी, असत्य तजी सत्य होय ते आदरवुं. हुं व्याकरण के कविता, ठंद, अलंकार विगेरे पूरुं जाणतो नथी, वली मतिटोप अथवा लखीत दोपथी जे झूळ थइ होय ते सद्गुरु पासे समजी टोप टाली सत्य होय ते आदरवुं जेने वाह्य क्रियानो हठ हसे ते आ गहन जावो समजी शकशे नहि माटे हठवाद ठोडी कोमल चित्त करी आत्माए आत्मीक सुखना दानी थवुं.

सम्यक् न्याय सुधारस वाचन पद एवु आ ग्रंथनुं नाम ठे

१ ए मांहे सम्यक् न्यायनो अधिकार ठे.

२ समकीती जीव अग्रर तत्त्व रुची जीव मोह जिज्ञासु एनो अधिकारी ठे.

३ मुख्य दायक समकीत सिद्ध करवुं अने परमपदनुं पामवुं ए प्रयोजन ठे

४ अने पूर्व ग्रथोने अनुसार आ पदनी रचना करवामां आवीठे माटे जणवानो, सांजलवानो, अनुभववानो, विनय सहित अन्यास करवो.

अथ श्रीसम्यक् न्यायसुधारस ग्रंथ प्रारब्धते.

मन धरी सरस्वती ऋगवति, प्रणमि आदि जिणंद
न्याय सुधारस पानथी, जिन दरशन आणंद ॥ १ ॥

दरशन निश्चय जे करे, दायक समकीत थाय
अनंत किरण उद्योतकर, मिथ्या मूळ नसाय ॥ २ ॥

ते कारण निश्चय करो, सत्यासत्य स्वरूप
दायक समकीत पामशो, मूदो ऋव ऋय कूप ॥ ३ ॥

१ कवित्त (सवैया एकतीसा)

आतम अधिकार स्वस्वामित्व स्वसंगत्व औ

स्वकर्ता स्वज्ञोक्ता स्वग्राहकता सार है

व्यापकता रक्षणता कारजता कारणता

कारकता प्रच्युता ज्ञान अक्रिय उचार हे.

परिणामिकता जनक अगुरुद्वघु अखंड

आधाराधेय अचल साधक विचार हे

बाधकता देवगुरु शास्त्र धर्म जीवाजीव

पुण्यपाप आश्रव औ संवर उदार हे (१)

निर्ऋरा बंध मोक्ष शम क्षमा मार्दव औ

अज्ञाव औ मुक्ति तव संयम श्रीकार हे

सत्य शौच अकिंचन ब्रह्मचर्य निर्ऋय औ

प्रमेय प्रमाण औ निःप्रयास सुगार हे

सुमित्र परमानंद बावन पद रचनाको

सम्यक् न्याय सुधारस सूत्र अनुसार हे

गुरुसो गुरुगम ले विने न्याय चित्तधरी
 पढो याको यह निश्चे सुबोध दातार हे (९)
 चिन्तामणि पारस औ कल्पतरु कामधेनु
 राजरिधि रूप बल सुलज हे पावना
 मंत्र यंत्र प्राणायाम ज्योतिष औ चित्रकला
 काव्य अलंकृत करी लोकको रिंजावना
 सहेल वाह तप जप मसानमे निशावास
 क्रियाकष्ट करी करी शरीर सूकावना
 दुर्लजसो दुर्लज सुगुरु दरवानुयोग
 सम्यक् निज बोध संतोष जर आवना ॥ ३ ॥

॥ अथ ज्ञाषा लिख्यते. ॥

जगत्मां जीव द्रव्य अनंत ठे, पुद्गल द्रव्य अनंत ठे, धर्मा-
 स्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ए एक एक ठे सर्वे मली
 पंचास्तिकाय द्रव्य ठे अने ठहो काल द्रव्य ते उपचारथी ठे ते
 सर्वे पोताना अस्तित्व, प्रमेयत्व, सामान्य अने विशेष स्वज्ञावे सहित
 स्वगुण पर्यायमयी स्वगुण प्रवृत्तिए आप आपणी प्रवृत्तिना परि-
 णामी, स्वस्वज्ञावमांहे उत्पाद् व्यय ध्रुवतावंत ठे सर्वे समय आप
 आपणा स्वज्ञावे अस्तिस्वज्ञाववंत ठे. कोड समये कोड द्रव्य पररूप
 यतो नथी ते द्रव्यनुं शुद्धरूप अनादि कालथी मिथ्यात्वी जीव
 अणजाणते पुद्गल द्रव्यमां पोतापणं मानी ते मांहे पोतानो अधि-
 कार जाणी निज अधिकार चूकी अनंत मिथ्या ज्ञावने करे ठे तेथी
 रागादि कपायो उपजी चार गति ससार. भ्रमण करतां वेहद दुःख

सहेठे. ज्यारे वस्तुना सम्यक् स्वरूपने जाणे त्यारथी ज्ञान, दर्शन, चरण गुण निर्मल करवा मांमे. ज्ञानादि गुण निर्मल थये परमानंद सिद्धि सुख पांमे. ते प्रथम स्वपर स्वरूपनी द्रढ प्रतित अने मिथ्यात्व आदि आश्रवजाव तजवो अने संवर निज उपादेय जावमां स्थिर थवार्थी निज गुण निर्मल थाय. माटे प्रथम मिथ्या जावनो नाश करवो जोइए. कांइनुं कांइ जाणवुं तेने अज्ञान कहिये. कांइनुं कांइ निश्चय करवुं अने कांइनी कांइ प्रतित, श्रद्धा, रुचि करवी तेने मिथ्यात्व कहिये. वस्तुनुं स्वरूप जेम ठे तेम प्रतित सहित जाणवुं, तेने सम्यक् जाव कहिये.

(१) आत्म अधिकार पद.—आत्मा पोते स्वआत्मपदनो अधिकारी ठे, परपदनो अधिकारी नथी. आत्मा पोते पोताना अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, सत्त्व, अगुरुत्वघुत्व, एम पोताना सामान्य स्वजावे सहित ठे. आत्मा एवुं पोतानुं नाम पोतामां ठे, असंख्यात प्रदेशरूप स्वक्षेत्रे पोतानी स्थापना ठे ते निराकार आकृति ज्ञानरूप जाणवी, पोताना अनंत लक्षणने एकत्व आधारे राखनारो पोते द्रव्य ठे, ज्ञान, दर्शन, चारित्र सुख, वीर्य, कर्त्ता, जोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, रमणता आदि विशेष स्वजाव पोताना जाव पोतामां ठे. पोते द्रव्यथी एक, क्षेत्रथी असंख्य प्रदेशी, कालथी स्वगुण पर्याय वर्तनारूप, जावथी अनंत ज्ञेयनो ज्ञाता द्रष्टा आदि अनंत वीर्यवंत. स्वस्वरूपे अस्ति परस्वरूपे नास्ति, द्रव्यथी नित्य पर्यायथी अनित्य, अनंत लक्षणना एकत्व पिंडपणे एक गुण पर्याय प्रदेशथी अनेक, जाणवुं देखवुं आचरवुं आदि जिन कार्य करवे बहुचेदे चेद स्वजाव अने ज्ञानादिक जिन जिन कार्य स्वप्रदेशे अचेद, ज्ञान दर्शनादि कार्य स्वक्षेत्रे नवा नवा पर्यायना जवन व्ययेकरी जव्य, स्व स्वजावे सदा रहे पलटे नहि तेथी अजव्य, पोतामांहे अनंत गुण एवां ठे के वचन गोचर आवे

अने श्रुतज्ञाने जाणी शकाय तेथी वक्तव्य, वक्तव्य धर्म करतां अनंत गुणा पर्याय अगर धर्म ठे ते केवलज्ञाने पण वचनगोचर आवे नहि तेथी अवक्तव्य, ए अवक्तव्य, धर्मथी अनतमे जागे अजिलाप्य एटले वक्तव्य धर्म ठे अने अधिकारी पोताना परम स्वजाववंत ठे एटले ड्रव्यना सर्वे स्वजाव पर्याय परमस्वजावने अनुयायीपणेज परिणमे नैगम नयथी पोताना असंख्यात अंश पोतामां ठे. स्वअंश परड्रव्यमां नथी, परअंश स्वड्रव्यमां नथी. पोतानी सत्ता पोतामां ठती ठे, परसत्ता पोतामां नथी. व्यग्र-हारथी ज्ञानादिक स्वकार्य अनेक जेद पोताना पोतामां ठे, वर्णादि परकार्य जेद पोतामां नथी अने जाणवा, देखवा, आचरवादि स्वकार्य परड्रव्यमां नथी. ऋजुसूत्रे स्वगुण पर्याय परिणामी ठे; परगुण पर्याय कार्य परिणामी नथी. शब्द नये थोमी व्यक्ति, समजिरुढे बहु व्यक्ति, एवजूते पोतानी पूर्ण व्यक्ति पोतानी पोतामां प्रगटे, अन्य ड्रव्यमां नहि. अने अन्य ड्रव्यनी देश व्यक्ति, बहुदेश व्यक्ति, सर्वदेश व्यक्ति पोतामांहे न प्रगटे. स्वड्रव्यादिके अस्ति, परड्रव्यादिके नास्ति, अस्ति नास्ति एकसमये कहि शकीए नहीं माटे अवक्तव्य, अस्ति नास्ति एक समये समकाले ठे ते जणाववाने माटे स्याद् अस्ति नास्ति, अस्ति धर्म अनतो एक समये समकाले ठतो ठे ते ठतां कहि न शकाय माटे स्याद् अस्ति अवक्तव्य, नास्तिधर्म पण अनतो समकाले ठतो ठे ठतां एकवचने कहि शकाय नहीं माटे स्याद् नास्ति अव-क्तव्य, अस्तिधर्म अनंत तथा नास्तिधर्म अनंत समकाले ठतो ठे पण वचन गोचर आवे नहि तेथी स्याद् अस्ति नास्ति युगपत् अव-क्तव्य, एवा आत्माना ज्ञायकतादि अनंत गुणमांथी एक गुण जाणी बहु गुणनुं प्रमाण करी गुणथी ड्रव्यनुं प्रमाण करीए ड्रव्यमांहे ठवी पर्याय प्रवर्त्याविना गुणरूप कार्य न थाय माटे गुणथी पर्यायनुं प्रमाण करीए. ए प्रमाण विषे आगल प्रमाण पदमांहे विशेष लख-

वामां आवशे त्यांथी समजी लेवुं. आत्मा पोताना गुण पर्यायनो अधिकारी ठे. ज्यां मोहनो अधिकार गयो ठे; पुद्गलादि परद्रव्यनां वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आकारादि अनंत परिणमन ठे ते मांहेथी एक पर्यायनो पण अधिकारी आत्मा नथी. त्रमथकी पर-अधिकारी पणुं जाण्युं, मान्युं, तेथी ज्ञान, दर्शन, चरण, वीर्य, अव्या-वाधादि आनंदमय निज अधिकार चूक्यो. अन्य अधिकारनो अधि-कारी कोइपण द्रव्य थइ शके नहि. जेम ज्ञीखारी राज्य करवानो अधिकारी नथी अने राजा ज्ञीख मागवानो अगर नट खेलादिनो अधिकारी थवा जाय तो पोतानो आनंदमय अधिकार चूके. माटे पोतानो अधिकार जाणी अन्य अधिकारपणानो त्रमरूप मिथ्यात्ताव श्रद्धा, प्रतित, रुची ठोडवी. आ पदमां लखाएला ताव आगल जे जे पद लखवामां आवशे ते ते सर्वेमां ज्यां घटे त्यां जिन आज्ञाए पोतानी बुद्धि प्रमाणे फेलाव करी लेवो अगर सद्गुरु चरणे रही नीचेना सर्वे पदोनो यथास्थित ताव समजी मिथ्यात्वना अंश अंश जरू मूलथी जेदज्ञान शस्त्रे लखेकी सम्यक् रूप शुद्ध सत्ता चूमि करवी.

(९) स्वस्वामित्वपद—शुद्ध नये जेम अनंता द्रव्यमांथी कोइ द्रव्य कोइ अन्य द्रव्यनो स्वामि नथी. निश्चय नये सर्वे द्रव्य आपआपणा स्वत्ताव गुण पर्यायना स्वामि ठे ने ज्यारे परद्रव्य गुण पर्यायने पोताना जाणे ठे त्यारे स्वस्वामित्व चूके अने परगुण पर्याय पोताना न थाय, आपणी इत्ताए न प्रवर्तै, तेथी अन्य अन्य द्रव्य-नुं स्वामित्व वारवार आदरी बहु खेद पामे, माटे स्वस्वामित्वनी प्रतित करी परस्वामित्वरूप मिथ्या ताव तजवो. स्वस्वामित्व स्वस्वा-मित्व पणे अस्तित्व ठे परस्वामित्व पणे नास्तित्व ठे; ते ठतां पर स्वामित्व मानवुं ते प्रत्यक्ष मिथ्या त्रम ठे ए वात साधारण माणस पण खोटी कही शकशे नहि.

(३) स्वसंगत्वपद-शुद्ध नये कोइ द्रव्य कोइ अन्य द्रव्यनो संगी नथी, स्वगुण पर्यायनो संगी ठे अने परद्रव्यनुं त्रमथी संगी-पणुं मानी जे जे ऊमेद करवा ते प्रत्यक्ष नाऊमेदीनुं कारण ठे. माटे परद्रव्यना संगपणानो मिथ्या ऊमेद अने आशा तजी स्वगुण पर्याय संगी एकांगी पणे मग्न रहेवुं. द्रव्य स्वगुण संगीपणे सदा अस्तित्व ठे. व्यवहारे परसंगी पणुं जासे पण परगुण पर्याय निज द्रव्यना स्वक्षेत्रमां आवी शके नहि माटे प्रत्यक्ष परसंगीपणानो त्रम ठोनी स्वक्षेत्रे स्वगुण पर्याय अजेद सासय संग जाणी मग्न रहेवुं. व्यवहारे परद्रव्यनो संग ठे तो पण ते शाश्वत नथी

(४) स्वकर्त्तापद-शुद्ध नये कोइ द्रव्य कोइना गुण पर्यायनो कर्त्ता नथी, अने परगुण पर्यायनुं कर्त्तापणुं मानवुं ते प्रत्यक्ष मिथ्या त्रम ठे, परकार्य कर्त्तापणुं जाणवा मानवार्थी पोताना ज्ञान, दर्शन, चरण, वीर्य, रमण, सुख, अवाधितपणाने चूकी मन, वचन, काययोग द्वाराए आत्मवीर्य अनंत पुद्गल पर्यायमाहे प्रवर्त्ताववाथी स्वगुण पर्यायरूप कार्यमाहे वीर्य फुरतुं नथी, माटे परकर्त्तापणानुं मिथ्या अजिमान मूकी पोतानेज स्वकार्य कर्त्ता जाणी, मानी, अनु-जवी सहजानंदनी प्राप्ति करवी. सर्वे द्रव्य स्वस्वजाव कर्त्ता पणे अस्ति ठे. एम सम्यक् जावे स्वजाव कर्त्ता पणे अस्ति ठे व्यवहारथी कुंजार घटनो कर्त्ता कहेवाय, पण एक पांच शेरनो घट हाथमां लइ विचारीए तो तेमांथी केटली माटी कुंजारे करी ? अने माटीना वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आदि माटीमां अनेक धर्म ठे तेमाथी कुंजारे केटला कर्त्ता ? मात्र पुद्गल पर्याय वने मृत्तिकाना आकार पर्यायने घटाकारे पलटाववानो कारण थयो. तेथी कारणमां कर्त्तानो उपचार करीने व्यवहार नये घटनो कर्त्ता कहेवाय, शुद्ध नये तो मृदु द्रव्य पोताना स्वजावनो कर्त्ता ठे, पण शुद्ध नयमा उपचार संज्ञवे नहि, एम घर, गाम, द्रव्य कर्मादिनो कर्त्ता उपचारथी जाणवो.

(५) स्वज्ञोक्ता पद—जीव द्रव्य पोताना सर्वे शुद्धाशुद्ध स्वगुण पर्यायनो जोगीठे, परक्षेत्री परद्रव्यनो जोग स्वक्षेत्रमां आवी शके नहि, माटे परगुण पर्यायना जोगनो त्रमरूप मिथ्या जाव तजी निर्मल स्वगुण पर्याय जोगी पणे मग्न रहेवुं. आत्मा स्वगुण पर्याय जोगी पणे अस्तित्व ठे, परक्षेत्री परगुण पर्याय जोग नास्तित्व पणे जाणी ते मांहे मन, वचन, कायाना योग न प्रवर्त्तावतां निवृत्तिपणे परद्रव्य मांहे वपरातुं आत्म वीर्य सर्व समेटी स्वगुण पर्याय प्रवृत्तिमां स्थिर अकंप राखवुं. जीव द्रव्य स्वक्षेत्रे रह्या जे ज्ञानादिक शुद्धाशुद्ध गुण पर्याय तेनो जोगी ठे. अशुद्धे अशुद्धनो, शुद्धे शुद्धनो जोगी जाणवो. पर पुद्गल क्षेत्रे रह्या जे वर्णादि पर्याय तेनो जोगी नथी अने स्वजाति अन्य जीव द्रव्य ते मांहे रह्या जे ज्ञान दर्शनादि गुण पर्याय तेनो पण जोगी नथी. व्यवहारथी स्त्रीए पुरुष जोगव्यो अने पुरुषे स्त्री जोगवी एम जणाय ठे पण स्त्रीनां स्पर्श अने प्रेरणाथी पुरुषना रक्त वीर्यादिमां जे जे विकार थाय तेनो अज्ञानी जीव त्रमथी जोगी ठे; तेमज पुरुषना स्पर्श अने प्रेरणाथी स्त्रीना अंगमां जे विकार थाय ते मने थाय ठे एम जाणी त्रमथी राग हास्यादिने जोगवे ठे अने जाणे ठे के पुरुष जोगव्यो. रक्त वीर्यादि आत्माथी परक्षेत्री त्रिन्न द्रव्य ठे तेनो जोगी आत्मा नथी अने त्रमथी जोग मानवो ते मिथ्या जाव ठे. तेमज शब्दादि पंच विषय अने धनादिकनो पण अज्ञानी जीव त्रमथी जोगी ठे. वली द्रष्टांतके एक सुमति अने बीजो जरु नामना वे पुरुष हता ते वंनेने डुरमति नामना त्रीजा पुरुषे घणा कुवचनथी आक्रोशथी तिरस्कार करी निचंढया. ते डुरमतिना वचनरूप कारण स्पर्शी जरु पुरुषना चित्तरूप स्वक्षेत्रमां ज्वाजद्वयमान क्रोध उत्पन्न थयो. पण सुमति नामनो पुरुषतो पोताना ज्ञानादिक स्वधन अने निज आत्म अंग अबाधित जाणी तेना वचनरूप कारणे न आदरतां (पोताना

चित्तमां न स्पर्शतां) परम ऋमामय निजगुण मांहे अंकपं अमोल
 पणे स्वगुण जोगी रह्यो, क्रोधनो जोगी न थयो. डुरमतिना चित्तमां
 जे क्रोध हतो ते परक्षेत्री क्रोधनो जोग सुमतिना अंगमां न आव्यो
 पण जरु पुरुषे डुरमतिना वचनरूप कारण स्पर्शी पोताना चित्तरूपी
 स्वक्षेत्रमां क्रोध ऊपजाव्यो एटले क्रोधनो कर्ता अने चोक्ता थयो
 माटे कर्ता ते चोक्ता एम जाणवुं. अने कर्ता चोक्तापणुं स्वक्षेत्रे ठे.
 माटे परक्षेत्री जोग कोइने आवतो नथी जे स्वक्षेत्रमां रागादि
 अशुद्धताने आदरे, करे, तेज अशुद्धताने जोगवे पण जे शुद्धता राखे
 ते अशुद्धताने जोगवतो नथी पुद्गलना त्रिकालवर्तीना अनंत पर्याय
 ठे एटला रागरूप अशुद्धताना अनंत पर्याय जाणवा. ते रागादि
 अनंत पर्यायमांथी जेटला पर्यायनो नाश करिये तेटला ज्ञानना शुरु
 पर्याय प्रगट थया एम जाणवुं. एम सर्व पर्यायनी शुद्धता करवाथी
 केवलज्ञान प्रगट थाय ठे अने जेटला रागादि विज्ञाव पर्याय नाश
 कर्या तेटला स्थिरतारूप चारित्रना पण पर्याय प्रगट थाय अने
 रागादिना पूर्ण पर्याय नाश करवाथी परम स्थिरतारूप दायक चा-
 रित्र प्रगट थाय. अेम पुद्गल डव्यना अनंत पर्यायमां पोतापणुं
 मानवुं अजर कांइनुं कांइ निर्धार, रुचि, प्रतित करवी ते मिथ्या-
 त्वना पण अनंत पर्याय जाणवा तेमांथी जेटला पर्यायनो नाश
 करिये तेटला दर्शनना पर्याय प्रगट थाय. मिथ्यात्वना अनंत पूर्ण
 पर्याय नाश करवाथी दर्शनना अनंत पर्यायना एकत्व पिररूप केवल
 दर्शन प्रगट थाय अने अनंत परपर्याय सगे रोकाएलु, चलायमान
 थएलुं आत्मवीर्य, ते समेटी स्वगुण पर्यायमां फोरववाथी अनंत पर्या-
 यवंत वीर्य गुण निरावरण (स्वतंत्र) प्रगट थाय एम चारे घन-
 घातीकर्म नाश करी अनंत चतुष्टय जोगी थारुं. पुद्गलना अनंत पर्या-
 यमांथी अज्ञानवशे कोइ पर्यायने पोताना खपनो अने जळो जाण्यो
 ते पर्याय ऊपर राग थाय अने कोइ पर्याय पोताने अहितकारी

जाण्यो तो तेना ऊपर द्वेष थाय ते ज्ञानावरण कहिये. अने ते पर्यायने इष्टानिष्ट जाणवाथी जे चपलता आत्मश्रंगमां थइ ते चारित्रि गुणनी अस्थिरतारुप अशुद्धता जाणवी. अने स्वपर पर्यायमां कांश्नी कांश् श्रद्धा, रुचि करवी एवो अशुद्ध निश्चय ते दर्शनगुणनी मलिनता जाणवी. तो वस्तु जेम ठे तेम जाणवाथी अने जेम ठे तेम निर्धार करवाथी अने जेम ठे तेम आचरण करवाथी त्रणे गुणनी अशुद्धता मटे. अने ए त्रणे गुणनी अशुद्धता संबंधे वपराएखुं आत्मवीर्य ते जेम जेम त्रणे गुणनी अशुद्धताना अंश मटाकता जइए तेम तेम वीर्यगुण शुद्ध अने अचल थाय एटले चारे घनघातीकर्मनो नाश थाय. एम प्रमाद ठोकी जिन वचनमृतनुं पान करी अनंत चतुष्टय जोगी थवुं.

(६) स्वग्राहकतापद—कोइ द्रव्य अन्य द्रव्यना गुण पर्यायरुप ग्राह्यने ग्रहण करी शकतो नथी. जेम सोनाना पित्तत्व गुरुत्व आदिने सीसुं ग्रहण करी शकतुं नथी माटे परग्रहणता रुप मिथ्याजाव तजी स्वग्राह्य ग्राहकत्व अस्तित्व जाणी परग्राह्य ग्रहणबुद्धि तजी स्वाग्राहकत्वे स्थिर, अचल, अकंप, समाधि जोगी थवुं.

(७) स्वव्यापकता पद—कोइ द्रव्यना व्याप्यमां कोइ अन्य द्रव्य व्यापी शकतो नथी माटे पोते अनंत चेतना चिन्हरुप स्वव्याप्य व्यापकता न चूलतां पर पुद्गल वर्णादिनी व्यापकता नास्तित्वजावे जाणी स्वलक्षण अस्तित्वमां स्थिर थवुं.

(८) स्वरक्षकता पद—कोइ द्रव्य कोइ अन्य द्रव्यनो रक्षक नथी, जेम पुद्गल द्रव्य गुण पर्यायने चेतना राखी शकतो नथी अने ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादिकने पुद्गल के धर्मास्तिकायादि अन्य द्रव्य राखी शकता नथी माटे अन्य द्रव्यनुं रखोपु करतां स्वरक्षणता चूकी पररक्षणता माटे जूगे प्रयास करवो एवो मिथ्या जाव

ठोमी निःप्रयास निज रक्षकता अस्तित्व जावे जाणी स्थिर समाधि संतोष मांहे रहेवुं.

(९) स्वकार्यत्व पद—कोइ ड्रव्यनुं कार्य कोइ अन्य ड्रव्यमां नथी ड्रव्यनुं कार्य ड्रव्यना स्वड्रव्यादिकमां अस्तित्व ठे. परड्रव्यादिकमां स्वकार्यनुं नास्तित्व ठे. नास्ति ठतां तेमां कार्य मानवुं ते मिथ्याजाव वडे आत्मा स्वकार्य चूकी परड्रव्यमां कार्य मानतो अज्ञान मिथ्यात्व अने कपाये करिने चौदराज लोकमां जटकतो स्वकार्य सिद्धि करि शकतो नथी माटे स्वड्रव्यादिकमां कार्य मानी, जाणी, अनुजवी सदा स्वसंपदा जोगी थइ रहो.

(१०) स्वकारणता पद—शुरू नये स्वकार्यनी कारणता रूप ठती पर्यायरूप करणनी प्रवृत्ति स्वड्रव्यमांहे अस्तित्व जावे ठे ते माटे परड्रव्यमांहे करण कारणता जाणवा रूप मिथ्याजाव तजी सम्यक्स्वरूप जाणी स्थिर थवु व्यवहारथकी विजावीक काममां अने कर्मबंधमां फस्या पठी पावुं तुटवाने माटे परड्रव्य निमित्त कारण थइ शके ठे पण शुरू नयेतो कोइ ड्रव्यनी कारणता कोइ अन्य ड्रव्यमां नथी. विवक्षित कार्यना कारण वने अन्य कार्य थाय नहि अने अन्य कार्यना कारणवने विवक्षित कार्य थाय नहि. कारण ते स्वकार्य कारणपणे अस्तित्व. अन्य कार्य कारणपणे नास्तित्व कारण ते कार्य नहि, कार्यते कारण नहि कारणते कर्ता नहि, कर्ता ते कारण नहि अने कारण कार्य एक समये होय कारणपद-कर्ताने आधीन ठे माटे विपर्यास बुद्धि तजवी

(११) स्वकारकतापद—शुरू नये स्वकार्य कारकता स्वड्रव्यमां अस्तित्व जावे ठे. निज कार्य कारकता परड्रव्यमां नास्तित्व जावे ठे माटे परड्रव्यमां स्वकार्य कारकता जाणवी ए मिथ्याजाव जाणी तजवो जेम आत्मसिद्धि रुपी कार्यनो कर्ता आत्मा ठे, कारण

ऊपादान ठती पर्याय ठे, ठती पर्यायनी प्रवृत्ति ते संप्रदान, परगुण पर्यायमां करणो न प्रवर्त्ताववां ते अप्रदान, कारक प्रवृत्ति करवानो आधार स्वप्रदेश अने स्वकाल आदि जाणवुं. माटे परमां निज कारक जाणी निज कार्य करीश एम मानवारूप खोटो भ्रम अने भ्रम तजी सम्यक् जावे स्थिर थाउं. विवक्षितकार्यनी कारकता अन्य कार्य कारकतामां नथी. जेम घट कार्यनी कारकता घट कार्य पणे अस्तित्व पण पटकार्य कारकता ते घटकार्य कारकता पणे नास्तित्व जाणी विपर्यासता तजवी.

(१७) प्रचुत्व पद—कोइ द्रव्यनी शक्ति कोइ द्रव्यमां नथी. प्रचुता एटले शक्ति. निज शक्तिनुं प्रचुत्व निज मांहे अस्तित्व जावे ठे. अन्य द्रव्यनुं प्रचुत्व स्वद्रव्य मांहे नास्तित्व जावे ठे. माटे परद्रव्य मांहे प्रचुत्वनुं अत्तिमान बोमी निज प्रचुत्व मांहे आनंदित रहो.

(१३) ज्ञायकता पद—जीव पोतानी ज्ञायकता शक्तिए निज स्वरूपनो ज्ञाता द्रष्टा ठे. वली जे ज्ञेय पदार्थ परक्षेत्री द्रव्य ते पोतानी ज्ञायकता ज्ञेयाकारे परिणमे तेथी परज्ञेयनो पण ज्ञाता द्रष्टा कहिये, पण ज्ञान परक्षेत्रे जतुं नथी, ज्ञेय ते ज्ञान क्षेत्रे आवता नथी; अने निज द्रव्य परद्रव्य रूपे थतो नथी, स्वक्षेत्र परक्षेत्र रूपे थतुं नथी; स्वकाल परकाल रूपे न थाय, अने स्वज्ञाव परज्ञाव रूपे न थाय. निज द्रव्य क्षेत्रकालज्ञाव स्वद्रव्यादिके अस्तित्व, परद्रव्यादि रूपे नथी अने थाय पण नहि. तो तेने परद्रव्यादि रूपे जाणीए, मानीए, अनुज्ञवीए, के ममत्व करिये, ए सर्वे मिथ्या ज्ञाव जाणी तजवो.

(१४) अक्रियता पद—द्रव्य स्वस्वज्ञावे सदा अक्रिय ठे, अने पुद्गल द्रव्यने ममत्वे चेतना विज्ञावे सक्रिय ठे. माटे पुद्गल द्रव्यनुं ममत्व ते मिथ्या ज्ञाव जाणी सदा अक्रिय स्वज्ञावे मग्न रहेवुं.

(१५) परिणामीकता पद—द्रव्य आप आपना गुण पर्यायनो परिणामी ठे. पुद्गल परिणतिना परिणामी थुं ते मिथ्या जाव जाणवो पर परिणतिनी परिणामीकताना ममत्वथी निज परिणामीकता चूकी अनंत पर पुद्गल द्रव्य मांहे संसर्ण करि सहजानंद परिणामीकताने चूके ठे माटे पर परिणतिना परिणाम रूप मिथ्या जाव ठोडी, द्वायक दर्शन ज्ञान चरण रूप निज परिणामीकता जाणी, मानी, अनुचवी शाश्वता सुखमां आरामी थाओ.

(१६) जन्य जनकता पद—कोइ द्रव्य कोइना गुण पर्यायने ऊपजावे एवो नथी द्रव्य निज जनकपणे त्रिकाले अचेद ठे माटे परनु जन्यजनकपणु मिथ्या जाणी तजवुं. आ पुत्राटिकने में जन्माव्या, हुं जनक तुं, अथवा हुं जन्य, माता पिता जनक एवो मिथ्या जाव तजवो.

(१७) अगुरुलघुपद—सर्वे द्रव्य पोताना अनंतगुणे करि अने गुण गुणना अनंत पर्याये करि सर्वदा सत्य ठे ते समय समय गुण गुणना अनंत पर्यायनो पद गुण हानी वृद्धि पणे उत्पाद् व्यय दर समय थाय तेमां कोइ समये आवीरजावे पर्यायनी पदगुणी वृद्धि होय अने तीरो जावे हाणी होय कोइ समये आवीरजावे पर्यायनी पदगुणी हाणी होय अने तीरोजावे पद गुण वृद्धि होय. ए अगुरुलघु स्वजाव कहिये तेथी द्रव्य हलको अजर जारे यतो नथी तो हु सोटो हुं नानो अजर जारे हलकुं मानवुं ए मिथ्याजाव जाणी तजवु

(१८) अखंडता पद—जीव द्रव्य पोताना अनंत आवीरजाव अने तीरोजाव पर्याये प्रवर्ततो सत्ताए सदा अखंड ठे पर्याय आवीरजावे ऊपज्या तीरोजावे विणश्या, तीरोजावे ऊपज्या आवीरजावे विणश्या ते उत्पाद् व्यय अनित्य स्वजाव कहेवाय तो पण त्रिकाल

अखंठे. अने आवीरजाव तीरोजावे थवुं अने सत्ताए ध्रुव रहेवुं एज उत्पाद् व्यय ध्रुवरूप द्रव्यनुं शाश्वतुं लक्षण ठे. तो हुं उपज्यो; हुं विणश्यो, मारुं जाग्युं, मारे आव्युं, अथवा जशे आवशे एवा मिथ्याजावे करीने पोताने दोज पमारवो नहि. निज नीधि सहित नित्य अने पर्याय प्रवृत्तिथी अनित्य निजात्म तत्त्व जाणी सदा सम्यक् प्रकारे स्थिर रहेवुं.

(१९) आधाराधेय पद—कोइ द्रव्य कोइना गुण पर्यायनो आधार नथी. अने कोइना गुण पर्याय कोइने आधारे नथी. माटे परद्रव्यमां आधाराधेय पणुं मानवुं ते मिथ्याजाव ठे एम जाणी तजवो.

(२०) अचलपद—द्रव्य निज स्वजावे त्रिकाल अचल ठे जेम जीव द्रव्य चेतना आदि लक्षणे अने पुद्गल पूरणगलनादि लक्षणे सर्वे समय अचल ठे. माटे पुद्गलना चल उपाधि पर्यायमां ममत्व करी निज अचल परिणतिने चूकवुं नहि. पुद्गलनी चल परिणतिना ममत्वरूप मिथ्याजाव तजवो.

(२१) साधकतापद—जीव वर्णादि परगुण रहित अने परगुण ममत्वविना रागादि रहित अरूपी, अतीन्द्रिय, केवल ज्ञानानंदमय, अनंत वीर्यवंत, अव्यावाधमय, सिद्ध समान स्वरूपे अस्तित्व ठे. एम परमात्मरूप जाणी ते उपयोगने चलायमान न करवो स्वरूपे राखवो ते साधकता कहिये. अने वर्णादिरूपे नथी माटे वर्णादि रूपे जाणवानो मिथ्याजाव तजी स्वस्वरूपे रींजी सहजानंद विलासी रहेवुं.

(२२) बाधकतापद—जीव परद्रव्यमांहे ज्यारे रक्त थाय ठे त्यारे बाधकता परिणति आदरी कर्मबंधने करे ठे. माटे परद्रव्यमां रक्त थवुं ते मिथ्याजाव ठे एम जाणी तजी स्वस्वरूपे रींजी सहजानंद विलासी रहेवुं.

(२३) देवपद—केवल दर्शन ज्ञान स्वजावमां अचल रमण-

वंत अनंत वीर्य अबाधित निज अस्तिधर्मना जोगी ते देव कहिये, ते देव देवतत्त्वे अस्तित्व. एथी जे उलटा पुद्गल परिणतिमांहे मग्न जड चल जीवनी अंठना जोगी ते मांहे देव पणानो नास्तित्व जाव जाणी देव पणाना मनन रूप मिथ्याज्ञाव तजवो.

(१४) गुरुपद—शुरू नये सिरू समान आत्म स्वरूपना वता. वनारा अने शुरुआत्म प्रशस्तपणे हेय ऊपादेय मोक्षमार्गना दर्शाव- नारा, धन, विषय, मान, ममत्वना अर्थी नहि, निरपेक्ष, स्वपर स्वरूपना जाण, करुणाना जंडार ते गुरु. एथी जे ऊलटा शुरू नये स्वपर स्वरूपना अजाण; धन, विषय, मान, ममत्वना अजिवापी, संसार समुद्रमांहे डूवाववावाला, परपरिणतिमां रींकावनार ते गुरु नथी माटे तेने गुरुपणे मानवा रूप मिथ्याज्ञाव तजवो.

(१५) शास्त्रपद—शास्त्र कहीए समय जेथी आत्मा आत्म ऊपयोगमां स्थिरता पामे. एथी जे उलटुं जे कुशास्त्रवने आत्मा पुद्ग- गल परिणतिना सर्व अंशे अथवा एक अंशमां पण रींऊ पामे ते कुवचन जाणी शास्त्रबुधिरूप मिथ्याज्ञाव तजी समय जिनप्रणित सिद्धातमां मग्न थवुं

(१६) धर्मपद—धर्म ते वस्तुनो सहज उपयोगमय ज्ञाना- नटरूप अरूपी स्वज्ञाव आत्म क्षेत्रथी अजिन्न तेने धर्म कहीए अनादि पुद्गल डव्यने ममत्वे थएली जे वक्रता रागादि परिणाम अने पुद्गल वर्णादिमां क्रिया प्रवृत्ति ते अधर्म. तेने धर्म जाणवारुप मिथ्याज्ञाव तजवो. पण शुद्धात्म धर्म प्रगट करवा अर्थे कारणपणे पुद्गल क्रिया प्रवृत्ति ते कारण धर्म जाणवो. पुद्गल क्रिया प्रवृत्ति शुद्धात्मज्ञाव प्रशस्तताए आढरवी अने अप्रशस्तताए होय ते तजवी एम हेय ऊपादेयरूप क्रिया जाणवी वली गुणगणा साफक पण क्रिया हेय ऊपादेय जाणवी. पण शुद्धात्म रमणतो आत्मार्थी अने;

दपणे सदा ऊपादेय जाणवुं. शुद्धात्म धर्म ऊपदेशकनो, अगर् शुद्धात्म धर्मनो, अने शुद्धधर्मीनो विनय, वैयावच्च, वांचना, पृष्ठना, परियट्टना, अनुप्रेक्षा (बार चावनानुं चाववुं), धर्मकथा, धर्मशुक्लादि शुचध्यान, अने षडावश्यक प्रवृत्ति शुद्धात्म धर्म प्रगट करवा अर्थे ऊपादान सन्मुख देश संयम अने सर्व संयमनो व्यवहार ते कारण धर्म जाणवो. एथी उलटुं इहलोक अर्थे, परलोक अर्थे, देखा देखी अपमान टालवा अने मान पामवा अर्थे, विष, गरल, अनुष्टान प्रवृत्तिमां धर्म नथी एम जाणवुं.

(१७) जीवपद-दर्शन ज्ञान ऊपयोगवंत अनंत चेतना चिन्हमय. एथी जे विपरित अचेतन वर्ण गंध रस स्पर्श आकारादि परगुण पर्यायमांहे जीवबुद्धिरूप मिथ्याजाव तजवो. जीव चेतना लक्षणवंत अनादि नित्य ठे. कोइ अन्य द्रव्यथी ऊपज्यो नथी अनंत लक्षणनो एकत्व पिंड निगोदथी मांकी सिद्धसुधी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, कर्त्ता, चोक्ता, ग्राहकता, व्यापकतादि लक्षणे परयोगे अशुद्ध, निरयोगे शुद्ध, प्रत्यक्षादि प्रमाणे जासतो स्वगुण अस्तित्वपणे ठे. (१) जेम सर्व द्रव्य अनादि नित्य ठे तेम जीव पण अनादि नित्य ठे. केमके जे पुद्गल खंध पेरे बहु परमाणुथी ऊपजेलुं होय, जेमां संधि होय ते विणसे पण जीवतो एकत्व पिंड ठे तेने नित्य अविनाशपणुंज होय; तथा आहारादि संज्ञाओ अने घणा प्रमाणो वडे पण नित्य जाणवो. जो पुद्गल पेठे बहु परमाणुमयी थयेलो होय, तो एकपणानो अनुभव कोण करे ठे? माटे नित्य जाणवो. (२) ते जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्यना ममत्वे रह्यो थकी कर्मनो कर्त्ता अने परद्रव्यना ममत्व विना शुद्ध ज्ञानादिनो कर्त्ता. (३) विज्ञाव वशे त्रमथी परद्रव्यनो चोक्ता, अने विज्ञाव तजी शुद्ध नये शुद्ध स्वरूपने जाणवे, आदरवे शुद्ध स्वजावनो

चोक्ता. (४) 'परजाव तजी शुद्ध स्वरूप अनुजवी परमानंद प्राप्ति करी शके ठे, जेम जेम प्रत्यक्षपणे मिथ्यात्व अने कषाय रूप अशुद्ध अध्यवसाय जेटला जेटला अंशे तजीए तेटला तेटला अशे ज्ञान, दर्शन, चारित्रनी शुद्धता, ऊढता प्रगट थेंती जाय ठे तो पूर्ण अच्यासे त्रिगुणरूप आत्मता शुद्ध प्रगट करी 'निर्वाण पद प्राप्ति याय एमां शंका नथी. (५) निर्वाण प्राप्ति अर्थे शुद्ध स्वरूपनुं ज्ञान अने ऊढ पतित अंने ऊढ्य जाव संयम एज परमानंद प्राप्तिनो उपाय ठे. ए माहे विपर्यासता अने शंका कखां वितिगिच्छादि दोषो होय ते सद्गुरु पासे यथास्थित समजी पट स्थानकेना जाव ययार्थ समेजी सकल विपरितता रूप मिथ्याजाव तजवो.

(१८) अजीव पद—वर्णादि पूरणगलनमय पुद्गल ऊढ्य, चलन सहायमय धर्मास्तिकाय ऊढ्य, स्थिरसहायाधार अधर्मास्तिकाय ऊढ्य, अने अवकाश दानरूप आकाश ऊढ्य, ए अजीव पद जाणवुं, अने कालऊढ्यनुं स्वरूप उपचारथी ठे अने एनी चर्चा विशेष ठे माटे अहिआं लख्युं नथी वीजा ग्रथोथी जाणी लेवुं. अने स्वकाल तो पंचास्तिकायनो वर्तना पर्याय अंतर्गत अजिन्नपणे ठे अने व्यवहार काल 'ग्रहोनी' गतिथी आयुष्यादि मान अर्थे जाणवो.

(१९) पुराय पाप पद—दान, दयालुता, शील संतोष, सराग संयमादि शुभजाव ते पुण्य, एथी उलटुं चोरी, अटया, कुशील अंगर अढारे पापस्थानक ते पापरूप जाणी तजवां. हवे पापना अनंत पर्यायमांथी 'एक पर्यायने पण पुण्यरूप न जाणवो एम पुण्य पाप' माहे जे 'विपरित बुद्धिरूप मिथ्याजाव होय' ते तजी सम्यक् जावे स्थिर थवु

(३०) आश्रव पद—जीव ज्यारे पुद्गल ऊढ्यमां इष्टानिष्ट बुद्धि करी क्रिया रसेमां रक्त थाय (१)—ते वळते आत्मा पूर्व कर्म

वर्गणा सहित जे आकाश क्षेत्रमां रह्यो होय तेज क्षेत्रमां रहेकी पुद्गल वर्गणा शुद्धाशुद्धरूपे प्रणमी, आवी, पूर्व वर्गणा साथे बंधाय ठे; तेने आश्रव कहिये. तो पुद्गल द्रव्य आपणने गुण अग्रर दोष कांइ करी शके एवो नथी एम जाणी पुद्गलमां इष्टानिष्ट बुद्धिरूप मिथ्याज्ञाव न करवो.

(३१) संवर पद—शुद्ध नये आपणुं सिद्ध समान शुद्धात्म स्वरूप जाणी त्यांज उपयोग द्रढ करवो ते संवर. संवर संवररूपे अस्तित्व अने पंच अवतरूप, पंच इंद्रियोना विषयरूप, चार कषायरूप, मन वचन कायानी चपलतारूप, अथवा पच्चीश क्रियारूप के कोई पण विज्ञावनी क्रियामां संवरनुं नास्तित्व जाणी ते मांहे संवर बुद्धिरूप मिथ्याज्ञाव तजवो.

(३२) निर्जरा पद—पूर्वे बांधेला शुद्धाशुद्ध कर्मवडे मनोज्ञ शब्दादि पुद्गल जोगनी इच्छा थाय ठे. अने अमनोज्ञ स्पर्श, शब्दादि उपर द्वेष आवे ठे. तो ज्ञान दर्शन चरणानंदमय निजात्मरूप अनुभवमांहे तृप्तिवंत थवाथी पुद्गल जोग इच्छा निवर्ते एटले राग द्वेषरूपी रस निर्जरे अने पुद्गल कर्मदल पण केटलेक देशे खरे तेने निर्जरा कहिए. ते निर्जरा निर्जराज्ञावे अस्तित्व, अन्य ज्ञावे निर्जरा नथी. माटे निर्जरामां जे विपर्यास बुद्धि होय ते तजवी.

(३३) बंध पद—परद्रव्यसाथे रागादि परिणामे बंधावुं ते ज्ञाव बंध. अने रागादि शुद्धाशुद्ध ज्ञावे कर्मदल आवी आत्म प्रदेश साथे क्षीरनीर पेरे एक क्षेत्रावगाहे पुद्गल वर्गणानुं बंधावुं ते द्रव्य बंध. ए द्रव्य बंधरूप जे कर्म वर्गणा ते नवा रागादिनुं निमित्त कारण थाय ठे अने नवी वर्गणा ग्रहवाने उपादान कारण थाय ठे. अने रागादि ज्ञाव बंध ठे ते नवा रागादि बंधनुं उपादान कारण ठे अने नवी ग्रहवानुं निमित्त कारण ठे. ए बंध पोताना अनंत

पर्याय बंधरूपे अज्ञेदे बंधपणे एक ठे. बंध बंधपणे अस्तित्व, एथी उलटो शुद्धात्म अनुभव त्यां बंधनुं नास्तित्व पणुं ठे. माटे एमांहे कांइ पण विपर्यास बुद्धि होय ते मिथ्याज्ञाव जाणी तजवी

(३४) मोक्ष पद—जीवे संकल प्रदेशे पुद्गल इव्यथी अने रागादि ज्ञावथी अंगर ज्ञानावरणादि आठ इव्य कर्मथी अने रागादि विज्ञावथी सर्वांशे मूकावु ते मोक्ष. आत्माना अनंत पर्यायनी सिद्धिरूप, व्यक्तिरूप जे स्वरूप ते मोक्ष मोक्ष मोक्षरूपे अस्तित्व, एथी जे उलटो अनात्म पर्यायनो संग, ममत्व, के परिचय, ससर्गादिमां मोक्षनुं नास्तित्व पणुं ठे माटे ए मांहे कांइ पण विपर्यास ज्ञाव होय ते जाणी, तजी, सम्यक् ज्ञावे स्थिर थवु.

(३५) सम पद—आत्मा अनादि अशुद्ध स्वज्ञावरूप अविद्या वडे पोतानुं शुद्ध स्वरूप जेवुं ठे तेवुं अणजाणते जे पुद्गलमां व्यापेलो तेने पोतापणे जाण्युं अने ते पुद्गलमां यता विकारोने टालवा माटे जे अन्य जीव तथा जे पुद्गलने प्रशस्त जाणे ते उपर राग अने जे जीव अने पुद्गलो अप्रशस्त जणाय तेना उपर छेप उपजे वली प्रशस्त जाणेला जीव तथा पुद्गलने कोइ रोके, हरकत करे ते उपर छेप तेथी ज्ञानावरणरूप विषम पणुं थयु एटले ज्ञान गुण मलीन अने चल थयो कोइ पुद्गल आत्माने हित अथवा अहित करी शके एवो नथी ते ठतां परइव्यमां शुचाशुच संकल्प्यो पण जेवुं पोतानुं शुद्ध अवाधित निजात्म स्वरूप ठे तेवुं जाणथी शुचाशुच संकल्प मटे, ज्ञानगुण निर्मल अने शुद्ध थाय पुद्गल इव्यना अनंत पर्याय ठे तेटला रागादि अशुद्धताना पर्याय जाणवा. अशुद्धता मटवार्थी ज्ञानना अनंत पर्याय निर्मल अने स्थिर थाय ते ज्ञानने समपद जाणवुं. परमां पोतापणानो निर्धार, श्रद्धा, रुची, पतित ते मिथ्यात्व एटले दर्शन गुणनी मलीनता जाणवी.

जेटला पुद्गल द्रव्यना पर्याय ठे तेटला मिथ्यात्वना पर्याय जाणवा. आत्म गुण पर्यायमां आत्मपणानो निश्चय, श्रद्धा, रुची, पतित थ-
 वाथी मिथ्यात्वना अनंत पर्यायनो नाश थइ दर्शन गुणना अनंता
 पर्याय निर्मल स्थिर स्वज्ञावे प्रगटे, परद्रव्यना अनंत पर्यायमांथी
 एक पर्यायनी पण पोतापणे अथवा मारा खपनो ठे एवी श्रद्धा,
 रुची, पतित होय त्यां सुधी दर्शन गुणनी मलीनता जाणवी. शरी-
 रादि परद्रव्यने पोतापणे जाणवाथी ते पर शरीररूप जे पुद्गल तेने
 प्रशस्तपणे अन्य पुद्गलो अने जीवादि संबंधमां जे विषयादिरूपे
 आचरण अगर अप्रशस्त टालवा कषायरूपे आचरण ते चारित्रगु-
 णनी मलीनता तथा अस्थिरता जाणवी. तेना पण पुद्गलादि अन्य
 द्रव्यना पर्याय जेटला पर्याय जाणवा. ज्यारे आत्मा शुद्ध निजात्म-
 रूपे पोतापणे जाणे, द्रढ श्रद्धा, रुचि पतित करे अनुज्ञवे थारे परम
 स्थिरता पामे एटले पराचरणना अनंत पर्याय नाश थइ चारित्रना
 शुद्ध अने स्थिर रमणरूपे अनंत पर्याय प्रगटे. ज्यांसुधी पुद्गलना
 एक पर्यायनुं आचरण ठे त्यांसुधी चारित्रनी अशुद्धता कहीए. ए
 त्रणे गुण अज्ञेद पणे एक आत्म स्वज्ञाव ठे. ते समपद आत्म स्व-
 ज्ञावे अस्तित्व पर अनंत पर्याये नास्तित्व, स्व अनंत पर्याये अनेक
 स्व आत्मपणे एक, स्व अनंत पर्यायना जेदे जेद, बहु जेदपणे पण
 अज्ञेदी, स्व द्रव्यथी ध्रुव सदा नित्य, स्व पर्यायना उत्पाद् व्यये
 अनित्य, नव नवा पर्यायज्ञवने ज्ञव्य, स्वस्वरूपे रहे माटे अज्ञव्य,
 समज्ञावना अनंत पर्याय श्रुतज्ञान गम्य वचन गोचर आवी शके तेथी
 वक्तव्य, समज्ञावना वक्तव्य पर्याय करतां अनंत गुणा पर्याय वचन
 गोचर आवे नही पण केवल ज्ञानगम्य तेथी अवक्तव्य, नामथी समज्ञाव,
 क्षेत्रथी असंख्यात प्रदेश स्थापनारूप, द्रव्यथी अनंत स्थिर चेतना पिंड,
 ज्ञावथी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप परमानंदमय. समज्ञावना अंशो
 समज्ञावमां उती जाणवा. नैगमे पुद्गलादि परद्रव्य अंश अहिंआं

नथी, संग्रहे अनंत शुद्ध सत्तावंत, व्यवहारे समिति गुप्ति आदि सत्तावन अग्र अनंत जेद, रूजुसूत्रे परिणामे परमानदनुं कारण, शब्द, समञ्जिरूढ, अने एवंजूते परमानंद व्यक्तिरूप ते सम-
जाव जाणवो

(३६) क्षमापद—स्वपर आत्माना ज्ञानादिक अनंत पर्यायने शुचाशुच संकल्पे करीने हणवा नहि, दुखववा नहि, वीजा पासे पण हणाववा अनुमोदवा नहि, समजावे राखवा अने स्वपर द्रव्य प्राणने विषयादि कारणे अग्र अकारणे हणवा नहि, ते क्षमा. आत्म गुण रखोपाना अनंत पर्याय क्षमामां अजेद पणे अस्तित्व जाणवा आत्म गुण रखोपुं, मोहनिकर्मादि कर्म परिणामनुं रमण तजी शुद्ध स्वजा-
वमां स्थिर थवाथी थाय ठे

(३७) मार्दवपद—मृडुता परिणामे अरिहंत अने धर्माचा-
र्यादि गुणीनो अने ज्ञानादिक गुणनो तथा ज्ञानादिक गुणनां कार-
णो नो विनय, बहुमान, आदर, सन्मान अने कोइ जीवु पण अपमान नहि अने आठ प्रकारना मदनो त्याग ते मृडुता गुण कहिये.

(३८) आर्यवपद—चित्तमांथी कुटिलता परिणाम तजी जी-
वोना सुख पर्याय अनंतमांथी एक पर्यायने पण उगवो नहि ते आर्यवपद.

(३९) मुक्तिपद—पुद्गलना अनंत पर्यायमांथी एक पण पर्या-
यनी ग्रहण संग्रहनी श्छा, मूर्ठा, कामना, मनोरथ, तृष्णा, अजिलाप
नहि ते मुक्तिपद

(४०) तपपद—दर्शन ज्ञान चारित्रना अनंत पर्यायमां तृप्ति,
मन्नता वके पुद्गलना अनंत पर्यायमांथी एक पण पर्यायने जोग-
ववानी श्छा, कामना, मनोरथ न करवो ते पूर्ण तप पद

(४१) संयमपद—आत्म गुणना अनंत पर्यायने उपयोगमां

संज्ञाली राखवा. उपयोग विषय, कषाय हिंसादि अवतरूप अने परज्ञावनी क्रियामां मन वचन कायाए करीने जवादेवो नहि एटले द्रव्य जाव हिंसामां उपयोग न जवा देवो, स्वस्वरूपे स्थिर राखवो ते संयमपद.

(४२) सत्य पद—निजात्म द्रव्य गुण पर्यायने पोतापणे जाणवुं, मानवुं, अनुभववुं अने प्ररूपवुं ते सत्य. एथी उलटुं पर द्रव्य गुण पर्यायने पोतापणे जाणवुं, मानवुं, अनुभववुं ते असत्य.

(४३) शौच पद—निजात्म गुण पर्यायने राग, अज्ञान, मिथ्यात्व रूपे मलिन न थवा देतां स्वस्वरूपे निर्मल राखवो अगर पूर्वे मलिन थएला ज्ञान दर्शन चरण गुण ते जेदज्ञान रूप स्वपर विवेके संवर जले निर्मल करवा ते शौचपद.

(४४) आकिंचन पद—कंचन, मणि, माणिक, तृण तुप परमाणु मात्रनो संग्रह न करवो ते आकिंचनपद.

(४५) ब्रह्मचर्यपद—शुरू सिद्ध समान शुद्धात्म ब्रह्ममां निज परिणतिनुं रमण, अने अद्वार हजार जेदे अगर अनंत जेदे अब्रह्म टालवुं ते ब्रह्मचर्य पद. ए द्वांत्यादि दशे स्वस्वरूपे अस्ति परस्वरूपे नास्ति, माटे दशेनुं स्वरूप यथार्थ जाणवुं अने रूची, पतित, ते सम्यक्त्व. एथी जे विपर्यास बुद्धि ते मिथ्यात्व.

(४६) निर्जयपद—पोताना ज्ञानादिक अनंत पर्यायमांथी अगर आत्म अंगमांथी कोइपण प्रदेश के शक्तिरूपी धननो वियोग थवानो नथी. आत्मा पोतानी ज्ञान दर्शन स्वज्ञाविक चाल ठोकी पुद्गल मांहे गमन करे नहि. अने पुद्गल चाल आदरे नहि तो परलोक कोण जाय ? पोताना ज्ञान दर्शन चरण सुख वीर्यप्राणे करी सदा जीवतो अबाधित ठे, कोइ समये विनाश पामतो नथी, रोगादिक पुद्गलमांहे होय ठे. पण पुद्गलथी न्यारुं पोतानुं स्वरूप शुरू

जाण्युंके त्यां रोगादिकनो अंश मात्र प्रवेश थाय तेम नथी. कोइ ड्रव्यना गुण पर्याय कोइ राखी शकतो नथी ड्रव्यना गुणो ड्रव्यथी समवाय संबंधे शाश्वत होय ठे एटले मोरे कोइ रक्कनी जरुर नथी मारुं ज्ञानादिक धन, शक्ति, रिद्धि मारा आत्म अंगथी अज्ञेद, अतूट, अखंरु ठे. चोरादि मारा उता खजानाने जाणी अने खेइ लुंटी वगानी शकता नथी ड्रव्यना शाश्वत स्वज्ञावमांहे अणचित्यु कांइपण थवानुं नथी ज्ञानादिकना पर्याय अनंतकाल ज्ञानादिक स्वज्ञावे उत्पाद् व्यय ध्रुवरूप परिणामिकपणे परिणम्या करशे, कांइ अगुप्त थवानुं नथी हुं निर्जय, निशंक, निराकुल, स्वतंत्र, स्वयसिद्ध अनंत मोकलाशमय सत्ता स्थलमां सदा आनदित विराजुं तु एम जाणी निर्जय रहेवुं एमांहे कांइ विपर्यास जाव जासे ते सद्गुरु सगे सद्बोध आदरी विपर्यासता तजवी

(४७) प्रमेयपद—लोकाकाशमां जेटला जीव ड्रव्य ठे तेथी एक वधे पण नहि अने घटे पण नहि दरेक जीवमां अनंता ज्ञानादिक गुण ठे ते गुणोमांथी एक गुण घटे के वधे नहि एक गुण स्वजाति अन्य गुण रूपे न थाय विजाति अन्य गुण रूपे पण न थाय गुण गुणना अनंता पर्याय ठे, तेमांथी एक पर्याय वधेके घटे नहि कोइ पर्याय स्वजाति अन्य पर्यायरूपे न थाय, विजाति अन्य पर्याय रूपे न थाय. वली पुद्गल ड्रव्य परमाणुरूपे अनंता ठे, छीप्रदेशी, त्रीप्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी खंध अनता ठे ते खंधरूपे वधे, परमाणु रूपे घटे, परमाणु रूपे वधे खंध रूपे घटे पण परमाणु ड्रव्य अनंतामांथी एक पण घटे नहि. नवो एक पण उपजे नहि परमाणुमांहे अनंत गुण ठे तेमांहेथी एकपण गुणनी सत्ता घटे के वधे नहि अने पर्याय गुण गुणना अनंता ठे तेमांहेथी एक पर्याय वधे के घटे नहि एक पर्याय स्व अन्य अनंत पर्याय रूपे न थाय, पर अनंत पर्यायरूपे न थाय; आप आपणी मर्यादाने ठोके नहि. वली

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायनी पोताना द्रव्य गुण पर्यायनी जे मर्यादा ठे तेमांहेथी घटे के वधे नहि. अन्य रूपे थाय नहि. अलोकाकाशमां आकाशनां अनंत प्रदेश ठे. प्रदेशे प्रदेशे अनंता पर्याय ठे ते प्रदेशे अने पर्याय घटे वधे नहि. अन्य रूपे थाय नहि. त्रिकाले पोतानी मर्यादा चूके नहि. एमांहे जे विपरित चासे ते सद्गुरू समीपे समजी सूक्ष्म मिथ्याज्ञावने दूर करवो.

(४८) प्रमाण पद-केवलज्ञान ते प्रत्यक्ष प्रमाण ठे. अने अवधि, मनःपर्यवज्ञान ते देश प्रत्यक्ष प्रमाण ठे. अने मति, श्रुतज्ञान परोक्ष प्रमाण ठे. तेमांहे श्रुतज्ञानरूप कांइ प्रमाण लखीए ठीए. पुद्गलना वर्णादि पर्यायमांथी एक पर्यायने जाणी तेना वर्ण गंध रस स्पर्शादि अनंत पर्यायनी ठतीनुं प्रमाण करीए. वर्णादि ठती पर्यायने जाणी अनंत गुणनी ठतीनुं प्रमाण करीए. अनंत गुणनी ठतीना प्रमाणथी पुद्गल द्रव्यनुं प्रमाण करीए. पुद्गल द्रव्यथी पुद्गल गुणनुं प्रमाण करीए. पुद्गल गुणथी पुद्गल पर्यायनुं प्रमाण करीए. जीव द्रव्यथी जीव गुणनुं प्रमाण करीए. जीव गुणथी जीव द्रव्यनुं प्रमाण करीए. जीवनो एक गुण होय त्यां जीवना बहु गुण होय एम प्रमाण करीए. जीवना गुणथी जीवना पर्यायनुं प्रमाण करीए. जीवना एक पर्यायथी बहु पर्यायनुं प्रमाण करीए. जीव द्रव्यथी जीव क्षेत्रनुं प्रमाण करीए. जीवना क्षेत्रथी जीवना स्वकालनुं प्रमाण करीए. जीवना स्वकालथी जीवना स्वज्ञावनुं प्रमाण करीए. जीवना स्वज्ञावथी उलटा जे विपरित ते परज्ञावनुं प्रमाण करीए. उत्पाद्थी व्ययनुं प्रमाण करीए. व्ययथी उत्पाद्नुं प्रमाण करीए. उत्पाद् व्ययथी ध्रुवनुं प्रमाण करीए. प्रमेयथीज प्रमाण थाय ठे. उत्पाद् व्ययथी अगुरुलघुत्वनुं प्रमाण करीए. उत्पाद् व्ययथी द्रव्यत्वनुं प्रमाण करीए. द्रव्यत्वथी सत्त्वनुं प्रमाण करीए. अने सत्त्वथी वस्तुत्वनुं प्रमाण करीए. वस्तुत्वथी अस्तित्वनुं प्रमाण करीए. सामान्यथी विशेषनुं प्रमाण करीए. विशे-

पथी सामान्यनु प्रमाण करीए. नयथी जावनुं प्रमाण करीए. निक्षेप न्यासथी स्वपर जिन वस्तुनु प्रमाण करीए नाम निक्षेपेथी स्थापनानुं प्रमाण करीए, स्थापना ए स्वक्षेत्र ठे एम जाणवुं स्थापनाथी ड्रव्यनुं प्रमाण करीए नामथी जावनुं प्रमाण करीए जावथी नामनुं प्रमाण करीए ड्रव्यथी जावनुं प्रमाण करीए

उक्तंच ॥ एक गुण पमाणे बहु गुण पमाणे, गुण पमाणे पञ्जय पमाणे, एक पञ्जय पमाणे बहु पञ्जय पमाणे, बहु पञ्जय पमाणे गुण पमाणे, गुण पमाणे द्ब पमाणे, द्ब पमाणे खेत्त पमाणे, खेत्त पमाणे काल पमाणे, काल पमाणे जाव पमाणे, जाव पमाणे काल पमाणे, काल पमाणे खेत्त पमाणे, खेत्त पमाणे द्ब पमाणे, कत्ता पमाणे कज्ज पमाणे, कत्ता पमाणे क्रिया पमाणे, क्रिया पमाणे कत्ता पमाणे, क्रिया पमाणे कज्ज पमाणे, कज्ज पमाणे क्रिया पमाणे.

एम प्रमाणना अनंत जेद जाणी स्वपर ड्रव्यादिक जिन जाणी परड्रव्यनुं ममत्व तजी मारा खपना नथी मने गुण दोष करी शके एवा नथी एम परड्रव्यने जिन जाणी परथो ज्दासिन वृत्ति करी निज शुरु स्वजावमांहे स्थिर थवुं वली सुगुण पुरुपोए थोमेथी वधारे समजी लेवुं अजर सिध्धांतमांथी सदगुरु मुखे समजी लेवुं अप्रमाण कोइ जाव वने नहि माटे विपरित बुधि टाली वस्तुनु सम्यक् प्रकारे स्वरूप जाणी मिथ्या वासना तजवी.

(४६) सहज निःप्रयासपद—आत्मा कोइ अन्य ड्रव्यथी थएलो नथी तेम पुद्गल परमाणु, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, अने आकाश ए पंचास्तिकाय ड्रव्य कोइ अन्य ड्रव्यथी थएला नथी माटे आपणे सहज शाश्वत स्वसत्तावंत अनादि नित्य तीए ज्ञा-

नादि गुणना पर्याय सहज विना प्रयासे अन्य द्रव्यना कारण विना स्वतंत्र वत्ते ठे तेथी कोइ अन्य द्रव्यनी आशा के कांइ पण प्रयासनी जरूर नथी. अनादि अशुद्ध स्वभाव वने परद्रव्यमां ममत्व कर्तु के ए मारुं, हुं एहनो, हुं एह, ए हुं, ए मने, ए मारथी, ए मारामां, ए मारावास्ते, एम अनेक प्रकारे ममत्व कर्तु ते ममत्व टालवा सद्गुरुनो विनय, वैयावच्च, बहु सन्मान करी शुद्ध नये निज स्वरूप शुद्ध जाणी, सहही, आदरी, अनुभव आस्वाद लेइ सकल क्लेश निवारी सहज स्वभावरूप परमानंदमय निःप्रयास प्राप्ति करीए. अनादि अशुद्ध स्वभाव ते पण आत्मानो ठे के स्वरूपथकी बाहेर देखवुं. अने गर्जित अनादि शुद्ध स्वभाव पण आत्मां ठे के जे वडे पोतानी शुद्ध सत्ताने देखवुं. ज्यांसुधी बाहेर देखवानो अने परकर्तृत्व स्वभाव ठे त्यांसुधी परकर्तृत्व पाणुं करे. पोतामांहे स्वतंत्र कर्त्तापाणुं ठे. माटे शुद्ध स्वभावने जाण्या पठी अशुद्ध स्वभाव न आदरतां सहज परमानंद जोगी थाय.

(५०) सुकालपद—आत्मां ज्ञानादिक अनंत गुणनी सत्ता अनादिथी ठती ठेज्यारे परमगुरुना वचनरूप ज्ञानघन वृष्टि थाय त्यारे सम्यक् स्वरूप अंकुर जल्लसी ज्ञाननी शाखा प्रशाखारूप स्वभावाचरण वृद्ध फेली केवल ज्ञानादिक पुष्पे प्रफुल्लित थइ परमानंद फल प्राप्तिरूप सुकाल थाय. पण ज्ञानघन वृष्टिमांहेथी संवरूप नीर स्वक्षेत्रे वाली लेइए एटले पठी मोक्ष फलनी प्राप्ति पामी सादि अनंत कालसुधी सदा सुकाल रहे.

(५१) सुमित्रपद—सुमित्र एटले निर्वाण मार्गरूप साचा सुखेसां प्रेरवावालो हित उपदेशक जाणवो. ते अरिहंत आचार्यादिक स्वपर स्वरूपना जाण, पर अनंत पर्यायमांथी जेनी ममत्व बुद्धि गइ ठे, ज्ञाषा वर्णणाना उदय वशे, धन, मान, ममत्व अने विषयादि कारण विना परमकरुणा जरेला हृदये जिनवचनना प्रेर्या थका ज्वीजीवोने

मोक्षमार्गमां प्रेरे ठे अज्ञान, मिथ्यात्व, कपाय अने जन्म, जरा, मरणादि व्याधिथी वचावनारा, उत्सूत्रने हलाहल विष समान जाणे ठे, जेने बाह्य क्रियानो हठ पक्षपात विषवाद नथी, तेनां वचन बहु सन्माने बाह्य अंतर विनये करी आदरवां. अनंत कालथी शुद्धात्म जावमां प्रेरवावालो नहि मलवाथी सिद्ध समानआत्मानी दूर्दशा थइ ठे, मांस वीर्यादि अने वैक्रियादि पुद्गलो जगत् जीवनी एंठने पोतापणे मानी अनंत वेदना सहे ठे धन्य । ते वेलाने अने धन्य । ते घनीने, धन्य । ते नगरीने के आपणने प्रेरकनो अवसर मद्यो प्रेरक मलवाथी मोह अने मिथ्यात्वनो अज्ञान अने अंतरायनो क्षय थाय प्रेरकरूपी सुमित्र पोतानां वचन माननारने वैमानिकादि सुगति करावे ठे. सिद्धि पदनो दातार थाय ठे. संसारमां स्त्री पुरुपादि कुट्टव पोताना विषयने अर्थे जेने मित्र जाणे ठे, तेने कपाय, मिथ्यात्व, अज्ञान, अने नरक तिर्यचादि दुर्गतिमां प्रेरे ठे. जूथो जूथो आश्चर्यनी वात ठे । के अमृत समान सद्गुरूना वचनमांतो आदर थतो नथी तेथी अनंतगुणो पुरुष, स्त्री, पुत्रादिकमां आदर थाय ठे. लौकिकरीतमां अने सन्मानमां पण बहु आदर थाय ठे. जूथो जूथो मोहनुं महात्म्य । के दुःख त्रासदाई कुसंगतमां आदर करावे ठे अने सद्गुरूना वचनमां आदर थवा देतो नथी माटे सुगुण पुरुषोए चेती प्रमाद ठोमी सद्गुरु वचनमां परम आदर करवो. जे सद्गुरूना वचननो परम आदर करे तेने बाह्य अज्यंतर रिद्धि सिद्धि नवनिधि ने परमानंदनी प्राप्ति पोताना हाथमां ठे जेना चित्तमां गुरुनु अपमान ठे तेने सुर अने मुक्ति, सुगति दूरे ठे जे पुद्गल जावमां प्रेरे, पोताना विषयादिना अर्थी होय तेमां सुमित्र पणानो नास्तित्व जाव जाणवो प्रेरक प्रेरकपणाना अनंत पर्याये सुमित्रपणे अस्तित्व जाणवो विपर्यास श्रद्धा, रुचि तजवी सदा सुमित्र संगे रही परम कल्याणकारी दशानो उमेद करवो.

(५९) परमानंदपद—ज्ञायकता शक्तिनो अनंत ज्ञानानंद, अनंत दर्शनानंद, दर्शन ज्ञानमय उज्वल निज रम्य स्वरूपमां अनंत चरणानंद, दर्शन ज्ञानादि अनंत गुणमांहे निज वीर्ये स्फुरे ते वीर्यानंद, निजात्मं अंग निज अनंत रिद्धि सहित अबाधित रहे ते अव्याबाधानंद, स्वज्ञावदानानंद, स्वज्ञावलाज्ञानंद, अनंत स्वपर्यायं जोगानंद, अनंत स्वगुण उपजोगानंद, स्वतंत्रानंद, अकृत्रिम सहज स्वरूपानंद, आत्म स्वक्षेत्रमांहे अन्य द्रव्यादिक आवी शके नहि अनंत लोकालोक ज्ञायकतानो अवकाश तथा स्वपर द्रव्य ज्ञायकताना अनंत पर्याय त्रिकालवर्तीना समकाले एक समयमां चांसे ते परम मोकलाशानंद, निज गुण अचल रहे ते अचल निःकंपानंद, स्व स्वरूपे सदा निर्मल रहे ते निर्मलानंद, कोइ अन्य द्रव्यनो जय नहि ते निर्जेयानंद, कोइ कार्यमाटे आकुलता नहि ते निराकुलतानंद, स्वसंपदामांहेथी अंश मात्र पण विणसे नहि ते अशोकानंद, स्वसंपदा अक्षय रहे ते अक्षय अमरानंद, रोगादिक आवे नहि ते अजरानंद, प्रदेश के गुण घसाय नही शक्ति हीण न थाय ते अखेदानंद, अंग अथवा गुण जेदाय नहि समवाय पणे रहे ते अजेदानंद, लेश्यादि पुद्गल लेश लागे नहि तेथी अलेश्यानंद, कोइ गुण स्वपर अन्य गुणथी जले नहि ज्रमादि थाय नहि खुटे नहि ते निर्द्धदानंद, कोइ कारणे कोइ समये विकल्प आवे नहि ते निर्विकल्पानंद, कोइ वाते कलंक आवे नहि ते अकलंकानंद, पोताना ज्ञानादिक धन रक्षणार्थे अन्य कोइ रक्षकनी जरूर नथी पोते पण रक्षा कर्या विना सहेजे स्वधन अतूट अखंड रहे ते स्वरक्षणानंद, सकल कर्म शत्रुने जीती जय वर्या कोइ अन्य पोताने जीती शके नहि ते अजितानंद, आत्म स्थान अन्य द्रष्टी गोचर नहि एवा अगोचर स्थाननो अगोचरानंद, आत्मीक अनंत रिद्धि आत्म प्रदेशथी अन्वय समवाय ते अन्वयानंद, कोइ कार्य माटे यत्न प्रयत्न करवुं

पने नहि ते अयत्नानंद अथवा अप्रयासानंद, पारकी आशा करवी
पने नहि, ते निरपेक्षानंद, संसारी आनंद ऊपचारथी ठे रोगादिना
ऊपचारने आनंद मनाय ठे पण आत्मिक आनंद निरुपचरित ठे
ज्ञानादि रिधि वापरतां जोगवतां विणसे नहि खुटे नहि ते अव्य-
यानंद, आत्मिक आनंद ते निकंटक एकलो आनंद, संसारी जोग-
गमां रोगादिकनो जय ठे ते अहिं नहि ते एकांतिक आनंद, आ-
त्मिक आनंदनो अत आवे नहि माटे अत्यंतिकानंद, ए शिवाय
अनंत गुणनो आनंद ठे ते जिन्न गुणना एक समय अनंतानंदने
परमानंद कहीए एम आनंदना अनंत पर्याय स्वस्वरूपे अस्ति जा-
णवा अनंत आनंद एक रूपे अजेद एम सकल स्याद्वाद विधिए
अनंत आनंद जाणी आदरी स्वतंत्र परमानंद जोगी थारुं.

आ वावन पदमां जे जे जाव लख्या ठे ते अन्योअन्य दरेकना
एक एकमां विचारी आत्मजाव आत्मां समावी परजाव परमां
समावी चित्तमां तत्त्व विचाररूपी कसरत करवी तेथी लब्धीवीर्य
प्रगट थशे प्रथम निश्चय समकित निर्मल करी मिथ्यात्व मोहनि-
यना दलने क्षय करी क्षायक समकित पामशे माटे रात दिन वे वे
घडी धन कुटुंब मान अपमान संवधे रोकायलुं चित्त पातुं वाली एक
ठामे स्थिर करी हमेश तत्त्व विचार करवो पुरुपाकार पराक्रम फो-
रवी क्षायक समकितनी सिद्धि करवी पठी धनघातीकर्मनो नाश
सहेजे थशे माटे ऊद्यम करवो ऊद्यम एज लक्ष्मीनुं मूल ठे. आमां
जे जे जावो यथार्थ समजवामां न आवे अगर विशेष न समजाय ते
सद्गुरु समीपे समजी मोहादिकनो जय करवो.

॥ दोहा ॥

वावन जिनघर स्थापीए, देव एक अरिहंत ।

तेम वावन पदथी लहो, शुध्द स्वजाव अनत ॥ १ ॥

बावन जिन घर संघमां, मूल नायक जिम एक ।	
बावन पदथी तिम लहो, परमात्म सुविवेक	॥ २ ॥
सन्निपात असंखनुं, बावन अक्षर मूल ।	
बावन पद विज्ञानघन, सहेजातम अनुकुल	॥ ३ ॥
जे ऊज्ज्वल ऊद्यम करे, पावे सुख जरपुर ।	
शिव संपत्ति ते पामशे, प्रगटी ज्ञान अंकुर	॥ ४ ॥
गांधी दलसुख तत्त्वनो, रुचिधर निर्मल चित्त ।	
कस्तुरां आनंद बहु, जाणी निज पर हित	॥ ५ ॥
ए वेहुना आग्रह थकी, पद बावन अधिकार ।	
बावना चंदन रसथकी, शांती अनंत अपार	॥ ६ ॥
संवत उंगणी वासठे, कृष्ण दशम गुरुवार ।	
वैशाखे दोहद रच्यो, तत्त्व सुधा सुविचार	॥ ७ ॥
मनसुख सुखकर वाणि जिन, सेवो थइ सावधान ।	
आत्म गुण सिद्धि लहो, पामो पद निर्वाण	॥ ८ ॥

॥ श्री रस्तु संपूर्ण ॥



प्रस्तावना.

जिन वचन समय सिद्धांत समुद्र दुर्गम अथाह ठे हूं तनुमती तेनो पार पामी शक्यो नथी पण जे जे वचनो मारी समजमां आत्महितकारी मुख्य पणे जणायां ते प्रवचन जक्तिए प्रेयो कांडक लखवानी उमेद थइ तेथी लख्युं ठे पण सहजानंद सुख अजिलापी जीवोए पूर्वार्चयना महान् ग्रंथोना प्रमाणमां जे वचन होय ते अंगिकार करी शुरु मार्गे वर्त्तवुं.

आ ग्रंथमां परमात्म जावनी शुद्धता आदरवी अने स्वस्वरूप अणजाणतां परसंगे थएली अशुद्धता तजवानो अधिकार ठे.

जे जीव संसार तापथी जयचीत थइ मोक्ष अजिलापी थाय ते आनो अधिकारी ठे.

परम पुरुपना रचेला अनेक ग्रंथो ठे पण वालजीवोने सहेजे समजवा माटे दुंकांमां आ विषय लखेलो ठे.

परम पुरुपोना रचेला ग्रंथोमां सार समजी आ लखाण कर्युं ठे माटे जे जव्य, गुरुगम सहीत धारशे आदरशे ते सहज समाधि पामशे.



॥ श्री ॥

ॐ श्री वीतरागायनमः

॥ आत्मबोध पत्रिका ॥

॥ मालिनी वृत्तम् ॥

अतिशय अति मोटे, सर्व आपत्ति नाशे;
वचन अतिशयेथी, सर्वने अर्थ ज्ञासे;
सकल नरम ज्ञागे, ज्ञान सिद्धि स्वजावे;
पूजनिय पद पामे, पूज्य पूजा प्रजावे.
परम गुरु मुनींन्द्रे, दिव्य वाणी उचारी;
सुणि गणधर देवे, द्वादशांगे प्रसारी;
सकल डुरित हारी, सर्व कल्याणकारी;
कुमति सकल कापी, शांति दे निर्विकारी.

ठप्पय ठंद.

महावीर जिनराज, अनंत चतुष्टय धारी;
नयनिक्षेप प्रमाण, सीय पद युत अविकारी;
शुरू प्ररुप्या अर्थ, ज्ञान संयमना कारण;
स्वचित जेहथी थाय, कर्म अरि अष्ट निवारण;
लाज तेनो लही विनित जन, निज जावे जे थिर रहे;
लहि लब्धि पंच निज शिवपुरे, सादि अनंते सुख लहे.

॥ श्री दोहरा ॥

स्वस्ति श्री आत्म धरम, मृगमद लहो सुवास;
सहज स्वतंत्र समाधियुत, पामो लील विलास. (१)
चिदानंद आनंदधन, शुरूनये निजरूप;
लही शाश्वत सुख अनुभवो, अखय अनंत अनुप. (२)

चतुर चेतना चूकमां, शुद्ध नये निजरूप,
चेतनता विण और सब, ठांनो अन्य विरूप. (३)

करम करम फल तजी रहो, सहज चेतना लीन;
तुरिय अवस्था पामीने, रिद्धि लही निज पीन. (४)

मनथिर करी शुद्धात्ममें, नरजव सफल करत.
शुद्ध सार जिन वचननो, खुरो लहो शिवपंथ. (५)

स्वस्तिश्री मानवपुरी महाशुचस्थाने जीवाजी चेतना चिरंजीव,
योग्यश्री सद्भाव वसतपुरीथी ली. मनसुखलाल, हुं चाहुं तुं के
सकल तीर्थकरोना अपायापगमना अतिशय पसाये ताहारा सकल
विघ्न दूर थाओ. तेओना वचनातिशय पसाये द्वादशांगना जावनी
जाण था. तेओना ज्ञानातिशय पसाये आपणा सकल संशय मटो.
तेओना पूजातिशय पसाये तु पोताना अविचल पूज्यपदने पाम.
तेओनी तारक परिणतिनी कर्णा ताहारा सर्व प्रदेशे अने साते
धातुए परिणमो; ते साथे मारी पण तने एमज आशिप ठे. तु पो-
ताना चैतन्य लक्षणे अस्तिपणाने, नित्यपणाने, शुद्धाशुद्धपणाने, शु-
द्धाशुद्ध जोक्तापणाने, अनंत आनदमय परमपदनी प्राप्तिने,
तथा परमपद प्राप्तिना उपाय संयम ज्ञानने, शुद्ध नये पोते निज
अनुभव ज्ञाने जाण

वली जिनोक्त जीवादि नव पदार्थना जावने चारे निक्षेपे यथार्थ
जाणी सकल विकल्पोना समुद्रने तर आश्रव बंध आदि जयंकर
दु खकारी जावने तजी संवर निर्करादिक अनंत स्वतंत्र आनंददायक
आत्मजावने आढर.

तुं, शुद्ध चेतना सत्ताए सिद्ध समान एक अखरु अवाधित स्व-
तंत्र ठे एम सम्यक् दर्शन निर्मल करी आगळ शिवमार्गं निर्वि-
घ्नपणे चाल

जो के तें उत्पत्ति समये अंगुलना असंख्यातमा जागे अवगाहना करी पुद्गलो ग्रही आहारादिक पर्याप्तिए करी सात धातुपणे पुद्गलो परिणमावी दोलीचूतपणे थइ ममत्व कर्णु. तेज पुद्गलो वधारतां वधारतां अनंतानंत नवा नवा लीधा, अने निहारादिके अनंतानंत ठोड्या. जन्म थया पठी वस्त्र आचरण परिजन घर मित्रादि अनेक परवस्तुनुं ममत्व कर्णु. शाता समाधि विषयादि जोग समये पोताने सुखी मान्यो, अशाता असमाधि जय चिंता वियोगादि समये पोताने दुःखी मान्यो, ते जाणनार तथा माननार वंने वखतमां सर्वकाल अनुगत तुं पोते एकज ठे. एम पूर्व जवे पण अनादि कालथी तुं पोते एकज ठे. अनंतकाल सुधी चैतन्य शक्ति सहित तुं पोते कायम रहीश. कोइ द्रव्य कोइनो संगी नथी, तो आनंदमय निजात्म तत्त्वने जाणी केम ठोडीये ? अहिंआं अनित्यादि बारे जावना विचारी धर्म, बोध पामवो दुर्लज जाणी सदागमनो संग, अने स्वपर विवेक मित्र, अने समकित कामदार, सुकृचि सखी, विमल बोध, निवृत्ति नारी, सुबुद्धि, जववैराग्य, सद्बोध आदि पोताना हेतुओने कोइ समये विसारीश नहीं. तुं पोताना पुरुषत्वने चूकीश नहीं. अन्य जाति शत्रुने जरोसे आपणुं राज्य सोंपीश नहीं, पर पुद्गल द्रव्य शत्रुजंनो विश्वास करीश नहीं. पुद्गल वर्णादिकमां मोहनो वास ठे, अने ज्ञानावरणादि सर्वे कर्म परिणामनो कुटुंब पुद्गल वर्णादिकमां वसे ठे माटे तेमांहे विश्वास करी सुखस्थान जाणी सुखनी आशाए प्रवेश करवो नहीं. ते शत्रुजंनो सपाटामां सपटाया पठी बुटवुं बहुज मुश्केल ठे.

प्रथम देशविरति स्त्रीथी सगपण कर, एटले तेज पोतानी मोटी बेन संयम स्त्रीने मेलवी आपशे. पठी पोतानुं राज्य लेवा द्दमा खड्ग करमां धरी क्रोधने मार. अने अनंत जीवोनो हेमंकर था.

तारा आत्म अंगनुं तथा ज्ञानादि धननुं सदा रखोपुं करजे. माह-

एता जाव प्रकाशी ठए कायनुं ड्रव्य जावे रक्षण करजे, करावजे रक्षण कर्त्ताने अनुमति आपजे.

वली मारदव परिणामे करी, अने विनयरूप वज्रदंडे मानना आठे पर्वतोने तोरु. अने धर्माचार्य तथा अरिहंतादि तथा आत्मगुण सेवता, सेवरावतानो विनय कर, कोइ जीवने पण अवगणीश नहीं एटले तुं अनत सन्मान पात्र थइश.

वली आर्जव रूप असिधाराए मायावेलीने ठेदी मूलथी उखेडी नांख वली तुं सहजानंद कामी थइ परड्रव्य परमाणु मात्रनी कामना मूर्ठीके इच्छा राखीश नहीं तेथी तुं चौद रज्जुप्रमाणे लोच सागरने सहजे तरीश एटले तृष्णा नागणी अने दीनता वींहु तने स्पर्श करी शकशे नहीं, दूरथीज मूर्ठित थइ जशे

तुं पोताना सहज चेतना विलास अव्यावाध जोगने जोगव, एटले तने पचेद्रियना जोगनी इच्छाविना परम तृप्ति रहेशे तुं पंचेद्रियना विषय तथा पंच अव्रत, चार कपाय, मन वचन कायाना जोग-प्रवृत्तिनी चलाचल ठोकी निर्मल चेतनामां उपयोग स्थिर स्थापी अचल अकंप रहेजे. एटले संयम परम पवित्र स्थिर रहेशे सरत राखवी के ताहारा उपयोगने कोण चलावे ठे? जागृत थइ सामे सचेत रहेवार्थी कोई उपयोग चलावी शकशे नहीं जो उपयोग चलवानुं कारण जणाय तो तेने जेदज्ञाननी धाराए तुरत नाश करजे

तुं पोताने पोताना ड्रव्यादिके सत्य स्वरूपने धारी परड्रव्यादि असत्य अने नास्तिरूपमां लक्ष दइश नहीं रागादिक रहित सदा शुरू रहेजे मिथ्यात्वादि अशुरूताना अंश मात्र पण आत्मअंगे लागवा दइश नहीं तुं आकिचन जावे स्थिर रहेजे एटले पुद्गल परमाणु मात्रनो पण आसंगो करीश नहीं अठार हजार शीलाग रथना वहाणमां वेशी शुरू ब्रह्मनु जहाज चलावजे

अठार हजार शीलांगनी विगत—पांच स्थावर, चार त्रस,

अने एक अजीव वर्णादि ए दशने मथवुं नहीं. ते क्वांत्यादि दशधमें गुणतां एकसो थाय, ते चार (आहार, जय, मैथुन, परिग्रह) संज्ञाए गुणतां चारसो थाय, तेने पांच इंद्रियना विषयोए गुणतां वे हजार थाय, तेने त्रण योगना परिणामे गुणतां ठ हजार थाय, तेने करण करावण अनुमोदन ए त्रणे गुणतां अठार हजार थाय. ए अठार हजार शीलांग रथनो चलावनार थजे.

द्रव्य ज्ञावथी स्वपरजीवनुं रक्षण करजे. शुरू उपयोगमां अप्रमत्त ज्ञावे स्थिर रहेवुं एमां ज्ञाव दया तथा द्रव्य दया वली स्वपर दया आदि सर्वे जिनप्रणीत धर्ममां समावेश थाय ठे. अने मोहनिय कर्मनी अष्टावीस प्रकृतिमांनी एकमां पण वर्त्ततां प्रथमतो पोतानाज ज्ञाव प्राणनी हाणी थइ. अने पठी स्वपर द्रव्य ज्ञाव प्राणनी हाणीनी संतती चाले माटे प्रमाद एज हिंसानी जरु ठे अने ज्ञाना-वरणादि प्रकृति, स्थिती, अनुज्ञाग अने प्रदेशबंधनी जरु पण एज ठे. माटे बहु सावचेतीथी परम पुरुषार्थवमे गफलत न राखतां ए जडने मूलथी उखेडी फेंकवी. मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह ए सर्वे हिंसानाज पर्याय जाणवा. स्वपर आत्माने हितकारी शिवाय अन्य कशुं अलिक बोलीश नहीं. चार प्रकारनुं अदत्त तजजे. उदा-रिक वैक्रिय अंगना काम जोगनी मन वचन कायाए अजिलाषा करीश नहीं. बीजाने अजिलाषा करावीश नहीं. अजिलाषीने जला जाणीश नहीं. परिग्रहनी मूर्ठा राखीश नहीं. अठार पाप स्थानने तजजे एटले तने कोइ परिसह आवशे नहीं.

ते अठार पापस्थाननां नाम—प्राणातिपात (१) मृषावाद (२) अदत्तादान (३) मैथुन (४) परिग्रह (५) क्रोध (६) मान (७) माया (८) लोभ (९) राग (१०) द्वेष (११) कलह (१२) जूवुं आल (१३) पैशुन्य (चानी) (१४) रति अरति (१५) पर अपवाद (१६) कपट सहित मृषावाद (१७)

मिथ्यात्व शक्य (१०) ए अठार पापस्थानने मूलथी ठोडजे जगत्मां जे चारे दुःखो तथा जयंकर गतिउं थाय ठे तेनुं कारण अठार पापस्थान शिवाय वीजुं कांइ नथी माटे पापस्थान नहि सेव्युं होयतो, उपसर्ग अथवा परिसह आवशेज क्यांथी ? माटे मूलथी पापस्थानने ठोडी पठी अप्रमत्त गुणस्थान पामी स्थूल कपायनो अंत आणजे. निचे प्रमाणे—

निदा विकथा विषय उन्मादादि ठोकी सावधान थइ अप्रमत्त गज उपर वार जावनारुप अंवाडी स्थापी ज्ञान खड्ग हाथमां लइ वेसजे अने आगल सत्ताचूमि साधवा माटे शत्रुनी फोजने जीतजे तुं अखड, अविनाशी, अजंग अंगवालो तथा अटुट रिद्धिवत ठे, तो तारो शत्रु कोण ठे ? तने कोण हरकत करनार ठे के जेना उपर तु क्रोध करे ? एम क्रोधने जीतजे सर्वे जीव केवलज्ञानादि रिद्धि सत्ता सहित ठे, तो मान कोनाथी ? कोइ तारुं सुख अने धन लइ शके अथवा पारकुं तने मली शके तेम नथी, तो कपट कोनाथी ? एम मायाने जीतजे ताहारा सत्ता चडारमां ज्ञानादि अनंत रत्नो अने ते गुणोना पर्याय रुप अनंत मणि चरेला ठे, तेमां काइ वीजुं समाय तेम नथी, तो निर्जीव पदार्थनो लोच केम करीए ? एम लोच सुजटनो जय करजे कर्मवशे आपणे अनंतवार हांसीने पाम्या तो शो अचंवो ठे ? पारकी हांसी शी घावत करीये ? एम हांसी परिणामने जीतजे अस्थिर पौढगलीक अंग अने परतंत्रमां रति शानी ? एम रतिने जीतजे आपणुं आत्मिकअंग अने धन अखरु अवाधित ठे, तो अरति शानी ? एम अरति जीतजे आपणुं आत्मिक अंग तथा धन अखूट अटुट अजंग ठे तो जय शानो ? एम जयने जीतजे आपणे अनंत काल संसारमां चटक्या तो पण आपणुं सर्वस्व कायम ठे तो शोक शानो ? एम शोकने जीतजे आपणी ज्ञायकतामां शुजा-शुच अनंत ज्ञेय ज्ञासि रह्या ठे तो अमनोइ शब्दादिनी दुगंठा

शेनी ? ते अशुच वर्णादि आत्म अंगने स्पर्शी शकता नथी. आपणे सहजानंद विलास निज अनुभवमाहे ठे तो अन्य स्पर्शादिमां कामना शानी ? कामविकार उदारिकादि शरीरोमां ठे, आत्म अंग सदा काम रहित ठे. एम शुद्ध सत्ता रमण करी आगळ दशमा गुणस्थाने सूक्ष्म लोचना असंख्य खंड खंड करी मोहने हणी संवर से निज अंग प्रदाली पवित्र थइ शुक्लध्यान करजे. पृथक्त्व वितर्क स्वपर विचार, अने एकत्व वितर्क अपर विचार करी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरायनो नाश करी अनंत केवलज्ञान दर्शन अचल-वीर्य जलहल ज्योति जगावी अनंत चतुष्टय जोगी थजे. पठी मारे कंइ कहेवानुं नथी. एम ज्ञान दर्शन चारित्र निराबाध करी निर्मलता अने एकता करवी, एज तीर्थकरोए मोहनो मार्ग कह्यो ठे. पण प्रथम मिथ्यात्व हणवा पूरुं जोर करवुं. अहिंआं मिथ्यात्वनो अंश मात्र टकवा देवो नहीं. सत्ताथी उखेडी फेंकी शुद्ध दायक सम्यक्त करवुं, एटले विरति सहेजे आवशे अने परवानो कर रहेशे नहीं. पठी स्वप्नावाचरणे रमण करी, सत्तामां रहेला हास्यादिने कृपावी, दशमे गुणस्थाने सकल मोहनो दाय करी, यथाख्यात चारित्रे रत्न-त्रयनी एकता करी अनंत चतुष्टय प्रगट करजे. कोइ द्रव्य अन्य द्रव्यनो संगी नथी. माटे पारकी आशा ठोकी दण मात्र पण प्रमाद करीश नहीं.

द्रव्यना गुण पर्याय, क्षेत्र, काल, जाव, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य-त्व, प्रमेयत्व, अगुरुत्वघुत्व, सत्त्व जे जेना होय ते तेनामां समाववा. जन्य जनक अचेदपणे, चेद अचेदमां, अंश अंशीमां, सत्ता सत्ता-वंतमां, परिणाम परिणामीमां, धर्म धर्मीमां, अनित्यता नित्यतामां, ज्ञव्य अज्ञव्यमां, वक्तव्य अवक्तव्यमां, अनेक एकमां, व्यक्ति श-क्तिमां समावी पोताना अस्तित्वमां राखी, परनां पररूपे पोतामां नास्तपणे जाणी द्रव्यना निक्षेपा तथा सप्तजंग धर्म जे जेना ते

तेनामां समावी निज शक्ति व्यक्त करी शुद्ध सिद्ध स्वरूपे पोताने जोजे वली लक्ष लक्षण, ग्राह्य ग्राहक, व्याप्य व्यापक आदि एक समय अने सर्व समय स्वाधिन निर्धारी समाधिमय पोताने जोजे एटले मिथ्यात्वनो अंश मात्र रहेवानो नथी. एम समकीत सफसठ गुण सहित निर्मल थशे वली १ अनित्य २ अशरण ३ संसार ४ एकत्व ५ अन्यत्व ६ अशुचि ७ आश्रव ८ संवर ९ निर्जरा १० लोकस्वभाव ११ दुर्लभबोध १२ धर्म ए वार जावना विगते जाववी तथा कर्षणा, मैत्रिय, प्रमोद, अने माध्यस्थ ए चार जावनाउं पण जाववार्थी सदाए कर्म बंधथी वचीश वली साधुनी पांच जावनाउं जाववार्थी उतावले कर्म निर्जरा थशे-

मुनीनी पांच जावनाउंनां नाम-श्रुत (१) तप (२) सत्व (३) एकता (४) स्वतत्व (५) एटले मार्ग सुगम थशे एटले आनंदपुरीमां ठेठ पहोचारुनारी उदासिन्नतारूप सीधी सफक पामीश आगल कोशने पण मार्ग पूठवो पडशे नहीं माटे धैर्य ठोमवुं नहीं.

औदयिकादि पांच जावने जाणी, क्षयउपशम जावे ज्ञान अने वीर्यलब्धि तने प्रगट ठे ते बडे क्षायक जाव करी शुद्ध परिणामीक जावे सदा अचल रहेजे.

ते पांच जावना उत्तर जेद त्रेपन तेनी वीगत-

औदयिक जावना एकवीश जेद-गतिचार, कपायचार, लिंग-त्रण, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व अने लेश्या ठ, एम एकवीश थाय

औपशमिक जावना वे जेद-मिथ्यात्वनो उपशम (उपशम समकीत) कपायनो उपशम (उपशम चारित्र.)

क्षयोपशमीक जावना अठार जेद-मति, श्रुति, अवधि, मन-

पर्यव, मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान, विजंगज्ञान, चक्षुदर्शन, अचक्षु-
दर्शन, अधिदर्शन, दान, लाज, जोग, उपजोग, वीर्य, वेदक
समकीत, (द्वयोपशम समकीत) सराग चारित्र, देशविरति, ए
अठारनो द्वय उपशम थाय ठे.

द्वायकना नव जेद-द्वायक समकीत, ज्ञान, चारित्र, दर्शन,
दान, लाज, जोग, उपजोग, वीर्य.

परिणामिकना त्रण जेद-जीव परिणामीकता, ज्ञव्य परिणा-
मीकता, अज्ञव्य परिणामीकता.

विषयो अने परिसहो आदिथी चलवुं नहीं. ताहारा अखंड
अंगने अने धनने कोइ लेवा, हलाववा, चलाववा समर्थ नथी.
पण पोते चूकवुं नहीं संवेग राखवार्थी पूर्व कर्मना वेगनो वहेदो
अंत आवशे. जव वैराग्य जव ज्रमणने मटाडशे; तुं जे अनंत जंतुं
पर कर्ण करीश ते सर्वे कर्ण ताहारा उपर थशे. तत्त्व दातारनां
वचन बहु सन्मान अने विनयथी धारवां. ज्ञव्य गुण पर्यायना विचा-
रथी मत धारीजना फंदोने तुं तोडी शकीश. तुं अनंता संयोगमां
पोते ज्ञानमय अखंड एक शुद्ध ठे. एम एकतानी टेक राखजे. मत-
धारीज देवादिकनी ऋद्धिज लब्धिजनी लालच बतावे ते लालचमां
आपणे पडवानी जरूर नथी, मात्र आत्मा पोतानुं अखंड आनंद-
मय आत्म तत्त्व पामे एटलुंज बस ठे. तो पण माहारा तरफथी
एटलुंज कहेवानुं के बत्रीश दोष रहित अने अनंत ज्ञाने जरेलां परम
दया वरसावता अरिहंतनां वचनने चूकीश नहीं. हे मित्र ! तुं सकल
जीवनो हेमंकर था, के तने संसारमां पण अशाता थवानो संजव
रहेशे नहीं. माटे हिंसा, मृषा, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रहने वशे
आपणे स्वपर आत्माने अहितकारी थवुं नहीं.

चेतनानी चार दशा कही ठे-महाशयन (१) शयन (२)

जागृत (३) अने तुरिय (४) ए चारमां ताहारे मिथ्यात्व अवस्थामां अनादिनी महाशयन दशा हती ते तो गइ. पण जागतां आलसुनी पेठे पनी रहेवा जेवी शयन दशा ठे, तेने ठोमी प्रमाद तजी अप्रमत्त जावे सचेत था. जागृत दशा पामी मोह शत्रुने हणवा सावधान था. ताहारी सत्ताजूमिमां तो तेनुं जोर नथी. आपणे तेना वर्णादिक अनेक पर्यायमांथी कोइ पण पर्यायमां सुख जाणी कार्य मानी तेमांहि चित्त प्रवेश करी व्यापीए तो त्यां सपत्नाई जइए पठी तुटवुं मुठकेल पडे, जेम कोव्हु यंत्रमां (शेलमी पीलवाना यंत्रमां) आंगली आव्या पठी आखा अंगनो नाश थवानो संजत्र रहे ठे माटे मोहना नानामां नाना जावमां पण सुखनी आशाए चूकवुं नहीं. मोह वहु रूपे आपणने ठगे ठे माटे घणा जीवोनी तथा आपणी पूर्वनी अवस्था जोइ सावचेत रहेवु ते अष्टावीश प्रकृती रूपे—सुख दुःख आलस, विकथा, लोकलाज, ऋद्धि, सिद्धि मंत्र, यत्र, कला, चतुराइ, हसवा, रोवा रूप हाव जावना चाळा जणावी आपणने चूकावे ठे माटे कर्मचेतना, कर्मफलचेतनारूपे न थतां निज ज्ञानचेतना रूपे अकप रहेजे. आत्मा आत्मअधिकारमां रहे तेने अध्यात्म कहीए माटे शुद्धात्म अधिकार संचाली आपणो अधिकार चूकीश नहीं शुद्ध परमात्मजावमांहे मन्न रहेजे—

हे नव्य! तु ए जड पदार्थथी नूली चेतन मित्रसाथे विकृद्ध थइश नहीं हे आर्य! तुं पोताना विवेक पुत्रने डुर राखीश नहीं ते तने विलकूल ठगावा देशे नहीं हे वंधु! तुं अध्यात्म साधकोनो संग ठोमीश नहीं.

कुटुब, मित्र आदि वदुरूपे मोह नदुवो ठे. कोइ रीते पण पोताना पासमां खइ विकराल जवअटवीमां नचावी वहु विपत्ति पमाडवा चाहे ठे.

सर्वे लोक मोह वशे स्वार्थी ठे. अनर्थ ने अर्थ मानी आपणने हितकारी पण जणाय; तोपण हे सुझ! तुंज तारा आत्माना हितमां प्रमाद करीश नहीं. हुं पण मारो स्वार्थ चाहुं तुं पण तुं आत्म हित चूकीश नहीं, ज्ञानी, ध्यानी, केवलीने सिद्धनी सजामां तुं अनंतानंद विलासी थजे.

तुं सम्यक्तना समसठ बोल विचारी समकीतनी बहु द्रढता करजे. ते समसठ बोलनी विगत-चार सदहणा, त्रण लिंग, दशनो विनय, त्रण शुद्धि, पांच दूषण, आठ प्रज्ञावक, पांच जूषण, पांच लक्षण, ठ यतना, ठ आगार, ठ ज्ञावना, ठ स्थानक, एम सर्व मली समसठ बोल थाय.

सदहणा चार-जीवादि नवतत्त्वरूप पदार्थना परमार्थनी यथार्थ श्रद्धा. (१) शुद्धात्म स्वरूपमां रमण करतो अने शुद्धात्मस्वरूप दर्शावनार एवा गुणे मुनिने ऊबेरीनी पेठे परखी आदरवो. (२) पासथ्या, कुशिलिया विगेरे जेषधारी आणा रहितनो संग कदापी न करवो. (३) अन्य दर्शनीनो संग तजवो. (४)

लिंग त्रण-श्रुत सांजलवानो, संजलाववानो अने धारवा विचारवानो अजिलाष. (१) शुद्धात्मधर्म अनुभववानो अजिलाष. (२) आलस रहीत धर्मदातानो विनय करवानो अजिलाष. (३)

दशनो विनय-अरिहंत, सिद्ध, जिनप्रतिमा, श्रुतसदागम, द्वांत्यादि दश धर्म, द्वांत्यादिक दश धर्म धारी मुनिठनो, धर्माचार्य, उपाध्याय (सुत्र जणावनार), जिन आणामां वर्तता चतुर्विध संघनो, सम्यक्त. ए दशनो पांच प्रकारे विनय करवो. बहु विधि बाह्य जक्ति (१) रुदय प्रेमथी बहु सन्मान (२) ठता गुणनी स्तुति (३) अवगुण न बोलवा (४) आशातना वर्जवी (५) अर्थात् तेमना मन तथा तनने जे अप्रशस्त होय तेने तजी प्रशस्तने आदरवुं-वर्तवुं.

त्राण शुद्धि—जिनेश्वरनां वचन एज आत्माने हितकारी ठे अन्यनां वचन हितकारी नयी. एम मनमां विचारवुं (१) जिन आणा प्रमाणेज वचन बोलवुं ते वचन शुद्धि (२) जिन आणा प्रमाणे काया प्रवर्त्ताववी

पांच दूषण—सकल दोष रहित, अनंत ज्ञान सहीत, जेने राजा तथा रंक समान ठे, तेनुं वचन जूवुं न होय, पण पोतानी मंद बुद्धिथी तेमां जे शंका आवे ते नय ज्ञानीने पूठी शंका रहित थवुं (१) कुमतिनी इच्छा न करवी (२) जिनेश्वरनां एक पण वचनमां तथा कोशपण धर्म कार्यमां कोइ प्रकारे अप्रीति दुगंठा न करवी (३) कुदेवादिकना गुण वर्णन नही करवा (४) अने मिथ्यामतिनो परिचय न करवो. (५).

आठ प्रज्ञावक.—वर्त्तमान सुत्रना अर्थनुं पारगामीपणुं (१) नंदिपेणनी पेरे तत्व उपदेशकपणुं (२) कुवादीउने निरुत्तर करवापणुं (३) शासन रखोपा अर्थे निमित्त ज्ञान (४) शुद्धात्म स्वभावमा नृसिबंत रहेतां इंद्रियोना विषयादिकने न इच्छवुं (५) शासन रक्षणार्थे विद्यावल (६) शासन उत्कर्षता माटे सिद्धि (७) काव्य सुधारसे जीवोने धर्म रसीया करवा (८).

पांच ज्ञापण—गुरू वंदनादिकमां कुशल पणुं (१) शुद्धोपयोग तथा शुद्धोपयोग दातारने सेववुं एम तीर्थ सेवना (२) शुद्ध देव गुरूनी चक्ति (३) जेद ज्ञानना बल बने कोइना चलावेला न चलवु (४) जिन वचननी अनुमोदना (५)

पांच लक्षण—मिथ्यात्व रागादिकनो उपगम (१) शुचाशुचमां समजाव (२) इंद्रिय विषयने बहु दुःखनु कारण जाणी तेथी विरक्त रहेवुं (३) ठकायना प्राणी उपर इव्य जावथी थनु-

कंपा (४) नवे तरवना जाव सिद्धांतमां प्रकृत्या ठे ते उपर
आस्तिक्यता (५)

ठ यतना-परतीर्थींठ तथा परदेवो वरुे ग्रहायेला चैत्यादिकमां
वंदन करवुं नहीं. एटले हाथ न जोरवा (१) मस्तकादिक अंग
नहीं नमाववां. (२) तेना निमित्ते कदी कंइ आपवुं नही (३)
कुपात्रने पात्र बुद्धिए वारंवार न आपवुं. (४) पासत्यादिक साथे
विना बोलावे एकवार पण न बोलवुं (५) तेठए बोलाव्या ठतां
वारंवार न बोलवुं (६)

ठ आगार-ठ कारणे हुट-राजाने वशे कंइ अनाचार करवो
पडे ते (१) घणा लोकोने वशे कंइ करवुं पडे ते (२) व्यंतरादिक
देवोना वशे कंइ करवुं पडे ते (३) माता पिता गुरुना कारणथी
कंइ करवुं पडे ते (४) दुर्लज आजीविकार्थे कंइ करवुं पडे ते (५)
बलवंतना बलात्कारे कंइ करवुं पडे ते (६) ए ठ वावतमां शुद्धात्म
धर्मथी न चलतां बाह्य क्रिया प्रवृत्ति माटे आगार ठे.

ठ जावना-आ प्रमाणे जाववी-श्रेष्ठ अने रसवाला समकीत रूप
मूल विना चारित्र वृद्ध शिव फल आपतुं नथी (१) समकीतए धर्म-
पुरीनुं बारणुं ठे ते विना स्वजाव धर्मरूपी नगरीमां प्रवेश थतो नथी
(२) समकीत ए मोक्ष महेलनो द्रढ पायो ठे माटे समकीत रूप
पायो द्रढ होय तो धर्मरूपी महेल रुगे नहीं. (३) समकीत ए
मूल गुण तथा उत्तर गुण रूप रत्नोने राखवानो अटुट जंमार ठे.
ते विना ते रत्नो हुटां रहे नहीं, ए जंजार द्रढ होय तो
मिथ्यात्वादि चोरोनुं जोर चाले नहीं. (४) सर्वे शुद्ध गुणोने आधार
समकीत ठे. सम्यक्तना आधारे समजाव रहे अने दम एटले इंद्रिय
विषयथी पण निवृत्ति रहे एटले पृथ्वी जेम सर्वे वस्तुने रहेवानो
आधार ठे तेम समकीत उत्तम गुणोने राखवाने माटे परम आधार

ठे (५) समकीत ए श्रुतज्ञाननो अमृत समान रस अने शुद्धात्म स्वभावनो अनुभव रूप रस जरी राखवानुं जाजन ठे (६).

ठ स्थानक—समकीत डढ रहेवानां ठ स्थानको—ज्ञान दर्शन उपयोगवंत चेतना ठतो ठे, ते कर्मवशे शुद्धशुद्ध रूप थाय ठे पण चेतनत्व पणे सदा ठतो ठे एवी डढ प्रतीत पुद्गलसाथे क्षीर नीर पेरे मिश्रित थयो ठे तो पण पोते पोताना व्याप्य व्यापक अज्ञेदपणे अनेक परवस्तुथी न्यारो अनुभवमां आवे ठे (१) सर्वे डव्य त्रिकाले पोताना उत्पाद् व्यय ध्रुवपणे परिणमी रह्या ठे माटे पोते नित्य ठे, बालकने स्तन पानादिक बहु विधि संज्ञा (वासना) पूर्व जव अनुभव अनुसारे ठे माटे आत्मा नित्य ठे. (२) पुद्गलमांहे अहंपणारूप मिथ्याज्ञावथी कर्म वशे पुद्गल परिणामनो कर्ता ठे. जेम कुजार दंडादि संयोग वडे घटादिनो कर्ता ठे तेम चेतना पोते मिथ्यात्व, अव्रत, योग, कपाय अने प्रमाद वडे कर्म परिणामनो कर्ता ठे निश्चय नये तो चेतना पर कारण विना पोताना शुद्ध स्वभावनोज कर्ता ठे (३) व्यवहार नये पुण्य पापनो जोक्ता ठे अने शुद्ध निश्चय डष्टे पोतानी शुद्ध सत्तानो जोगी ठे (४) निर्वाण पद चेतना पामी शके ठे, शरीर अने मनना अहंपणा वडे याधिब्याधि उपजे ठे, ते शरीरादिता अने मनना ममत्वना अजावे शुद्ध परम पदज्ञी, अबाधित अनंत सुखनी प्राप्ति थाय ठे. (५) मोक्ष साधवा माटे खट्कायना डव्य जाव प्राणने उलखी तेनुं रखोपुं करवुं, तेने न हणवुं एटखे ज्ञान अने संयम एज मोक्षनो उपाय ठे. (६)

ए प्रमाणे समकीत डढ करजे के कदी पडवुं पडे नहीं. क्यारे हुं ताहारा निर्मल ज्ञानने जोइ निवृत्तिमां रहुं !

ज्ञान, दर्शन, चारित्र आराधताने तुं कारण थजे, अचल अक्षय वीर्यवंत थजे, कोश्वते हर्ष शोक करीश नहीं, समजाव तने सहाय

थजो, तुं परम शील परम शांतिमां अक्षय अविकारी रहेजे, संसार जमतां अनेक जीवोथी आपणे विकरुद्ध करी कये न्याये सुखी थश्ये, माटे हवे पंच महाव्रत अने पंच समिति, व्रण गुप्तिए करी खट्कायनुं रखोपुं करी स्वपर जीवथी अविरुद्ध रही शाश्वत सुख वरजे.

जो के खट्काय रखोपुं महा डुष्कर ठे तो पण आत्म उपयोग आत्म जावमां रीऊ करी स्थिर थापी रहीये तो सहेजे खट्कायथी अविरुद्धता बनी रहे. मन वचन कायानुं ममत्व अने क्रिया तजी परमात्म जावमां स्थिरता करवानो अनुभव अन्यास करजे एटले सहेजे संसार समुद्र तरीश, बली जव्य जीवोने तारीश.

॥ दोहरो ॥

सवि पर ड्रव्य ममत तजी, तजी त्रय योग विलास

ज्ञानी ज्ञानानंदमां, करजे थीर अन्यास (१)

रिद्धि सिद्धि वरजे सदा, लही आत्म अधिकार

सार सकल सहेजे लही, तार तार निज तार (२)

सर्वे वातनो सार एके पोतानी सत्ताजूमिमां अचल, अडग, थीर थइ अनंत अणिवालुं जलहलतुं ज्ञान खडूग मोहना मर्मस्थानमां दाव राखी मारजे. तेथी मोह शत्रु तरत अनंत खंमोखंड थइ नाश पामशे. तेनी मूढता नामे स्त्री टलवलती शुक्लध्यान अग्निमांहे प्रलय पामशे. पठी तुं जलहल ज्ञान उद्योतमां पोताना अनंत गुण पर्यायने देखतो, जाणतो, परम रम्य स्वरूपमां रमण करी स्वजावाचरणी थइ परम अचल वीर्य अव्याबाध अनंतसुखी अनअवगाहनावंत अगुरुलघुविलासी आनंदपुरीमां सदा आनंदमां रहेजे.

॥ दोहा ॥

शुक्ल ध्यान केसर लही, पुजो परमात्म अंग;
 निज गुण मृगमद महमहे, विलसे रंग अचंग (१)
 आत्म पुद्गल दोहदे, लखियो पत्र उदार,
 वांची अर्थ हृदय धरे, पामे सौख्य अपार (२)
 शशि रस जक्ति चंद्रमा, वरसे श्रावण मास,
 कृष्ण पद्म अग्यारसे, कीधो पत्र विलास (३)
 वांची निर्मल हृदयमां, धरजे तत्त्व प्रकाश;
 पूर्णानंद समाधिमां, करजे अविचल वास (४)

संपूर्ण.



॥ श्री गौतमाय नमः ॥

अथ श्री शुद्धोपयोग प्रवेशिका ग्रंथ प्रारभ्यते

॥ दोहरा ॥

ज्ञानानंदी शिव सदा, तीर्थपति जिन पास ।

तास श्रुति प्रणमी कहुं, निर्मल बोध विदास ॥

ज्ञाषा—सम्यक् ज्ञान एज संपूर्ण सुखनुं कारण ठे ते जाव मिथ्यात्वना नाशथी प्रगट थाय ठे, माटे सुखना अर्थी जीवोए (मुक्ति अजिद्वेषी जीवोए) ते सम्यक् ज्ञान तथा जाव मिथ्यात्वनुं स्वरूप जाणवु जोइए, ते जाणवा माटे अनुभव ज्ञाने सिद्ध थएली विना इहां लखुं तुं

सुख ए गी वस्तु ठे ? आपणे कोण ठीए ? सुख आपणायी जिन ठे के अजिन ठे ? ते केवी रीते पमाय ? अथवा केम नथी पामी शकता ?

तेनो उत्तर—श्री जिन सिद्धांतमां कहुं ठे के “वत्यु सद्भावो धम्मो” आत्म वस्तुनो स्वजाव तेज धर्म अने तेज सुख, निर्मल स्फटिक मणि समान चैतन्य स्वजाव मन वचन कायानी निवृत्तिथी स्वतंत्र प्रगट करवो तेज धर्म; तथा निवृत्तिरूप निर्मल शुद्ध स्वतंत्र स्वजाव तेज सुख. अने मन वचन कायानी प्रवृत्ति तेज छु ल ठे. निर्मल स्फटिक मणि समान आत्मानो शुद्ध स्वजाव ठे, ते अनादि देहादिकना ममत्वादि कर्म परिणामे करी अवरणो (रोकणो) ठे. ते कर्मना वे जेद (१) इव्यकर्म (२) जावकर्म इव्यकर्म ज्ञानावरणादि आठ प्रकारे ठे, अने जावकर्म ते रागादि आत्मानी अशुद्ध परिणति इव्यकर्म अने जावकर्मनु मूल कारण जाव मिथ्यात्व ठे,

अने जाव मिथ्यात्वथी विपर्यास वासना थाय ठे. तेज विपर्यास वासनार्थी परम परमेष्टी एवो जे आत्मा ते अनंत संसार त्रमण करी त्रयंकर जन्म, जरा, मरण, ताडन, तर्जन, रोग, वियोगादि अनंत विकारने जोगवतो दीन-अनाथ थइ जिहां तिहां गति, योनि, प्राण, पर्याप्ति करी त्रटके ठे. ते जोइ करुणाना समुद्र शुद्धात्म अनुत्तवी पोताना दिवनी अंदर करुणानी लहेरमां परम मित्रताए विचारे ठे, के अहो ! आश्चर्य ठे के अनंत ज्ञान, दर्शन, तथा अनंत सुखनो धणी एवो आत्मा आ त्रयंकर संसारमां अजाण दीन थइ त्रटके ठे, माटे तेनुं शुद्ध स्वरूप जणावीए, अनुत्तवमां अणावीए, तो दुःख अने अज्ञान लेश मात्र रहेवा पामे नहि; तेथी निचे प्रमाणे उपदेश करे ठे.

हे त्रव्य ! तुं पोताना स्वरूपने जाण, तुं पोते शुद्धात्मा ठे. सत्ताए सिद्ध समान, अनंत ज्ञानमयी, अनंत दर्शनमयी, अचपल, बाधा पीमा रहित, अक्षय, अजर, अमर, निःकलंकी, अप्रयासी, एक, नित्य, अव्यय, अक्रिय, परनो अकर्ता, परनो अत्रोक्ता, स्वज्ञाव जोगी, उपजोगी, स्वदानी, स्वलात्री, अनंत चेतना वीर्यमयी, इत्यादि अनंत विशेषण युक्त निश्चय नये एक शुद्ध अजिन्न रूप ठे, तेने अणजाणतो विपर्यास वासना वके त्रवत्रमण करी क्रोधादि अनंत कषाय, कामादि अनेक विषयोवडे तस (आक्रांत) थई महा आक्रंद करे ठे, ते दुःखनी निवृत्ति माटे आस केवलज्ञानी रागादिकने जीतेला अरिहंत त्रगवंते धर्म देशना दीधी. तेमां मुक्तिने माटे असंख्य योग कह्या, तेमां अनुत्तव योग ते मुख्य ठे. तप, तीर्थ, व्रत, संयम, पूजा, प्रजावना, सर्वे योग आत्मअनुत्तव माटे ठे. तेथी कारण तथा कार्यना स्वरूपने जाण्या विना सर्वे निष्फल ठे. ए माटे परमेश्वरे उपदेश दीधो के हे त्रव्य ! तुं शुद्ध निश्चय नये आत्म स्वरूपने जाण अने तेज शुद्ध नये पोताना स्वरूपमां स्थिर थई

रमण कर, जो तुं अंतरमुहूर्त्त पण समयांतर रहित रमण करीश तो अनत कर्मनी निर्करा धशे, अने तुरत परमानंदमय (समाधिमय) मुक्तिपदने पामीश. एटले ज्यांसुधी शुद्ध नये पोताना स्वरुपने पोतापणे जाण्युं नथी त्यांसुधी परने पोतापणे मानी परमां मुंजायो तेथी ज्ञानावरणादि आठ कर्मनो बंध कयों तेमां मुख्यपणे मोहनीय कर्मनी अष्टावीस प्रकृति बांधी, ते दरेक प्रकृतिउना लोकाकाशना प्रदेश प्रमाणे असंख्याता अध्यवसाय ठे, ते एक एक अध्यवसायमां मन, वचन, कायाना योग प्रवर्त्या ते सर्वे असंयम स्थान ठे तेथी ते योगोनी प्रवृत्तिमां निवृत्ति रूप शुद्ध स्वतंत्र चैतन्य स्वभाव, चैतन्य वीर्य, अव्याबाधपणाने न जाणतो न पामतो दुःखी रह्यो, एटले सुख न पाम्यो. अने शुद्ध नये जोतां पोतेज परमात्मा ठे शुद्ध निश्चय नय एटले अनंत धर्मात्मक वस्तुने जेम ठे तेम यथार्थ जाणवुं ते शुद्ध निश्चय नय कहीए

जेम चार माणसो सोनाना स्वरुपने अणजाणता तेउने सोनाना स्वरुपना जाण पुरुषे एक सोनानुं करु लावीने बताव्युं अने कहुं के आ सोनुं ठे ते कराने ते चारे माणसोए जोयुं, तेमांथी एक जणे पीलाशने सोनुं जाण्युं, वीजाए वजनने सोनुं जाण्युं, त्रीजाए गोलाकारने सोनुं जाण्युं, चोथाए नरमाशने सोनुं जाण्यु, हवे ए चारे जणाए सोनाना स्वरुपने यथार्थ उंलरयुं नथी. केमके ते दरेक जणे सोनाना एक एक धर्मने स्वतंत्रपणे सोनुं मान्यु, तेने अशुद्ध व्यवहार नयथी सोनुं उंलर्युं कहीए. ज्यांसुधी सोनामां रहेला अनेक गुणोमांथी एक गुणने तथा अनंत पर्यायमांथी एक पर्यायने (एक कार्यने) पण न जाण्युं होय त्यांसुधी शुद्ध निश्चय नये सोनुं जाण्यु नथी ए प्रमाणे व्यवहार द्रष्टि जीवो धर्म व्यवहार तथा अध्यात्मना शास्त्रो बांची आत्माना अने पर पुद्गलादिना गुण पर्याय संपूर्ण जाण्या विना अरूपीआत्मा, ज्ञानमयआत्मा, अवंधआत्मा,

कषायआत्मा, योगआत्मा, अनित्यआत्मा ए आदि अनेक विशेषणो मांहेला एकज विशेषण अथवा केटलाक विशेषणोने वांची, सांचली एकां-
ते कुनयनी वासनामां पडेते, पण ज्यांसुधी संपूर्ण पर्याय जाण्या नथी
त्यांसुधी शुद्ध निश्चय नये ज्ञान कहेवाय नहि. पण जेम जेम वस्तुना
विशेष गुण पर्यायने जाणतो जाय तेम तेम शुद्ध नय सन्मुख थाय,
शुद्धताना अंश वधे, संपूर्ण पर्यायनुं प्रत्यक्षपणे ज्ञान तो केवलीने होय.
अने समकित्तीने परोक्षपणे श्रद्धागोचर पूर्ण पर्यायनुं ज्ञान होय.
स्याद्वाद-एटले स्यात्अस्ति, स्यान्नास्ति, स्यात्एक, स्यात्अनेक,
स्याद्अव्य, स्याद्अज्ञव्य, स्यात्नित्य, स्यात्अनित्य, ए आठ
पक्ष अने सप्तजंगी, नय, निक्षेप, प्रमाण, कारक आदि बहुविधिए
वस्तुनुं स्वरूप जाणवार्थी वस्तुनो यथार्थ बोध थाय ठे. यथार्थ बोध
थवार्थी आचरण पण यथार्थ थाय ठे. अने यथार्थ आचरण थवार्थी
दायक चारित्र (परमस्थिरता) तथा परम समाधि, केवलज्ञान,
केवलदर्शन, परमानंद परमनिवृत्तिरूप अप्रतिपाती गुण प्रगटे ठे. ते
अनंतकालसुधी एक रस आनंदनो जोगी थइ रहेते, तेने सर्व
दुःखधी मुक्त थएलो कहीए. ते स्याद्वाद आदिनुं स्वरूप आगल
लखीशुं पण अहिंशां मुक्तिमाटे असंख्य योग कह्या ठे ते आत्म
अनुभव साये मेलवीने सुगम रीते बालजीवोने समज पने एवी
रीते कहुं.

हवे आपणा आत्माने सिद्ध समान जाणीए त्यारे शरीरमांहे
थता विकारो आपणने नरुता नथी, केमके जेनो जे स्वज्ञाव होय
तेनो तेज रहे. वस्तु स्वज्ञाव कोइ काळे सर्वथा पळटे नहि पण पर्या-
यथी दर समये कथंचित् रीते पळटे ठे. जेम समुद्र पवनयोगे अनेक
तरंगोने करेते, ते तरंगो जूदे जूदे रूपे जणाय ठे, पण जल रूपे एक-
रस एकाकार ठे. तेम आत्मा पर्याय धर्मे अनंत रूप ठे. पण वस्तु
धर्मे चैतन्यमय एकरस एकाकार ठे. जेम अग्नि, ज्वाळा, अंगास,

मम्मुरा, विजली विगरे परसंबंधे अनेक रूप ठे पण वस्तुधर्मे, दाहक धर्मे, एक रूप एकाकार ठे. तेम आत्म स्वरूप शुद्ध नये निर्मल ज्ञानरूप ठे. शरीर संबंधे बहिरात्मा, अंतर आत्मा, परमात्मा, एवा त्रण जेद पकेठे. बली कर्मचेतना, कर्मफलचेतना अने ज्ञानचेतना, पण चेतनारूपे चेतना अजेद एकाकार रूप ठे तेज चेतनानी चैतन्यता के जे अग्निथी बले नहि, शस्त्रथी ठेदाय नहि, पाणीथी जेदाय नहि (गले नहि) वायुथी सूकाय नहि, (स्पर्शाय नहि) पृथ्वीथी दवाय नहि, हथियारथी पककाय नहि, हणाय नहि, कोइ चीजथी मली एकमेक थाय नहि, पोताथी परनी क्रिया थती नथी, पोताना प्रदेशमांथी एक प्रदेश पण घटे नहि, घसाय नहि, ए मांहे परनो एक प्रदेश पण आवे नहि, पोताना गुणोमांथी एक गुण के एक पर्याय पण घटे नहि, परगुण पर्यायमांथी एक पण पोता अंदर आवे नहि, सकल प्रमेय प्रमाणे सत्ता अखंरु अबाधित रहे.

पोते अन्य वस्तुनो कर्ता नथी, अन्य कोइए एने कर्यो नथी अने अन्य वस्तुथी उपजेखो नथी. पोतानो स्वभाव जाण्या. पठी पोते स्वतंत्र ठे. पोताना स्वरूप अज्ञानथी परतंत्र ठे ए मांटे ज्ञान दशामां पोताने सुखनो कर्ता, तथा अज्ञान दशामां पोताने दुःखनो करनारो पोतेज ठे. ज्ञानने अशुद्धता लागवाथी एटले कर्म प्रकृतिनो संसर्ग थवाथी. अज्ञान कहेवाय, पण ज्ञान ते ज्ञान रूपज ठे पर ते पररूपज ठे जेमे सुवर्ण मांहे त्रांबु, रूपुं, मलवाथी सोनुं अशुद्ध कहेवाय, पण सोनुं पोताना रूपथी टव्युं नथी अशुद्धता मली तेने यथार्थ क्रियाएं शोधीए एटले सुवर्ण शुद्ध निजरूपे प्रगट थाय.

मुक्तिनो एकज मार्ग ठे, धर्म एकज ठे, ते शुद्धोपयोगनेज कहीए ए शुद्धोपयोगना निमित्तचूत अनेक कारणो ठे, पण शुद्धोपयोग रूप कार्य एकज ठे.

जेम परमेश्वरे कहुं के तप करो. ते तप शुं ठे के पुद्गलना शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्शने जोगववानी इष्टा नहि अने ज्ञानादिक आत्म स्वभावमां तृप्ति तेनुं नाम तप ठे. पण शुद्ध नये आत्म स्वरूप जाण्याविना कोइ एम जाणे के हुं चारे तप करुं, पण स्वरूप जाण्याविना शब्दादिक विषयो मांहेथी चित्तनी निवृत्ति केम थाय ? अने शुद्धोपयोग तो आत्म स्वरूपमांहे स्थिरता चावे रमण करवाथी थाय. माटे जे स्वरूपने जाणे ठे तेने शब्दादिक विषयो जोगववानी इष्टा थती नथी, त्यारे दीनता तो शेनीज होय ? एटले सकल विषयो अने मोहनीय कर्मनी अछावीशे प्रकृतिनी प्रवृत्तिथी तथा ज्ञानावरणादिक आवरणोनी प्रवृत्तिथी निवर्त्या मन, वचन, कायाना योग ते परम निवृत्ति रूप सुख ठे. अने धर्म पण तेज ठे. तेज आत्माथी अज्ञेद अबाधित चेतन वीर्यनो अखंरु जोग आनंद मात्र रह्यो. निज स्वरूप जाण्याविना विपर्यास वासना वरुं जे शरीर रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य ए सात धातु तथा सात मल अने अनेक रोगोनुं स्थानक ठे, तेने ए हुं बुं, ए मारुं ठे, ए मने, ए मारामां, ए मारा माटे, ए माराथी, एम करवुं ए मारुं काम ठे, ए हुं करीश, आ दुधा, पीपासा, काम, क्रोध, मरण, जन्म, सडण परुण आदि मने ठे एम जाणी ते मटारुवाने, जोगववाने, अनेक प्रयत्न, प्रयास, मनोरथ, जय, शोकादि करी महा विक्राल निविडकर्म बांधी जव समुद्रमां जटकी न कही शकाय एवी वेदना सहे ठे. पण ज्यारे पोताना स्वरूपने शुद्ध नये जाणे, अनुभव करे, त्यारे शब्दादिक विषयोने जोगववानी इष्टा रहेती नथी, तेनेज तप कहीए. बाह्य तप ते शुद्धोपयोगने माटे ठे, ए शुद्धोपयोगने अणजाणतां तप ते क्लेशरूप ठे.

हवे परमेश्वरनी पूजा ते शुं ठे ? परमेश्वरनी आज्ञा अंतरंग बहुमाने पूजवी एटले अंगीकार करवी, आज्ञाए वर्त्तवुं तेज पूजा ठे. परमेश्वरनी आज्ञा शुद्ध नये निज स्वभाव आनंदमां तृप्त थइ स्थिर

रहो एवी ठे. तो शुद्ध नये पोताना आत्म स्वरूपने जाण्याविना
 शामां तृप्त, अने मग्न रद्देवाय? जेम कष्टं ठे के “पढमं नाणं तर्ज
 दया” अर्थ—द्रव्यथी सकल संसारी जीवना स्वरूपने जाणीने तेना
 प्राणनुं रखोपुं करवुं, नानामां नाना जीवने पण दुःखववो नहि, य-
 ल्नाए वर्त्तवुं, त्रिकरण योगे रखोपुं करवुं, बीजा पासे पण रखोपुं करा-
 ववुं, अने रखोपुं एटले यत्नाए वर्त्तनारने जलो जाणवो, अने पोते
 पण मनथी, वचनथी, कायाथी ठ कायना प्राणने हणवा नहि, हणा-
 ववा नहि, अने हणता प्रत्ये अनुमोदवुं नहि, ते द्रव्य दया अने
 आत्माना जाव धर्म जाणी संकल्प विकल्पे करी अथवा क्रोधा-
 दिके करी आत्माना ज्ञानादिक अने हांत्यादिक गुणोने हणवा नहि,
 निर्विकल्प उपयोगे स्वपर आत्माना ज्ञानादिक गुणोने स्थिर राखवा,
 एटले हणवा नहि एटले रखोपुं करवुं, एम जाव दयामां पण त्रि-
 विधे त्रिविधे वर्त्तवुं. एवी रीते द्रव्य प्राण अने जाव प्राणने जाण्या
 विना रखोपुं केम करी शके? तेथी प्रथम ज्ञान ने पठी दया कही
 एटले द्रव्य जाव हिसाए उपयोगने अशुद्ध करवो नहि माटे प्रथम
 शुद्ध नये स्वरूपनुं ज्ञान करवुं एज पूजा ठे अने जिनेश्वरना केवल-
 ज्ञानादि गुणनुं बहुमान स्तवनादि जे शुचजाव ते पण शुद्धोपयो-
 गनुं कारण ठे, माटे पूजा कहीए केशर चंदनादि ए बाह्य पूजा
 शासन शोभा अर्थे करवी ते पण शुद्धोपयोगे सफल ठे साधु मुनि-
 राजने अजिगमन वंदन नमनादि तथा वस्त्र पात्र आपवुं, अगर
 सुश्रूपा विनयादिनी संचालमां रहेवुं, ते शुचउपयोग ठे. ने आत्म
 धर्मना हेतुपणा माटे घणा खांबा कालना अशुच कर्मने नाश करवा
 वालो ठे अने साधु मुनिराजनी जे चक्ति करवी ते जरूरनीज ठे, कारण
 के ते तेमनी सयम क्रियाने निवृत्तिपणे साधी, जवी जीवोने धर्म देश-
 नाना दातार थाय, अने साधु मुनिराजनी द्रव्यथी अने जावथी
 सेवा करीए एटले ते तेमनी प्रेरणाथी अनंत जीवोने सुखनुं कारण

थाय ठे, ए माटे अहिंयां लखवानुं एटलुंज के जेथी शुद्धोपयोग थाय, ते क्रिया अवश्य आदरवी केसके परमेश्वरे शुद्धोपयोगमां धर्म कह्यो ठे. शास्त्र सांजलवुं, जणवुं, वांचवुं, जाणवुं, ते पण शुद्धोपयोग रुप कार्यनुं कारण मोहकूपी कार्यना अजिलाषी जीवने ठे. जो कदापि आ जव परजवना इंद्रियजन्य सुखने अर्थे अथवा मान शोचाने अर्थे, एज काम करतो अकारण ठे, कर्म बंधनो हेतु ठे, जव त्रमणनुं कारण ठे, माटे शुद्धोपयोगने चूकवो नहि, अने जे क्रिया शुद्धोपयोगने अप्रशस्त एटले हरकत करे तेवी होय ते तजवी. एमज दान, दया, यात्रा, शुद्धोपयोगने प्रशस्तपणे ग्राहकताए अने यतना सहित होय, तो ते सफल ठे. नहितो ते अकारण ठे. एम देशना देवी, जणाववुं, चर्चा, वाद विवाद करवो, ए आदि द्रव्य क्रिया व्यवहारथी धर्मनां कारण कहीए, ते पण शुद्धोपयोगे होय तो धर्म कहीए. जो मान अगर विषयादि पुद्गल परिणामनी ग्राहकताए होय तो शुजाशुज कर्मनो हेतु ठे, जव त्रमण ठे, माटे धर्मार्थी जीवे सदा सावचेतीमां रहेवुं; एवी रीते के आ वर्तमान समये हुं पुद्गलीक परिणामनो ग्राहक हुं, के निज परिणाम आत्मधर्मनो ग्राहक हुं, आगामी समये पण इंद्रिय जन्य सुखने चाहुं हुं के निवृत्तिने इहुं हुं, मारी ग्राहकता, व्यापकता, रमणता वर्तमान समये अथवा आगामी समये स्वगुण पर्यायनी ठे, के परगुण पर्यायनी ठे, ते जेम बने तेम दर वखते विचारता रहेवुं, वली हुं स्वजाव दानमां वर्तुं हुं के इंद्रिय जन्य विषयोना दानमां वर्तुं हुं, हमणां हुं स्वजावना दाजने इहुं हुं के पुद्गलना लाजने इहुं हुं, हुं स्वजाव जोगी हुं के विषयनो जोगी हुं, तेमज उपजोगी पण स्वजावनो हुं के परजावनो हुं, जो परजावनो जोगी होजंतो पर एटले पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल, ए माहेतो कांइ जोग धर्म जणातो नथी, अने जो

जणाए ठे, तो विपर्यास वासनाथी ठे जेत्ता शरीरमांहे ह्युधादि। रोग ऊदय आवे ठे ते त्रखत पुद्गलना रस उपर रीक प्राप्ते ठे, पण ह्युधादि रोगनी शांति थये घणा मधुरादि रसने पण चाहतो नथी, तेमज काम रोगनी आतुरता व्यापे, ठेते स्त्री पुरुषतां रुधिर, मांसादिके जरेलां श्रंग मूलमूत्रनी, उत्पत्तिनां स्थानक वली कपटे जरी चेष्टाळ, अमृतथी पण सीठां लागे, ठे, तेज कामनी शांति थये अप्रिय लागे ठे जो कदापि कामक्रीडा करतां, मतमां मिथ्या वासनाथी ए समान बीजुं सुख नथी, ए सुख मने महा सुकृतथी मद्युं, हुं धन्य तुं। आ कृत्य करवाने केवो समर्थ तुं। एवुं सुख मने हमेश मलेतो केवु सारुं, ए सुख मेलववाने हुं बहुज सारो प्रयत्न राखीश एवा जे मनोरथ, तेथी आत्मा अशुरू जावनाए मननो वेग वधारी जव प्रमण करे ठे, पण कामनी निवृत्ति थये ए क्रियाने चाहतो नथी. वली पश्चात्ताप करे ठे, थाके ठे, क्षीणवीर्य थइ बहुजातनी उपाधिनी संचय पोताना शरीरमां करे ठे, जो ए सुख होत तो ए कृत्यथी थाकत नहि, अथवा अप्रीति उपजत नहि, एम शब्दादि पंचे विषयोनी निवृत्ति थये ते विषयो रूप रोगना उपचार रूप आहार, स्त्री आदिक जलां लागतां नथी, जो सुख होततो एम थतुं नहि, माटे हुं स्वजाव जोगी के परजाव जोगी तुं, एम हमेश विचारवुं ऊपजोगमां पण एमज विचारवुं वली जे शक्ति ते हुं आत्मिक शक्ति राखवाने चाहुं तुं के पुद्गलीक शक्ति चाहुं तुं, चेतना शक्ति फोरववा चाहुं तुं के पुद्गलीक शक्ति फोरववा चाहुं तुं, आत्मिक शक्ति तो सदाए नित्य अवाधित ठे ते तो जो शुरू ऊपयोगे जोशए तो एने राखवाने के फोरववाने बीजो कांश प्रयास करवो पडे तेम नथी, पण मिथ्या वासनाए देहादिकमां अहंपणुं मानी हुं केवो बलवान तुं, हुं केटली, स्त्रीउने रीजवी शकुं तु, मने केवो खोराक पची जाय ठे, हुं केवो वोढ्यो, में केवो मायो, मारे केटलुं धन, मारे केटलो जथो, हुं केवी

केवी युक्तिउं गोठवी शकुं तुं एम पुद्गलीक शक्ति फोरखवानी जमेद, पुद्गलिक शक्ति राखवानी आशा, ते मिथ्या वासनार्थी थाय ठे. जे पुद्गल द्रव्य ते तो पुरावुं, गलवुं, सडवुं, पडवुं, अने विखरवुं, दर-समये खंध खंधादिकनुं बदलावुं—खंधमांथी परमाणुउंनुं खरवुं, अने मलवुं, स्कंध एक ठतां पण केटलाक पुद्गलो खरे मले ठे अने वर्णादिकनुं बदलावुं थाय ठे ते एनो स्वजाति धर्म ठे. तो ए आपणा राख्या नित्य रहेवाना नथी अने खरा सुखने आपनार पण नथी, ए तो केवल ऊपाधिने वधारवा वाली समाधिने हरवा वाली पर-परिणति ठे. ते परपरिणतिने मूर्ख जीव राखवाने चाहे पण सम्यक् ज्ञानी तो देह अने विषयोथी निवृत्ति चाहे ठे. अने तेनुं स्मरण पण करता नथी, केमके शुद्ध नये आत्मा सिद्ध समान ठे, तो ए पुद्गल शक्ति कया दुःखने टालशे ? शुद्ध नये आत्मा त्रणेकाल एकरूप चिदानंद घन, स्वतंत्र ज्ञान उद्योतमयी, परम समाधिमयी ठे. तिहां कालकर्मनुं जोर शुद्धात्म अंगमांहे प्रवेश करी शकतुं नथी. दिन, घनी, रात, पक्ष, मास, ते पुद्गलना पर्यायना जेद ठे, जेम सूर्य उग्यो, आथम्यो, सूर्य मेषमां आव्यो, चंद्रमा धननो थयो, अमुक वखते अमुक हतुं, जेम केरीनो मरवो हतो ते मोटी केरी थइ हवे एना दींटा उपर पीलाश आवी, पहेलां रंगे लीली हती सर्वांगे राती थशे, हवे मीठी सोमाय ठे. (वासे ठे) ए सर्वे काल-धर्म ते पुद्गलना पर्याय ठे, ते पुद्गलना पर्याय आत्म तत्त्व मांहे प्रवेश करी शकता नथी, तो कालथी शुं थशे ? मात्र पोतेज पोताने विपर्यास वासना वडे जोइ शकतो नथी, पण ज्यारे शुद्ध उपयोगे निज स्वरूपने जुए, विचारे, आस्वादे, अनुभवे, त्यारे अनंत आनंद रूप एक रस चेतना ठे. बीजुं कांइ नथी, तेमज जे कर्म ते कर्मनी सत्ताजूमि पुद्गल क्षेत्र, कार्मण, औदारिकादिक शरीर, पुद्गल वर्गणा रूप ठे; ते पण आत्म क्षेत्रे नास्तित्वजावे ठे. माटे निज आ-

नंद ठोड़ी परजावनुं जे रमण करवुं ते फक्त मिथ्यावासनाए थाय ठे. शुद्ध उपयोगे ज्यारे जूप त्यारे आत्म आनंद अखंन धारा प्रवाह-रूपे टंकोत्किर्ण न्याये ठे. केवल ज्ञानीए संयम क्रिया तथा अध्यात्म क्रिया अने त्रण योगनी के ऊपकरण आदिकनी जे जे आज्ञाउं फरमावी ठे ते फक्त शुद्ध उपयोगने माटे ठे, एटले शुद्ध उपयोगने विरुद्ध हिंसादिक क्रिया वर्जवी, अने जेथी शुद्ध उपयोग प्रगट थाय ते निमित्त क्रिया आदरवी, अने ज्यारे शुद्ध ऊपयोग रूप कार्य स्वक्षेत्रे प्रगट थाय, त्यारे कांइ पण क्रिया आदरवानी नथी अने ठोरुवानी पण नथी. कारणके आत्मा स्व ड्रव्यादिके सदाए अस्तित्व ठे. तो केवलीनी देशनानो अज्ञिप्राय जाण्याविना जे कांइ शुद्ध कार्य पण आदरवुं, ते पुण्यबंध रूप संसार हेतु ठे. परंपराए संसार वधारनार थाय चौदे पूर्वनो तथा सर्व धर्म ऊपदेशनो सार एज ठे के शुद्ध नये आत्म अनुभव करवो, अने ते तो शुद्ध उपयोगेज वने माटे सर्वे आलपंपाल ठोड़ी सुखार्थी जीवोए एहीज आदरवो शुद्ध उपयोगीने आ संसारमां करुवा विपाक जोगववा परुता नथी, शा माटे के सम्यक् ज्ञान थया पठी कदापि पूर्वनां अशुद्ध निविड कर्म ऊदय आवे, तो पण शुद्ध उपयोगे स्वरूपना रमणर्थी ते किंहां आव्या अने किंहां गया ते तेना लक्ष्मां पण रहेशे नहि ए माटे शुद्ध उपयोग तेज एक मुक्तिनो मार्ग ठे ज्यारे चेतना शुद्ध उपयोगमां वत्ते, पोतानी परिणामिकताने संजावे, अनुभव करे, त्यारे सर्वे पर जाव उपर विरक्त जाव थाय, एटले ऊदासिन्न वृत्ति थाय ते ऊदासिन्नता शैरी मुमुक्षुने (मुक्ति जनारने) धोक मार्ग ठे जो ऊदासिन्नता रूप शैरीने चूके नहि तो ठेठ मुक्तिसुधी वचमां मोहादिक चोरटानो जय रहेतो नथी, अने निर्विघ्न पणे कार्य सिद्धि थाय ठे आगल जतां कोइने कांइ पूठवुं पने तेवुं नथी ते ऊदासिन्नता देख्या पठी कोण ठोके ? अर्थात् कोइए नहि. कोइ कहेशे जे

पहेलेथी ऊदासिन्नता आदरीने शुं करीए; पगथीए पगथीए चढाय, तेने कहीए जे पगथीजं शाने कहेवाय ? पगथीजं तो तेने कहीए के जे उपर पग मूकी जंचुं चढाय, अहींच्यां पहेलुं गुणठाणुं केवल मिथ्यात्व रूप ठे, तेने तो कोइ मार्ग कहेसे नहि. बीजुं गुणठाणुं सास्वादन रूप, त्यांतो चोथानो परेलो आवे ते पण पगथीजं केम कहेवाय ? अने त्रीजुं मिश्र ते पण मिश्र एटले परजावनी मिश्रता ठे, हवे जे चोथुं गुणठाणुं ठे ते सम्यक्त रूप ठे तेना निश्चय अने व्यवहार बे जेद ठे, तेमां कोइ एम कहेसे जे देव गुरु धर्मनी सहजणा ते समकित ठे, ते खरुं पण देव गुरु धर्मए त्रणे तत्त्वने चार निक्षेपेथी जाणें तो व्यवहार समकित थाय. ते निक्षेपाना अधि-कारथी समजजो पण अहींच्यां लेश मात्र लखुं तुं.

देव श्री अरिहंत एम कहेवाथी कांइ देवनुं स्वरूप यथार्थ जणाय नहि वलो मात्र नाम निक्षेपेथी पण अरिहंतपदनो बोध थाय नहि पण अरि कहेतां रागादिक शत्रु अने हंत कहेतां ते शत्रुने जेणे हण्या ठे तेने अरिहंत कहिये. अहींच्यां हणनार कोण ? अने शी वस्तुने हणी ? हवे हणनार ते शुद्ध आत्मा ठे, अने रागादिक अशुद्ध उपयोगनो नाश कर्यो, तेने अरिहंत कहीए.

गुरु निर्ग्रथ एम कहेवाथी कांइ गुरुनुं यथार्थ स्वरूप जणाय नहि, कूतरां, बिलाडां आदि कोनी मात्र पण पोतानी पासे राखतां नथी, तो शुं तेने निर्ग्रथ कहीशुं ? एम तो बने नहि पण पुद्गल परिणाम रूप पर डव्यनुं ममत्व, अने पुद्गल डव्यरूप कोइ पण पुद्गलना ममत्वरूप गांठ, एटले राग द्वेषनी गांठ जेने रही नथी, सदाय आत्म सत्ताना रसी ठे, अने स्याद्वाद नयप्रमाणे जिन वाणिना अजिप्रा-यना पारगामी ठे, तेने गुरु कहीए पण एथी जे उलटा पुद्गल डव्य अने पुद्गल जावना कामी ते शी रीते धर्मने जणावशे ? ए तो वि-षयादि अनर्थमां अर्थ जाणी तेना अर्थी ममत्वी अइ जोलाजीवोने

जरमावे ते शी रीते तारशे ? माटे जव्य जीवोए गुकने परखीने गुकनी श्रद्धा करवी

धर्म ते वस्तुनो स्वचाव ठे. नो जे वस्तुनो जे स्वचाव ते तेनो धर्म कहीए. आपणे चेतन वस्तु ठीए, शुद्ध चेतना उपयोग लक्षण आपणो धर्म ठे, ते जेद धर्म ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनेक विशेषण-मयी, एक रस चेतना रूप शुद्ध स्फटिकमणि द्रष्टाते आपणो धर्म ठे एथी विपरित्त वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि अने धर्मादि पर डव्यना जे स्वचाव ते आत्माना धर्म नथी, एटले अधर्म ठे एटले दुंकामां जेदधर्म, अजेद धर्म, जे जे आत्माना स्वस्वचाव, गुण, पर्याय, तेज आत्माना धर्म ठे अने परगुण पर्याय ते मिथ्या द्रष्टीए मिथ्यात्वी जीव आत्माना धर्म माने ठे, पण ते अधर्म ठे, हेय रूप ठे, अनर्थ ठे. अने निजधर्म अर्थे एटले शुद्ध उपयोग अर्थे उदये आवेली पुद्गल क्रियानी प्रवृत्ति करवी पने, तेने कारण धर्म कहीए. ते कारण धर्ममां सर्वे पुद्गल प्रवृत्ति करवी पडे ते नैगमनयथी धर्म पण कहेवाय, जेम कारणमां कार्यनो आरोप एटले नैगम नयथी कारणने पण कार्य कहेवाय ठे, ते कारण अने कार्यना जिन स्वरूपने जाण्या विना एकांते कारणनेज कार्य जाणेतो कुनयनी वासना मिथ्यात्व आवे, उक्तंच—एकांते होइ मिथ्यत्तो. जेम घरेणुं करवाना निमित्त कारण, एरण, हथोडो, साडसी, आदि मेलवीने जाणके मांहारे कार्य थयुं, तो तेथी कइ आनूपण तैयार थयु नहि, वली घडो करवानु निमित्त कारण, दरु, चक्र, चीवर, आदि मेलवीने जाणके घट तैयार थयो तेथी कंड घट थाय नहि, पण घरेणानु उपादान कारण जे सोनुं तेना पर्याय पलटावी तुसी, कठीरूप पूर्ण पर्याय निपजावे तोज कार्य थयु कहेवाय, तेमज घटना उपादान रूप जे शुद्ध मृतिका तेना टंड, चक्र योगे पिंरु, स्थास कोशाटिक, पर्याय पलटावी पूर्ण पदे घट रूप कार्य निपजावे तोज कार्य थयुं कहीए,

तेमज सिद्धिना उपादान रूप नव्य आत्मा तेनो मिथ्यात्व पर्याय पलटावी सम्यक् पर्याय प्रगट करवो, राग पलटावी वीतरागतानो पर्याय प्रगट करवो, एम सर्वे परसत्ता रमण पलटावी स्वसत्ता रमण करवुं, इत्यादि पर्याय पलटावी संपूर्ण स्वपर्याय प्रगट करवे पूर्ण पदे कार्य थाय. पण कारण कार्यना स्वरूपने जाण्याविना एकांत नयनी वासना जाय नहि. धर्म कंइ नवो करवो नथी, ए तो अकृत्रिम शाश्वतो सदाए एकरूप कायम ठे. पण ते मूढ आत्मानि द्रष्टी विपर्यास वासनाए विषय कषायादिकने पोतानुं कार्य मानी तेनी द्रष्टी रोकाणी, अवरानी, तेथीज ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म थयां, एटले प्रवृत्तिमां अशुद्ध उपयोगे कर्मनी संतती अनादिथी चाळी आवी. ते अशुद्ध उपयोग न वधे ते माटे अव्रतनुं टालवुं अने विनयादिकनुं आदरवुं तथा वांचना, पृष्ठना, पर्यट्टना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथानी क्रिया करी शुद्ध उपयोग प्रगट करवो, एम शुद्ध देव, शुद्ध गुरु, शुद्ध धर्मनी श्रद्धा ते व्यवहार समकित कहिए, ते निश्चय समकितनुं कारण ठे.

दर्शन गुणवंत मारो आत्मा एज देव, अने ज्ञान गुणमय मारो आत्मा तेज गुरु के जे हेय, उपादेयने जणावे ठे, चरण गुणवंत मारो आत्मा तेज धर्म, के जे दुर्गति परतां बचावे एम जे जाणवुं अने नय, निक्षेपे करी, स्याद्वादे करी पोतेज पोतानी आत्मसत्ताने सिद्ध समान जाणी श्रद्धा प्रतीति रूची करवी ते निश्चय समकित ठे, अहिंसांथी चडवानुं पगथीउं शक थयुं,

उक्तंच गाथा आर्यावृत्तम्.

जिण पसुत्तं धम्मं, सद्वहमाणस्स होइ रयण मिणं;

सारंगुण रयणाणय, सोवाणं पढम मोखवस्स.

चोथे गुणगणे मिथ्यात्वना अंश गया एटली शुद्धता प्रगट थइ,

ते शुद्ध उपयोगनुं अने मोक्षमार्गनुं पहेलुं पगथीउ जाणवुं, पांचमे अविरतिना थोना अंश गयाते अंगे शुद्धता प्रगटी, ठठे अविरतिनां सर्वे कारणो तज्यां ते पण शुद्धताना अश वध्या, सातमे प्रमाद गंयो तेपण शुद्धताना अश वध्या, आठमे अपूर्व स्थिरता आवी ते स्थिरता रूप शुद्धताना अंश वध्या, नवमे वेद, हास्वादिथी निवर्त्यो ते अधिक शुद्धता थइ, अने स्थूल कपाय पण निवर्त्या, दशमाना अते उपशम श्रेणीए उपशम्या अने क्षपक श्रेणीए सूक्ष्म कपायो पण गया एटले मोहनीय कर्मनी सकल चपलता निवर्त्ति, ते पण शुद्धता वधी, अने वारमाना अंते ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अने अंतराय कर्मनो नाश थयो एटले तेरमे परम शुद्ध उपयोग केवलज्ञान, दर्शन, अने दान, लाज, जोग, उपजोग, वीर्य, शुद्ध, अचल, अवाधित प्रगट थयुं त्यारे पूर्ण शुद्ध उपयोग थयो, एम पगथीआं जाणवां. पण चोथेथी शुद्ध उपयोगने साध्य जाणी शुद्ध उपजोग सन्मुख थइ अने शुद्ध उपयोग तरफ झट्टी राखी शुद्ध उपयोगने प्रशस्त हेय, उपादेयपणे वर्त्तवुं ते पगथीआं जाणवां. अने सर्वे पगथीए उदासिन्नता वधती जाय, ते उदासिन्नता रूप शेरी जाणवी उदासिन्नताने चूके तो पडे, पण न चूके तो जेम जेम उंचो चढे तेम तेम उदासिन्नता वर्द्धमान थइ पूर्ण वठित स्थानके पहोचाडे उदासिन्नताने चूकवुं नहि एनुंज नाम शुद्धोपयोग ठे ए शिवाय बीजां पगथीआं नथी. ते पगथीउं कइ गरीरथी चढवानुं नथी पण शुद्ध आत्म परिणामनी धाराए चढवुं तेनुं नाम पगथीउं ठे. शुचाशुच कर्म परिणाम धारा तजीने शुद्ध परिणामीक जावे वर्त्तवा अज्यास करवो, जेमके हुं सिध्द समान निर्मळ आत्मा तुं, तो मने पुद्गलना अनंत पर्यायोमांथी एकनी पण जरूर नथी, ज्यारे अंतरंगमां पुद्गल पर्यायनो खप न जाणीए, तो चित्त शामाटे चंचल थाय, ए अज्यासनुनाम अनुचव योग कहिए अनुचव योग ते सर्व आचारमय परमात्माए कह्यो ठे.

तप, तीर्थ आदि सर्वे धर्म कार्यनो समावेश अनुत्तव योगमां थाय ठे. समयसारना सारमां कुंदकुंद आचार्य लखेठेके एक शुद्ध परमात्मानो अनुत्तव अन्यास करवो, एज मोक्षमार्ग ठे. माटे सर्व आत्मपंपाल ठोडी एक शुद्धनयने तजो अनादि अशुद्ध उपयोगथी परमां पोतापणुं मानी पुद्गल शक्ति राखवा इच्छेठे, तेथी अनादिनो पुद्गल अनुत्तवथी समय मात्र पण विराम पामतो नथी, तो कइ रीतथी सिद्धिने पामे ? माटे शुद्ध परिणामीक जावनो अनुत्तव अन्यास करवो के लोकाकाशना सर्व पुद्गलना त्रणे कालना अनंता अनंत पर्यायथी ज्ञान द्रष्टीए जोतां आत्माने पुद्गलथी सुख अथवा दुःख कइ पण नथी, पुद्गलना ममत्वथी दुःख, अने तेज ममत्व तजे सुख, माटे मिथ्या त्रांतिथी ते पुद्गल पर्यायमां कार्य मानेकुं ठोडीए तो सहेजे अने निर्विघ्नपणे आत्म अनुत्तव थाय. माटे प्रमाद ठोडी पोतेज पोताना सुखना कर्ता थारुं. हवे सर्वे प्राणीठ सुखने चाहे ठे. यथार्थ सुखने जाण्याविना, अने पोतानी उन्मार्ग प्रवृत्ति ठोड्या शिवाय, अने सन्मार्ग प्रवृत्ति आदर्थाविना सुख थाय नहि, माटे सुखनुं यथार्थ स्वरूप जाणी, सन्मार्गनुं यथार्थ स्वरूप जाणी, असत्मार्ग तजी सन्मार्गे प्रवर्तवुं. हवे ते सन्मार्ग पामवानुं यथार्थ स्वरूप लखीये ठिये. सुख शार्थी थाय ? सुखमां हानि शार्थी थाय ठे ? ते जरूर जाणवुं जोश्ये आकुलता रहित स्थिर, संतोषमय, स्वतंत्र आत्मस्वजावने जाणवुं तथा सहज स्वजावे मग्न रहेवुं ते निवृत्ति रूप सुख ठे. क्रुधा अने काम रोग आदि विषयनी आकुलता ज्यां नथी, अज्ञान, तय, शोकादि उपाधि ते पण ज्यां नथी, एवं शरीरथी तिन निज आत्म स्वरूप ज्ञानथीज थाय. अने एथी उलटुं जेमां अनेक रोग, जन्म, जरा, मरण, व्याधि, अने अज्ञान, तय, शोकादिनुं स्थानक जे पुद्गल द्रव्य तेमां पोतापणुं जाण्याथी दुःख खडु थाय ठे. ते पुद्गलमां पोतापणुं तजी आत्मां आत्मापणुं जाण्याथी परमानंद सुख

प्रगट् थाय ठे. पर पुद्गलमां पोतापणुं जाणवाथी पोताना कर्त्ता, चोक्ता, ग्राहकता, व्यापकता, रमणता, आदि जे गुण ते सर्वे पर अनुयायी थइ पुद्गलना अथिर पर्यायने जोगवी स्थिर राखवा चाही अनंत प्रयास करी अनंतानंती उपाधिने जोगवी अनंता काल सुधी आत्मा स्वरूपरमणनो अवसर पामतो नथी पुद्गल ड्रव्य पर्यायनुं लेवुं, तेने लाज माने ठे, पुद्गल ड्रव्य पर्यायनुं देवुं तेने दान माने ठे, पुद्गल ड्रव्य पर्यायने जोगववुं तेने जोग माने ठे, अने पुद्गल गुणने जोगववुं तेने उपजोग माने ठे, अने वीर्य शक्ति पण सर्वे पुद्गलमां फोरवे ठे, एवी मिथ्या मोहनी निदमां सूतेलाने जगारु वाने गुरुसिवाय वीजो कोइ समर्थ नथी पुद्गलना अनित्य पर्यायमां नित्यता क्यांथी होय ? चपल पर्यायमां स्थिरता क्यांथी होय ? जड अंधकार मांहे ज्ञान उद्योत क्यांथी होय ? अरम्यमां रम्यपणुं क्यांथी होय ? परजाव अटवीमां जमतां घणोज आक्रंद करे पण शरण कोण थाय ? एकलो आवे, एकलोज जाय, एक जीवथी वीजा सर्वे जीव, तथा सर्वे पुद्गल अन्य (जूदा) ठे सुख दुःख एकलोज जोगवे, संसार जावने पामी वारंवार तेने तेज कृत्य, गति, योनि, प्राण, पर्याप्ति, वैर, हेत आदि कर्मां करे, अने अनंता जीवनी एंठ एवी पुद्गल वर्गणाथी उत्पन्न थएलुं हाड, रूधिर, मांस, चर्म, विष्टा, मलमूत्रादिनुं स्थानक एवं अपवित्र शरीर तेने पवित्र मानी अगर, चंदन, पुष्प, आचरणादिके शोभीत करी मोहमदे ठाकी सुख माने ठे, पण ते अथिर दणमांहे विणसी जाय तेथी स्थिरतानो लेश पण पामतो नथी सर्वे समय कर्म परिणामने वधारनार दुःख समुद्रने जरी दुःख समुद्रमां जीले ठे तेथी खरुं सुख रोकायुं, एटले सुखनी हाणि थइ दुःखना स्थानकमां सुख लेवा जाय ते जमे नहि, एवा जीवने काल परिणति अने जव्यताना योगे कोइ समये सद्गुरुनु निमित्त मली आवे, त्यारे ते गुरुना उपदेशथी सिद्ध समान

पोताना स्वरूपने जाणी, गुरु आझाए चाले, तोज कर्म रसनी आवक
 रोकाय, अने बाकीनो कर्म रस रहेलो तेनी पण निर्जरा करे. ते तो
 शुद्ध उपयोगथीज थाय, माटे शुद्ध उपयोग एज सुखनुं कारण ठे.
 अने विषय कषायना कारणथी जे शुचाशुच संकल्पनुं उपजवुं, तेज
 सुख रोकावानुं अने दुःख थवानुं कारण ठे. उन्मार्गनी प्रवृत्ति एटले
 विषय कषायनुं सेववुं, ते मिथ्यात्वथीज थाय ठे. जेम एक जंडी
 खाइनी अंदर अखूट निधान जरेलुं हतुं, पण ते खाइ चिरकालथी
 अंधकारे जरेली हती, ते अंधकार टालवाने माटे विपर्यास वासना-
 वालाए घणा कोश, कोदाला, पावमाथी अंधकारने जखेडी फेंकवानो
 उद्यम कर्यो, वली ते अंधकार नसाडवा माटे घणा बाणो. अने तो-
 पोना गोला चलाव्या, घणी जातना तप, तीर्थ, यज्ञ, होमादि कर्या,
 वली बहु जडासिन्न रही संसारी जोग त्याग कर्या, घणुं रुदन
 कर्युं, शिर फूटणादि क्रिया करी, श्राप अने गालो विगेरे अनेक
 प्रयत्न कर्या, पण तल मात्र अंधकार नाश थयो नहि. एटलामां
 कोइ सुजाण पुरुष मढ्यो तेने कहुं के एम अंधकार जाय नहि,
 पण ते खाइने एक बाजुथी फोकी सूरजनुं किण अंदर पडे तेम करो,
 अथवा एक मसाल करी अंदर लेइ जाउ एटले अंधकार तरंतज
 नाश पामशे. त्यारे मिथ्या वासनावालो बोढ्यो, के अमे घणा कालथी
 जारे जारे उद्यम कर्या तोपण अंधकार नाश थयो नहि, तो ताहरुं
 कहेलुं एटलुंज सहेज कृत्य करवाथी कांइ अंधकार नाश पामे
 नहि एवुं कहुं, त्यारे सुइ पुरुष बोढ्यो, जरा धैर्य राखी मारुं
 कहेलुं कृत्य करी जो, पढी ते पुरुषने कांइक श्रद्धा, प्रतिति, रुचीथइ
 एटले ते सुइ पुरुषना कह्या प्रमाणे वर्ततांज अंधकार नाश थयो तेम
 आत्मसत्ता चूमी रूप खाइमां अनंत कालनुं ज्ञान, दर्शनादि अखूट
 निधान जरेलुं ठे, पण मिथ्या अंधकारे ढंकाएलुं ठे, ते मिथ्या अंधकार
 सम्यग् ज्ञान रूपी सूर्यनुं किरण अंदर प्रवेश कर्याविना कोडो उपाये

पण जाय नहि, अने धन नजरे पडे नहि, तो हाथ आववुं तो क्यांथीज होय? ज्यारे तीर्थकरो अगर गुरुना वचनोमां कहेला तत्त्वोनी प्रतीतरूप सम्यक् सूर्यनुं किरण सत्ताचूमी रूप खाइमां प्रवेश कराय, अने ते सम्यक् ज्ञान वडे जोइए, तो ते धन हाथ आवे मिथ्यात्वरूपी अंधकार क्लणमात्र पण रहे नहि, जेम घणा कालथी खाइमां रहेलो अंधकार सूर्यनां किरण सामो थतो नथी, एम नथी कहेतो के हुं घणा कालथी अहिंआंतुं, माटे मारो मुकाम नहि ठोरुं, पण तरतज नाशी जाय ठे तेम सम्यक् ज्ञान रूपी सूर्यना किरण वने मिथ्यात्व अने अज्ञान रूपी अंधकार तरत नाश थाय ठे जेम जेम अजवालुं सत्ताचूमीमां उंडुं प्रवेश थतुं जाय, तेम तेम सत्ताचूमीमां रहेलुं ज्ञानादि अखूट धन इष्टीगोचर थइ पोताने स्वतंत्र पणे कराय ठे पण जे कार्य करवुं होय, ते कारक प्रवृत्ति विना वने नहि जगत्नां सर्वे कार्य कारक प्रवृत्तिथी थाय ठे, तो आत्मिक कार्य पण यथार्थ कारक प्रवृत्तिथीज वने कोइ कदेशेके आत्मिक सुख माटे यथार्थ प्रवृत्ति ते शुं ? ते अमारा समजवामां आवती नथी, तेने कहिएके चित्तमां धैर्य राखी सांजलो ज्यारे कारक प्रवृत्तिनो बोध थाय त्यारे यथार्थ प्रवृत्ति तरत समजाशे ते कारक प्रवृत्ति वावत सामायक सिध्युपायमां खुलासो आपेलो ठे. त्यांथी जोइ खेजो त्यां ए साथे अस्ति नास्ति वावत पण कहेलुं ठे. तेथी यथार्थ स्वरूप समजाशे सप्तचंगीनुं स्वरूप जाणवुं ते स्याद्वाद कहीए. वली वस्तु मांहे एक पणुं, अनेक पणुं, नित्यपणुं, अनित्यपणुं, सत्पणुं, असत्पणुं, वक्तव्यपणुं, अवक्तव्यपणुं एम अनंत धर्म ठे अने ए सर्वे धर्म वस्तुमां सर्वे समय रह्या ठे, पण एकज वारे एकेवचने कह्या जाय नहि ते स्यात् पद सहित बोलीए तो मिथ्यात्व आवे नहि, माटे परमेश्वरनी वाणि स्याद्वाद-मयी ठे हवे एक पणुं ते जेम आत्मांमां चैतन्य लक्षणे करी एक पणुं ठे, अने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख वीर्यादि अनेक धर्म ते

अनेक स्वप्नाव ठे, पण ए अनेक स्वप्नाव मांहे चैतन्य पणुं एकज ठे, अने एक चैतन्य मांहे ज्ञान दर्शनादि अनेक पणुं ठे. जेम पुद्गल मांहे पूरण, गलन स्वप्नाव ते एकज ठे, तेमज वर्ण गंध रस स्पर्श संघयण, संगणादि, अनेक पणुं ते पण एकज पुद्गलमां ठे, एवी रीते वर्ण गंध आदि अनेक पणा मांहे पूरण गलन पणुं ते एकज ठे, अने एक पुद्गलमांहे वर्णादि संस्थानादि अनेक पणुं पण ठे. तेमज सर्वे द्रव्यमध्ये एकपणुं अनेकपणुं जाणी लेवुं. सर्वे द्रव्य द्रव्यथी नित्य ठे अने पर्यायथी अनित्य ठे ते नित्यानित्य स्वप्नाव कहिए. जेम सोनुं ते सुवर्ण द्रव्ये नित्य ठे अने पर्याय एटले सोनानां जे कार्य मुकुट कुंकुलादिके अनित्य ठे, तेम जीव द्रव्य पोते द्रव्यथी नित्य ठे, अने जीव द्रव्यनुं अशुद्ध कार्य जे नर नरकादि पर्याय तेथी जीव द्रव्य अनित्य ठे, पुद्गल द्रव्य पूरण गलन स्वप्नावे नित्य ठे, अने वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादि पर्याये अनित्य ठे, एम सर्वे द्रव्योमां नित्यानित्य स्वप्नाव जाणवो. सर्वे द्रव्य स्वद्रव्यादिके सत् ठे, अने परद्रव्यादिके असत् ठे, जेम सोनुं सुवर्ण द्रव्यथी सत् ठे. पण लोह द्रव्यथी असत् ठे, जेम जीव द्रव्य पोताना चैतन्य द्रव्ये सत् ठे, पण अचेतन द्रव्य जे पुद्गल तेथी असत् ठे, जीव द्रव्य स्वक्षेत्र एटले पोताना स्वप्नदेशे सत् ठे पण पुद्गल क्षेत्रे असत् ठे, जीव द्रव्य स्वप्नाव वर्तनाए सत् ठे परप्ताव एटले पुद्गलादि वर्तनाए असत् ठे, जीव द्रव्य पोताना ज्ञान दर्शनादि स्वप्नावे सत् ठे पण पर जे पुद्गलना वर्ण, गंधादि स्वप्नावे असत् ठे सर्वे द्रव्यनुं स्वरूप पूर्ण पदे वचनथी कही शकातुं नथी माटे अवक्तव्य ठे, केमके वस्तुमां अनंत धर्म सर्वे समये समकाले रह्या ठे पण ते एकज वचने एकज साथे कही शकाय नहि तेथी अवक्तव्य कहिए, अने केटलाक धर्म नय द्वाराए वचन गोचर थाय माटे कोशक रीते वक्तव्य कहिए. ए आठ पद्धती बोलवुं तेने स्याद्वाद कहिए, हवे नय कहिए ठिये.

वस्तुमां अनन्ता धर्म एक समये रखा ठे, ते एके वचने समकाले कहा जाय नहि, माटे नये करि कहीए. वस्तु अनन्त धर्मात्मक ठे, तेमां मुख्य द्रव्यार्थक अने पर्यायार्थक वे नय ठे. जे वचन द्रव्यार्थक पणाने आगल करी पर्यायास्तिकपणाने गौण राखी बोलवु ते द्रव्यार्थक नय कहिए, अने जे वचन पर्यायास्तिकने मुख्य पणे करी अने द्रव्यास्तिकने गौणपणे अपेक्षा राखीने बोलवुं ते पर्यायार्थक नय कहिए, ते द्रव्यार्थकना चार जेद ठे, तेनां नाम-नैगम, संग्रह, व्यवहार, रुजुसूत्र. अने पर्यायार्थना त्रण जेद ते शब्द, समञ्जिक, अने एवंचूत. एवं सात नय जाणवा, एनो विशेष जेद आगमथी जाणवो, पण एक नयनी मुख्यताए वस्तु धर्म उच्चार करतां अन्य नयना विषयने गौणपणे जाणतो नथी, तो ते कुनय कहिए जेम सोनुं जारे, पीलाश, चीकाश विगेरे धर्मे करी सहित ठे, अने वचनथी सोनुं जारे कहेतां ठतां वाकीना धर्मनी अपेक्षा राखतो नथी, तो ते कुनय कहिए तेमज जीवादि वस्तुमां अनन्त धर्म सर्वे समये समकाले ठता ठे, ते मांहेथी नित्यता आदि एक धर्मने मुख्य पणे उच्चार करतां वाकीना धर्मनी गौणताए अपेक्षा न होय तो, ते कुनय समजवो एम वस्तुना धर्मनो उच्चार करता अने जाणतां नयोना जिन विषयनी अपेक्षा होय तो कुनय थाय नहि, अने ज्ञान यथार्थ थाय. माटे परद्रव्य गुण पर्यायनो लक्ष अने रमण ठोडी आत्म द्रव्य गुण पर्यायमां लक्ष रमावी स्थिर रहेवुं आत्माना ज्ञान, दर्शन, वीर्यादि अव्याबाध गुणनो अनुभव आस्वाद लक्ष, तो अरिहंतादि नव पद आत्माना आत्मा मांहेज ठे नवपदमां आत्मा, अने आत्मामां अरिहंतादिक नवपद, एम एक अनेक स्वभाव जाणी रमण करवुं मिथ्याद्रष्टीए ज्यां सुधी आत्म स्वरूपमां लक्ष न देखए, त्यां सुधी आत्मानां नवपद ते आत्मामां चासे नहि जेम एक नगरतुं तलीयुं स्फटिक रत्नतुं हतुं ते उपर घास, कांकरा आदि अनेक पदार्थो पकेला हता, ते स्फ-

टिकनी ऊलकीमां पण उपरना पनेला पदार्थ जेवुं चासन थतुं हतुं. स्फटिकना स्वरूपथी अजाणने स्फटिकना स्वरूपनो जाण पुरुष स्फटिकनुं स्वरूप बताववा लाग्यो, के उपरना घास, कांकरा विगेरे जेनी अंदर चासे ठे ते निर्मल स्फटिक मणि ठे, पण ते अजाण पुरुषनी दृष्टि शुद्ध स्फटिक उपर पनी नहि, अने उपरनी चीजो जे अंदर चासती हती ते चीजो उपर नजर पनी, तेथी उपरनी चीजो करतां स्फटिकनुं स्वरूप चिन्न जाण्युं नहि, उपरनी चीजोना प्रति-चास उपरज दृष्टी रोकाइ, ज्यारे त्यांथी दृष्टी बुटी स्फटिकनी ऊलकी उपर दृष्टी पडे, के जेनी अंदर घास, कांकरा विगेरे चासे ठे ते स्फटिक ठे पण जे पदार्थ चासे ठे ते स्फटिक नहि. एम आत्माना ज्ञायकतामां अनेक ज्ञेय पदार्थ चासे ठे ते आत्मा करतां चिन्न ठे, तेम ज्ञायकता सत्तावंत आत्मा ज्ञेय पदार्थोथी चिन्न ठे. ज्यारे ज्ञेय पदार्थोने पोतापणे जाणे त्यारे दृष्टी ज्ञेयोमां मुंजाइ, रागादि अनेक विकार खना थाय ठे. अने ज्ञेयोथी चिन्न पोतानी ज्ञायकता शक्तिने जूवे, जाणे, त्यारे ज्ञेयोनुं ममत्व अने रागादिक मटी आत्मा अरिहंत पदने पामे ठे. माटे मन, वचन, कायाना योग अत्यंत स्थिर करी चित्तमां धैर्य अने श्रद्धा राखी सद्गुरू वचने कान अने ध्यान राखी सांचलो, अने विचारोके नवपद आत्मा मांहे केवी रीते ठे ?

१ प्रथम अरिहंत पद, ते ज्ञेयोना ममत्वरूप मिथ्यात्वनो नाश करी, ए ज्ञेयो माराथी चिन्न, मारा कामना नथी एम जाणी तेना रागनो अंत करवो तेज अरिहंत पद कहिए.

२ अने अनंत ज्ञायकतामयी जे पोतानुं स्वरूप ज्ञान, दर्शनादि अनंत पर्याय शक्ति, व्यक्ति, अनंत वीर्यवंत, ते दृष्टी गोचर सिद्ध करी सकल पर्यायना अखंरु रमणने जोगवुं, ते सिद्धपद कहिए.

३ आत्माना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्यनुं आचरण करवुं, करावुं, ते आचार्यपद कहिए.

४ ऊपाध्याय पद, ते द्वादशांगना अध्ययननुं करवुं, करावुं, ते आत्माज करे, जे आत्मा करे ते ऊपाध्याय जाणवों.

५ सम परिणामे रही शुद्ध सिद्धरूप आत्म स्वरूपने साथे ते साधु पद कहिए

६ स्वपर स्वरूपने निर्धार करे, ज्ञेय पद जे परवस्तु अने ज्ञानपद ते आत्म वस्तुतेने जिन निर्धार, ते दर्शनवंत आत्मा.

७ स्वपर पर्यायनो पर परिच्छेदक विशेष बोध ते ज्ञान कहिए अने ज्ञानवंत तेज आत्मा ठे.

८ ज्ञेय पदार्थनो राग द्वेष ठोडी ज्ञानादिक स्वपर्यायमां आचरण, रमण, करे ते चारित्रवंत आत्मा

९ ज्ञेय पदार्थने जोगववानी इडा ठोनी स्वगुण पर्यायमां तृती-
वत रहे ते तपवंत आत्मा.

एम नवेपद आत्मामांज ठे, अने नवेपद मांहे एक आत्मपणुंज ठे ते सद्गुरु मुखे विस्तारे समजी अनित्य संसारथी ऊदासिन्न वृत्ति करी नवपदमयी आत्माने शुद्ध उपयोगे ध्याववो एकज वस्तु जेमां बीजानो द्रव्य गुण पर्याय जड्यो नथी, तेने शुद्ध कहिए जे द्रव्य तेना गुण पर्याय तेना मांहीज जले, कोइ द्रव्यना गुणपर्याय कोइ द्रव्यमां जले नहि, जेम चेतन द्रव्य अरूपी, चेतन गुण ज्ञानादिक ते पण अरूपी, अने पर्याय ते नवा नवा ज्ञेयनुं जाणवुं ते पण अरूपी पुद्गल द्रव्य रूपी, एना गुण वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थानादि ते पण रूपी, अने एना पर्याय श्वेत, श्याम, रक्तादिक, खंच, गोल, त्रिखुणादिक ते सर्वे रूपी ठे. माटे कोइ द्रव्यना गुण पर्याय कोइथी जलता नथी. हवे द्रव्य, गुण, पर्याय शेने कहिए?

द्रव्य ते वस्तु ठे के जे मांहेथी कार्य एटले गुण अने क्रिया एटले पर्याय उत्पन्न थाय ठे अने विनाश थाय ठे, द्रव्य सत्ता सहित ध्रुव-
पणे रहे ठे, पर्यायने उपजते अने विणसते सदा काल एक रूपे रहे

तेने द्रव्य कहिए. अनंत पर्यायनो एक पिक त्रिकाले द्रव्यरूपे नित्य होय तेने द्रव्य कहिए. अने एक पर्यायथी वीजो पर्याय त्रिन्न, तो पूर्व पर्याय विणसे, नौतन पर्याये उपजे, जेम सोनाना अनेक घाट करतां सोनुं सुवर्ण चाव ठोरुतुं नथी, अने सुवर्ण चावे कायम रहे ठे. घरेणुं ए सोनाना कार्य रूप गुण, अने मुकुट, कुंडलादि ते पर्याय, ए गुण पर्यायनी शक्ति सुवर्ण मांहे सर्वे काले ठती ठे. एम जीवादि द्रव्यना द्रव्य गुण पर्याय जाणी, परद्रव्य गुण पर्यायने त्रिन्न जाणी, तिहां द्रष्टी नहि रोकतां शुद्ध स्वगुण पर्याय मांहे लावी स्वद्रव्य मांही स्थिर उपयोग करी अखंरु, अचल चावे रहेवुं एज सार ठे.

कोइ कहेशे जे सुंदर स्त्री साथे रति क्रिया करवी तेज सुख ठे, पण ए कांइ सुख नथी, कारणके रति क्रियामां सुख होततो, तेनो अज्ञाव तथा थाक लागतो नहि माटे मोहनी धेलठाए मिथ्याद्रष्टी जीवने सुख जणाय ठे अने एना काम वीर्यनी गरमीनी आतुरतानो प्रतिकार ठे, जो एमां सुख होततो, कामथी तपेलो पुरुष अंध सरखो थइ मोटा मोटा अनर्थ पण करे ठे, ने कामनी शांतिना अर्थे स्त्री आदिकथी पराधिन थाय ठे, अने ज्यां सुधी काम वीर्यनी शांति नथी थइ त्यां सुधी अत्यंत आतुर वनी रहे ठे अने जो एमां सुख होय तो कामनी शांति थया पठी काम जोगनो अज्ञाव केम थाय ठे? अने मनना वेगे चडी अतिशय कामने सेवे तो श्वास, दम, क्षय, विगेरे अनेक रोगो उपजे ठे, तो एने सुख शी रीते कहिए? ए तो एक जातनो असाध्य रोग ठे. जेने सुख जाणी घणा जीवो परम दुःखी थया ठे. जो कदापि सरस आहार खावामां सुख होयतो ते पण खावार्थी थाकी जाय ठे अने आखरे अज्ञाव थाय ठे, अने ते पण मनना वेगथी रोगथी एटले लुधा करतां वधारे आहार ले तो अनेक प्रकारना जयंकर रोगो उत्पन्न थाय ठे. तेमज सुगंधी मांहे पण सुख होय तेम जणातुं नथी, पण एतो मगजनी गरमी अग्र

पित्तना विकारथी सुगंधी जली लागे ठे, - पण ते विकार मध्या
 पठीथी कांइ जली लागती नथी, अत्यंत सुगंध लेवाथी पण मग-
 जमां केटलीक जातना रोग उपजे ठे, अने अत्यन सुगंधी लेनारो
 पण सहेज दुर्गंधीथी हेरान थाय ठे, (वमन) अरुची विगेरे रोगो
 खना थाय ठे. तेमज आंखथी मन गमतां रूप देखवाथी जे सुख
 मानवुं ते फक्त मननीज माननीयता ठे, अने मन गमतां रूप देख-
 वावालाने अणगमतां रूप देखवाथी घणी तरेहना रोग खडा थाय ठे
 तेमज मनगमता राग रंग सांजलवाथी जे सुख मानी लेवुं, ते पण
 मिथ्या मोह विकार ठे. राग सांजलवामां अने मनगमतां रूप
 जोवामां घणा लोको पोतानां राज्य खोइ वेळा, अने चारे संकटमां
 आवी पड्या, माटे ए कांइ सुख नथी पण विकार ठे. कोइ धनथी
 सुख जाणे तो ते विषय अने माननी नजरथी सुख मानी ले ठे,
 पण विषयोमां सुख नथी, ते तो ऊपर जणावी दीधुं अने मान-
 वालो घणा अपमानना दुःखने जोगवे ठे, धनवालाने हमेशां जयनुं
 दुःख वन्युं रहे ठे, चोर, लुंढारा प्राणघात करे ठे, अन्यायी राजा
 विना गुन्हे पण दंडे ठे, ते धनने अर्थे दरिया, डुंगर, नदि, राक्षसो,
 रीठो अने फाकी खानारां जनावरोवाली धरतीमां अथडाइ घणा
 दुःखने जोगवे ठे. एटले ऊपर लख्या शिवाय अनेक जातनां ऊप-
 चरित सुख मिथ्यादृष्टीथी सुख मनाय ठे, पण ते जाते दुःख अने
 दुःखनां कारण ठे, सुख तो ऊपाधि रहित ज्ञान समाधि मांही ठे.
 जीहां ऊपाधि नहि ते समाधि जाणवी ते तो आत्म तत्त्व मांहेज
 होय. अनंत पुद्गल परमाणु वर्गणार्थी उपजेलु आ गरीर तेमांहे
 समाधि होय नहि, माटे परमा आपापणुं तजी शुद्ध उपयोग करी
 सहजानंद समाधिमां रहीए तो इहां कोश्नो दावो नथी परतंत्र-
 तानुं दुःख नथी, अने स्वतंत्रतानु सुख ठे, सकलागनुं दुःख नथी
 अने मोकलाशनुं सुख ठे, नाश थवानुं दुःख नथी अने अविनाशी

पणानुं सुख ठे, अज्ञाननुं दुःख नथी अने ज्ञाननुं सुख ठे, चपल-
तानुं दुःख नथी अने स्थिरतानुं सुख ठे, उपाधिपणानुं दुःख नथी
अने निरुपाधिक पणानुं सुख ठे, जयनुं दुःख नथी अने निर्जयतानुं
सुख ठे, खंभित थवानुं दुःख नथी अने अखंभित पणानुं सुख ठे,
जन्म मरणनुं दुःख नथी अमर अजन्म पणानुं सुख ठे, संकल्प
विकल्पनुं दुःख नथी अने निर्विकल्पतानुं सुख ठे, बाधा पीडानुं
दुःख नथी अव्याबाधनुं सुख ठे, वीर्य हाणीनुं दुःख नथी अखंभ
अचल वीर्यनुं सुख ठे, एम अनंत दुःख रहित अने अनंत सुख
सहित पोते आत्म तत्त्व ठे. हवे आत्माए ज्यांसुधी पोतानुं स्वरूप
जाण्युं नथी त्यांसुधी पोतानी अन्वय तथा अनन्य रिद्धिने जोगवी
शक्तो नथी, अने पोताना कर्ता जोगादि गुणो परानुयायी अइ पर-
जावने करे ठे, जोगवे ठे, ते ज्यारे शुद्ध स्वगुण कार्य कचे थके
कारक जाव विजावथी ऊलटे एटले सर्वे स्वगुण शुद्ध कारक जावे
प्रवर्ते ते सर्वे शुद्ध उपयोगनुं फल ठे, माटे शुद्ध उपयोग पामवा
प्रयत्न करवुं. ते शुद्ध उपयोगना निमित्त कारण सद्गुरु ठे. ते सद्-
गुरु केवा होय ? सिद्धांतना रहस्यना जाण, अगर स्वसमय पर सम-
यना जाण, निर्ग्रथ, एटले द्रव्यथी नवविध परिग्रह रहित अने
जावथी राग द्वेष रहित, निरपेक्ष, निस्पृह, राग, द्वेष अने विषय
विकारथी ढोडाववावाला, स्वपर स्वरूपने देखाडवावाला होय,
बाहिरनी धामधुम अज्ञान कष्ट न करावे पण शुद्ध साध्य सापेक्ष जे
उत्सर्ग अने अपवाद मार्ग एवी प्रशस्त क्रियाना जणावनार होय.
एथी जे ऊलटा आत्म स्वरूपथी अजाण बाहिरनी क्रियाना आडं-
वर देखादी जोगा लोकोने जरमावे ते सद्गुरु नथी, अगर कोइ
जोगो बाहिरथी वैराग्य पामीने आत्म स्वरूपनो अजाण ऊग्रविहार
करनारो वावीसे परिसह सहेवा वालो होय, तोपण गुरु न जाणवो-
कारण के कारण कार्यनी जिनता जाण्या विना मोक्षमार्ग साधी

शकाय नहि, जोला लोको कारण कार्यने एकज जाणे ठे, अथवा कारणनेज कार्य माने ठे, ते कारण कार्यना अजाण वेशधारीथी सम्यक्त शी रीते, पमाय ? अने समकित वीना सर्वे क्रिया निष्फल ठे.

आर्यावृत्तम्

उक्तंच—विरया सावज्जाउं, कसायहीणा महद्वय धरावी ।

सम्मद्दिष्टि विदूणा, कयावि मुक्तं न पावंति ॥

द्रव्यथी सर्वे सावद्य व्यापार ठोड्या ठे, वहारथी कपाय पण करतो नथी, अने व्यवहारथी पंचमहाव्रत पण पाले ठे एटले वाहे-रथी सुधर्मास्वामी सरखी क्रिया पाले ठे पण अंतर समझटी एटले सम्यक् झट्टीए सर्वे ऊपर समजाव नथी, तो कदापि मुक्तिने पामे नहि. माटे शूडे प्रकारे समजाव आदरवो एज सार ठे.

गाथा—॥ नयजंग पमाणेहि, जो अप्पा सायवाय जावेण;॥

॥ जाणइ मोखवसरुवं, सम दिष्टीयो सो नेउं ॥

अर्थः—नये करिने, सत जंगादिने जागे करिने, प्रत्यक्षादि प्रमाणे करिने, आत्माना स्याद्वाट सत्ताने अने मोक्ष स्वरुपने जे जाणे, तेने समकिति समझटी कहिए. वली पोताना स्वरुपने सिद्ध समान अखंड जाणे के पोतानी रिद्धिनो कोईथी नाश थइ शके तेवो नथी तो क्रोध शी वावत ? अने कोना उपर करवो ? अने सर्वे आत्माने सिद्धसमान जाणे तो कोण नीचो ? अर्थात् कोइ नीचो अगर कोइ उंचो पण नथी तो मान शी वावत ? अने कोना उपर करवो ? सर्वे जीवमांहे ज्ञानादिक रिद्धि समान ठे तो हुं केने, अने शुं ठगु ? सर्वे पोताना ज्ञानानदने जोगवीने सदाय मग्न रहो, मारे जोगववाने माटे माहरी ज्ञानादिक रिद्धि मारे पासे ठे, तो ए शिवाय मारे शुं मेलववुं ? अने लाववु अने संग्रह करवो, माटी, जूमी आदिक एटले धातु, रत्न आदिक मारे काम आवतां नथी, ए रोगीना कामनां ठे पण हुं

उपाधि अपने संग रहित शुद्धात्मा हूं भाटे भाटे रूपनां नयीं. भाटे अन्यानी भासा श्री वाचन ? अज्ञान अज्ञानां हूं ज फेने पुद्गल प्रिया करी अनंतीवार हांगीनो पात्र पयो. तो कर्मने यही सर्वे जीवानी एज दशा ठे. हंचे कर्मथी निज भे मारी न्यागी सना जागीनो हांगी श्री वाचननी होय ?

भन, धान्य, परिवार, शरिर आदिमां भाटे रनि नयीं. केनके ए जक निनाशिक पदार्थ ठे. ते भन धान्यादिक पुद्गल लोग न नले तनी भाटे अरनि नयीं. भाटे भाग जनादिक अनंत अज्ञानमां रनि ठे.

भाटे जनादिक भन अपने वेतना हीरे भाग अंगथी अतुट, अनंत निगपाथ ठे तो भाटे उच जानो ?

अनंत वेतना जना कर्मनां पण भाग अंगमांथी एक अवेदा के गुण गयो, के तुटो, के तुटो नयीं तो भाटे जोक जानो ?

सब सृजना पिंडरूप थी पुद्गलां अंग नेथी न्यागे हूं शुद्ध वेतन अंग शुद्ध पिंड, तो कामनी वेतना सागनां नथी.

आणसता रण, रण, गंध, उग्र, अने अज्ज भाग धान्य अंगने हरकत करी जकना नथी. जेने वेदनां समत्व होय तेने हरकत करे, वेदना समत्व रहित हूं शुद्धात्मा हूं. भाटे अज्ञानां जानी ? एम कपायनी प्रकृतिमांथी मन, बचन, कायाना वागोनी प्रकृति रोक्यो पोताना शुद्ध स्वभावमां स्थिर पदं. वेदना समत्व उच बलना परनां प्रवेश करी कोण सृष्टे कपाय एम अशिते लोगये ? असाद परपदनां व्यापकता मने न घटे, पुद्गलना अनंत पर्यायमां अज्ञानथी सुख अने जोग मानी आशक्तपणं, रागरिक्तपणं मने न घटे. कोणट प्रकृति करी देवनी वेद करवी ते हंचे कोण करे ? हूं सर्वे पुद्गल कार्यथी विराम पामी सद्विज्ञानंद्मांदि तूत रहीश. अज्ञानपणे कियानो समत्व करी अनंत काल कोणट खोयो हंचे सद्वृत्तना बचनमृत रस चाखवाथी कांश्क चेतना सचेत थइ, तो जाणुं हूं के मारी सजा-

चूमी मारे स्वतंत्र ठे, पण परमां व्यापकता करी तेथीं आजसुधी स्वरूप रमणनो अवकाश मढ्यो नहि, बहिरातम जावे धन, कुटुंब परिवार, गाम, नगर आदि पोतानां जाणी सदाए व्यापी रह्यो, आमारो शत्रु, आमारो मित्र, हुं स्त्री, हुं पुरुष, हुं चालं, हुं युवान, हु बुद्धो, हुं गोरो, रातो एम जूठा विकल्प करी, क्रिया रसे रिंजी, अनंतां नवीन कर्म वांध्यां हवे जिनेश्वरनी वाणीनुं रहस्य शुद्ध नयने पामीने मारुं स्वरूप देहादिकथी चिन्न ज्ञानानंदमय जाणुं तुं, पूर्वना वेगे उदयना मरोनथी जो कदापि उदयनी वेदना सहुं तुं, तथापि सत्ता गुणे सिद्ध समान, अरूपी, अकलंक, निर्दंड, निरामय हुं. हवे मोह शत्रुने तावे थइ स्वरूपने न चूलुं एम अतर-आत्मां परमात्माना स्वरूपने जावतां सदाए शुद्ध नयने चजु शुद्ध नये आत्म सन्मुख थइ जिन आणा प्रमाणे आपणा गुण-गणा माफक क्रिया कर्ये ज्ञान क्रियाथी मोह कळ्यो ठे. ते ज्ञान तो आत्मानो गुण ठे, ते ज्ञान आत्माथी चिन्न नथी, माटे आत्माज आत्म जावे रमे, तेज अध्यात्म क्रिया आदरवी. वली आगममांहे विप, गरल, अन्योअन्य, तद्हेतु अने अमृत, एम पांच क्रिया कही ठे. तेमांहे आ चवता सुखने अर्थे जे क्रिया करवी ते विप क्रिया ठे, बहिरात्म जाव ठे परचव अर्थे एटले इंद्रचक्रवर्ती आदिनी पदवी अगर पचेन्द्रियजोग अर्थे जे क्रिया करवी ते गरल क्रिया बहिरात्मजाव ठे वली अपमान टालवा अथवा मान शोचा वधारवा माटे जे अन्योअन्य अनुष्ठानादिकनु करवुं ते पण बहिरात्म जावठे ए त्रणे क्रिया परमात्मांहे तजवी कहीठे अने तद्हेतु तथा अमृतते आदरवी कहीठे ते तो जेद्-ज्ञान अगर धर्मध्यान अने शुक्लध्यान, ते आत्मपरिणामे आत्महृद मांहेज वने, माटे स्थिर उपयोगे स्वसत्तामां रमण करवुं. सर्वेससारी जीवने चार ध्यान मांहेनु एक ध्यान सदाए काल होय, ते मांहेथी आर्त्त, रौद्र ए वे ध्यान तजवां कळां ठे ते मांहे इष्ट वस्तुनो वियोग,

अनिष्टवस्तुनो संयोग, तथा पीडानुं चिंतवतुं, अने आवता कालनी चिंता, ए सर्वे आर्त्तध्यान वहिरात्म जाव ठे, माटे तजवो. अने हिंसा, असत्य, परधन हरण अने परिग्रह संचयनुं चिंतवन, ते रौद्र-ध्यान वहिरात्म जाव ठे, अशुद्ध उपयोग ठे, माटे ठोमो. अने जे धर्मध्यान ते परमेश्वरनी आज्ञानो विचार, कर्मबंधनो विचार, कर्मना शुजाशुज फलनो विचार, अने संस्थान विचार, ए चार प्रकारनुं चिंतवन ते धर्मध्यान कहीए, परमेश्वरनी आणा स्वरूप रमण करवानी ठे अने शुजाशुज कर्म तेना विकारथी अने सर्व संस्थानथी हुं जिन शुक चेतना तुं, एम स्वपर विवेके जेदज्ञानमांहे चित्त रमावी पर त्यागी, निजगुणमांही मग्न थवुं; ते तो वाहिर क्रिया नथी पण अंतरद्रष्टीए आत्महृदमांहे वने माटे अध्यात्म क्रिया आदरवी. शुक्लध्यान ते तो वस्तुना यथार्थ स्वरूपने जाणी शुजाशुज सर्वे विकल्प तजी आत्म स्वजावे स्थिरशुच थवुं, ते तो पूर्ण शुद्ध उप-योग ठे. माटे जीहांथी तिहांथी चित्तने वाली स्वरूपमां लावी स्थिर उपयोगे स्वरूप रमण करवुं, वर्णादिक पर पदार्थ मांहे चित्त रोकाय ठे, ते तो विषयोमां सुख वासनाथी अनादिनुं वेगे चमेलुं चित्त त्यां जइ व्यापे ठे, ते चित्त स्वगुण पर्याये ज्ञान वासित करी परथी पातुं वालो, जेथी सर्वे कारक चक्र सुलटे, अने आत्म सत्तामांहे दीन थइ मग्न थइ रहे, ते अन्यास करवो. जेम जेम वाहिर द्रष्टीए देखीए तेम तेम मन बाहेरला पदार्थमां जाय अने अंतरद्रष्टीए देखीए तो मन स्थिर थाय, अने विश्रामने पामे. माटे जे जे कारणोथी चित्त चलाय-मान थाय ते ते कारणोथी वेगला रही एक शुद्ध चेतनाने अनुभवो तो अक्षय पद तमारा पोतानाज हाथमां ठे. जीहां सुधी वहिरात्म जाव ठे, तीहां सुधी चित्त स्थिर थवुं कठण ठे, माटे वहिरात्म जाव ठांरवाने निचे लखेलो विचार दर समये करवो.

के आ सात धातु अने मलथी बंधायलुं शरीर ते हुं नथी, जो ए हुं

होततो मांस, रुधिर, हाड, मेद, मज्जा, वीर्य, रस, ए सात धातुमांथी
 अने सात मेलमांथी हुं एक कोण तुं ? अथवा ए सर्वे हुं तुं, तो हुं अनेक
 तुं के एक तुं ? हुं अनेक होऊं एम तो संजवे नहि हुंतो एकज तुं,
 तो शुं हुं रुधिर तुं ? जो कदापि हुं रुधिर होऊं तो रुधिरना अनेक
 वीडुवा थाय ठे, वली ते रुधिरना एक वीडुमां वायु, पित्त, कफ
 आदि अनेक पदार्थ ठे, अने ते दरेक पदार्थ अनंत पुद्गल परमा-
 णुना संयोगथी वनेला ठे, तो ते मांहेलो कयो परमाणु हुं ? एम साते
 धातुनो विचार करतां स्पष्ट मालूम पके ठे के ते मांहेलो तो हुं नथी;
 पण एने जाणनारो चेतना लक्षणे लक्षित आत्मा तुं वली पांच
 इंद्रिय अने अंगोपांग मांहे हुं कइ इन्द्रिय तुं ? अथवा कयुं अंग के
 ऊपांग तुं ? ए सर्वेने हुं जाणुं तुं, देखुं तुं, ए मने जाणतां नथी,
 देखतां नथी, हुं मने ज्ञाता अने दृष्टापणे तन्मयपणे जाणुं तुं. जे
 बीजा पदार्थने जाणुं तुं ते माराथी चिन्न जणाय ठे, पण तन्मय पणे
 तो ते पदार्थ नथी, केवल ज्ञायकता तेज मारो मूल स्वभाव ठे, तो
 बहु पुद्गल संयोगे ऊपजेलुं शरीर अने ते मांहे ऊपजता विषय
 कपायादि विकारने मारा केम मानुं ? मारे एने शो संबंध ठे ? मारी
 जाती नथी, अनंत पुद्गल संयोगी ठे, माटे विखरी जवाना ते तो
 निर्धार ठे. तो एवा मिथ्याज्ञावे करी चपलताना दु.खने केम जोगवुं ?
 ए मांहे लक्ष देवानी मारे कांइ जरूर नथी. ए पुद्गल पोतानी
 स्थिति प्रमाणे मले, विखरे, पोतानो सरुण पडण विध्वंसण धर्म ठे
 ते कदापि नहि ठोडे, तो हुं जूगेज एना पाठल पडी पुद्गल शक्ति
 राखवानी ऊमेद करुं ते केवी चूल ठे ? हवे एवो पूर्व अच्युस तजी
 मारी केवल ज्ञायकता शक्ति सजाली अचल अकंप जावे रहुं ते
 परमानद ठे. अहिंसां चोरनुं जोर नथी, राजानो हूकम नथी, मर-
 णादिकनो जय नथां, पारकी तावेदारी नथी, रोग नथी, शोक नथी,
 जीख नथी, श्रम नथी, कांइ सकृशाश नथी, कांइ लाववुं नथी,

कांश् ब्रह्मवुं नथी, माटे जिनेश्वरना वचन रूप अमृत आदरी सर्वे
 क्लेशथी मुक्त थवुं. केवल ज्ञान गुण शिवाय जे अन्य अन्य ज्ञाव
 चासे ठे ते पुद्गल संगे राग द्वेषथी मिथ्याज्ञाव चासे ठे. पण जे
 समय मारी सत्ता तरफ लक्ष आपुं तो केवल शुद्ध चेतना जेम ठे
 तेमनी तेम कायम ठे. द्रव्यनी सत्ता द्रव्य मांहे द्रव्यथी अनादि
 अनंत काल सुधी रहे कोइ काले नाश पामे नहि, पर्याय धर्मे अथवा
 जेद धर्मे द्रव्यनी अंदर जे अनेकता चासे ते अनेकता एकताथी
 जिनन्न नथी, जेम चेतनामां ज्ञान गुण कह्यो ते ज्ञानज ठे. अने ज्ञाननी
 निःशंकता निर्धारता ते दर्शन ठे. अने ज्ञाननी ध्रुवता, अचलता, अकं-
 पता, तिदणता, ते चारित्र ठे. एम सुख, वीर्य आदि जेद धर्मे अनेक
 कहेवाय पण एकज ठे. पण परगुण ते स्वगुण मांहे एकता पणे थाय
 नहि. जे द्रव्यनो जे गुण पर्याय होय ते गुण पर्याय ते द्रव्य मांहीज
 समाय पण बीजा द्रव्य मांही समाय नहि. माटे हुं स्वगुण संतोषना
 सुखने केम ठोकुं ? शा माटे प्रमाद करुं ? आ वात चूक्या पठी कोण मने
 चेतवणी आपशे ? माटे आ अवसर पामी सर्वे संकटप विकटप तजी
 शुद्ध उपयोग करी अनंत सुखनो जोगी थाजं. विखय रूप रोग तेने
 जोग जाणी आज सुधी में खोटा मनोरथ कर्या, बहु शुजाशुज बंध
 कर्या, आत्म गुणनी घात करी, न कही शकाय एवां दुःखोने जोग-
 गव्यां, हवे ए विषयोथी विराम पामी स्वतंत्र आत्मानंद जोगी थाजं.
 पूर्वना अज्ञ्यासथी मोह पामी न चूकुं सावधान रहूं. धन्य ठे ! तेने
 के जे विषय कषायथी विराम पाम्या. धन्य ! मने के विषयथी विराम
 आपनार जिनेश्वरना वचननो रहस्य हुं पाम्यो. बली धिक्कार ! मने
 एवो रहस्य पाम्या ठतां पण हुं मारी शुद्ध चेतना परिणति संज्ञालतो
 आदरतो नथी, ए महा मोह जाल मिथ्याचार जव वासना ठे. हवे
 शुं हुं पोताना सुख माटे प्रयत्न न करुं ? शुं हजी हुं मोह वश थाउं ?
 शुं हजी हुं रांकवुं ? मारीज चूलथी पारके तावे थइ दीन बनी रहूं

एम तो मने न घटे. परमेश्वरे आत्मानी अनंत सत्ता अनंत महीमा परम उंच पद वर्णव्युं ठे.

तेज मारा परम पदने समय पण न चूकुं. जिहां चेतना लक्षण शिवाय अन्यजाव ठे ते मारा नथी तो तेनुं मारे कांइ पण प्रयोजन नथी. जे वखते मारी शुद्ध चेतनामां अचल अकंप रहीश त्यारे हुं स्वतंत्र परमानंदनो अधिकारी थइश.

॥ दोहरा ॥

चेतन चेतन जावमां, रहेशे जेह अडोल
मनसुख शिव त्रिय संगशुं, करशे सहज कलोल (१)
वरणादि रागादि विन, थिर ज्ञायक उपयोग,
चले न वीरज अन्यथी, सहजानंदसुं जोग (२)
एम अनुभवतां आतमा, डढ करी मन वच काय,
मनसुख नरचव पाइके, कीजे सिद्धि सदाय. (३)

संपूर्ण इति श्री रस्तु.





॥ ॐ श्री वीतरागायनमः ॥

॥ अथ श्री अनुभव प्रवेशिका ग्रंथः प्रारभ्यते ॥

॥ माखिनी वृत्तम् ॥

- ॥ रूपञ्च अजित बंदो, मोक्ष मार्गाधिकारी ॥
 ॥ करम चरम हारी, निर्मलानंद धारी ॥
 ॥ विमल सुनय वाणी, वस्तु सत्ता वखाणी ॥
 ॥ सुर नर पति वदे, सिद्धिना हेतु जाणी ॥ १ ॥
 ॥ जवि दरशन पावे, आत्मा आत्म जावे ॥
 ॥ गुण रमण रमावे, एकमां एक जावे ॥
 ॥ सवि दुरित खपावे, जावना शुद्ध जावे ॥
 ॥ जय पडह वजावे, शीव संपत्ति पावे ॥ २ ॥

॥ मंदाक्रांता वृत्तम्. ॥

- ॥ आत्मा जोने अखिल जगमां, सर्व वस्तु विचारी ॥
 ॥ आपा आपे निज निज ड्रव्ये, आपणां कार्य कारी ॥
 ॥ कोई केना गुण न प्रणमे, नास्तिता अन्य धारी ॥
 ॥ सिद्धा सिद्धे सहज थिरमां, लक्षणे लक्ष धारी ॥ १ ॥

॥ दोहरा ॥

- दर्पणमां मुख जिम लखे, ज्ञायकतामां आप;
 उपयोगी उपयोगथी, प्रगटे पूर्ण प्रताप. ॥ १ ॥
 कुमत तिमिर टाळी करे, हृदय सरोज विकास;
 दिनकर किरण समो सदा, पुरुपादानी पास. ॥ २ ॥

अथ ज्ञाषा लिख्यते.

ॐ श्री वीतरागायनमः

गाथा ॥ दृप्पण दंसणेणय ॥ ससश्वं जह पस्सदि कोवि णरो ॥
तह वीयरायायारं ॥

गाथा ॥ दर्पण दर्शने न च, स्वस्वरूपं पश्यति कोपि नर ॥
तथा वीतरागाकारं, दृष्ट्वा स्वयं रागे तत अहंहि ॥

अर्थ—जेम कोइ पुरुष दर्पण लेइ तेमां पोतानुं स्वरूप देखे तेम वीतरागाकार प्रतिबिंब देखी पोते पुद्गलमां रह्यो थको पण पुद्गलना राग रहित पोताने देखे तो पोताने वीतराग रूप जूए, एटले जो हुं शरीर रूप पर ड्रव्यने अहंपणे न जोजं तो अनंत ज्ञायकतामय वीतराग रूपे हुं पोतेज तुं, एटले पर ड्रव्यमां अहंपणुं अने राग तजी पोते पोताने ज्ञायकतावंत जोतां सर्वे दुःख विलय जाय, शाश्वतो आनंद स्वतंत्र प्रगटे, पर रहित निजपद संज्ञालतां परमपदनी प्राप्ती थाय. एज उपाय देखाडीए ठीए.

पोतानीज ज्ञायकता शक्ति वने पोताने न जोतां जलटो परमां आपो मानी पोताने चूली रह्यो ठे, तेज ज्ञायकता परथी पाठी वाली पोताने ज्ञान रूपे जूए तो मुक्ति स्त्रीनो कंत थाय. निजरूप परिणाम करवामां कांइ क्लेश नथी, तो ए परिणाम जीव केम करतो नथी ? अनादि कालथी परमां अहंपणा रूप निविम गांठ पकी ठे, आपा परनुं एकत्व संधान थइ रह्युं ठे जेम कोइ पुरुषने अफीण खावानी टेव पडी तेथी परवश थइ दुःखी थाय ठे, अफीणनी टेव ठोडवाथी सुखी थाय पण बहावरु आववाथी टेव ठोमी शकतो नथी. तेवी रीते पर संबंघे मोह बंधायो ठे ते ठोमे सुख ठे पण जेदज्ञान विना परमां अहं ममत्व करी जूवुं सुख मानी ते विनाशी पदार्थने स्थिर राखवा चाहे अने पोतानी मरजी प्रमाणे प्रवर्त्ताववा चाहे, पण पर ड्रव्य

कोइनो संगी नथी, ने कोइ ड्रव्यनी परिणति अन्य ड्रव्यनी इष्टां अनुसारे परिणमे नहि, तो पण तेने राखवा यत्न करतो अडार पाप स्थानक सेवी चोराशीलाख जीवायोनिमां त्रमण करी महा विपत्ति-नो जोगी थाय ठे अनादि अविद्या वृटेज सुख ठे ए अविद्या नाश करवाने अर्थे प्रज्ञारूप ठीणी आत्मा तथा परना एकत्व संधानमा मूके, स्वपर अश ड्रव्य गुण पर्यायवडे न्यारा न्यारा करे, परना परमां समावी पोताना पोतामां राखी स्थिर उपयोगे तन्मयी थइ मग्न थाय, पठी जरु परिणामनो प्रवेश नथी, परथी पोताने चित्र केवी रीते जाणे ? के परमां अहंपणुं जाणनार माननार एज मारा ज्ञान स्वरूपनी वांनगी ठे, एज ज्ञान वांनगीने जाणी जाणी अनेक संतो पोतानुं पूर्ण स्वरूप पामी अजर अमर पदने पाम्या चित्तने चेतनामां लीन करे स्वरूप अनुभवनो विलास सुख निवास ठे, तो अनुभव केवी रीते करे ते कहीए ठीए.

निरंतरपोताना शुद्धात्म स्वरूपनी जावनामां मग्न रहे; दर्शन ज्ञान चेतनामय उपयोग ड्रढ जावे. हुं उपयोगवंत तुं, ज्ञान पुंज, अखंड, एक, अज, अविनाशी, स्वतंत्र, अनंत चेतनवीर्यवंत तु, एथी जे अन्य ते हुं अने माहुरुं नहि, पोताना ड्रव्य गुण पर्याय पोतामां यथार्थ अनुभवे; एटले पोतानी अनंत शक्तिनो आनंद रस ले. निज आनंद अनुभवथी पंच परमेष्टी थया ठे, थाय ठे, अने थशे, ए प्रताप अनुभवनो ठे. अनुभवना आचरणने अरिहंत सिद्ध सेवे ठे. अनुभवमां शुद्ध आत्मिक सिद्धताना सकल रस आवे ठे. ने कहीए ठीए—ज्ञाननो प्रगट प्रकाश अनंत गुणने जाणे, ज्ञान विशेष गुणनी परिणति परिणमे ज्ञान परिणतिने जोगवे, आस्वाद ले, तिहां अनुपम आनंद फल निपजे. तेमज दर्शन गुण परिणति परिणमे, वेदे, आस्वाद ले, अखंरु आनंद अनुपम रस ले, तेथी सर्वे रम परिणति छारे आव्यो, गवी रीतेज ड्रव्यने परिणमे त्यारे परिणति छारे ड्रव्यनो अनुभव थयो,

अनुभवनो रस गुण परिणति एक रस थये थाय ठे. आत्म वस्तु अनंत गुण चेतनानो पुंज ठे, ते गुण चेतनानुं संक्षेपथी वर्णन करीए ठीए,—

सकल गुणमांहे ज्ञान परम प्रधान गुण ठे. ज्ञान विशेष चेतना ठे सर्वनो ज्ञाता ठे, ज्ञान इंद्रिय ग्राह्य नथी, वली ज्ञान सदाए उत्पाद, व्यय, ध्रुवयुक्त शाश्वतो निज गुण ठे, ते अनंत वीर्य सहित ठे, अगुरुलघुमयी ठे, जो अगुरुलघुमय न होत तो हलको चारी थइ जडता पामतो, ते ज्ञानादि गुण सर्वे सकल समय प्रमेय रूप ठे. आपणी मर्यादा ठोडे नहि, प्रमेयविना प्रमाण रहे नहि वस्तुविना प्रमाण शानुं थाय ? अस्तित्वविना वस्तुत्व कोना आधारे रहे ? प्रदेशत्व विना अस्तित्व कोनुं कहीए ? प्रचुत्वविना प्रदेश प्रचुता शेनी रहे ? द्रव्यत्व विना पर्यायनो आविर्भाव तीरोच्चाव कोने आधारे रहे ? सत्त्व विना सत्ता असत्ता रूप थाय, विचुत्व विना प्रचुत्व सर्व मांहे केम थाए ? जीवत्व विना विचुत्व अजीव थाय, चेतना विना जीवत्व क्यां वत्ते ? ज्ञान विना चेतनानुं विशेष ज्ञान न थाय, दर्शन विना सामान्य विशेष ज्ञान न थाय, ज्ञान सर्व ज्ञाता ठे ते विना दर्शन सामान्यने कोण जाणे ? सर्व दर्शित्व विना ज्ञानने कोण देखे ?

चारित्र चेतना विना दर्शन ज्ञाननी स्थिरता क्यां रहे ? परिणामीकत्वविना चिद्विलास क्यां रहे ? अकारण कार्यत्व विना पर कारण थाय तेथी निज कारण कार्यनो अज्ञाव थाय, अस्खलित गुणविना अविनाशी चेतना विलास स्वलना पामे, ग्रहण त्याग शून्यत्व विना ग्रहण त्याग बन्यो रहे, पर अकर्तृत्वविना पुद्गल कर्मनो कर्ता थाय, पर अज्ञोक्तृत्व विना परज्ञोगी रहे, असाधारण विना स्वपर द्रव्यनो जेद न पडे शंकरपणुं आवे, साधारण विना सामान्य स्वज्ञाव न रहे, तत्वविना वस्तु स्वज्ञाव न धरे, अतत्वविना परतत्त्व आवे, ज्ञावविना परज्ञाव आवे, सद्ज्ञावविना अतितज्ञाव

अनागतमां न रहे, ज्ञाव अज्ञावविना परिणाम समय मात्र न संज्ञवे, अज्ञाव ज्ञावविना गतागत परिणाम वन्यो रहे, अज्ञावविना कर्मनो सद्ज्ञाव जाणे, अज्ञाव अज्ञावविना अतीतमां कर्म अज्ञाव हतो ते अनागत अज्ञावमां एवुं न थतुं, कर्त्ताविना निजकर्मनो कर्त्ता न थाय, कार्यविना स्वज्ञाव कार्य न थाय, कारणविना परिणामे करी स्वरुपनुं साधन हतुं ते न थतुं, संप्रदानविना आत्मा आत्म परिणामे करी आत्म सपदानो दाता न थाय, अपादानविना पर संपदानोज दातार रहे, अधिकरणविना सकल कार्य पर्यायनो आधार न थाय, स्वयंसिद्धविना पराधिनता आवे, अज विना ऊपजे, अखंमिक्त्व विना खडन पामे, विमलविना समल रहे, एकविना अनेक थाय पिंडनुं एकत्वपणुं न रहे, अनेकविना गुण पर्यायनी अनंतता न रहे, नित्यविना नाश पामे, अनित्यता विना पद गुण हानि वृद्धि न थाय अर्थक्रियाकारित्व न रहे, जेदविना ड्रव्य गुण पर्यायनो जेद न रहे, अजेदविना प्रदेश अजेदपणे एकाधारे न रहे, अस्तित्विना असत् थाय, नास्तित्विना पर ड्रव्यादिक पणुं पामे (पररूपे थाय), अचल स्वज्ञावविना स्वज्ञावयी चलायमान थाय, ऊर्ध्वगमन स्वज्ञावविना उंचत्व पद न पामतो इत्यादिक अनंत विशेषणो जाणी जे जे ड्रव्यना जे जे विशेषणो ते ते तेनां तेनामां समावी परड्रव्य, उपर ऊदासिन्न वृत्ति करी पोतानां विशेषणो पोतामां अजेदपणे समावी निर्मल, निःकप उपयोगे, समयानंतर आनंदमां मग्न रहेवुं.

प्रथम अनादि परमां अहंज्ञाव रूप मिथ्या परिणामरुप अविद्यानो, जेदज्ञानवेके स्वपर गुण पर्याय जिन जिन विचारी नाश करे. शुद्ध नये स्वरुपना जाण सहजानंदी गुरु पासे स्वपर ड्रव्यनी जिनता जाणी, मिथ्यात्वनो अंश मात्र राखे नहि, निःशंकितादि अष्ट गुण प्रगट करे, पठी परगुण पर्याय उपरयी राग उठावे. परना अहंपणावेके मोहनिय कर्मनी अष्टावीश प्रकृति अने तेना असं-

ख्याता अध्यवसायथी मुंझाइ अज्ञान, मिथ्यात्व, अने पराचरण रूपे वर्ते ठे. शुद्ध नये पोताने पोतापणे जाणतां सकळ अध्यवसाय रूप विज्ञाव तथा परने पोतापणे जाणवाथी थएला सर्वे शुजाशुच संकल्पोनी तरंगोना कळ्लोल नाश पामे, परमस्थिरता आवे, निर्मल शुक्लध्यान पामे, वीतरागता पामे, पर प्रवेशनो अज्ञाव थाय, तेवारे निज ज्ञाने निज अनंत गुणनो ज्ञाता, अने पोताना रम्य स्वरूपमां रमण करवावालो परम स्थिरतावंत थाय. स्वद्रव्य गुण पर्यायमय तथा ज्ञान दर्शन उपयोगमय अज्ञेद निज पद जाणी निर्विकल्प समाधिमां मग्न थाय. अनंत महिमा जंमार निर्विकार, सार, अपार शक्ति मंडित, मारुं स्वरूप ठे एम ध्यान धरी निश्चल थाय. पोतानुं सर्वस्व जाणे, एम निज स्वरूपने जाण्याविना परगुण पर्यायने पोतापणे जाणी जाणी संसारी जीव दुःखी थया. ते परने अहंपणे जाणवुं केम मटे ? ते कहिए ठिये.—

हुं उपयोगवंत हुं, मारा उपयोगने परमेश्वरनी वाणी पोकारे ठे, पुद्गलना स्पर्शादिक वीश गुण अने संस्थानादि अनंत पर्याय अने मारा शिवाय अन्य द्रव्यना जे जे गुण पर्याय ते रूपे हुं नथी, सदा निज प्रमेयमय हुं, एम द्रढ निर्धार करे, परपरिणति अज्ञान वशथी में मारी जाणी ते उपर राग रींझें रींजी विविध प्रकारे रींज खीज करतो निज सत्ता स्थलमां स्थिर न रह्यो, हवे परपरिणतिनो राग न करूं तो न थाय. मारा सद्ज्ञावमांहे स्थिर रहूं तो मुक्तित्रियाथी सगपण अवश्य पामुं. कर्मना जर्मनो नाश निज शर्म पामे थाय ठे. ते निज शर्म केवी रीते पामीए ? ते कहे ठे—

हुं चिदानंद जाति हुं, मारी आत्म जाति मांहेला अनंत पुरुषो आनंदपुरीमां निज प्रिया साथे अनंत स्वतंत्र आनंदेविलसे ठे. हुं जगतू जीवनी एंठ चाखतो चोराशी लाख जीवायोनिमांहे चटकतो फरूं हुं ते मने न घटे. आहा ! केवी शरमनी वात ठे के

एकवार वमन करेलुं कोइ चाखतुं नथी तो अनंत जीवोए अनं-
तीवार वमन-करेली एंठने चाखवुं अने ते उपर बलचावुं अने ते
मांहे मग्न रहेवुं ए मने न घटे. पर अथिर जडमां सुख क्यांथी
होय ? मारुं सुख मारा उपयोगमां ठे ते मारो उपयोग सदा मारामां
ठे हुं उपयोगने जूली अनुपयोगी जरु ड्रव्यमांहे अनादिथी रक्त
थयो, सुख स्थानक चेतना उपयोग जूद्यो, सुख क्यांथी थाय ? हवे
में साक्षात् उपयोग ठावो (प्रगट) कयों के अहं नर एवं मानवुं ते
नर, देवादिक शरीर जरुमां तो होय नहि. परमां अहंपणुं मानवुं
मारा अशुद्ध उपयोगथी थयु, जेम कोइ नट बलदनो स्वांगधरी
पोताना मूल स्वरूपने जूद्यो कोइने पूठे ठे हु मनुष्यपणुं क्यारे
पामीश ? एटले पोतानुं स्वरूप जूलवार्थी ए रीत थइ ठे तेमज चि-
दानंद पोताना स्वरूपने जूली नर, देहादिक पुद्गल पर्यायने पोता-
पणे मानी पोताना अनंत ज्ञान वीर्यने अने अवाधितपणाने जूद्यो
ठे ज्यारे पोते पोताने पोतापणे जाणे त्यारे पोते शुद्ध सिद्ध स्वजा-
वने पामे. पोते यत्नविना पोताने जाणयो नहि. कार्य एज ठे के आत्म
श्रद्धाए आत्म सुख अवलोकन थाय ठे ए श्रद्धा शार्थी थाय ?
ते कहिए ठीए—के प्रथम सर्वे लौकीक रीतथी विमुख थइ पोतानी
शुद्धताना विचार सन्मुख थाय. कर्म गुफाविपे तुप्यो निज स्वरूप-
मय चिदानंद राजा रहे ठे ते गुफा त्रण ठे. तेनां नाम. प्रथम नोकर्म
गुफा, वीजी ड्रव्यकर्म गुफा, त्रीजी जावकर्म गुफा. प्रथम नोकर्म
गुफामां परिणति प्रवेश करी पोताना चिदानंद राजाने देखवा लागी
तिहां न मद्यो त्यारे चकित थइ रही, पाठी फरवा लागी, त्यारे
श्रीगुरुए कथुं के “ तुं शुं दुंडुं तुं ” त्यारे ते बोली मारा चिदानंद
स्वामीने शोधुं हुं. ते अहिंआं न मद्यो. त्यारे श्रीगुरु बोल्या “ तारो
राजा हुं वतावुं ” अहिंआंथी त्रीजी जावकर्म नामनी गुफा ठे त्या
ते वसे ठे. तेना हायनी चलावेली क्रिया दोरी नोकर्म गुफासुधी

आवे ठे, जो ते न होयतो क्रिया दोरी पोतानी मेले हावे नहि, माटे विचार. अने ए दोरीना अनुसंधाने चाली जा. द्रव्यकर्म गुफामां प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अणुजाग, तारा स्वामीना निमित्तथी नाम पाम्या ठे. ज्ञानावरणादिक जे जे प्रकृति बंधाइ ते तारा चिदानंद राजाना अशुद्ध जाव निमित्तथी ठे. त्रीजी जावकर्म गुफामां राग, द्वेष, मोहना विकासमां स्वरूप ठूपी रहे ठे. ते राग, द्वेष रूप विकास तारा नाथनो अशुद्ध स्वांग ठे. तेमां तुं शोध. जय न करीश निःशंक जाण. ए राग, द्वेष, मोहनी दोरी साथे जा, शोध, जे प्रदेशथी राग, द्वेष, मोह रूप क्रिया दोरी ऊठे ठे ते प्रदेशवंत तारो नाथ ठे. क्रिया दोरीने तथा अशुद्ध स्वांगने न देखीश, पण अशुद्ध स्वांग धरनार, अने क्रिया दोरी प्रेरनार, अनंत चेतना चिन्ह परम आनंदमय तारा चिदानंद स्वामीने जेटी सुखी था. पोतानो ज्ञान महिमा हुपावी वेगो ठे तुं पिठानी लेजे. ए गुप्त ज्ञान थतां तारा नाथने प्रगट जोइश, ए निजशर्म प्राप्तिनो ऊपाय कह्यो. निज सुखतो निज उपयोगमां ठे. ते दुर्लज्ज केम थयुं ठे ते कहिए ठिये—ए परिणामभूमिकामांहे मोहमदिरा वशे अविवेकमद्व उन्मत्त थयो ठे, विवेकमद्वने जीती रणथंज रोपी खडो थयो ठे. जोरावरीथी चेतनाने चेतनानी सुख निधिनो विलास करवा देतो नथी. ज्यारे विवेकमद्वनुं जोर प्रगटे त्यारे अविवेकने पठाने, त्यारे निज निधि विलासने पामे. पर ऊची खोटो आहार सेववाथी मिथ्यात्व ज्वर ऊपन्यो ठे, तेथी विवेक निर्वल थयो ठे, माटे स्वआचरण पारो, श्रद्धा बुद्धिना रसवने सुधारी सेवन करे तो मिथ्यात्व ज्वर मटी विवेकमद्व सबल थाय, अने अविवेकने नाश करे, त्यारे आनंद निधिनो विलास थाय. स्वआचरण अने श्रद्धा शुं, ते कहिए ठिये.

अनादिथी संसारमां जीव आत्मजावने न जोतां आत्माथी बाहिरनी वस्तुमां कर्मचेतना, कर्मफलचेतनापणे सकल समय

वर्त्यों. ज्ञानचेतनापणे निज निधि विलासना अवसर न पाम्यो. हवे जिनवचन श्रमृत अंतर दृष्टिमांहे अंजन करी ज्ञान, दर्शन, चरण, निज स्वभाव आचरण रूप पारो सेवीए तो आत्मवीर्य वृद्धि पामी विवेकमह प्रबल पराक्रमवंत थाय. हुं कोण तुं ? मारुं स्वरूप शुं ? हुं केम नूढ्यो ? एम परतरफथी दृष्टीवाली दर्शन, ज्ञान, चरण, रूप निज आत्मगुणमां परिणति रमावे दर्शन गुणे देखुं तुं, ज्ञान गुणे स्वपर विशेष स्वभावने जाणुं तुं, चरण परिणामे करी आचरण करुं तुं, ए त्रणे गुणो में अन्य ज्ञेयोमां ज्ञेयार्थपरिणमनपणे प्रवर्त्ताव्या, जो निजमाहे एकत्वपणे रमावुं तो अनंत चेतना निधान मारुं मारे स्वतत्र ठे में ममत्वपणे अनादिथी परज्ञेयोमां आचरण कर्युं, में मारा निर्मल पदमां उपयोग न दीधो, अतींद्रिय सुख लाजथी रीतो रह्यो. अनंत केवली थया तेजए स्वरूप शुद्ध कर्युं, अनंत सुखी थया. मारे पण स्वरूप शुद्ध करवुं एज मारुं कार्य ठे. मुनि-श्वरो निरंतर प्रमाद ठोडी स्वस्वरूप शुद्ध करेठे, माटे मारुं त्रिलोक-पूज्यपद शुद्ध प्रगट करी सहजानंदी थाजुं. कर्म घन घटामां मारा स्वरूप रूप सूर्य तूप्यो ठे, मारा स्वरूपनो प्रकाश कर्म घटाए करी हणायो नथी, पण पर्याय अवरया ठे, वली वली कर्म घटानुं जोर ठे पण मारा स्वरूपने हणि शके तेम नथी चेतनाने अचेतन करी शके नहि पण मारीज नूढ थइ, हुं स्वपद नूढ्यो तुं जागीने जो-ऊंतो मारुं पद अखंड चेतनामय जेमनुं तेम कायम ठे. जेम कोइ रत्नछिपनो रहेवाशी मनुष्य हतो, रत्न समूहमां रहेतो हतो, रत्नना मदिरमां रहेतो हतो, रत्ननी परखनो अजाण हतो, रत्ननी परख-वाला देशमां आव्यो. एना पासे कोइ जागमां लीली मणी चोंटी आवी हती. एकदिन सरोवरे हान माटे गयो जवेरीए सरोवरनुं पाणी लीखुं थयेखुं देखी जाण्यु के आ पुरूप पासेनी मणीना प्रजा-वथी पाणी लीखु ययु ठे. ते पुरूपने चेताव्युं के आ ताहारी मणी

महा मूढ्यवंत ठे, ते बोढ्यो में न जाण्युं. एम पोतानुं निधान पो-
तानी पासे जाणतां सुखी थाय. तेम हुं चिदानंद तुं, अनंत चैतन्य
चिन्मंदिंत अनंत गुणमय तुं, मारा उपयोगने आधीन ठे, हुं मारो
परिणाम स्वरूप उपयोगमांथी नहि चलावुं तो अनादि दुःख नाश
अशे. सहेल रस्तो निज स्वरूप पामवानो ठे. द्रष्टीगोचर करवुंज
दुर्लभ ठे, पण संत पुरुषोए सुगम करी आप्युं ठे, तेमना पसायथी
हुं पाम्यो तुं; ते मारो अखंड विलास सुख निवास आ अनुभव
प्रवेशिकामां ठे; वचन गोचर नथी, जावना गम्य ठे, ए मारो स्वरूप
ज्योतिनो प्रकाश निज घरमां प्रकाशी रह्यो ठे, तुप्यो नथी, गुप्त केम
मानुं ? ठती वस्तुने अठती केम कहुं ? पहेलां ठतीने ठती न जाणी
हती, तेथीज दुःख फल थयुं हतुं. हवे शरीरने मारा पणे केम मानुं ?
ए तो रुधिर वीर्यथी ऊपन्युं ठे, सात धातु, सात मल, अनेक रोगनुं
ऊपादान जरु अथिर ठे. ते हुं नहि, एनुं मने कांश नहि, में कर्युं
नथी, मारे माटे नथी, मारा कारणथी परिणम्युं ठे पण माराथी नथी,
मारुं नथी, मारामां नथी. ज्ञानावरणादिक वर्गणा विजाती, अचे-
तन, बाधक, वर्णादि रुपी, विनस्वर, विजत्स, दुगंठित जाव ठे. एज
स्वजाव मलिन करे. ते कर्म ऊदयथी थयुं ठे. एथी जिन्न
चेतनावंत मारुं पद हुं पाम्यो. ज्ञान लक्षणथी लक्ष उलखी स्वरूप
श्रद्धावके आनंदकंदमां केली करी सुखी थालं. स्वरूप श्रद्धावके
आनंदकंदमां केली केवी रीते थाय ते कहिए ठिये.

अनंत चेतनाचिन्ह सहित अखंडित गुणनो पुंज अनंत पर्याय
धारी द्रव्य ज्ञानादि गुण परिणति पर्याय अवस्था रूप वस्तुनो निश्चय
थयो. ज्ञान जाणवा मात्र, दर्शन देखवा मात्र सत्ता अस्ति मात्र, वीर्य
सामर्थ्य मात्र, केवल एवी प्रतितिअने रुची जावने श्रद्धा कहिए. तेथी
उपनी आनंदकंद केली करी सुखी थालं. स्वरूप ज्ञानानंद, स्वरूप दर्शना-
नंद, स्वजावाचरणानंद, अनंत वीर्यानंद, स्वगुण तृप्तिआनंद, एम अनंत-

गुण स्वतंत्र अव्यावाधानंद तेज स्वरूपानंद ठे. ए माहेज परिणति रमावती
 एथी अन्य जे पुद्गल सत्ताजूमि त्यां प्रवेश करवो नहि; तेमाहे
 झानावरणादिक आठ कर्म अने मोहादिक कर्म शत्रुनुं कुटुंब वसे, ठे;
 ते तरफ जनुं नहि, ने जोवुं पण नहि, तेथी सुख समूह थाय, एथी
 बीजो चढतो अने सुगम उपाय नथी. जवी जीवोने जगवते शिव
 मार्ग सोहलो ए रीते वताव्यो ठे. एवी जगवतनी आणा सेवतां संत
 महंतो थया में पण ए आझानी जावनानो गाढो थज रोप्यो ठे.
 सम्यक् द्रष्टीने एवो अन्यास निरंतर रहे, कर्म परिणाम अज्ञावथी
 ज्ञान स्वरस मंनित सुखराशि प्रगटे त्यारे कृत कृत्य थाय. आत्मानुं
 स्वरूप गुप्त थइं रहुं ठे; ते ज्ञाता शी रीते थाय ? जावना परोक्ष
 ज्ञान करी करी वधारीए ते केवी रीते सिद्धि थाय ते कहिए त्रिये-
 जेम कोइ दीवाने पांच पडदा ठे तेमांथी एक पदो डुर करवाथी
 कांश्क उद्योत थाय, बीजो पदो डुर करवाथी विशेष अंश प्रकाश
 खुले, बीजो गये चढतो प्रकाश थाय, वली पूर्ण प्रकाशनी दृढ प्रतिति
 वधे, चोथो गये अधिक प्रकाश थाय, पांचमो पडदो गये पूर्ण परम
 स्वतंत्र अक्षय प्रकाश थाय. एम ज्ञान आवरणना पांच पडदा ठे.
 मति श्रुतज्ञान आवरण गये पोतानुं स्वरूप पोतापणे मनायं, पर
 स्वरूप उपरथी अहंमत्व उठे तो अंतरंग एवी प्रतीति आवि के
 हुं शुद्ध सिद्ध परमात्मा रूप तुं. अन्यरूप मारुं नथी, जेम कोइ
 पुरुष दरिद्रा ठे, करजनो थोकं ठे, तेना घरमां चिंतामणि ठे, पीते
 जाणतो नथी. कोइ दयालु पुरुषे कहुं “ हे जाइ ! तारा घरने विपे
 चिंतामणि ठे. ए चिंतामणि पसाये तारे निधि विस्तरी रही ठे तुं
 चिंतामणि ने जाण. ते वचननी प्रतिति थतांज पोते डु.खं दारिद्र्यी
 मुक्त थाय, तेम शुद्धात्म जावनी प्रतिति आवे, अनादि डु.खं दारिद्र्य
 दूर थाय, निज निधिनो अधिकारी थाय, एम मति श्रुतवडे अंश
 अंश निमजता वधतां वधतां परम अवधि माहे सकल पुद्गल

परमाणु आदि रूपी द्रव्य प्रत्यक्ष देखे, अने पुद्गल द्रव्यना केटलाक अनंत जावने प्रत्यक्ष जाणे. वली मनःपर्यव आवरण गये. अढीछीप मांहेला संझी पंचेंद्रिय जीवोना मनोगत जाव जाणे. एम ज्ञाननी निर्मलता वधते वधते क्षय उपशम ज्ञानवडे केवलज्ञानावरण पट तोकी पूर्ण परम प्रकाश पामे. एम हुं ज्ञानरूप हुं, अन्यरूप मारुं नहि, एवी जे दृढ प्रतिति, ने निज रूपे रहेवानी रुचि, तेने समकित कहिए. अने प्रत्यक्ष केवल स्वरूप तो सर्वे आवरण क्षय थये प्रगटे, पण सम्यक्त गर्जित शुद्ध सिद्ध स्वरूपनी प्रतिति ते परोक्ष ज्ञान कहिए. एम परोक्ष ज्ञान वधारते वधारते क्षय उपशम गुण वृद्धि पामी पूर्ण क्षायक जावने पामे. थोका ज्ञानवालो केवी रीते प्रतिति करे ते कहिए ठिये.

मारो दर्शन ज्ञाननो प्रकाश मारा प्रदेशथी उठे ठे, जाणपणुं मारुं हुं पोते हुं, एवी रीते करतां आनंद वधे ते निर्विकल्प सुख ठे. ज्ञान उपयोग आवरणमां गुप्त ठे. ज्ञानीमां आवरण नथी. जेम सूर्यमां वादलां नथी. किरणो अने वादलां एक क्षेत्रे थयां ठे, ते प्रकाशने रोके ठे. तेम जेटला अंशे आवरण गयुं, तेटला अंशे ज्ञान पर्याय निर्मल थया. एम ज्ञान, आवरणथी न्यारुं ठे, तेज पोतानो स्वभाव ठे. जेटलुं ज्ञान प्रगट थयुं, तेटलो आत्म स्वभाव खुदयो, तेज आपापणुं ठे. विशेष एटलुं जाणवुं के एक आवरण जवाथी जे ज्ञान खुले अने बीजा आवरणमां जइ अवराय; तेटलुं मेलुं रहे. पण जे आवरण मटे ज्ञानना अंश खुदया अने ते खुलेला अंशो स्वरूपमां आवे तेटला निर्मल रहे; ते गुप्त केवल शुद्धता ठे, पण प्रतितिमां शुद्ध परमात्म जावनी प्रतिति करी करी आनंद वधारीए. आत्मा शुद्ध जावनाथी निर्मल थाय ए निश्चय ठे— (या मति सागति) एटले अशुद्धताने जोगवतां अशुद्धता वधे

अने शुद्धता जोगवतां शुद्धता प्रगटे. निज स्वरूप साक्षात् केवी रीते
थाय ते कहीए ठीए

प्रथम निर्मळ जावनावडे संसार जावना ठोडे. केवी रीते
करे ते कहीए ठीए. दृश्यमान रूपी जड पदार्थमां ममत्व अने
राग द्वेष न करवो, अनित्यादि चार जावना जाववी वली. मैत्री
आदि चार जावना पण जाववी जरु पदार्थमां आपोपु माने सुख
क्यांथी. शरीरादिकमां आपोपु माने उलटी सुखनी हाणि थाय
ठे. राग, द्वेष, मोहजाव, जवजाव, अशाताजाव, तृष्णाजाव, अवि-
श्रामजाव, अस्थिरजाव, दुःखजाव, आकुलताजाव, खेदजाव,
अज्ञानजाव विगेरे परना अहंममत्ववने थाय ठे. मात्र निज शुद्ध
स्वजाव ज्ञानथी शांतजाव, विश्रामजाव, स्थिरताजाव, अनाकुलजाव,
स्वतंत्र आनंदजाव, तृप्तिजाव, निर्वृत्तिजाव, निष्कामजाव, अकंप-
जाव, उदासिन्नजाव, समताजाव आदि निजात्मजाव उपाडेय ठे.
शुद्धात्म परिणतिमां आत्म जाव ठे निज परिणतिमयी हुं तुं, ए
जावे आत्मता प्रगटे हुं परिणामी, परिणाम माहुरा, परम दामा
मय, परम मार्दवमय, आर्जवमय, मुक्तिमय, तृप्तिमय, सयममय,
शुद्धतामय, आर्किंचनमय, सत्यमय, अढार हजार जेदे अब्रह्मजाव
टाली शुद्ध ब्रह्ममय हुं तुं, एम निज पदनी अस्तित्ता यथार्थ
जावी निज पद परिणामी रहेतुं. स्वपरिणामी थये स्वपद प्रगटे
अहिंसां काय चेष्टा नथी वचन उच्चारतुं काम नथी, मनना शुचा-
शुच संकल्प नथी, आत्म स्वजावमां मग्न थइ आत्म परिणाम
परजाव मलिनताए मलिन थवा देवो नहि, एम चित् परिणतिनो
विवेक राखवो. निज परिणति निज रूपे रमाववी. मन द्वाराए विवेक
होय पण पारणति चित् स्वरूपमां रमे तिहां मन वाजू रहे; केमके
मन ते पर ठे ज्ञान परिणति निज वस्तु ठे. पोतानुं शुद्ध परमात्म
स्वरूप जावतां परमात्मपद प्रगट थाय ठे, तिहां मन प्रथमथीज

निर्वृत्ति पामे, ठे. ज्ञान परिणति शुद्ध थये अनात्म परिणति मटी
 आत्मा शुद्ध थाय ठे. आत्माए निज आत्म परिणाम करवो एज
 कृत कृत्यपणुं ठे. योगीश्वरो पण एटखुंज करे ठे. प्राणायाम, ध्यान,
 धारणा, प्रत्याहार, समाधि आत्म शुद्धता करवानेज माटे ठे.
 परिणाम स्वरूपवाला करवामां अनंत सुख थाय. अनुपम पदमां
 सरस एकता थइ उपयोग शुद्ध थयो, सहजानंद पदनो स्वाद वीधो
 शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्शादिकनी जोगववानी इच्छा, तृष्णा
 कामना मटी. निज परिणाम निर्मळ कर्या विना पोते परमेश्वर
 संसारचक्रमां जव जमरी जमे ठे. पोताना परिणाम स्वरूपानंदी थये
 परमेश्वर कहेवाय, एवो प्रजाव सहज स्वरूपानंद परिणामनो ठे.
 अपूर्व लाज थयो, ते परिणाम सहजानंद स्वरूपमां केवी रीते लागे
 ते कहे ठे.

वर्णादिकनी आहकता, व्यापकता, रमणता, कर्तृता, जोकृतता
 आदिमां जता परिणाम वारी सहज ज्ञान, दर्शन, चरणानंदी
 करी स्थिर राखवा. वार वार स्वरूप निर्धार ड्रष्टी गोचर करी मग्न
 रहे, ज्ञान बाहिर परिणाम न करे, अखंरु चेतना तरंगमां परिणाम
 लीन राखे, अमरपुरी निवास निज बोध प्रकाशथी निश्चल, अचल,
 अतुल, अमित, अखंडित, अनंत गुण रत्न मंजित, ब्रह्मंडनो प्रकाशी
 थई रहे. त्रिलोक जूप परमात्म पद पामी पावन रहे. यथार्थ ज्ञान
 परमार्थ निदान आराधीए, एम निर्वाण पद आराधीए, अलख,
 अविकारी, कर्म रोग अपहारी, बाधा रहित, महंत, जव्यनो आधार,
 जव पारनो करणहार, जगत् सार एवो शुद्धात्म बोध आराधीए.
 सर्वे तीर्थकरोए शुद्ध बोध आराधवो कह्यो ठे माटे क्यां सुधी कही
 ए? शुद्ध बोध एज परम सार ठे. जेमां विपरीत करणी जव दुःखनी
 जरवावाली नथी, एवो बोध आराधीने अनंत जीव शिव रसी
 थई आनंदपुरीमां अनंत आनंदनो विलास करे ठे. फरी स्वपद

ठोड़ी कदापि बाहेर जता नथी. निज पद निवास निजमां ठे. मृग
 मृगमदस्थान, जूली बाहिर हुंढवाथी दुःख पामे ठे; तेम चेतना
 सुखस्थान जूली बाहिर जटकवाथी सुख विवास न पामतां दुःख
 दोहीलां पामे ठे. परम गुरु कृपाथी चेतना सुखस्थान पामी
 निजानंद विवासी. थइ शाश्वत विवास करे ठे. ज्यांसुधी परंपदमां
 आपो जाण्यो, त्यांसुधी रागी थइ अनंत आकुलता जोगवे ठे.
 निर्मळ ज्ञान, दर्शन, चरित्रथी निज पद अज्ञेद जाणी तुरत परम-
 मत्वनी हाणि थाय ठे एटले अनंत क्लेशथी निर्वृत्ति अने परमानंदनी
 प्राप्ति थाय ठे जेम कोइ राजा मद्यपान करी. निंद्य स्थानमां रति
 मानी रह्यो ठे मद उत्तरे राजपदनो विवेक आवे, आपणो राज्य
 अधिकार संजाले तेम आत्मा पर पदना अहंपणा रूपमद पीने
 निज राज्याधिकार जूद्यो ठे. पोताना अधिकारना ज्ञान रूप अमृत
 पान कर्ये पर अहंपणा रूप. मद उत्तरे, विवेक आवे, आपणो राज्या-
 धिकार संजाली स्वतंत्र सहजानंद विवासी थाय. कोइ प्रश्न करे के
 “ ज्ञानतो जाणपणा मात्र ठे, तो पोताने कोण जाणे ? तेने कहिए
 जेम सूर्य पोताना अंगने अने पृथ्वीने प्रकाश आपे ठे, तेम ज्ञाननी
 स्वपर प्रकाशक शक्ति ठे पोते पोताने अने परने जाणे ठे. माटे हुं
 ज्ञान तुं, मारा ज्ञानवने हु मारी अनंत शक्तिने अने स्वपर प्रमेयने
 प्रमाण करवावालो पोतेज ज्ञान रूप तुं, एवो डटजाव तेज समकित
 ठे आपणो चेतना प्रकाश मोह विकार पामी मलिन थयो ठे, पर
 वर्णाटिकनी लेझ्याये लेसाणो ठे. ते स्वपर ड्रव्य, गुण, पर्याय, लक्षण
 जेदविज्ञाने जिन्न जिन्न जाणी पर गुण पर्याय लक्षणथी उदासिन्न
 वृत्ति करी, स्वड्रव्य गुण पर्याय लक्षण अज्ञेदपणे आपणा जाणी
 स्थिर उपयोगे निर्विकल्प ध्यान करे एज मोक्ष मार्ग ठे. आत्मानी
 शक्ति पर ममत्व वने मेली थयेली ठे, पण नाश थइ नथी जेम
 कोइनो पुत्र वजारमां गयो ठे कोइए तेनी माने पुत्र्युं के “ तमार

पुत्र ठे?" तो तेणेकळुं "हा मारे पुत्र ठे." बजारमां गयो माटे नथी एम न कर्हेवाय. तेम आत्मानि शक्ति लेश्यावमे मलीन थयेली ठे, पण नाश थयेली नथी. पोताने पोताना. रूपे जाणवाथी पर ड्रव्यनुं ममत्व. अने लेश्या नाश पामी निर्मळ गुण पर्याय विलास प्रगट थाय ठे. हे विदानंद ! तहारुं चरित्र आश्चर्यकारी लागे ठे पोतानी दर्शन ज्ञान शक्ति बती अठति करी राखी ठे. जेम लोटन जमी (जटामांकी) देखी विलाडी लोटे ठे, तेम निज पद चुलेलो जीव पुद्गल वर्णादिक देखी मोड पामी जवचक्रमां लोटे ठे. अंतर-मुहूर्त अखंरु समये शुद्ध नये शुद्ध स्वरूपमां स्थिर थड अनुभव आस्वाद ले, तो जव त्रमण नटे, त्रणलोकनुं राज्य पामे. आत्माए चोराशी लाख जीवायोनिमां अनेक स्वांग लीधा पण पोते चेतना रूप ठे. स्वांग रूपे थयो नथी. जेम कोड काष्ट पाषाणनी पुतलीने साची स्त्री मानीने तेने बोलावे, चाहना करे, तेनी सेवा करे, पठी जाणे ए निर्जीव ठे त्यारे पसताय. ए प्रमाणे पोतानुं स्वरूप अण-जाणतो जरु शरीरादिकने सेवी, तेना संजोग विजोगादि दुःख जोगवे ठे. एमज निज स्वभावानो साचो बोध थये विज्ञाव बूटे, दोरडीमां सर्प नथी, अंधकार वशे सर्प मनाय ठे. तेम पुद्गल वस्तुमां आपणुं कांड नथी. आखा समुद्रना पाणी वने धोवार्थी पण देह पवित्र थाय नहि, तेने पवित्र राखवा चाहे ठे, ते जूठोज खेद करे ठे. ठीकरी पकमी रूपीठ मानी तेने वापरी सुखी थवा चाहे ठे पण ठीकरीथी वस्तु कांड आवे नहि. तेम पुद्गल वडे सुख वस्तु आवे नहि. पोतानी चूल तज्याविना पोतेज पोतानी हांसी दुनीआमां देखामे ठे. अनंत ज्ञाननो धणी चूलथीज दुःख पामे ठे. जे हांसीथी शरम पामे ते फरो हांसी जेवुं काम करे नाह. आत्मा परम पूज्य परम पवित्र ठे. जेनी वात करतां अनुपम आनंद आवे एवुं निज पद ठोडी, जे वने अनंत पुद्गल परावर्तन करवां पने एवुं परपद

बहु रुचिची सेवे ठे. एवीं हठीळी टेव, न ठोरुवी ए केवी, मूर्खांइ ठे ? जेम कोइ सापने हार जाणी गळामां नांखे तो दुःख पामे, एमां कांइ आश्चर्य नथी. तेम परपद सेववाची दुःख थायज थाय ! । जेम एक नगरमां द्रष्टीबंधवालो पुरुष आव्यो, राजाना नजीकमां रह्यो. कोइ वखत राजा मरण पाव्यो ए वात कोइने जाणवा न देतां राजाने ठेकाणे काष्टनो राजा बनावी वेसाड्यो. अने मुएला राजाने घणो उंडो दाटी वेमालुम जग्या करी. हवे कोइ राजाने राजकाज संबंधी कांइ वात करे, त्यारे पेळो द्रष्टीबंध नर जुवाव दे काष्टना राजाने लोक साचो जाणे राज्य उपज द्रष्टी बांधनार नर जोगवे. एटलामां वननी वुट्टी माथे राखेली ठे एवो कोइ नर त्यां आव्यो, तेने देख्युके लोको अज्ञानथी निर्जीव काष्टना राजानी सेवा करे ठे, उपज धूतारो खाय ठे, एम जाणी लोकोने कहुं के “हे मूर्खां ! निर्जीव राजानी सेवा करे तमोने शो फायदो ठे ? ए राजा तमारूं रखोपुं करी शके एवो नथी.” ते लोकोए समजी काष्टना राजानी सेवा ठोडी तेम समकित वुट्टि जेनी पासे ठे, एवा श्री गुरु जिवि जीवोने चेतावे ठे के “जडनी सेवा ठोडी चिदानंद राजाने सेवो, एटले परम सुखी थशो.” ते गुरुना वचनना पसाये चिदानंद राजाने जाणे, ते जरु सेवार्थी वुट्टी सुखी थाय एटले गुरुनां वचन विनय सहित आदरे ते सुख पामे ठे जेम कोइने घेरे वालक अवतर्युं, ते वालकने जन्मथी आंख उपर चर्म पन्डल हलुं कोइ सुझ वैदे देखी तेने कहुं तारी आंख अदरथी निर्मल प्रकाशवान ठे, जो तारी मरजी होय तो पन्डल दूर करी आंखनो प्रकाश खुड्लो करीए त्यारे ते वालक बोड्यो के “तमारी महेरवानी” पठी ते वैचे मूढ्यवान दवा अंजन करी, चर्म पडल दूर कर्युं, आंखनो प्रकाश खुड्यो स्वपर रूपने देखवा लाग्यो. तेम आत्मा अनादिथी ज्ञान दर्शन द्रष्टीवत ठे. कर्म पन्डल पण अनादिनुं ठे. अदर देखवा जाणवा रूप निर्मल शक्ति ठे. गुरु

महामूढ्य प्रवचन अंजन करी, अज्ञान परुल दूर करे ठे. शीपमां
 रूपुं नथी, मृगजलमां जल नथी, काच मंदिरमां बीजो श्वान नथी.
 मृगनी डुंटीथी वेगली कस्तुरी नथी, नलिनीनो सूडो कोइए पकड्यो
 नथी, वानरनी मूठी कोइए पकडी नथी, कूवामां बीजो सिंह नथी,
 परुठायामां पुरुष नथी, मात्र मिथ्या त्रमवके दुःख उपजे ठे. तेम
 पर अहं ममत्व वके जीव अनादि दुःखी थइ रह्यो ठे, स्वरूप जाणी
 आदरे सुखी थाय. आत्मा पोतानुं शुद्ध स्वरूप जाण्या विना सुख माटे
 धन संचय करे ठे, देशावर चटके ठे, विषय जोगना पदार्थ वसावे ठे,
 देवादिक सुखने चाही अनेक श्रम करे ठे, पण साचुं स्वतंत्र
 सुखतो निज स्वरूप जाणे थाय. मोह ठगारे संसारी जीवने पर
 ड्रव्यमां अहं ममत्व रूप अविद्या फेलावी ठे. श्री गुरु ठगाई नाश
 थवाने माटे शुद्ध मंत्र बतावे ठे के “ (नो अहंममेति.) ” ए
 मंत्र जे हमेश जपशे ते पोतानी निधि चूकशे नहि. वली श्री गुरु
 जगत् जनने पोतानुं सत्ताचूमिनुं घर बतावे ठे के “ तुं पोताना
 निर्मल उपयोग वडे आपणा घरमां रही निज निधिनो विलास कर,
 ताहारी हरामजादी वडे तुं पोतानुं राज्य चूली कोडी कोडी जाची
 कंगाल थइ रह्यो तुं, ताहारुं निधान ताहरा पासे ठे, तुं संचालतो
 नथी, तेथी दुःखी थयो तुं. जेम कोइ चंपो गोवाळ धतुरानुं पाणी
 पीने पोताने चूढ्यो पोताना घरनी आजुवाजु फरतो पोताने शोधे
 ठे, घर पाठल रही पोकार कयों के चंपो घरमां ठे? त्यारे तेनी स्त्रीए
 कहुं “ तुं कोण ठे ? त्यारे तेने शुद्धी आवी के हुं पोते चंपो तुं ” तेम
 श्री गुरु आत्मता बतावे अज्ञानता रूप धतुरानुं विष उतरे सुखी
 थाय. श्री गुरु वचन सुधारस पीधा विना विज्ञाव दुःख छंदमां
 सुख मानी, दुःख जोगवी रह्यो ठे. गुरु वचनामृत पीधे मोह मद
 उत्तरे, सुखी थाय, पठी परतरफ देखे पण नहि. निज स्वरूप देखतांज
 त्रण लोकनी ठकुराई पामे. निज स्वरूपमां अनुभव द्रष्टि अमृत

धारा वरसे ठे. अहिंश्यां पर स्वरूप अविद्यानो अवकाश नथी; पण अनादि विज्ञाव वशथी जेम सोनानी. खाणमां सोना साथे अनादि उपल संयोग ठे; ते अग्नि संयोगे उपल जित्त पडे पठी सोनामां मलिनतानो संयोग नथी. तेम निर्मळ ध्यानाग्निमां मोहमल जस्म थाय, आत्मा कंचन समान निर्मळ थाय, शरीरना ममत्व वडे क्रोधादिक सर्वे कर्म प्रकृति, मन, वचन, इंद्रिय अने कुटुंब परिवार विगेरे सर्वेने पोताना मानी, तेना रक्षण अर्थे अनेक प्रयत्न करे ठे सुवर्ण, हीरा, मणि, माणिक, मंत्र, जंत्र, कला, विज्ञान, रिद्धि, सिद्धि जे जे चौदराज लोकमांहे मनोज्ञ जोगना पदार्थों ते सर्वेनुं ममत्व करी कर्मपरिणाम साथे बंधाड रह्यो ठे, मन वचन कायानी क्रिया पोतानी जाणी ए माहरां, हुं एहनो, ए हुं, एवे परिणामे त्रिकालवर्ती सर्वे ज्ञेय जाणवा देखवानी पोतानी शक्ति आवरी राखी ठे. ज्ञानादि शक्ति उलट्टी परिणमावी राखी ठे. तेज अज्ञानादि विकार थयो, ते वडे परने आप रूपे देखे ठे. पोताने पर रूपे देखे ठे, चेतने अचेतन, अचेतनने चेतन, विज्ञावने स्वज्ञाव, स्वज्ञावने विज्ञाव शत्रुने मित्र, मित्रने शत्रु, अहितने हित, हितने अहित, ज्ञेयने ज्ञान, ज्ञानने ज्ञेय, अकारणने कारण, कारणने अकारण, कारणने कार्य, कुगुरुने गुरु, गुरुने कुगुरु, देवने अदेव, अदेवने देव, धर्मने अधर्म अधर्मने धर्म, एम अनेक विपरितता तथा बने पढ़ने समान जाणवापणुं थयुं ठे; अने जेटली चौदराजलोकमां सजीव अजीव मिश्र वस्तु ठे ते पोताने आदरवा लायक जाणी तेनो आचरण परिणामी थड रह्यो ठे. काय चेष्टा पण ते विषे करे, वचन आलाप-पण तेने माटे करे, शुजाशुज संकल्प पण तेज-माटे करे, समय मात्र पण सहजानंद समाधिना अवकाश राख्यो नथी. सुख क्यांथी होय ? पोतानी सर्व शक्ति परमांहे वापरी आत्मवीर्य उलट्टुं परिणमावे ठे. स्वरूपाचरण करवा वीर्य ठेक निर्वल थयुं; तेथी आत्माना अतंत

गुणो सर्वे निर्बल थइ परिणम्या ठे. स्वस्वरूपे परिणमवानुं बल निर्बल थइ रह्युं ठे, एम सर्वे गुण विकार जावी थया ठे. सहजानंद समाधि रूप सुख गुण ठे ते पुण्य पाप रूप विकारी थयो ते विकारने जोगव्यां करे ठे. एम गुण गुणनी अनंत शक्ति सिद्धांतमां कही ठे ते सर्वे विकारी थइ रही ठे; ते ग्रंथांतरथी जाणी लेजो. पण सत्ता वने सर्वे गुण अविनाशी ठत्तीमां रह्या ठे. सत्ताए सर्वे गुणने शाश्वता राख्या ठे. शुद्ध स्वरूप जाण्याविना परने पोतापणे मानी कारक परिणति उलटी परिणमावी ठे. जिन वचन हृदये धारी पर कारकता ठोडी कारक चक्र सुलटुं परिणमावे परिणति सुलटी परिणमे. मिथ्यात्व, अविरक्तता, कषाय, योग, प्रमाद रूप परकारणता तजी सम्यक् ज्ञान, दर्शन, चरण, निज कारणता ग्रहे, सकल दुःख मटे, स्वतंत्र समाधि पामे. चेतन शक्ति प्रकाश अनादिनो ठे एवो उपयोग-धारी आत्मा कर्मे करी स्वरूप आवरी संकोच विस्तार धरे ठे.

आत्मा आकाशवत् केवी रीते संकोच विस्तार धरे? पुद्गलमां संकोच विस्तार शक्ति ठे, पुद्गलमां व्यापकता करी ते संकोच विस्तार-ने पामे ठे. "सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः" एम सिद्धांतमां कह्युं ठे. एटले सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र, ए मोक्ष मार्ग ठे. जेटली जेटली दर्शन, ज्ञान, चारित्रनी निर्मलता वधे तेटलो तेटलो मोक्ष मार्ग आगल वध्यो. पूर्ण निर्मल-ताए पूर्ण पद पामे. ते मोक्ष मार्ग वे प्रकारथी कह्यो ठे. एक सविकल्प मोक्ष मार्ग, बीजो निर्विकल्प मोक्षमार्ग, जेद ज्ञान वने स्वपर स्वरूपने जिन विचारी परस्वरूपथी उदासिन्न रही निज स्वरूपमां मग्न थवुं ते सविकल्प मोक्ष मार्ग कहिए. अहं ब्रह्मास्मि एटले हुं पूर्ण ब्रह्म सिद्ध स्वरूप हुं, एवो निर्विकल्प आनंद आवे ते निर्विकल्प मोक्ष मार्ग कहिए. निज ज्ञाने निज ज्ञायकता शक्ति जेम जेम जाणे तेम तेम ज्ञान शक्ति खुवी. वर्डमान धारा थइ पूर्ण

लोकालोक ज्ञायक शक्ति प्रगटे निज ज्ञाने निज अखंड ज्ञाक्यता शक्ति वेदे (जोगवे). पर विज्ञाव रस उतरे. स्वतंत्र निज निर्मलानंद-मांहे स्थिर रहे अनादि जीवनो ज्ञानगुण आवरणना क्षयउपशम थकी क्षयउपशमी ज्ञानगुण प्रगट ठे. क्षयउपशमीवीर्य पण प्रगट ठे. ए ज्ञानवीर्यवने पोते पोताना सम्यक् स्वरूपने जाणे, अने सम्यक् स्वज्ञावाचरण करे तो एज गुण मोक्षमार्ग रूप अने एज क्षयउपशम वीर्यवने परज्ञाव आचरण करे तो एज ज्ञानवीर्य कर्मबंध अवस्थाने पामे, एज गुण सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चारित्र रूप थइ स्वस्वरूप आचरण करे तो सकल कर्म क्षय करी सदा मोक्षरूप रहे. जेम जेम दर्शन, ज्ञान, चरणगुण निर्मल यता जाय तेम तेम मोक्षमार्ग वधे. माटे प्रमाद ठोनी एज आदरवुं जेम जेम आत्मगुणनी निर्मलता, दृढता वधती जाय तेम तेम मोक्ष मार्गनी सिद्धि थाय. पोतानी परिणतिथी पोते जवसमुझना पारने पामे. पोतेज विज्ञाव ग्रहणथी संसार दुस्तर करी राख्योठे, संसार अने मोक्षनी करवावाली परिणतिज ठे पर परिणति एज संसार, निज परिणति एज मोक्ष. सद्गुरू संगे निज परिणति पामीए, विषम जव-त्रमण जयमटे, परमानंद प्रगटे. माटे आर्त्त रौडादि अन्य कुष्यान निवारी धर्म, शुक्लध्यान अन्यासी निज शुरु परमात्मपद संजाळी स्थिर थाय. परमानंदपद ताहरुं ताहरी ज्ञानज्योतिमां ठे संजाळी सुखी था जरु पदमां आपो माने तने सुख नथी तुं ताहरुं पद संजाणुं तो जड वस्तु ताहरो पट्टो पकडती नथी. अनादि पर वस्तुमां उमेद करुं तुं एथीज नाउमेद थवुं पडे ठे. जेम इंद्रजाल जेवी वस्तु इंद्रजाखना हाथी, घोना, स्त्री, स्त्रीना हावजाव विगेरे देखी कोई खुशी थाय, पण एमां रंच मात्र साचुं नथी. मात्र ते वने निज निधि चूखे, जव त्रमण करे, एवा जूठ त्रम जावमां ज्ञाताए, मग्न थवुं ठीक नथी. मनुष्यादि पुद्गल पर्याय अथिर अशुचिने

खान, पान, चूआ, चंदन, वस्त्र, आचरणे करी शोभाववा यत्न करे, जूठमां मग्न थई थई सुवाथी जीवतो सगाई करे तो कार्य केम सुधरे? जेम कुतरां सूकां हारुकां चावे, पोताना गाळ ताळवुं मसोडानुं मांस फाटी रुधिर निकले तेनो स्वाद लई मग्न थाय. एम मूर्ख जेमां दुःख हाणी, खेद, प्रत्यक्ष ग्लानि ठे. एवी कामरति रीत आदरी दुःखी थाय ठे. कर्म बंधमां सुखकंद मानी दुःखी थाय ठे. एवा जरु जोगथी ठोडाववा कोई सत् पुरुष प्रेरणा करे ते अनिष्ट लागे. चोरा-शी लाख जीवायोनिमां जटकतो अनेक रूपने पोतापणे मानी परवस्तु ग्रहण करतो, चोर बनी दुःख दंरु सहेतो, आक्रंद करतो रहे ठे; पण ज्ञायकता रूप निज अंग जाणे सुखी थाय. दुःख दंरु सहेतां पण परग्रहणता ठोडतो नथी. पोते परम पुरुष त्रिजगनाथ पोतानुं ज्ञानानंद सुख चूळी दुःखी थाय ठे. चेतना निधान पोतानुं पोतानी पासे ठे तेने जाणतां सुखी थाय. कोइ पुरुषे कोझे पूछ्युंतुं कोणठे? ते बोड्यो “हुं मडदुं तुं” पेले पुरुषे कहुं बोलेठे ते कोण? तो कहे के “हुं नथी जाणतो” तो नथी जाणतो एवुं कोणे जाण्युं? जे जाणनार तेज पोते जीवतो ठे, तेम शरीरने पोतापणे जाणनारो पोते पोतानी ज्ञायकता सहित त्रिकाळ जीवतो ठे. जरु पदमां आपो मानवो प्रत्यक्ष मिथ्यात्व अने पोताने दुःखदाई ठे जेम कोइ पुरुष मदिरा पी उन्मत थई पुरुषाकारे पथ्यरना स्थंजने देखी कहेके आव मारी साथे लढ, पठी ते पुरुषे ते स्थंज साथे बाथ चीडी तेने पाडवा चाह्यो. ते पोताज उपर आवी पडयो. पठी कहे तुं जीत्यो हुं हायों. हवे मने ठोड. एवी पोतानी असत्य जावना पोताने दुःखदाई थई. तेमज पर द्रव्यमां ममत्व करवाथी ज्ञानावरणादिक आठ कर्मनो बोजो पोतापर आववाथी पोतेज दुःखी थाय ठे. जेदज्ञाननी शक्तिवडे विवेक ग्रही स्वपरना अंश अंश जिन्न जिन्न करी निज सर्वांश ज्ञानानंदमय जाणी अचल, अकंप रहेवाथी शाश्वत आनंद विलसे. तें पोतेज

पोतानुं स्वरूप अणजाणतां परद्रव्यमां अहं ममत्वरूप असत्यंजावना करी नाहक खेद पेदा कर्यो. तें पोतानुं स्वरूप न संजाव्युं त्यांसुधी पोते पोतानो शत्रु थयो. जो शुरू नये स्वरूप संजाली स्थिर रहंतो तुं पोते पोतानो मित्र तुं. तुं अचेतनने पोता सरखो करवा चाहुं तुं; ए जण पोतानो स्वजाव ठोडी ताहरी इच्छाए न प्रवर्त्ते. कोई द्रव्य पोताना गुण पर्याय प्रमेय मर्यादा ठोडी अन्य द्रव्यना गुण पर्याय प्रमेयने न ग्रहे तो मिथ्या जावना करी, पोताने दुःख दाता केम थवुं? पोते पोताने सुखदानी था. तुं पोतानो अने पदकायाना जीवोनो अनंत क्षेमंकर था. अनंत कालथी स्व अने पर जीवना द्रव्य जाव प्राणनी हाणी करी दुःख समुद्रमां दुःखी रह्यो; हवे दर्शन ज्ञान चरणमयी निज अचेद शुद्धात्म जावमां उपयोग अकंप राखी स्वपर जीवोनो क्षेमंकर था. तुं पोते पोताने कर्म फंदमां न नाखीश. ए विना सुख सिद्धि न थाय, विना विचारथी अनंत चतुष्टय (ज्ञान, दर्शन, सुख अने वीर्य) अमृत न जाएयां, न स्वाद लीधो, वारंवार मरण पाम्यो, हवे अनंत चतुष्टय जाणी अज्यासी स्वाद लेई सुखी था जडनी शक्ति नथी के तने कोई हरकत करी शके. ताहरी अविद्या वडे तुं दुःखी थयो. पोतानी शुरू शक्ति वडे अविद्यानो नाश करी सुखी था ते परमां अहंपणुं धार्युं एज अविद्या ताहरे गळे पडी. हवे ऊतावलो स्व पर चेद विज्ञान विद्या वने अविद्याने तुरत नाश कर. आयुष्य चपल ठे हाल श्री गुरुना परमअमृत समान वचन तुं पाम्यो पठी तने चेतावनार मलत्रो मुक्केल ठे. ताहरा निज स्वरूपमां परम ऊंच पद ठे ते संजाल. नीच अने नादानीपणु ठोरु, निज ज्ञायकता एज ऊपादेय ठे; ए शिवाय सकल परजाव परद्रव्य गुण पर्यायनो आदर हेय ठे. निज आनंदना एक अंशना तोल आगल सर्वे इद्र चक्रवर्ती आदिनुं सुख तृण मात्र पण खेखे नथी. एकवार निज ज्ञानानंद सुखमां मग्न थाय तो फरी

कदी परतरफ न देखे. स्वरूप समाधि एज संत पुरुषोत्तुं चिन्ह ठे, ज्यां रागादि अंश रहेतो नथी. जेम आकाशमां फूल न होय, अनादिना देहजोगाज्यासनो नाश निज अनुभव प्रकाशथी थायठे; वचन अने व्यवहारथी थतो नथी. माटे प्रमाद ठोडी ज्ञानानंद अनुभवमां लीन थवुं. ए शिवाय सर्वे मोह विकार ठे. अनादि आकुलता विशुद्ध बोध वमे मटे. नरत्नव वारंवार मलवो मुश्केल ठे माटे बोध निर्मल करवो एज सार ठे. सद्गुरुनो योग मलवो अने शिव मार्ग साधवो, मनुष्य जव शिवाय दुर्लभ्य ठे. माटे वारंवार कहिये ठीये एवुं तो बालकने पण वारंवार कहेवुं न पमे. तमे जाण्या ठतां पण पोताना हितने न विचारो ए मोहनुं महा प्रवलपणुं ठे; जरु स्वरूपमां आपो मानी पोतानुं जाण्युं ठे. निज ज्ञायकता सुख समुद्रने पामी अमरपुरिनुं राज्य करो, चेतना राजधानीनो विलास करो. जेम कोई मडदाने वस्त्र, आचूषण, अत्तर, विलेपन करीने जाणे हुं सुख विलसुं तुं. तेम मूढ शरीरनी सेवा करी पोते जूतुं सुख मानेठे. जेम साप कोईने रुसे अने विष कोईने चढे तो आश्चर्य मानीये; तेम जड ऊपर जे जे विकारो थाय ते आत्मा पोताने माने ए मोटुं आश्चर्य ठे. जडनी क्रिदाने तमे पोतापणे मानी अने पोताना ज्ञानानंदने चूलो ए जेवी बीजी मोटी चूल नथी. देह विष्टा, मूत्र, सप्त धातु, सप्तमल, बहुरोगोनुं स्थानक, बहुदुःखदायी, तेने संजाली संजाली तेमां मूंझाई पोतानी सहजानंद राज्यधानीने नसंजाली ए चूल हवे करवी लायक नहि. तमारा पाठल जन्म, जरा, मरणादि अनादिनां चाट्यां आव्यां ठे, तमे मोटा पुरुष सरखा बनवा चाहो ठे के जे अमारी साथे थया तेने ठोडवा नहि; पण ए देह तो पापरूप ठे एने ग्रहण करी राखवार्थी महंतपणुं न थाय. निज रिद्धि संजाले महंतपणुं थाय. माटे एवी अनीति ठोफी निजनिधि संजाली सुखी थारुं. इंद्रिय चोरोने तमे सुख दाता जाणी पोषो ठे पण ए तमारा

ज्ञानादिक रत्नने चोरी, बगामी तमोने दरिद्र बनावी, जीखारी करी जवोजव जटकावेठे. तमे पोतानुं पुरुषत्व संजाळी ज्ञान खरूग हाथमां लई इंद्रिय चोरोने तमारी तरफ न पैसेवा दो. गफलत न राखो ज्ञान, दर्शन, चरण रत्न अनंत, अपार तमारा सत्ता जंडारमां अखंड, अतूट जर्यां ठे. तमे पोतानो आत्मअधिकार संजाळो, अन्य अधिकाारी थवा न इच्छो. अन्य तरफथी तमारे कांई सुख लेवानुं नथी. पोतानी सत्ताचूमिमां सुख समुद्रठे ते सुख समुद्रनी लहरे सदा आनंदित रहो. श्री गुरुए परम कृपा करी तमने सुख अधिकार बताव्यो हवे शामाटे दरिद्र रहोठो? पोतानुं पुरुषत्व नाचूको. अचेतन, अपावन, अधिर, आपणी ईच्छा प्रमाणे न रहे एवी पुद्गल परिणतिनी संगत, ममत्व, प्रीति, आदर, आसंगो, मनोरथ, कामना, मूर्खा, दुःखदाइ जाणी वेगलेथी ठोको, चैतन्यदीपक सदा शाश्वतो ठे. अन्य अन्य पर्याय धरवाथी न विणसे. इव्यार्थिक नये सदा शाश्वतो ठे स्वगुण पर्याय अज्ञेदपणे एकमां जाणी निर्मल ध्याने स्थिर रहो समुद्र तरंगेकरी हाणि वृद्धि करे तो पण समुद्रपणे एक अखंड ठे. तेम आत्मरूप पर्याये करी हाणि वृद्धि करे पण आत्मा एक अखंड ठे. स्फटिक मणि लीलाराता रुंकेकरी लीली राती जासे, पण निज स्वजावे ऊज्वल ठे तेम आत्मा शुजाशुज परिणामे कर्ममय थाय पण चेतना स्वजावे एक अबाधित शाश्वत ठे पाणीऊपर सेवाखनी पेठे हे चिदानंद ! तुं अंतर शुद्ध तुं. ताहरी शुद्धता संजाल, पर रस तने केम मीठे लागे ठे? जेथी संसार चक्र भ्रमण करवुं पडे ठे जेम कोई पुरुषे एक सुना नगरमां प्रवेश कर्यो त्यां चोरागी लाख घर ठे ते मांहेला एक घरमां प्रवेश करी रह्यो ते घरनां जीत आदि पडे, खरे एक. कांकरी पण पडे तेने श्रम करी करी सुधारे, तो पण आखर ते घर पुकं पडे, वली बीजा घरमां जाय, त्यां तेने सजाले एम चोराशी लाख घर जमे. तेम चोराशी लाख जीवायोनिरूप घर ज्ञान अने सुख

शुन्य, वली. दुःख चरेलामां जमतां हजी. पण तने खेद, शरम आव-
ती नथी ? सदगुरुए चेताव्या ठतां पण शुं एंठवाडनी लालच नथी
वूटती ? हवे गफलत न राख. वाह ! ताहारी चतुराई ! के पोताना
माटे दुःख संग्रह करी राखुं तुं, जेम ते चोराशी लाख घर फरवावालो
ते घरमांथी कांइ जागे खरे तो ऋवे, विलाप करे, दीन
थई परतंत्र थई फरे. जो पोताना सहजानंदमय सत्ताचूमिरूप
घरमां प्रवेश करी रहे तो एवी विपत्ति सहेवी न पके अने शाश्वत
परमानंद विलास जोगी थाय. सत्ताचूमि नगरमां अनंत चेतना
वस्ती ठे, अनंत सुख साहित्य ठे, ए नगर कोई काले सूनुं अने
सुख रहित न होय त्यां ताहकं राज्य ठे. ते तुं तारो राज्याधिकार
संजाली स्वतंत्र सुखी रहे. अहिंआं ताहरी अखंड आणा फरे, सकल
पर द्रव्य पण जे समये जेम तुं जाणुं तेम ते वर्ते, एटले कोइने त्रास
न देतां पण सकल द्रव्य ताहारी ज्ञान आज्ञा प्रमाणे वर्ते. फरी जरु
पदार्थनुं काम न पडे. जत्र ज्रमाण करवुं न पके. आनंद समुदाय
पामी सदा सुखी रहे. आत्मा पोते परमात्म पुरुष ठे तेनी निज परि-
णति अनंत महिमारूप परमेश्वर पदनी रमवावाली तेज मूल पुरुष
प्रकृतिना विवेकरूप कल्पवृक्ष तेनुं निजानंद फल तेनो तुं रस, स्वाद
लेइ सुखी था. जेम कोई राजाने पारको गढ लेवो मुश्केल ठे तेम
आत्माने पर पद लेइ राखवुं मुश्केल ठे, पण निज सत्ताचूमि संजाली
राखवी मुश्केल नथी. केमके आत्म सत्ताचूमिमां अन्य परद्रव्यादि
चोरोनो प्रवेश थई शकतो नथी तो पोताना राज्य वैजवनी कोण
हाणि करे ? तो पण तुंज पोतानी राज्यनिधि चूली पर सत्ताचूमि
मांहे सुख लेवा प्रवेश करुं तुं. त्यां तुं मोह राजाना केदखानामां
बंदीखाने पकी दुःख दंरु सहुं तुं. अने पोताना ज्ञानादिक अनंत
निधान थकी रीतो (खाली) रहुं तुं. जेम कोई उज्वल स्फटिक रत्न
उकरडामां पर्युं ठे. उकरडाना अशुचिचूर्णादिकनुं जासन रत्नमां

सर्व अंगे प्राग्र तथापि रत्न सर्वांगे निर्मल ठे. ते रत्नो एक अंश खुल्लो देखी ज्वेरी अखंरु रत्ननी शुद्धता जाणे तेने उकरडाथी अलग करी खेई, धोई ते रत्नना अमूढ्य मूढ्यने पामे. तेम आत्मा पुद्गल अशुद्ध पर्यायमां रुच्यो ठतो पण अनादि, ज्ञान वीर्य गुण दाय उपशम वडे समकिती आत्म तत्वने सर्वांगे शुद्ध जाणी, ग्रही जेदज्ञान वडे कर्म मेल दूर करी अमूढ्य आत्मानंद पामे. रत्ननी शुद्धता उपर जेनी दृष्टि पडी नथी ते रत्नने न पामे तेम जेनी दृष्टि शुद्धात्म जाव उपर पडी नथी ते आत्मानी शुद्धताने पामे नहि ज्यारे शुद्ध वचने शुद्धात्मता उपर दृष्टि पडे त्यारेज ते पोतानी शुद्धता संजाली शुद्ध परमात्म पद पामे जेवी दृष्टिए देखे तेवुं फल थाय. शुद्ध आत्म ड्रव्यमांहे अनंत ज्ञेय जासे ठे पण आत्म ड्रव्यनी ज्ञायकतामां ज्ञेय नथी ज्ञेयमां ज्ञायकता नथी. ज्ञायकता ते पोतानुं रूप ठे, ज्ञेय पर रूप ठे. ज्ञेय विणशे ज्ञायकतानो विनाश नथी. ज्ञायकता अमर निज रूप ठे ते जाणी सटा अमरपद जोगी रहो. रागादि पोतानुं मूल रूप नथी ज्यारे पोतानी ज्ञायकतामां जासता जे ज्ञेय रूप पर ड्रव्य तेना ऊपर ममत्व करे त्यारे ए-हुं, ए मने, हुं एह, ए मारामां, हु एनामां, हुं ए वडे, ए मारावडे, ए माराथी हुं एनाथी, एम चिद्विकार थाय ठे, पण ज्यारे पोताने ज्ञायकता रूपे देखे त्यारे पोतेज दर्शन, ज्ञान, चरण रूप, अंगर पंच परमेष्टी रूप पोताने जाणी शिव राज्यनो अधिकारी थाय. एम प्रथम पोतानी शुद्धतानी श्रद्धा थई तेज साधक अने शुद्ध स्वरूप ते साध्य. एम साध्य साधकता जाणीने शिव मार्ग साधे ते पूर्ण शुद्धता पामे. माटे साध्य साधकनुं ऊदाहरण देखाडीए गिये.

चेतना अनादि पर ममत्व वडे कर्मवर्गेणा पुद्गल क्षेत्रमां पोताना आत्म प्रदेश एक क्षेत्रावगोही करी खोली भूतपणे एकमेक थड रह्यो ठे, त्यां घहिरात्मा साधक अने मिथ्याजाव साध्य ठे,

हृद्यउपशम ज्ञानवीर्य साधक त्यां सम्यक्त्वज्ञाव साध्य ठे, ज्यां सम्यक्त्वज्ञाव साधक त्यां शुद्ध सिद्धता साध्य ठे. ज्यां शुद्धोपयोग साधक त्यां परमात्मज्ञाव साध्य, ज्यां व्यवहार रत्नत्रिक साधक त्यां निश्चय अज्ञेद रत्नत्रयी साध्य ठे, सम्यक्द्रष्टिने देशविरति साधक त्यां सर्वविरति साध्य ठे; ज्यां देव, गुरु, शास्त्र, विनय, भक्ति, साधकता त्यां विषय कषायादि निवृत्ति, उदासिन्नता, मन परिणति निवृत्ति, स्थिरता साध्य ठे, ज्यां शुद्धउपयोग व्यवहार परिणति निजात्म तत्वार्थे साधकता ठे त्यां परंपराए मोक्ष साध्य ठे; ज्यां अंतरआत्मा साधक ठे त्यां शुद्ध परमात्मज्ञाव साध्य ठे; ज्यां समकृती जीव साधक त्यां ज्ञान, दर्शन, चरण साध्य; ज्यां ज्ञाव मोक्ष साधक त्यां द्रव्य मोक्ष साध्य; ज्यां हृदयक श्रेणि चढवुं साधक त्यां केवल ज्ञान, दर्शन, चरण, वीर्य, साध्य ठे; ज्यां द्रव्यज्ञाव संयम साधक ठे त्यां साक्षात् मोक्ष साध्य ठे, ज्यां परमाणु मात्र परिग्रह प्रपंच साधक तिहां ममता ज्ञाव साध्य; ज्यां मिथ्याविध्वंस करवो साधक ठे त्यां मोक्ष करवो साध्य ठे. एम साध्य साधक जाणी साधवाची सहेजे शुद्ध साध्य सिद्ध थाय.

हवे साध्य साधकनुं विशेष लखीए ढिए के ज्यां हुं नर, नपुंसक, नारी, देव, नरक, तिर्यच, ए शरीर मारुं, एवो परमां अहं ममत्वज्ञाव, निज आत्मस्वज्ञावची बाहिरना अन्य ज्ञावने पोताप्रणे जाणवुं, मानवुं, पर परिणति मांहे राग रीज करी तन्मय थवुं एवा मिथ्याज्ञावनेज साधे ठे. एटले अज्ञानची अज्ञान सधे, मिथ्यात्ववने मिथ्यात्व सधे, रागादिक कषायची रागादिक कषाय सधे, वधे, एम अशुद्धताची अशुद्धता सधे. शुद्धताची परम शुद्धता सधे. देश शुद्धताची पूरण शुद्धता सधे. मिथ्या देव गुरु धर्म सेवे मिथ्यात्व सधे. सम्यक् देव, गुरु, धर्म, सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चरण सेवे शुद्ध तत्व सधे. अंश दर्शन ज्ञान चरणरूप शुद्ध उपयोग परम दर्शन ज्ञान चरण उपयोगनो साधक ठे. अंशवडे सर्वांश प्रगट थाय. आत्म शुद्ध-

तानो निश्चय परम प्रगट शुद्धतानुं कारण ठे. सम्यक् ज्ञानमां पूर्ण
 आत्मज्ञाव अप्रगट ठते श्रद्धा रुचिमां आश्रव बंध अजीव ज्ञाव हेय,
 संवर निर्जरा मोक्ष आत्मज्ञाव उपादेय जाण्वा, निज आत्म शुद्ध
 सिद्ध स्वरूप उपादेय प्रतीतिमां आणी अंतरंग शुद्धतामां परिणति प्र-
 वेश करे ते वने प्रगट समवेत (समुदाय) समवाय (अज्ञेद)
 शुद्धता प्रगटे. प्रथम शुद्ध स्वरूपनुं श्रद्धान करी विषयो कषायो मन
 वचन कायानी योग प्रवृत्ति, धन, कुटुंब, पुरिवार, देवादिक ऋद्धि
 आदिमांथी रति उठे निवृत्ति पामी, परिणति ज्ञान दर्शन चरणादि
 रूप निज स्वरूपमां स्थिरता पामे, एम यथाख्यात् चारित्ररूप स्व-
 ज्ञावाचरण पामी केवल ज्ञानादिक गुण प्रगटी अवाधित रहे. प्रथम
 समकितनां नि.शंकितादि आठ अंग प्रगटे, समकितनी निर्मलता
 वधे. जेदज्ञान स्वपर विवेक वने जिन वचनमां शंका न रहे. (१)
 कुप्रावचनिक मिथ्या वचनमां रुचि प्रतिति न थाय. (२) सिद्धां-
 तमां प्ररूपेला एक पण वचननी अप्रीति दुगंछा न आवे वली साधु
 मुनिराजना मलादिकनी के कोईपण अमनोझ वर्णादिकनी दुगंछा न
 आवे (३) शुद्धा शुद्ध देव, गुरु, धर्म परिदामां मूढता न रहे. (४)
 गुरुना गुणोने न गोपवे, वली पोतानी असमजथी जणाएला अवगु-
 णने न प्रकाशे, पोताना गुरुने न तुपावे, वली अन्यना अवगुण अने
 पोताना गुण न प्रकाशे (५) पोताने अने परने सम्यक्त सजम आ-
 दिथी परुताने अव्यना गुणपर्याय लक्षण लक्षमां अज्ञेदपणे जणावी
 वतावी स्थिर करे (६) देव, गुरु, साधर्मी उपर वात्सल्यताज्ञाव राखे
 (७) शुद्ध नये सिद्धांतना रहस्यने जाणी, जणी जणावी प्रतिबोध
 आपी काव्यसुधारस आदिथी जवी जीवोने शासन रसी करे (८)
 एम आठ अंगवडे सम्यक्तज्ञाव निर्मल करे देव, गुरु, धर्म, शास्त्र
 जक्ति सन्मान शुद्धातमज्ञाव पामवानुं कारण जाणी करे. गुरु परम
 कृपाल शुद्ध नये आत्मस्वरूप जणावी कषाय कलुपताथी ठोडावे गुरु-
 गमसहित शास्त्र (आप्त परम गुरुनां वनन यतः

તિત્યયર સમો સૂરી, સમ્મં જો જિણમયં પયાસેઈ

આણાઈ અશ્કંતો, સો કાપુરિસો ન સપ્પુરિસો

અર્થ—જે સમ્યક્ પ્રકારે જિનમતને પ્રકાશે છે, તે આચાર્ય તીર્થંકર જેવા છે. પણ જે જિન આજ્ઞા ઓલંઘીં ઉપદેશ દેટે, તે સત્પુરુષ નથી નાંદનીય છે. અન્યાસે જેદજ્ઞાન રુપ સ્વપર વિવેક પામીએ; માટે ગુરુ અને શાસ્ત્રની સેવા ઘણીજ જરૂરની જાણી પ્રમાદ ઠોઢી આદરે. જવ જોગથી જુદાસિદ્ધ વૃત્તિ કરી શુદ્ધાત્મ જાવમાં મન સ્થિર કરે. શુદ્ધ ઉપયોગના ત્રણ જેદ છે. જ્ઞત્તિરૂપ, ક્રિયારૂપ, ગુણ ગુણી જેદ વિચાર રુપ. તેના સાતિશય અને નિરતિશય વડે ઠ જેદ થાય. તેમાં સમકિત સહિત જ્ઞત્તિ, ક્રિયા અને ગુણ ગુણી જેદ વિચાર તેતો સાતિશય છે, અને સમ્યક્ત રહિત એ ત્રણે જેદ નિરતિશય જાણવા. સમ્યક્ત સહિત તો પરંપરા નિયમા મોહનું કારણ છે. અને સમ્યક્ત વિના સંસાર સુખ આપે; મોહ માર્ગની જ્ઞજના છે. એટલે પરંપરાએ મોહ પામે અથવા ન પણ પામે; એજ શુદ્ધયોગવડે ફરી સદ્ગુરુ યાગે સમ્યક્ત પામે તો મોહનું કારણ થાય.

સમ્યક્ત જ્ઞાન, દર્શન ચરણ સાધ્ય છે તેમજ સમકિતી જીવ સાધક છે. જ્યાં ક્ષપક શ્રેણિ સાધક ત્યાં યથાખ્યાત ચારિત્ર સાધ્ય, અને યથાખ્યાત ચારિત્ર સાધક ત્યાં અનંત ચતુષ્ટય સાધ્ય છે. જ્યાં દ્રવ્યલિંગ સાધક ત્યાં જ્ઞાવલિંગ સાધ્ય. જ્યાં મનોવિકારવિલય સાધક ત્યાં પરમસ્થિરતા સાધ્ય છે. જ્યાં શબ્દ સાધક છે ત્યાં અર્થ સાધ્ય છે. જ્યાં અર્થ સાધક ત્યાં જ્ઞા-
નાનંદ રસ સાધ્ય છે. જ્યાં શુદ્ધ ધ્યાન સાધક ત્યાં પરમસ્થિરતા સાધ્ય છે. સ્થિરતા સાધક ત્યાં કર્મક્ષય સાધ્ય છે. સ્યાદ્વાદ સાધક ત્યાં વસ્તુસ્વરૂપ જ્ઞાન સાધ્ય છે. દ્વાદશ જ્ઞાવના સાધક ત્યાં પરમ વૈરાગ્ય સાધ્ય છે. નિ-
ર્મલ જ્ઞાન કલા સાધક ત્યાં શુદ્ધ પરમાત્મ જ્ઞાવ સાધ્ય છે. વિવેક સાધક

त्यां परमः नीति साध्य ठे. धर्मध्यान साधक त्यां शुक्लध्यान साध्य ठे. वीतरागजाव साधक त्यां मोक्षजाव साध्य ठे. संवर साधक तिहां कर्मबंध अजाव साध्यठे. निर्जरा साधक शुद्धात्म गुण प्रगट साध्य, शुद्ध ऊपयोग साधक त्यां चेतनामां चित्त खीन थवुं साध्य. नयजंग साधक त्यां प्रमाण साध्य. ज्यां प्रमाण जंग साधक त्यां वस्तु सिद्ध साध्य. सम्यक् शास्त्रावलोकन साधक त्यां शुद्ध श्रद्धा साध्य, शुद्ध श्रद्धा साधक प्रगट परमार्थ पामवो साध्य, गुरुसेवा साधक आत्महित साध्य. विनय साधना ज्ञानसिद्धि साध्य. तत्वामृत पीवुं ए साधना संसार खेद मटवो साध्य, ध्यानाभ्यास साधना ध्यान सिद्धता साध्य, नयनिक्षेप प्रमाण सप्तजंगस्याद्वाद साधना शुद्ध द्रव्य ज्ञान साध्य, परदया साधना निजदया साध्य, द्रव्य दया साधना जाव दया साध्य, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्यता, साधना सम्यक्त गुण साध्य, शुद्ध चेतन जावना साधना सहज समाधि साध्य, प्राणायाम साधना मनोनिग्रह साध्य, धारणा साधना ध्यान साध्य, निज गुण रुचि साधना अखंड समाधि साध्य, विकथा साधना कर्म क्लेश साध्य, संवेगनी, निर्वेदनी, आक्षेपणी, निक्षेपणी श्रेम चार प्रकार धर्मकथा साधना शुद्ध धर्म साध्य, एम अनेक विध साध्य साधक जाणी शिव समाधि साधीए.

कोई कहेशेके आ समयमां मोक्ष मार्ग ठे नहि, तो श्रेवुं जाणनारे मोक्ष मार्गनो अजाव कर्यो ते वहिरात्मा ठे पण आ वर्तमान समये जे जीव मोक्ष मार्गनो अजिलापी थई शुद्ध दायक समकित पामी अनुभव आनंदने वधारे ते श्रेक जव वैमानीकनो करी; उत्तम क्षेत्रे, उत्तम कुले, मनुष्यजव पामी, आठ वर्ष उम्मर थया वाद संयम लई, एक अतरमुहूर्त्तमां घाती कर्मनो दाय करी अनंत चतुष्टय प्रगट करी परम कल्याणने पामे, माटे मोक्ष मार्ग साधवा उजमाल थई अनुभव अभ्यास निरंतर करवो. अहिंथां काल कर्मनुं जोर नथी.

आगलनी पेठे चक्रवर्ती आदि ऋद्धि अने गृहस्थोनी मणि माणिक
 आदि ऋद्धि आज नथी. ते लोकोने तो परिग्रहनो राग संसार तरफ
 वधारे खेंचनारो हतो; आ वखतमां अटलो परिग्रह नथी. माटे स्वरूप
 साधवामां अटकावनार आगळ जेटलो परिग्रह पण नथी. प्रत्यक्ष आ
 संसारमां घणां विघ्न जणाय ठे तो मुमुक्षुओअे देहादि जोगथी विरक्त
 थइ स्वरूप साधवुं एज श्रेय ठे. पर परिणामिकता करवी सुगम जाणे
 ठे निज परिणामे रहेवुं कठण बतावे ठे. संसारीक कार्यामां चतुर,
 निज स्वरूप साधवामां मूर्ख, ए केवी अचंबानी वात ठे? एम शठ
 हठ पकनी कर्मदंडमां ध्यायो बहु जव ताप पाम्यो तो पण अंध धुंध
 थइरही सद्गुरु वचनमृतपीतो नथी, मोहनिंद्रावने गाफल थइ रह्यो
 ठे. पोताना कृतकर्मना विपाको अन्य कोइ नहि जोगवे पोतेज जोगवे;
 माटे गुरु परमकृपा करी ढंडोळी ढंडोळी पचारी पचारी जगावी
 कहे ठे ते ठतां जो निज दयाळ न थाय तो जव अटवीमां जमतां
 फरी कोण वारवावालो ठे? माटे एक दणमात्र पण प्रमाद न करतां
 जिन आज्ञा परमगुरु मुखे जाणी शुद्ध नये सेवो. सुखी थाओ. सुद्ध
 जागृतता पामे निज चैतन्यता वधारे. निज परिणति वधारे. अध्यात्म
 महिमामां लय लगावे. सहज समाधिरस पामे. कर्मबंध मटावे. प्रधान
 चिद्गुण पर्यायमां ध्यावे त्यारे पूर्णानंद पामे. ए जिनवचननो सार
 जाणी ग्रही अनंतकाल जीवीए. निज डोही न थइए. निज स्वभाव
 अवलोकनथी पर परिणति नाश पामे निज अनुरागवने वीतराग पद
 पामे. हमणां दाव पाम्यो हुं फरी योग मलवो दुर्लज ठे. जेथी जवफंद
 मटे; माटे मान मोडी, माया जाल उखेनी, क्रोध अग्नि बुजावी,
 लोच लहेर मटावी, विषय विष तजी, चिदानंद राज्य देखो. ज्ञाना-
 मृत धारा पीओ. निज परिणति नारि संगे रमण करी ममता कुम-
 तिने घरथी कहानी एकांतिक, आत्यंतिक आनंद विलासी थाओ.
 निर्वृत्ति त्रियार्थी दूर रह्यो त्यां सुधी जवताप सह्यो; हवे निर्वृत्ति राणी

संगे सर्वे समय रही अखंड आनंद विलसो-परमां निजजाव कल्पी रह्यो तेथी साचुं सुख पाम्यो नहि, होंश पुरी थाय नहि. पण अस्थिरता, परतंत्रता, चपलता, सहज निधि वियोग विना वीजुं फल नथी. ब्रह्म समुद्र ज्ञानामृत रसे ज्यों ठे ते रस पीतां अमर, अजरपणुं पामे. पुद्गल कर्म करी पांच इंद्रियने ठहुं मन थयां तेमां देह प्रमाणे आत्मा व्याप्यो तेथी एकेंद्रियादि तथा संज्ञी, असंज्ञी-संज्ञा पाम्यो. जाव इंद्रिय जाव मन-एम ठ प्रकारे उपयोगना जेद थाय ठे. एक एक उपयोग वने एक एक तरेहनो पुद्गलादि परिणाम देखे, जाणे. उपयोग मन द्वारे चित्ता विकल्प देखे, जाणे, चेतना परिणाम, विकल्प चित्तरूप थाय ते परिणामने मन नाम कहेवाय. एम वीजी इंद्रियो द्वारे पुद्गल वर्णादि विषयोने देखे, जाणे, जेस कान वने शब्द पर्याय, आंख वने वर्णादि संस्थानादि पर्याय, नाकवडे गंध पर्याय, जीजवडे रस पर्याय, त्वचावडे स्पर्शादि पर्यायने जाणे ते अर्था, ईहा, अवाय, धारणा, अवग्रहे, एम एक एकना चार चार जेद करी चोवीश अने मन, आंख विना चार इंद्रिय व्यंजनने ग्रहे ठे ते चारने व्यंजनावग्रह कहिये एम अष्टाविश जेद थाय ते मतिज्ञान नाम पामे ठे. तेना उत्तर जेद करतां अनेक जेद पण थाय ठे एज इंद्रियो अने मनवने वस्तुनो सामान्ये बोध तेने दर्शन कहिये एम आत्मानो उपयोग परसंयोगे मति सज्ञा पामे ठे. ज्ञानीओना अज्ञिप्राय श्रुति एटले वाणिथी अने अक्षरादि अन्य चिन्होवडे अन्य जे जे जावो रूपी अरूपी त्रिकालना अने दूरवर्तिना मतिज्ञाने करीने जाणे, ए मिश्रनु नाम श्रुतज्ञान कहिये, ते मति श्रुत समकित्ती जीवने मतिश्रुत कहिये मिथ्यात्वी जीवने कुमति कुश्रुति रूप ठे. परसंगे ज्ञान अनेक नामने पामे ठे. ज्ञान एक निर्मल चैतन्य मात्र ठे. मिथ्यात्वीना जाणवामां विपर्यास ठे, केसके मिथ्यात्वी ज्ञेयोने ए हु, मने, मारा कामना इत्यादि ममत्व सहित जाणे ठे माटे मिथ्याज्ञान

कहिये. पर ममत्ववशे ज्ञान मिथ्यानामने पाम्युं पण ज्ञान आत्मानो
 निज स्वभाव ठे. समकित्ती जीव ज्ञेयने ज्ञेय पोताथी जिन परपद जाणे
 ठे. ज्ञेयो मांहे ग्राहकता, व्यापकता, रमणतादि करे नहि. ज्ञायकता एज
 पोतानुं स्वरूप जाणी. निज ज्ञायकतामां, ग्राहकता, व्यापकता, रमण-
 तादि चावे रहे तेथी सम्यक्त नामने पामे ठे. मिथ्यात्वी परने निजरूप
 जाणी अवलंबे, आचरे माटे मिथ्या आचरण ठे. समकिति जीव पर
 ज्ञेयथी जिन निज ज्ञायकता अवलंबे, रमण करे तेथी सम्यक् चारित्र
 नाम पामे. सम्यक्त सविकल्प निर्विकल्प बे प्रकारे ठे. तेमां सविकल्प
 सम्यक्त जघन्य ज्ञानी परज्ञेयने पररूपे जाणी पोताने ज्ञायकता शक्तिमय
 ज्ञेयथी जिन पोताने निजरूपे जाणे, ते सविकल्प समकित; अने ज्ञानी
 ज्ञायकता व्याप्य व्यापक अज्ञेदपणे समकाले पोते पोताने पोतापणे
 अने परने परपणे जाणे ते निर्विकल्प सम्यक्त कहिये. ते सम्यक्त
 केवल दशामां पामीअे, अने समकाले पर गुण पर्याय परपणे जाणी
 तेथी उदासिन्न पणे रही स्वगुण पर्याय स्वस्वरूपे अज्ञेदपणे जाणी
 अनुजवे, रमण करे, अहिंसां परम शुद्ध चारित्र ठे. अने जे वखते
 जे ज्ञेयने प्रयुंजे तेज ज्ञेयने जाणे, सकल ज्ञेयने न जाणे त्यां सुधी
 उद्वस्थ दशाठे. केवलीने तो अेक समये समकाले स्वपर सकल ज्ञेयना
 त्रिकालवर्तीना ज्ञान होय ठे. मिथ्यात्वी अने समकित्तीने ज्ञेय
 प्रयुंजना एक सरखी ठे. पण मिथ्यात्वीनुं जाणवुं अर्थार्थ, अने सम-
 कित्तीनुं जाणवुं यथार्थ ठे अेटलो विशेष जाणवो. समकित्तीनुं जाणवुं
 सम्यक् प्रकारे ठे माटे अशुद्ध परिणाम करी बंध बधारतो नथी पण
 उपशमी ह्यउपशमीने ज्यारे मिथ्या उदय आवे त्यारे विविध बंध
 करे ठे. सम्यक्त दशामां मिथ्यात्वनी बंध करतो नथी. सम्यक्त दशामां
 चारित्र मोहनीयनो उदय होय तो पण विशुद्धता ठे माटे जव ज्रमण
 बधारतो नथी. सम्यक्त शक्तिवशे चारित्र मोहनीयनो नाश करी अशु
 कालमां संसार पार पामे ठे. मिथ्यात्वी पोतानुं स्वरूप न जाणे तेथी

संसार वधारी जव अटवीमां रुले ठे. जेम वादीगर मंत्रनी शक्तिक्ने विपधरना विपनी शक्ति किली राखे ठे अटले विपधरनो डंख विप रहित थाय ठे, तेम समकिती आश्रव अने कर्मबंधनी शक्ति किली राखे ठे अटले शुजाशुज उदय ठतां पण उदासिन्न वृत्तीए अबंध रहे ठे. सकल पर ड्रव्यथी राग तजी निज उपयोगमां स्थिर थई परमानंदमय स्वजावाचरण साथे ठे अनेनुं नाम स्वानुभव कहीअे. ए अज्यासे निर्विकल्प समाधि पामे. ए स्वानुभवनां अनेक नाम ठे. समकिती चोथा गुणठाणावालाने स्वानुभव स्तोक काल रहे ठे वली केटलेक काले पाठो आवे ठे. देशविरती पांचमा गुणठाणावालाने चोथा करतां विशेष बखत अनुभव रहे ठे वली चूकी थोडा कालमां पाठो आवे ठे. जेम जेम जेम गुणठाणानी वृद्धि थाय, तेम तेम अनुभवनी स्थिति वधे अने चूक्या पठी पण वहेलो वहेलो आवे; ठेवट अखंड समय अनुभव रहे, पाठो जाय नहि. चोथे गुणठाणेथी ज्ञान धारा वर्द्धमान दशाने पामे शुजाशुज कर्म धारा घटती जाय. आखर वारमा गुणठाणाना अंत पठी अखंड ज्ञानधारा निर्मल एकली शुक्लध्यान पामी केवळ-ज्ञान दर्शन नामने पामे. हे जव्य । एक मारी वात सांजळ. ए स्वानु-भव दशा सुखरूप ठे, कल्याणरूप ठे, निर्वृत्तिरूप ठे, समाधिरूप ठे, समयरूप सुख ठे, शांतिरूप ठे, नृप्तिरूप ठे, मोक्षमार्ग ठे, जो कदापि चारित्रावरणनो उदय होय ते क्लेशरूप ठे तो पण अनुभव अज्यास सकल क्लेशनो नाश करी चारित्रावरणनो नाश करे, शुद्ध स्वजावाचरण प्रगट करे. गुणठाणानी हृदने वधारनारो घनघातीने नाश करनारो शुद्ध स्वानुभव ठे. जेम जेम अनुभव वधे तेम तेम स्थिरता वधे. ज्ञान दर्शन वीर्यबन्धि वृद्धि पामे तेम तेम अचुं गुण-स्यानक आवे. दशमाने अंते सर्वे कृपाय माश थई वारसे गुणठाणे यथाख्यात चारित्र नाम पामे. जेम जेम स्वानुभवमां स्थिरता वधे

तेम तेम अनुभवनी निर्मळता अने स्थिरता वधे, वली अगानी विशेष स्थिरता वधे. अने अनुभव पूर्ण निर्मळ थतो चाले. अनुभव कर्म धूलीने नाश करवा प्रचंरु पवन समान मुनिजनोए कह्यो ठे कषाय दावानल बुझाववाने अनुभव पुष्कळावर्त मेघ समान ठे, अनुभव अमृत रसायण ठे अनुभव अमृत सेवतां अनंत जीवो परम पूज्यपदने पाम्या वेद, पूराण, क्रिया, कष्ट, निज आत्म अनुभव विना क्लेश मात्र ठे, ए विना विद्या अविद्या रूप ठे, स्मृति विस्मृति रूप ठे, चतुराई मूर्खाई रूप ठे, पुरुषत्व अपुरुषत्व रूप ठे, मनुष्य जन्म निष्फळ ठे, शास्त्रार्थ करवो वृथा ठे, बाह्य पूजा मोहं जवन ठे, अनुभवविना गाममां रहेलो पुरुष गाय, श्रान जेवो ठे, मुनि वेषे पण वनमां रहेलो रोक सरखो ठे, अने अनुभव अये तो मोक्षनुं निदान ठे. अनुभवी पुरुषोनां चरण देवेंद्र, नरेंद्र सेवे ठे. अनुभवथीज साध्य, सिद्ध थाय ठे, अनुभव चिंता-मणि रत्न ठे, अये समान जंचो धर्म बीजो नथी. मिथ्यात्व, रागादि, कषाय, योग, प्रमाद जावने परिणमवाथी जे कर्मण वर्गणा आवी ते आत्म प्रदेशे क्षीर नीर पेरे अये क्षेत्रे थई, ते आठ कर्म परिणामे परिणमी, ज्ञानादिक आठ गुण मलीन थया. ज्ञान अज्ञान रूप, दर्शन अदर्शन रूप, चारित्र पराचरण रूप, वीर्य पराश्रित परानुयायी पणे, एम आठे गुण मलीन थया. कर्मण वर्गणा आठे कर्म पणे वेहें चाई. ते चेतना-नीज चूळ ठे के पोतानी परिणति मलिन करी नहितो वर्गणानुं जोर नहि; हवे पण चेतना मिथ्यात्वादिक कर्म बंधना कारणोनां परिणामि न थाय, मिथ्यात्वादिक कारणो तजे, ज्ञानादि करणे स्वजाव सिद्धि कार्यनो कर्ता थई अनुभव अज्यास करे तो पूर्ण सिद्धता पामे. पुद्गल परिणति उपर रागादि करी चेतनाए निज परिणाम मलिन, अशुद्ध, वक्र कर्णो ते चूळ चेतनानी ठे पण अंतरंग सत्तामां कांई विकार नथी; जेम सूर्यनां किरण वादळांमां थई प्रकाश करे ते वादळां वडे विविध रूप थाय पण किरणे तो पोताना तेज प्रकाशने ठोड्यो नथी पोताना

प्रकाश सहित ठे, बली सोनीना संगे सोनुं विविध घाट आकारने धरे ठे पण पोताना चारे, पीळाश, चिकाश, बहु मूढ्य आदि गुणोने ठोडतु नथी तेम आत्मा पर सगे पर्याय विकारी थयो पण पोताना मूल ड्रव्ये शुद्ध ठे ज्यारे पर कारण तजे त्यारे पोताना स्वचावे प्रगट थाय शरीरनी चलन, हलन, बलन, शब्दादि क्रिया ए सर्वे पुद्गल खेल ठे 'चैतन्यता शिवाय' अन्य कांईपण ताहरुं नथी माटे पर परिणतिनुं ममत्व तजी चैतन्यता चावे स्थिर था ड्रव्यकर्म, नोकर्म आदि सर्वे पुद्गल अखानो ठे ते मांहे ताहरे पोतानी ज्ञायकता ठोनी प्रवेश करवो नहि. ताहरा स्वरूपमां ज्ञान, दर्शन आदिना पर्याय रूप पात्र (नाचनारी) नाची परम रस उपजावे ठे तेने देखी मग्न रहे. सत्ता मृदग, प्रमेय ताल वाजे एवा निज खेलमा रींजी सत्ताचुमीमां आनंदे राज्य कर तुं निज म्वरूप चूली कहुं तुं के ए कर्मादिक मने डु ख दे ठे पण ताहरी पोतानी चूल शोधी रागादि न आदरुं तो ए पुद्गलो तने डु ख देवा समर्थ नथी. पोतानी चूल न काढतां परने दोष देवाथी डु ख केम मटे? पुद्गलो पोतानी मले आत्माने डुःख देई शकता नथी मरेली स्त्रीथी सगपण करवा चाह्य तो लोकोमां पण हांसी थाय तेम जरु पदार्थमां खेलवाथी पोते जरुता आदरी जरुवत् वने जडमां आपो मानवानी कुटेव तजो. फक्त परमां आपो मानी आचरण करवाथी बंध थयो ठे. (उक्तच)

॥ गाथा ॥ परद्वोरुओ वड्कड्, विरळ मुंचेइ अठ कम्महिं, ॥

एसो जिण उवएसो, समासळ बंध मोखवस्स. ॥

देखवा जाणवाथी बंध थतो होय तो सिद्धने पण बंध थाय राग छेप मोहने करवावालो पण पोतानो परिणाम ठे, अने रागादिकने तजवावालो पण पोतानो परिणाम ठे माटे निज परिणामे करी रागादिक तजी निर्मळ रहो. ज्ञान दर्शनमां राग छेप नथी ए

तो देखवा जाणवा मात्र ठे. राग द्वेष आदि विकार ग्रहवे करी पोते विकारी थाय. राग, द्वेष, मोह सहित देखवुं, जाणवुं, आचरवुं करे तोज बंध थाय. सम्यक् ज्ञान दर्शन चरणमां बंध नथी.

॥ गाथा ॥ दर्शनमात्म विनिश्चित, रात्म परिज्ञानमिष्यते बोधः ॥

स्थितिरात्मनि चारित्रं, कुत एतेज्यो जवति बंधः ॥ अर्थ ॥

॥ दोहरो ॥ दर्शन आत्म विनिश्चित, बोध विशेष सुज्ञान ॥

आत्म स्थिरता चरण गुण, तिहां न बंध विधान ॥

अजवि जीवने स्वप्नावाचरण आवे नहि, अने जवि जीव सम-
कित पामी स्वप्नावाचरण सेवी सकल कर्मनो नाश करे. कोई प्रश्न
करे के स्वरूप देखीए नहि, जाणीए नहि, तो तेमां केवी रीते
उपयोग स्थिर करीए ? तेने कहेवुं के परवस्तुनो देखनार जाणनार
प्रत्यक्षपणे ताहरोज उपयोग ठे, ए उपयोगथी देखवा जाणवानी
अन्य वस्तु जिनन ठे, पण एज ताहरा उपयोगने राग, द्वेष, मोह
पराचरणरूप न थवा दउं तो कर्मबंध आवी शके नहि, अने जेम
जेम रागादि अशुद्धता विना उपयोग स्थिर रहे तेम तेम पूर्व कर्म रस
निर्जरी, कर्मदलीयां खरी ज्ञान दर्शन लब्धि प्रगट थाय. ताहरो
उपयोग ताहारी पासे ठे, अन्य क्षेत्रे शोधवा जवुं नथी (उक्तंच)
(उवउंगमउंजीवो)

॥ गाथा ॥ उवउंगो खलु डविहो, एणणेण य दंसणेण संजुत्तो ॥

जीवस्स सव्व कालं, अणणणचूदं वियाणीहि ॥

एटले सर्वे जीव त्रणे काल उपयोग सहित ठे. जीवपरिणाम,
वस्तु बेंदे ठे तथा लाज ले ठे. स्वरूपनिवास परिणामज करे ठे. परि-
णाम उत्पाद, व्यय, ध्रुव रूप ठे. उत्पाद, व्यय, ध्रुवमां सत्ता, अने
सत्तामां अस्तित्व. अस्तित्वमां वस्तुत्व, वस्तुत्वमां द्रव्यत्व, द्रव्य-

त्वमां प्रमेयत्व, प्रमेयत्वमां परिणामिकत्व, परिणामिकत्वमां अगुरुं ख-
घुत्व, एम सामान्य विशेष सर्व धर्म गुणगुणी अज्ञेदपणे परिणाममां
सिद्ध थया. माटे ज्ञान द्रष्टि ए जोश्य तो वस्तु अगोचर नथी पण
वस्तुना स्थानके जोतां जके, अन्य स्थानके अने अन्यरूपे नास्ति ठे
माटे स्वद्रव्यादिके पोतानो अस्ति धर्म संजाली त्यां परिणाम स्थिर,
अचल, अकंप, मग्नपणे निर्मलानंद अनुभवो.

॥ उक्तंच ॥ जीवो परिणाम इविहा, सुद्वेण असुद्वेण चासुद्वो
असुद्वो, ॥ सुद्वेण तदा सुद्वो, परिणामो होई सद्द्वेयो.

जीवना परिणाम वे प्रकारना. एक शुद्ध, बीजो अशुद्ध.
अशुद्धना पण वे जेद एक शुद्ध बीजो अशुद्ध. ज्यारे जीव जेवा
परिणामने परिणमे ठे त्यारे ते परिणामथी तन्मयी ठे. ज्यारे
शुद्ध परिणामने परिणमे त्यारे पोतानी शुद्धताए तन्मयी ठे ज्यारे
शुद्धाशुद्ध अशुद्ध परिणामने करे त्यारे अशुद्धतामां तन्मयी ठे.
माटे परिणामने शुद्ध स्वरूपे करी तन्मयताए स्थिर राखवो, रागा-
दिक अशुद्धता लागवा देवी नहि. परद्रव्यना ममत्वे आत्म अध्य-
वसाय त्रिविध रूपे अशुद्ध थाय ठे. आत्मस्वरूपने जाण्युं नहि माटे
अज्ञान रूप अध्यवसाय थया, परने पोतापणे जाण्युं माटे मिथ्यात्व-
रूप अध्यवसाय थया, अने परद्रव्य ऊपर रागादि थयेथी कषायरूप
अध्यवसाय थया, एम त्रिविध अध्यवसाय थाय ते तिव्र, तिव्रतर,
तिव्रतम, मंद, मंदतर, मंदतम वरे असंख्याता जेद थायठे माटे
ज्ञान दर्शन चरणरूपे निज आत्म परिणाम स्थिर करी अबाधित
रहेवुं. पराचरण वे प्रकारे ठे एक द्रव्य पराचरण बीजुं जाव पराचरण.
मन वचन कायानी क्रीया अथवा कर्मनुं कारण जे नोकर्म ते द्रव्य
पराचरण ठे. जाव पराचरण ममत्व राग द्वेष मोहरूप ठे. कोइ कहे के
“रागादिजाव जीवना ठे, परजाव नथी अने रूप रसादि ते परना ठे”

तेने कहिए रागादि ज्ञाव शुद्ध नये जीवना मूल स्वज्ञाव नथी. पण आत्मामां विज्ञाव स्वज्ञाव ठे, ते वमे अनादि पोताना स्वरूपने अणजाणतो अशुद्ध निश्चय वमे परने पोतापणे जाणे तेथी राग ए प्रवाह अनादि ठे पण पूर्वलो पूर्वलो राग नाशे अने नवो नवो उपजे तेथी एपण सादिसांतठे, ज्यारे जीव शुद्ध नये पोताना स्वरूपने जाणे त्यारे राग थवानो अवकाश नथी, माटे ए पोतानो मूल स्वज्ञाव नथी. अने रूप रसादिकतो प्रत्यक्ष जड विज्ञाव ठेज. ज्ञान, दर्शन, चारित्र एज पोतानो मूल स्वज्ञावठे; पण ज्यांसुधी पोतानुं शुद्ध स्वरूप जाण्युं नथी त्यांसुधी परिणाम जेवा ध्येयमां व्यापे तेवा थाय; माटे जरु ध्येयमां परिणाम न जवा देतां शुद्ध सिद्ध स्वरूप ध्येयमां स्थिर करवा एटलेज पोते सिद्ध रूप थाय, उत्पाद, व्यय, अने खट गुण हानि वृद्धि अने अर्थक्रियाकारित्व परिणामथीज सिद्ध थाय ठे. आगल देवाधिकार लखीए ठिये.

चार घनघाती कर्म जेणे नाश कर्यां, अनंत दोष रहित अनंत गुण सहित एवा देवाधिदेव त्रिभुवन तारण ते मुख्य अठार दोष रहित ठे, मोहनी कर्मना द्वय थकी अग्यार, ज्ञानावरणना द्वय थकी एक, दर्शनावरणना द्वय थकी एक, अंतरायना द्वयथकी पांच, एम अठार दोष गया तेनी वीगत निचे प्रमाणे.

मोहनी कर्मना अग्यार दोष लखीये ठिये. हास्य, रति, अरति, जय, शोक, डुगंठा, मिथ्यात्व, अविरति, राग, द्वेष, काम.

पंचास्तिकायना प्रमेय जाणवार्थी सकल परिणामने पण यथार्थ जाणवा पुरुषो अने स्त्रीओना स्वज्ञावने कर्म ऊदयागतने पण जाण्या तो तेने अचंबो न होय तो हास्य शानी ? (१) ज्ञानानंदमय निजरूपथी न्यारो जे पुद्गलपर्याय अथिर, असार जाण्यो तो तेमां रति शानी ? (२) पुद्गलपर्याय अथिर, जड चल जीवनी अंतरूप जे शरीर तेमां जन्म, जरा, मरण, जूख, तृषा, ताप, श्रम, रोग, चिंता

खेद आदि अनेक दोषण ठे; तेथी न्यारुं ज्ञानदर्शनमय असंख्यात प्रदेशरूप अबाधित निज अंग जाण्युं, पुद्गल परिणति ए आपणी नथी, अने तेमां जोग धर्म पण नथी, सम्यक् प्रकारे निज ज्ञानानंदमां जोगधर्म जाण्यो. कलुपतारूप मोहनीनी अछावीशे प्रकृति अने तेना असंख्याता अध्ववसायनो नाश थयो तो शरीरनी अंदर गमे तेम होय तेनी अरति शानी ? (३) पोताना स्वप्रदेश अने ज्ञानादि निधान, हांत्यादि निज कुटुंब, स्वपर विवेकरूप मित्रने सदा अखंरु अबाधित जाणे ठे अने पोतानुं सर्वस्व अखंरु जाणे ठे तिहां जय शानो ? (४) वली पोताना डव्य प्रदेश, गुण, पर्याय, सुख हेतु सदा कायम ठे. पूर्वे अनंतकाल जव भ्रमण करतां पोतानो एक प्रदेश पण घसायो नथी, गुण तो लेश मात्र पण विनाश पास्यो नथी तो शोक शानो ? (५) पुद्गलना अमनोह स्पर्श, रस, गंध, रूप, शब्द आपणा निज आत्म अगने कंइ हरकत करी शकता नथी, अमनोह स्पर्शादिकनी हरकत तो शरीरने होय, शरीरथी न्यारो ज्ञानघन पोते पोताने जाण्यो तो डुगंछा शानी ? (६) सकल डव्यना गुणपर्याय अस्तित्वादिक सामान्यधर्म अने परिणामिकत्वादि विशेष धर्म लक्ष लक्षण अज्ञेदपणे जे जेना ते तेनामां जाण्या. पोताना लक्ष लक्षण अज्ञेदपणे पोतामां जाण्या तो परमां ममत्व क्यांथी होय अने ममत्व न होय तो मिथ्यात्व शानुं ? (७) शरीरनी अंदर उपजता कुधा, तृषा, जरा, मरणादि मटाडवाने अने पंच इंद्रियना जोगो, अने धन आदि जोग उपजोगनी वस्तु मेलववाने मन, वचन, कायानी प्रवृत्तिरूप अविरति उपजे ठे पण शरीरथी न्यारुं निर्मल, निःकंप, निज आत्म-अंग जाण्युं तो अविरति शानी ? (८) आत्मअंग अजग चेतना विवास पोतानो पोतामां जाण्यो पुद्गल क्रिया प्रयुंजी सुख लेवानुं नथी पण सहेजानंद निज आत्म अधिकार माहे ठे तो परनो मोह पण नहि तो राग शी वस्तुनो होय ? (९) पोतानुं आत्मअंग अने

ज्ञानादि निधान अखंड, अजंग, अतुट ठे अने कोइ अन्य द्रव्य हरकत करी शके एवं नथी, लूटी बगाही शके एवं नथी, कोइ बगाडवा समर्थ नथी, तो वैर अने द्वेष शानो ? (१०) शरीरनी अंदर वेदोदय तथा चूख, तरस, ताप, शीतादि विकारो होय ठे, शरीरथी न्याऊं निरोगी, निरामय, अविकारी, ज्ञानमय, सकल कामना रहित, निज आत्मअंग जाणुं तो वेद उदयनो मद अने स्त्री आदि अंगना अजिह्वाष, अने पंचे इंद्रियोना विषयोनी कामना क्यांथी होय ? (११) ए अग्यार दोष मोहनी कर्म वडे हता ते सर्वाशे नाश पास्या.

समकाले अनंत द्रव्यना सामान्य विशेष धर्म, गुण, पर्याय, वस्तु स्वभाव, चवितव्य, जीवादि सर्वे द्रव्यनी काल परिणति, सकल द्रव्यना क्रमवृत्तीपर्याय, शक्ति अने पुरुषत्व सर्वेना त्रिकालवर्तीना ज्ञावपर्याय, अन्य संबंध विज्ञाव आदि सकल प्रमेयने मापनारी पर परिच्छेदक शक्ति वाली जळहळ ज्ञान ज्योती अखंरु, अजंग प्रगटी. कोइ पण ज्ञेय एवो नथी के जे ज्ञानना जाणवामां आवे नहि; एवं निर्मल, निःकंपज्ञान प्रगटुं तो अहिंशां अज्ञान रहेवानो अवकाश नथी. (१२) शरीरना समत्ववडे शरीरना थाकथी निंदा हती; साक्षात् चैतन्यअंग सकल समय अबाधितपणे दर्शुं. तुरीय अवस्था प्रगट यइ पुद्गल अंगमांथी इष्ट अनिष्ट वर्गणा खरे, मळे ते वके खेद लागी निंदा थाय ठे पण पुद्गल पर्यायथी न्याऊं निज अखंरु अंग दर्शुं; तेमांथी प्रदेश मात्र पण खरवानो के घसावानो नथी तो थाक अने निंदा क्यांथी होय ? (१३)

हवे अंतरायना पांच दोष गया ते लखीए ठिये.

आत्मा पोताना वीर्य गुणे करी ज्ञान, दर्शन, चरणादि सुपात्रने स्वपर्याये परिणमवानी सर्वे समय शक्तिरूप अहय दान आपे ठे; वळी अव्याबाधादि अनंत गुणोने कायम रहेवाने तथा अन्य चर्वा

जीवोने पण आत्मसत्ता शुद्ध नये उपदेशी अहय दान आपे ठे एम अनंत दानलब्धि प्रगट थइ. (१४) ज्ञान, दर्शन, चरणादि आप आपणा लायक वीर्य तरफथी लाज लेइ आप आपणा कार्यमां अखंरु धाराए वत्तेते ते लाजलब्धि प्रगट थइ. (१५) ज्ञान, दर्शन शुद्ध निर्मल अनंत पर्याय रम्य स्वरूपमां सदाए रमण जोग विलास करी अनंत पर्यायने जोगवे ते जोगलब्धि जाणवी (१६) ज्ञान, दर्शन, चरण, अव्यावाधादि आत्मगुण शिव कमला सगे अखड अनंत जोग जोगवे ते उपजोगलब्धि प्रगटो (१७) चेतना निज वीर्य गुणने निज सकल स्वकार्य मांहे अखंरु प्रवर्तावे ते वीर्यलब्धि (१८) एम अढार दोष रहित होय तेने देव कहिए. कोइ निज कल्पना कल्पित जन्म, मरण, दुधा, तृपादि दोष वतावेते ते शुद्ध परंपराना, अजाण, बाल ठे. तृपादि तो वेदनी कर्मना तावाना ठे, जन्म, मरण, आयुष्य कर्मना तावाना ठे, अहिंआं तो घाती कर्म जवाथी घाती कर्म वडे जे दोषो उपन्या हता ते गया, अने दुधा, तृपाने जो दोष कहीए तो आत्माने उंच गोत्र कहेवु अथवा कर्म प्रकृतिना नमिं जे नाम कहेवुं ते अने शाता अशाता वेदनी आदि अनेक दोषो ठरे तो तेणे अरिहंतनुं स्वरूप जाणुं नथी.

ते लोको नीचे प्रमाणे अढार दोष वतावे ठे ॥ कुंमळीयाः ॥

दूपन अछारह रहित, सो केवली संजोग, जन्म मरण जाके नहीं नहि निद्रा जय रोग, नहि निद्रा जय रोग, सोग विस्मय न मोह मति, जरा खेद परस्वेद, नाहिं मद्र बेर विषे रति, चिंता नांही सनेह, नाहिं जह प्यास न भूख न, थिर समाधि सुख सहित, रहित अछारह दूपन

पण तेमां प्रथमथी केटलाक नाश अएला ते केवलज्ञानं वखते नाश वतावे ठे तथा केटलाक अंतर जावित दोषोने जूदा गिणी वतावे ठे तथा केटलाक कायम रहेलाने नाश अएला कहेते, तथा

केटलाक दोषो पुण्य अतिशय पसाये होता नथी. तेने घाती कर्म नाश थये गया वतावे ठे, जेम जन्मतो जनमतीज वखते होयठे, पण सरवे काले कंई जन्म होतो नथी तो ए न्याये वीजाने पण जन्म दोष न कहेवाय, वली जन्म दोष ते नामकर्मना नाश थवाथी नाश थाय.

तथा जरा, खेद, रोग, परसेवो, ते पुण्य पसाये जन्मथी होता नथी कदापि सूद्धम होयतो वेदनीय कर्मना उदयथी ठे, घाती कर्मना तावाना नथी, माटे ते वेदनीय कर्म नाश थये जाय.

मरण, चूख, तृषा, ए अघाती कर्मना उदयथी ठे, माटे अघाती कर्मनो नाश थये जाय. पण मरण, चूख, तृषानी अरति नथी माटे ए दोष अरतिमां समाय ठे, जो चूख, तृषानो उदय न होयतो नोकर्म वर्णानो पण आहार लेवानी शी जरूर ?

वली विस्मय ते हास्यमां, मोह ते मिथ्यात्व तथा रागमां, मद तथा वैर ते द्वेषमां, विषय ते काममां, चिंता अरतिमां, स्नेह रागमां समाय ठे, एम अंतर जावित दोषोने जूदा गणी जे मुख्य घाती कर्मना दोषोने न गणवा, ते केवी चूलनी वात ठे ?

जेम ज्ञानावरण गयेथी अज्ञान दोष गयो तेने शुं हजु कायम कहीए ? अने हास्य, अरति, दुर्गंठा, काम अने मिथ्यात्व, ए दोषो मोहनीय कर्मना ठे तेने वाकी रह्या केम गणाय ? अने अंतराय कर्म नाश थयेथी पंच लब्धि प्रगट थई ते तरफना द्रानांतरायादि पांच दोषो ते हजु कायम गणाय ?

माटे खोटी कल्पना करवी, जोलाने जरमाववा, ते परमेश्वरनी आणार्थी विरुद्ध जाणी हठवाद बोकी शुद्ध परंपराने कवूल करवी ते सरवेने कल्याणकारी ठे.

ए दोषो तो चौदमा गुणगणाने अंते सकल निवर्ते. जेना आगेवानोए परमेश्वरनां वचन मरड्यां तेने ताबे रहेनारने खोटी कल्पना करवामां कांई विचार रहेतो नथी. जे जव जयथी बीहे

तेज पोतानी अने अन्य जीवोनी करुणाना पात्र ठे. माटे उत्सृज
 बोलनारथी सावचेत रहेवु, घाती कर्म सहित ए दोषो ह्य थवाथी
 अनंत चतुष्टय प्रगट जोगी थया ईंद्रियादिकनी सहाय विना निज
 ज्ञान गुणे करीने लोकालोक पंचास्तिकाय त्रिकालवर्तीना पर्याय एक
 समयसमकाले ड्रव्यथी, क्षेत्रथी, कालथी, जावथी, सकल ड्रव्यना प्र-
 मेयने जाणे एवुं अखंरु, अविनाशी, अस्खलित, केवलज्ञान प्रगट थयुं ठे
 सकल ड्रव्यना सामान्य स्वजावने समकाले देखे एवुं केवलदर्शन प्रगट
 थयुं ठे, पोतांना स्वजावमां ज्ञानना त्रिकालवर्तीना पर्याय ज्ञेयाकाररूपे
 जासे अने सकल ड्रव्यना सामान्य स्वजाव दर्शन गुणमां जासे एवा
 ज्ञान दर्शनना अनंत पर्यायमय रम्य निज स्वरूपमां अखंरु आनंटे
 रमण करे अने सकल परड्रव्य पर्यायथी उदासिन्न वृत्ति तो पहेला
 मोहनी कर्मना अंतथी थयेली तेज, अने निज स्वजावमां अखंरु
 धाराए स्वतंत्रपणे, मग्नपणे जे रमण एवो परम चारित्र धर्म प्रगट्यो
 ठे वली आत्मवीर्यवदे अनंत दान, अनंत लाज, अनंत जोग, अनंत
 उपजोग, अचल, अनंत वीर्यशक्ति, स्वतंत्र प्रगट थइ ठे, एम चार
 अनंत आत्मिक शक्ति जेने प्रगट थइ ठे, वली तीर्थंकर नामकर्मने
 उदये करी अष्ट महा प्रातिहार्य, चोत्रीश अतिशय, निर्दोष, स्याद्-
 वादमय पूर्वापर विरोध रहित वली अतिव्याप्ति अव्याप्ति, असंज-
 वादि अनेक दोष रहित अने पांत्रीश गुण सहित जेनी वाणी ठे
 जिविजीवोने शुद्ध नये नवतत्वादि वस्तु स्वरूप प्ररूपि मोह मार्गे
 पहाँचाडे एवा महागोप, महामाहण, महानिर्यामक, महासथ्यवाह,
 महावैद्य, आधार, करुणासमुद्र, जावधर्मदातार आदि अनेक गुणो
 जेने कहेवाने पूर्ण श्रुतज्ञानी पण समर्थ नथी तो हुं अल्पमती शुं
 कही शकुं; मतलब के जेना उज्वल अपार गुणो ठे एवा अरिहंत
 देवाधिदेव ठे. वली सिद्ध परमेश्वर अष्टकर्म ह्य करी लोक शिखरे
 आनंदपुरीमां बिराजमान थया ते अनंत ज्ञान, अनंतदर्शन, अनंत-

चरण, अनंत अचलवीर्यवंत, अटलअवगाहना, अक्षयस्थितिवंत, अ-
गुरुलघु, निराबाध, समाधिमय एम अष्ट गुणात्म सिद्ध परमात्मा
कहिए.

हवे ज्ञान अधिकार लखीए ठिए.—ज्ञान ए आत्मानो परम स्वभाव
ठे, आत्मांथी अज्ञेदपणे ठे, पण आवर्ण वशे विविध प्रकारे नामपामेठे
तेना मुख्य पांच जेद ठे. मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, ए चार ज्ञान
आवर्णना क्षय उपशमथी अने केवलज्ञान शुद्ध निरावर्ण, अतींद्रिय,
निर्मल, परम ज्ञान ठे; तेमां प्रथम मतिज्ञान अधिकार आ ग्रंथमां
कारण प्रसंगे पहिलो लखायो ठे त्यांथी जाणवो. बीजुं श्रुतज्ञान चौद
अने वीश जेदे अंगर विविध प्रकारे ठे तेना मुख्य जेद लखीए ठीए.

॥ गाथा ॥ अस्कर सन्नी सम्मं, साईअं खलु सपज्ञवसिअं च
गमिअं अंगपविठं, सत्तविए ए सपन्निस्का ॥

अर्थः—(अस्कर के०) अक्षरश्रुत (सन्नी के०) संज्ञिश्रुत
(सम्मं के०) सम्यक्श्रुत (साईअं के०) सादिश्रुत (खलु के०)
निश्चे (सपज्ञवसिअंच के०) सपर्यवसितश्रुत अथवा सांत श्रुत
(गमिअं के०) गमिकश्रुत ते पाठ, ठंड, आलावा, सरखा होय
(अंगपविठं के०) अंगप्रविष्टश्रुत, ते आचारांगादिक (ए के०)
ए (सत्तविए के०) साते श्रुतना जेद ते (सपन्निस्का के०)
सप्रतिपक्ष करीए एटले ए सातेने पोताना प्रतिपक्ष सहित
करीए; जेम अक्षर श्रुत, त्यां बीजुं अनक्षर श्रुत, संज्ञि श्रुत त्यां
बीजुं असंज्ञि श्रुत. एवी रीते प्रतिपक्षी सात जेद मेलवतां चौद
जेद, श्रुत ज्ञानना थाय. ॥ इत्यक्षरार्थः ॥

हवे चौद जेदनुं विवरण लखीए ठिये.

त्यां अक्षर त्रण जेदे ठे. एक संज्ञाक्षर, बीजा व्यंजनाक्षर, त्रीजा

लब्ध्याद्धार. त्यां जे पत्रादिके लब्ध्या ते संज्ञाद्धार, मुखे करी उच्चार करीए जे अकार ककारादिके ते व्यंजनाद्धार. एवन्ने थकी(कारणथी)जाव श्रुत होय ते माटे ते श्रुतना कारणपणाने लीधे एने ड्रव्य श्रुत कहीए, तथा शब्द सांजले थके तथा रूपादिके ग्रहे थके "अमुको ए अर्थ." एवं जे अजिधेय पणे अर्थज्ञाननो हेतु, ईंद्रियावरण क्षयोपशम लब्धि ज-घन्य ज्ञान ते श्रुत एटले अनजिधेय पदार्थने अनंतमे जागे अजिधेय पदार्थ ठे तेनुं जाणवुं ते लब्ध्याद्धार ए जावाद्धार एनुं नाम अद्धारश्रुत जाणवुं. (२) अने एनुं प्रतिपक्षी वीजुं अनद्धारश्रुत ते कहीए जे श्वासे-ओरुकारे, अने ठीके, खांसीए करी पुरुपादिकनुं ज्ञान, ते अन-द्धार शब्द श्रुत. ए वीजो जेद जाणवो.

३-त्रीजुं संज्ञा श्रुत ते संज्ञा त्रण ठे एक हेतूपदेशिकी, वीजी दैर्घकालिकी, त्रीजी ड्रष्टीवादौपदेशिकी, ए त्रणमांहे अर्हीं दैर्घकालिकी संज्ञाए करी जे सत्रीया पंचेंद्रिय मनोज्ञानवंत जीव तेनुं श्रुत ते संज्ञि श्रुत एत्रीजो जेद जाणवो.

४-चोथुं तेनुं प्रतिपक्ष जे दैर्घकालिकी संज्ञा रहित जे जीवने मन विना ईंद्रियथी थयुं ते असंज्ञि श्रुत, ए चोथो जेद जाणवो.

५-पांचमुं सम्यक्ड्रष्टी जीवनुं श्रुत. ते असम्यक् श्रुत ग्रहण करे तो पण सम्यक्श्रुत थाय, कारणके ते खोटाने खोटुं जाणे तेथी ए पांचमुं सम्यक्श्रुत

६-ठहुं मिथ्याड्रष्टि जीवने जे परिणमे, ते मिथ्या श्रुत जे जणी मिथ्यात्व ड्रष्टि जीव खोटाने खरुं अने खराने खोटुं जाणे तेथी ए मिथ्यात्वश्रुत ठहुं जाणवुं.

७-आदि सहित ते सादि श्रुत. ते आदि ड्रव्य, क्षेत्र, काल अने जावनी अपेक्षाए चार प्रकारे ठे, तेमज सपर्यवसान कहेतां थंत तेणे सहित ते सपर्यवसित श्रुत, ते पण तेमज चार जेदे ठे, त्यां ड्रव्यथी एक जीवनी अपेक्षाए श्रुतज्ञान ते सादि अने सपर्य-

वसित ठे; केमके जव्यजीव सम्यक्त्व पामे ते वारे श्रुत पामे ते सादि श्रुत; अने वली सम्यक्त्व वमे तिहां, अथवा केवलज्ञान पामे ते वारे ज्ञाव श्रुत टली जाय, एटले श्रुतनो अंत थाय, तेथी सपर्यवसित एटले सादि अने सपर्यवसित, ए बे जेद द्रव्यथी कह्या. अने सर्व जीवनी अपेक्षाये श्रुत, अनादि तथा अपर्यवसित ठे. जे जणी एम कहुं न जाय, जे आ संसारमां सर्वथी पहेलुं अमुकने श्रुतज्ञान प्राप्त थयुं अथवा अमुकथी श्रुतज्ञाननो अंत थशे एम अनादि अनंत काल जणी प्रवाह रूपे श्रुतपण अनादि अनंत ठे; एटले अनादि अने अपर्यवसित ए बे जेद द्रव्यथी कह्या; ए रीते चारे प्रकार श्रुतना द्रव्यथी कहेवाणा. हवे क्षेत्रथी कहे ठे. त्यां जरत ऐरवते जेवारे प्रथम तीर्थ प्रवर्त्ते तेवारे द्वादशांगरूप श्रुत होय ते दिवसथी सादि कहेवाय. तेवार पठी जेवारे तीर्थ विठेद थाय तेवारे श्रुतविठेद होय ते माटे सांत कहेवाय. तथा महाविदेह मांहे तीर्थविठेद न थाय तेथी श्रुतनो पण विठेद न थाय; तेथी अनादि, अनंत, तथा कालनी अपेक्षाये उत्सर्पिणी, अवसर्पिणीकाले त्रीजा आराने प्रांते, चोथे अने पांचमे होय; अने ठठा आरामां विठेद थाय तेथी सादि सांत कहिए; तथा उत्सर्पिणी अवसर्पिणीकाले महाविदेहे अनादि अने अनंत जाणवुं, अने ज्ञावथी जव्यनी अपेक्षाये सम्यक्त्व पामे तेवारे सादि, अने केवलज्ञान पामे तेवारे सांत, तथा अजव्यनी अपेक्षाये कुश्रुत अनादि अनंत ठे ए रीते सादिश्रुत, अनादिश्रुत तथा सपर्यवसित श्रुत अने अपर्यवसित श्रुत ए चार जेद पूर्वोक्त ठ जेद साथे मेलवतां बधा मली दश जेद श्रुतज्ञानना थया.

११-तथा अगीआरमुं गमिक एटले सरखा पाठ आदावा, तेणे करी बांध्युं, जे श्रुत द्रष्टिवाद प्रमुख ते गमिकश्रुत.

१२-बारमुं एनुं प्रतिपद्दी अगमिकश्रुत. ते जिहां पाठ सरखा न होय कालिक श्रुतनी पेरे, ते बारमुं अगमिकश्रुत जाणवुं.

१३-तेरमुं अंगप्रविष्टश्रुत. ते आचारांगादिक छादशांगीनुं ज्ञान, ते तेरमो जेद.

१४-चौदमुं ते अंगथी वाहेर उपांग, दशवैकालिक, उत्तराध्ययनादिक तथा प्रकरणादिकनुं ज्ञान ते अंग वाह्यश्रुत ए चौदमो जेद जाणवो

ए रीते अक्षरश्रुत, संज्ञीश्रुत, सम्यक्श्रुत, सादिश्रुत, सपर्यवसिनश्रुत, गमिकश्रुत, अंगप्रविष्टश्रुत ए सात श्रुतना प्रातिपादिक विरोधी सात जेद, जे अनक्षरश्रुत, असङ्गिश्रुत, मिथ्याश्रुत, अनादिश्रुत, अपर्यवसितश्रुत, अगमिकश्रुत, अंगवाह्यश्रुत, ए सात जेद मेलवतां चौद जेद श्रुतना कहा

तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल, अने जाव. ए चार प्रकारे श्रुतना जेद कहे ठे, त्यां द्रव्यथी पूर्ण श्रुतज्ञानी, आदेशे जिनवचनथी सर्व द्रव्य जाणे, क्षेत्रथी सर्व क्षेत्र आदेशे जाणे, कालथी आदेशे सर्वकाल जाणे, जावथी श्रुत ज्ञानी, आदेशे सर्व द्रव्यना अजिधेय पर्याय जाणे, एम चार प्रकारे श्रुतज्ञान ठे अने आवरण क्षयोपशम विचित्रताये अनेक जेद थाय. जे जणी चौद पूर्वधर मांहे एक एकथी अनंत गुण वृद्धि हानीए करी, चढता पडता ठगण वडिया होय.

हवे वीश जेद, श्रुतना कहे ठे

“ पञ्जय अस्कर पथ सं, घाय पट्टिवत्ति तहय अणुजंगो॥

पाहुमपाहुड पाहुम, वहू पुढाय ससमासा ”

अर्थ-(पञ्जय के०) पर्यायश्रुत,(अस्कर के०) अक्षरश्रुत, (पय के०) पदश्रुत, (संघाय के०) संघातश्रुत, (पट्टिवत्ति के०) प्रतिपत्ति श्रुत, (तहय के०) तेमज वली, (अणुजंगो के०) अनुयोगश्रुत, (पाहुमपाहुड के०) प्राचृतप्राचृतश्रुत, (पाहुम के०) प्राचृतश्रुत, (वहू के०) वस्तुश्रुत; (पुढाय के०) पूर्वश्रुत ए दशने वली आगल - (स-

समासा के०) समास सहित करीए एटले पर्यायसमासश्रुत, अक्षरसमासश्रुत, पदसमासश्रुत, संघातसमासश्रुत, प्रतिपत्तिसमासश्रुत, अनुयोगसमासश्रुत, प्राचृतप्राचृतसमासश्रुत, प्राचृतसमासश्रुत, वस्तुसमासश्रुत, पूर्वसमासश्रुत, ए रीते ए दश साथे पूर्वोक्त दश मेलवतां श्रुतज्ञानना वीश जेद थाय.

त्यां सूक्ष्म निगोदिओ लब्धि अपर्याप्तो जीव, तेहने जव प्रथम समये जेटलो जघन्य कुश्रुत तेथी बीजे समये जेटलो ज्ञाननो एक अविभाग परिच्छेद अंश वधे ते प्रथम पर्यायश्रुत जाणवुं. तेवा बे चार पर्याय. ते बीजुं पर्यायसमासश्रुत जाणवुं.

अकारादि लब्ध्यक्षर अनेक व्यंजन पर्याय सहित जाणवो ते त्रीजुं अक्षरश्रुत. एवा बे चार लब्ध्यक्षरनुं ज्ञान ते अक्षरसमासश्रुत चोथुं जाणवुं.

तिहां अकार ककारादिक जे ठे ते जिन जिन अक्षर संयोगे जिन जिन अर्थना वाचक थाय ते व्यंजन पर्याय. जिहां अर्थ पूर्ण थाय तेटला अक्षर समूहनुं नाम पद कहीए; तेनुं ज्ञान ते पदश्रुत पांचमुं जाणवुं; एवा घणा पदनुं ज्ञान ते पदसमासश्रुत ठहुं जाणवुं.

तथा गत्यादिक अन्यतर मार्गणा द्वार मध्ये एक मनुष्यादिक गतिना जीव जेदनुं ज्ञान ते संघात श्रुत सातमुं जाणवुं, अने मनुष्य, तिर्यच, देवतादिक एम बे त्रण गत्यादिक जीवजेदनुं ज्ञान ते संघातसमासश्रुत आठमुं जाणवुं.

गत्यादिक मार्गणा द्वार मध्ये एक गत्यादिक द्वार मांहे सर्व संसारी जीवना जेद अवतारवानुं ज्ञान, ते प्रतिपत्तिश्रुत नवमुं जाणवुं. एवो बे चार मार्गणा द्वारे जीव जेद विवरे, ते प्रतिपत्ति समासश्रुत दशमुं जाणवुं.

तेमज गत्यादिक मार्गणा द्वार अवलंबीने जीवादिक पदार्थनुं सत्पद प्ररूपणादिक अर्थ कहेवाता द्वार तेमध्ये एक अनुयोगद्वारे

निष्पण करवुं. जेम देव पद, एक जेद जणी ठता अर्थनुं वाचक ठे जे अठति वस्तुनो वाचक ते एक पद न होय. जेम खर, श्रृंग, टेव ए वे पद नथी ते जणी ए अठति वस्तु न होय. एम ठता पदनी प्ररुपणा करवी तथा देवता असंख्याता अने मनुष्य संख्याता ड्रव्य प्रमाण ठे. एम (अणु केण) सूत्रनो अर्थ साथे जोरुवो ते अगीआरमुं अनुयोगश्रुत जाणवु. एम घणी जातिए अनुयोग कहेवो ते वारमुं अनुयोगसमासश्रुत जाणवुं.

प्राचृतप्राचृत एवे नामे, ड्रष्टीवादमध्ये अधिकार विशेष ठे. जेम अंगमांहे अध्ययनना उद्देशा होयठे तेम पूर्वमांहे कपाय पाहुरु, कर्म पाहुड, ते मध्ये अधिकार विशेष पूर्ण पूर्ण थये पाहुरुपाहुड पूर्ण थाय. तेवा एकनुं ज्ञान ते तेरमुं प्राचृतप्राचृतश्रुत जाणवुं. अने एवां वे चार प्राचृत प्राचृतनुं ज्ञान ते चौदमुं प्राचृतप्राचृतसमासश्रुत जाणवुं.

तथा घणे पाहुरे पाहुडे एक पाहुरु होय. जेम घणे उद्देशे एक अध्ययन होय ठे एवुं एक पाहुरुनुं ज्ञान, ते पंदरमुं प्राचृतश्रुत जाणवुं तेहवा वे चार प्राचृतनुं ज्ञान ते शोलमुं प्राचृतसमासश्रुत जाणवुं.

तेम घणे पाहुडे एक वस्तु एवे नामे अधिकार थाय ठे, जेम अध्ययनना समुदाए सुयस्कथ थाय ठे, एवो एक पूर्वाधिकार ते सत्तरमुं वस्तुश्रुत जाणवुं. अने एवी वे चार वस्तुनुं ज्ञान ते अठारमुं वस्तुसमासश्रुत जाणवुं

तथा घणी वस्तुए एक पूर्व होय, एवा एक उत्पादादिक पूर्वनुं जे ज्ञान ते ओगणीजमुं पूर्वश्रुत जाणवुं. तेमज एक उत्पादपूर्व, वीजुं अत्रायणीय, व्रीजुं वीर्यप्रवाद, चोथुं अस्तिप्रवाद, पांचमुं ज्ञानप्रवाद, ठहुं सत्यप्रवाद, सातमुं आत्मप्रवाद, आठमुं कर्मप्रवाद, नवमुं प्रत्याख्यानप्रवाद, दशमुं विद्याप्रवाद, अगीयारमुं कल्याण, वारमुं प्राणवाद,

तेरमुं क्रियाविशालः, चौदमुं लोकविंदुसार, ए चौद पूर्वनुंज्ञानः, ते वीशमुं पूर्वसमासश्रुत जाणवुं. एम श्रुतना वीश जेद थया.

अविरति अज्ञान आदि दोषो टालवानुं साधन श्रुतज्ञान ठे,
पढी अवधिज्ञान कहुं तेना ठ जेद कहे ठे.

॥ अणुगामि वड्डमाणय, पण्णिवारियर विहा ठहा उंही ॥

॥ रिजमइ विजलमई मण, नाणं केवल मिगविहाणं ॥

अर्थ— (अणुगामि के०) लोचननी पेरे साथे चाले ते अनुगामि अवधिज्ञान. (वड्डमाणय के०) तथा निरंतर वधे ते वर्द्धमान अवधिज्ञान. (पण्णिवारियर के०) आवीने पाहुं जाय, ते प्रतिपाति अवधिज्ञान कहीए. ए त्रणथकी (इयरविहा के०) इतरविधा एटले प्रतिपद्धीपणे जेद. जेम के अननुगामि, हीयमान अने अप्रतिपाति, ए त्रण मेलवतां (ठहा उंही के०) ठ जेदे अवधिज्ञान होय. हवे गाथाना उत्तरार्द्धवमे मनःपर्यव तथा केवलज्ञान कहे ठे. (रिजमइ के०) रुजु सामान्य पणे जाणे ते रुजुमति. अने (विजलमई के०) विस्तारे जाणे ते विपुलमति. ए रीते (माण नाणं के०) मनःपर्यव ज्ञान बे जेदे ठे. अने (केवल मिगविहाणं के०) केवलज्ञान ते एकज विधान एटले एक जेदे जाणवुं. ए बधा मली पांचे ज्ञानना एकावन जेद कहा. ॥ इत्यक्षरार्थः ॥

१ त्यां जे जीवने, जे स्थानके अवधिज्ञान ऊपन्युं त्यांथी जेटलुं क्षेत्र, चारे दिशाओ तरफ देखे, तेटलुं क्षेत्र ज्यां ज्यां जे जे क्षेत्रे जाय, त्यांथी आगल आगल तेटलुं तेटलुंज देखे. ए लोचननी पेरे अनुगामिक अवधिज्ञाननो प्रथम जेद जाणवो.

२ अने जे हाटना दीपकनी पेरे अथवा श्रृंखला बद्ध दीवाना प्रकाशनी पेरे ज्यां अवधिज्ञान ऊपन्युं त्यांथी चारे दिशाए तेटलुंज

देखे; परंतु ते क्षेत्र अतिक्रम्या-पठी आगल न देखे ते अननुगामि
अवधिज्ञाननो धीजो चेद जाणवो

३ तथा जे जीवने जेटलुं अवधिज्ञान उपन्युं ठे; ते थकी दिवस
दिवस प्रत्ये अध्यवसाय विशुद्धे करी डव्य, क्षेत्र, काल, अने जावा-
पेक्षाए अवधिज्ञान वधतुं जाय, विषय पण वधतो जाय, विशुद्ध थाय,
ते त्रीजुं वर्द्धमान अवधिज्ञान जाणवुं

४ अने जे संक्षेपे करी मलिन थाय, निरंतर हलवे हलवे घटतुं
जाय, ते हीयमान चोथुं अवधिज्ञान जाणवुं.

५ तथा जे अवधिज्ञान आव्युं, जवक्षये देवता तथा नारकीने
जाय, अने गुण क्षये जेम चेलाने काजो उरुरतां जाव विशुद्धि
अवधिज्ञान उपन्युं तेटलामां इंद्रनी साथे इंद्राणी रीशावी हती ते
इंद्रे इंद्राणी मनावता देखी ते चेलाने हास्य आव्युं ते संक्षेपे करी
अवधिज्ञान गयुं ए पाचमुं प्रतिपाती अवधिज्ञान जाणवुं. ए टीपक
ओलवायानी पेठे एक कालने विपेज निर्मूल थाय

६ तथा जे परमावधिज्ञान केवळ ज्ञानथी पहेलुं अंतर्मुहूर्त्ते अति-
विशुद्ध आवे ते पठी अंतर्मुहूर्त्तने आंतरे केवळज्ञान उपजे तेमांहे
ते अवधि समाई जाय जेम तारादिकनां तेज सूर्यना प्रकाश माहे
समाई जाय अने प्रकाश एकला सूर्यनो कहेवाय, तेम अहि पण
ठादस्थिक ज्ञान नाठां कहेवाय, एकलो केवळालोक कहेवाय पण
झेय विषय जाणवानो विरह न होय तेथी ते ठहु अवधिज्ञान अप्रति-
पाति जाणवुं

ए रीते अनुगामि, वर्द्धमान, प्रतिपाति ए त्रण चेदना ईतर एटले
उपरांठा वीजा विरोधिचेद अननुगामि हीयमान अने अप्रतिपाति ए
त्रण चेद एकठा मेलवतां ठ चेद थाय.

१ अवधिज्ञानी डव्यथी जघन्य पणे अनंत रूपी डव्यने जाणे

तथा देखे अने उत्कृष्टयी सर्व रूपी द्रव्यने जाणे देखे; एम द्रव्य विषय जेदे अनंता जेद थाय.

२ तथा क्षेत्रयी अंगुलनो असंख्यातमो जाग विषईआयी मांडी-ने प्रदेशाधिक प्रदेशाधिक क्षेत्र विषईआ वधतां वधतां असंख्यात लोकाकाश क्षेत्र विषईआ उत्कृष्ट क्षेत्रावधि लगे असंख्यात जेद होय.

३ तथा कालयी जघन्य पणे आवलिना असंख्यजागपरिमाण अतीत अनागत काल, उत्कृष्टपणे तो असंख्यात कालचक्र समय प्रमाणावधियी मांडीने समय समय प्रमाण अतीत अनागत रूपी द्रव्य विषईक जाणे देखे एम असंख्य जेद थाय.

४ तथा जाव थकी जघन्य पणे अनंत जावने जाणे देखे अने उत्कृष्टयी पण अनंत जावने जाणे देखे ते जावावधिज्ञान जाणवुं. विज्ञंगज्ञान ते मिथ्यात्वीने होय, ते माटे मलिन ठे. अवलुं सवलुं जाणे पण ते अवधिज्ञाननीज जाती ठे ते माटे एकत्र जाणवुं एम अवधिज्ञान जेद सहित कह्युं.

हवे जेम अवधिज्ञान विकल प्रत्यक्ष तेम मनःपर्यव ज्ञान पण विकल प्रत्यक्ष ठे; जेम अवधि बद्धस्थने होय तेम मनःपर्यव पण बद्धस्थने होय, एवी सरखाई पणे करी हवे अवधिज्ञान पठी मनःपर्यव ज्ञान कहे ठे.

ते मनःपर्यव ज्ञान वे जेदे ठे. प्रथम रुजु के० सामान्यपणे स्थूल-पणे ए पुरुषे घट लावुं मूकुं? एम चिंतव्युं एवुं जे पारका मननुं जाणवुं ते मनःपर्यव ज्ञाननो रुजुमति नामे प्रथम जेद जाणवो.

तथा विपुल के० विस्तीर्णपणे घणा पर्याय सहित जाणवुं ते आवी रीते के एणे चिंतवेलो घट अमुक नगरमां थएलो, वणें रातो, परिमाणे एक, मण पाणीनो समावेश थाय एवो, द्रव्ये त्रांबानो, अमुकनो घडेलो ईत्यादिक घणा विशेषे सहित पारका मनमां चिंतवेलो घट

तेने जाणे ते विपुलमति नामे मनःपर्यव ज्ञाननो बीजो जेद जाणवो.
ए वे जेदे मनःपर्यव ज्ञान कहुं,

हवे एक एकना वली चार चार जेद विशेषे कहे ठे.

१ प्रथम ड्रव्यथकी रुजुमति, मनोवर्गणा ड्रव्य अनंतानंत प्रदेशीआ जाणे तेथी विपुलमति बहु प्रदेशीआ अति सूक्ष्म मनोड्रव्य जाणे. २ बीजुं क्षेत्रथी रुजुमतिवालो मनुष्य क्षेत्रमाहे तीहुं अढी-
द्विप लगे, तथा उंचुं ज्योतीपीना उपरना तला लगे, अने नीचुं उंडी विजय ठे त्यां लगे एटले रत्नप्रज्ञा पृथ्वीना कुल्लक प्रतर लगे, एम अ-
ढारसें योजनमां रह्या जे संझी पंचेंद्रिय जीव तेना मनने जाणे अने ते थकी अढी अंगुल क्षेत्र अधिक विपुलमति विषय विशुद्ध पणे जाणे ठे.

३ काल थकी रुजुमतिवालो पद्योपमनो असंख्यातमो जाग अ-
तित अनागत चिंतव्युं तथा चिंतवशे तेने जाणे, अने विपुलमति ते थकी कांश्क अधिकेरुं जाणे.

४ जावथी रुजुमति चिंतवेला ड्रव्यना असंख्याता पर्याय जाणे अने विपुलमति तेथी अधिक जाणे, एम मनःपर्यवज्ञान कहु

हवे जेम मनःपर्यवज्ञान सर्व विरति ठते होय तेम केवलज्ञान पण सर्व विरति ठते होय, ए सगते मनःपर्यवज्ञान कह्या पठी केवलज्ञान कहे ठे, तिहां ड्रव्यथी रूपी तथा अरूपी सर्व ड्रव्यने जाणे अने क्षेत्रथी लोक अलोक क्षेत्र अनंतो जाणे, कालथी सर्वाङ्गा विषयने जाणे, जावथी सर्व गुणपर्याय विषय्यो एकरूप शुद्ध निरुपाधि अ-
प्रतिपाति सकल ज्ञानावरण द्यये प्रगट थयो जे शुद्धात्मगुण सर्व विशेषे प्रकाशरूप ते केवलज्ञान कहीए, तेहने सर्व पदार्थ प्रकाशे करी आवरणरूप उपाधिने अजावे ज्ञेयवस्तुने अविशेषे करी इगविहाणं के० एक सरखो ठे तेथी ए ज्ञाननो बीजो जेद कोइ नथी.

ए रीते मतिना अष्टावीश, श्रुतना चौद अथवा वीश, अवधि-

ना ठ, मनःपर्यवना बे तथा केवलज्ञाननो एक एम सर्व मलि पांचे ज्ञानना एकावन जेद अथवा सत्तावन जेद कहा.

हवे ए पांचे ज्ञानना आवरण कहे बे.

॥ एसिं जं आवरणं, पमुच्च चक्षुस्स तं तयावरणं ॥

(एसिंजं के०) ए मति प्रमुख पांच ज्ञाननुं जे. (आवरणं के०)

रोधक आठादन करनारुं तेने ज्ञानावरणीय कर्म कहीए. जेम (पमुच्च चक्षुस्स के०) आंखनो पाटो आंख प्रकाशनुं आवरण तेम मति-ज्ञानादिकना जाणवाना विषय पदार्थने जे हरकत करे (तं के०) ते (तयावरणं के०) ते ज्ञाननुं आवरण जाणवुं. इत्यद्वयार्थ.

ज्ञान पांच प्रकारे बे तेथी तेना आवरणना पण पांच जेद बे. तेमां जेम पाटो बांधे थके आंखनुं तेज अवराय; तेम जे कर्म करी मतिज्ञान अवराय ते मतिज्ञानावरणीय कर्म कहीए. एवीज रीते जे कर्म करी श्रुतज्ञान अवराय ते श्रुतज्ञानावरणीय कर्म कहीए, तेमज जे अवधिज्ञानने आवरे ते अवधिज्ञानावरणीय कर्म कहीए, तथा मनःपर्यवज्ञानने आवरे ते मनःपर्यवज्ञानावरणीय कर्म कहीए, केवल संपूर्ण ज्ञान आवरे; जेम मेघ सर्व सूर्यनी प्रज्ञाने आवरे एवुं जे कर्म ते केवलज्ञानावरणीय कर्म कहीए. अहिं जीव चेतनप्रकाश-स्वरूप, जीवरूप सूर्य ते केवलज्ञानावरणरूप वादले करी सर्व ढंकाय तो पण अद्वरनो अनंतमो जाग सर्व जीवने उघामो रहे. अहिं श्रुत केवलज्ञान साधारण पर्यवाहर लेवुं जे जणी अजिधेय वस्तुधर्म ते स्वपर्याय बे; अने अनजिधेय वस्तुधर्म ते परपर्याय बे; अने केवल-ज्ञानना तो ते अजिधेय, अनजिधेय बेहु स्वपर्याय बे. एम बेहु ज्ञानना पर्याय सरखा होय ते पर्यवाहर तेहनो अनंतमो जाग उत्कृष्टो श्रुत केवलीने होय, अने जघन्य जाग निगोदिआ जीवने आहारसंज्ञादि चेतनारूप होय; कदापि ते पण ढंकाय तो जीव चैतन्यपणाने अजावे

अजीव कहेषाय तेथी ते वादले करी पण ढाकी न शकायो एवो, जे रात्रि दिवस विजागकारी सूर्यतेज सरखो चेतनारूप जीव गुण कर-
ब्या कांबला सरखो सन्नद्ध देशघाती मतिज्ञानावरणादिक चार प्र-
कृतीए आवरीये, तेथी तेने क्षयोपशमविशेषे न्हाने महोटे अर्द्धवृद्धे
प्रसरतां रविप्रकाशनी पेरे ज्ञाननुं तरतमपणुं होय तेमांहे पण एक
मनःपर्यवज्ञान, बीजुं अवधिज्ञान ए वेहु ज्ञानना आवरणना केटला-
एक रसस्पर्शक, सर्व घातिया, शेष देश घातियापणे ए वेहु क्षयोपश-
मथी अविरोधजणी देशघाति कल्यां, अने केवलज्ञानावरण सर्व
घाति होय ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ए चार
घाती कर्म कहिये, एम ज्ञानावरणीना पांच जेठ कल्या ए सर्वे ज्यां
सुधी आत्माना ज्ञानादिक गुणनुं सन्मान आव्युं नथी त्यां सुधी सर्व
समये ज्ञानावरणीय कर्म बंधाय ठे; माटे आत्माना ज्ञानादिक गुणनुं
सन्मान आदरी निर्मल उपयोगे ज्ञानगुणमां परिणति स्थिर करवी
हवे ज्ञेय अधिकार लखीए ठिये.-पंचास्तिकाय ड्रव्य ठे, ठठो
काल ड्रव्य उपचारथी ठे, ते पुद्गलादि ड्रव्यनो वर्तनापर्याय ठे, ते
पंचास्तिकायने सामान्य अने विशेष स्वजावे जाणी परड्रव्यनुं ममत्व
अने रागादि तजी पोताना सामान्य विशेषमयी लक्षलक्षण अजेद-
पणे निज स्वजावमां स्थिर थवुं तेमां प्रथम दश महासामान्य स्वजाव
लखीए ठिये.

१-उत्तरसामान्य अने विशेष स्वजाव जेने आधारे रहे ठे एटले
उत्तरसामान्य अने परिणामिकत्वादि विशेष स्वजावने सदाए कायम
राखनारो आधारजुत जे धर्म, ते आस्ति स्वजाव कहीए

२-गुण अने पर्यायनो आधार एटले जेने आधारे स्वगुण पर्याय
रहे ठे ते वस्तु स्वजाव, बीजो जाणवो,

३-अर्थक्रियाकारीत्वपणानो आधार एटले जे माहे कार्य धर्मना
अनंत तीरोजावे ठतिपर्याय रहेला ठे, तेज पर्याय कार्य करवाने माटे

समये समये सामर्थ्य पणे उपजे; अने प्राठातीरोजावे द्रव्यत्वमांहे द्रव्ये एटले जे मांहे उत्पाद व्यय प्रजायनी जनक शक्ति ठे, ते आवीरजाव अने तीरोजावनो आधार पण एज ठे ते द्रव्यत्व स्वजाव त्रीजो जाणवो.

४-जीव पुद्गलादिक द्रव्य जेटला ठे तेमांथी कोई समये एक वधे के घटे नहि, परमाणु खंधादिकपणे परिणमे, खंध परमाणुपणे परिणमे. पण परमाणुनी गणतीमां कोई काले घटे वधे नहि; तेम जे जे द्रव्यमां जेटला गुणो अने पर्यायो जे जे जातना ठे तेटलाज रहे. एक द्रव्य बीजा द्रव्यनुं कार्य करे नहि, एक गुण अन्यगुणना कार्यने करे नहि, अने आप आपणुं कार्य ठोके नहि, जे काले जे द्रव्यनो जे गुणनो जे पर्याय व्यक्ति शक्तिपणे थवानो होय तेमां फेरफार न पने; एटले कोई द्रव्य, कोई गुण, कोई पर्याय पोतानी मर्यादा ठोके नहि तेने प्रमेय स्वजाव कहीए. ज्ञानवने जेनुं प्रमाण थई शके ठे ते प्रमेय स्वजाव जाणवो.

(५) पंचे अस्तिकायनीसत्ता उत्पाद, व्यय, ध्रुवरूप ठे एक समयनी अंदर उत्पाद, व्यय, ध्रुव जेनी अंदर पामीए ते द्रव्यनुं सतत्वक्षण जाणवुं एटले सर्वे समये द्रव्यना पर्यायने उपजतां अने विणसतां पण सत्ता कायम रहे एवा धर्मने सतत्व स्वजाव कहीए.

६-द्रव्यना पर्याय सर्वे समय खटगुण हाणिवृद्धिपणे उत्पाद, व्यय थतां द्रव्य गुरुता लघुताने पामे नहि अने उत्पाद व्ययनो आधार तेने अगुरुलघु स्वजाव कहीए.

७-चेतनत्व एटले सर्वे द्रव्यना त्रिकालवर्त्तिना प्रमेयने जाणनारो जे स्वजाव ते चेतनत्व स्वजाव कहीए.

८-अचेतनत्व एटले स्वपर पर्यायने जाणे नहि ते अचेतनत्व नामे आठमो स्वजाव कहीए.

९-मूर्त्तत्व एटले जे मांहे स्पर्श, रस, रूप, गंध, संस्थान आदि होय तेने मूर्त्तत्व स्वजाव कहीए.

१०-अमूर्त्तत्व एटले जेमांहे वर्णादि न होय तेने अमूर्त्तत्व स्व-
ज्ञाव कहीए, ए दश मांहेला पाठला-चेतनत्वादि चार मांहेला वे-वे
स्वजाति अपेक्षाए सामान्य, अने परजाति अपेक्षाए विशेष स्वज्ञाव
जाणवा. ए मांहेला आठ स्वज्ञाव सर्वे ड्रव्यमांहे सदा पामीए

हवे उत्तरसामान्य स्वज्ञाव अनंता ठे पण मुख्य तेर स्वज्ञाव
अहिंश्यां लखीए ठिए. (१) अस्तिस्वज्ञाव, (२) नास्तिस्वज्ञाव, (३)
नित्यस्वज्ञाव, (४) अनित्यस्वज्ञाव, (५) एकस्वज्ञाव, (६) अनेकस्व-
ज्ञाव, (७) जेदस्वज्ञाव, (८) अजेदस्वज्ञाव, (९) जव्यस्वज्ञाव (१०)
अजव्यस्वज्ञाव, (११) वक्तव्यस्वज्ञाव, (१२) अवक्तव्यस्वज्ञाव, (१३)
परमस्वज्ञाव. तेमां हवे अस्ति स्वज्ञावनुं लक्षण लखीए ठिए

पोताना ड्रव्यादि चारमां जेनो व्यापकपणो सर्वे समये ठे तेने अस्ति-
स्वज्ञाव कहिए ड्रव्य ते गुण पर्याय प्रदेशनो एक पिंसाधारपणो ते स्व-
ड्रव्य, क्षेत्र ते प्रदेशरूप स्वगुण प्रवृत्ति थवानुं स्थानक ते स्वक्षेत्र, काल
ते उत्पाद्, व्यय, ध्रुवपणे नवा नवा पर्याये सर्वे समये वर्त्तवुं ते स्वकाल,
ज्ञाव ते स्वगुण पर्यायनो कार्य धर्म ते स्वज्ञाव. तिहां जीव ड्रव्यनो
स्वड्रव्य प्रदेश गुणनो समुदाय ड्रव्य ठे ते गुण पर्यायनो जनकपणो
ते स्वड्रव्य अने जीवना असंख्याता प्रदेश एटले जाणवा देखवादि
स्वकार्यना पर्यायने रहेवानुं स्थानक ते स्वक्षेत्र, पर्याय मध्ये कारण कार्या-
दिनो जे उत्पाद्, व्यय, ते स्वकाल तथा अतित, अनागत, वर्त्तमाननो
परिणमन ते स्वज्ञाव सर्वे काले सरखोज होय तेने स्वज्ञाव कहीये.
जेम कार्यादि धर्म, ज्ञान गुणनो पर्याय जाणंगपणो, वेत्तापणो, पर-
परिच्छेदकपणो, विवेचनपणो ईत्यादि स्वज्ञाव जाणवा. एम स्वड्रव्य,
क्षेत्र, काल, ज्ञाव, जे परिणामिकपणे परिणमतां सदा रहे तेनी
अस्तित्ता जाणवी, ए सर्वेनी ठति सदाए ठति रहे ते अस्तिस्वज्ञाव
जाणवो. ए अस्तिस्वज्ञावे ड्रव्य ठे, ते पोतानो मूल धर्म चूकी
अन्यना धर्म पणे परिणमतो नथी, परिणामांतरे आगमन ठे, ए

अस्तिस्वप्नाव ते सर्वं द्रव्यमां पोताना गुण पर्यायनो जाणवो. जे अस्ति ते सदरूपता ठतारूपपणानी परिणति लेवी सर्वे द्रव्य पोताने धर्मेज परिणमे पण जे जीव द्रव्य ते अजीवद्रव्यपणे न परिणमे, तथा एक जीव ते अन्यजीव पणे न परिणमे, वली एक गुण ते अन्यगुणपणे न परिणमे, ज्ञान गुण विषे दर्शनादि गुणनी नास्तिता ठे, अने ज्ञानना धर्मनी अस्तिता ठे. तथा एक गुणना पर्याय अनंता ठे ते सर्व पर्यायधर्मे सरिखा ठे; पण एक पर्यायना धर्म बीजा पर्यायमां नहि, अने बीजा पर्यायना धर्म पहेला पर्यायमां नहि; माटे सर्व पोताने धर्मेज अस्ति ठे. ए रीते अस्ति नास्तिनुं ज्ञान सर्वत्र करवुं ए द्रव्यने विषे प्रथम अस्ति स्वप्नाव कह्यो.

(२) एक जीवमां अन्य जीवना तथा पुद्गलादिक अन्य द्रव्यना द्रव्य, क्षेत्र, काल, जाव, सामान्य विशेष स्वप्नावनो अज्ञाव ठे एटले अन्य द्रव्यादिक रूपे न थवानो स्वप्नाव तेने नास्ति स्वप्नाव कहीए वली जगवती सूत्रमां कहुं ठे ते नीचे प्रमाणे.

॥ “अत्थिते अत्थितं परिणमयी, नत्थिते नत्थितं परिणमयी ॥

माटे ए विषे वधारे जाणवाना जीज्ञासुओए ग्रंथांतरथी जाणवुं.

३—सर्वे द्रव्यना स्वप्नाव सदाकाल अव्ययपणे रहे, द्रव्यथकी जूदा न पडे ते नित्य स्वप्नाव जाणवो.

४—सर्वे द्रव्यना पर्याय समये समये खदगुणहाणिवृद्धिपणे परिणमे ठे ते अनित्य स्वप्नाव जाणवो, जो पर्याय न पलटे तो अर्थ-क्रियाकारित्वपणुं सधे नहि माटे अनित्य स्वप्नाव अवश्य मानवो.

(५) द्रव्य पोताना गुण पर्याय सामान्य विशेष एकाधारत्वपणे वत्ते ते एक स्वप्नाव जाणवो.

६—दरेक द्रव्यमां क्षेत्र, काल, जाव, प्रदेश, गुण, पर्याय, कार्य धर्म अनेक ठे माटे अनेक स्वप्नाव जाणवो. जो द्रव्यमां एक स्वप्नाव

न होय तो एकत्वाजावे सामान्यनो अजाव थाय अने अनेकत्वा-
जावे विशेष धर्मनो अजाव थाय

७-सर्वे द्रव्य पोतपोताना जिन्न जिन्न कार्यने करे, जेम जीव
ज्ञान, दर्शन, चरणादि अने पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्शादिक जिन्न
जिन्न कार्य करे माटे जेद स्वजाव जाणवो

८-दरेक द्रव्य पोतपोतानुं जिन्न जिन्न कार्य करवा ठतां द्रव्यने
प्रदेशथी गुण पर्याय वृटा पने नहि, एकत्वपणे रहे माटे अजेद
स्वजाव जाणवो जेदाजावे सर्वे गुण पर्यायनो शंकर दोष आवे गुण
गुणी, लक्ष लक्षण, कार्य कारणता नाश थाय अने अजेदाजावे
स्थान ध्वंश थाय एटले गुणी कोण? अने गुण कीयो?

९-द्रव्यमां समय समय नवा नवा पर्यायनो उपजवो अने पूर्व
पर्यायनो व्यय थवो ते जव्य स्वजाव कहीए जुवन व्यय विना कार्य
थाय नहि माटे द्रव्यमां जव्य स्वजाव अवश्य मानवो.

१०-अने द्रव्य पोताना द्रव्य, गुण, पर्याय ठोनी अन्य द्रव्य
गुण पर्यायपणे न परिणमे सदा पोताना रूपे अवस्थित रहे ते अजव्य
स्वजाव जाणवो. द्रव्यने पोतानो स्वजाव सर्वे समय अवस्थित न
रहे तो अन्य द्रव्य गुणपणाने पामी सत्ता नाश पामे

११-दरेक द्रव्यमांहे केटलाक एवास्वजाव ठे के वचन गोचर आवे
तेने वक्तव्य स्वजाव कहीये.

१२-वली केटलाक धर्म एवा ठे के वचन गोचर आवे नहि तेवा
धर्मने अवक्तव्य स्वजाव कहीए, वक्तव्य स्वजाव करतां अवक्तव्य
स्वजाव अनंतगुणो ठे.

१३-धर्मास्तिकायादिक तेना विशेष गुणो ते धर्मास्तिकायनो चलण
सहकारीपणो, अधर्मास्तिकायनो स्थितिसहायपणो, आकाशास्ति-
कायनो अवगाहदान गुण, पुद्गलनो पूरणगलण, जीव द्रव्यनो

चेतना लक्षण, ए विशेष गुण कह्या. एम लक्षण, रूप, तथा द्रव्यांतरथी त्रिन्न पारुवानुं मूल कारण ते परमस्वभाव कहीए.

ए ऊपर कहेला तेर ऊत्तर सामान्य स्वभावनां लक्षण संक्षेपथी बर्ताव्यां विशेष ग्रंथांतरथी जाणीलेवुं

हवे दश विशेष स्वभाव लखीए ठिए.

(१) चेतनस्वभाव, (२) अचेतनस्वभाव, (३) मूर्तस्वभाव, (४) अमूर्तस्वभाव, (५) एकप्रदेश स्वभाव, (६) अनेकप्रदेश स्वभाव, (७) भावस्वभाव, (८) विभावस्वभाव, (९) शुद्धस्वभाव, (१०) अशुद्धस्वभाव. ए रीते दश विशेष स्वभाव संक्षेपे कह्या.

हवे प्रथम लखेला तेर सामान्य स्वभावने ऊपर लखेला दश विशेष स्वभाव मलीने सर्वे त्रेवीश स्वभाव थया; तेमांथी चेतनादिक चारमांथी बे बे सर्वे द्रव्यमां होय एटले एकवीश स्वभाव जीव अने पुद्गलमां पुराठे बाकीना द्रव्यमां विभावादि नथी. एम सर्वे द्रव्य पोत पोताना सामान्य विशेष स्वभाव सहित सर्वे काल लक्ष लक्षण अनेदपणे शाश्वता ठे, कोई लक्ष अन्यपणाने पामतो नथी, कोईनुं लक्षण कोई अन्य द्रव्यमां जतुं नथी, अतीत कालमां पण पररूपे थयुं नहोतुं, आवते काले पण अन्यरूपे थशे नहि, माटे पोते जीव जाति, ज्ञानघन, अनंत ज्ञायकता सहित ठे तेमां अनंत स्वजाति अन्यद्रव्यना अने परजाति अन्यद्रव्यना लक्ष लक्षण आवे नहि तो स्वज्ञेय शिवाय सर्वे स्वजाति अन्यद्रव्य अने परजाति सर्वे द्रव्य लक्ष लक्षण सहित पोतानी ज्ञायकतामां चासे; ते ज्ञेयरूप सर्वे परवस्तु जाणी ऊदासिद्ध-वृत्तिए ते ऊपरनो राग द्वेष ममत्व ऊठावी आपणा खपनां नथी ए वने आपणने कांई गुण अथवा हरकत थई शकती नथी अनंत काल एनाज ममत्व संसर्ग परिचयथी पोताना स्वरूपने नूल्या ठिए. जेम कोई चंमालणी महा क्रुर अने दुष्टस्वभाववाली स्त्री तेल, कपुर, काचली, काजळ आदि अंगे लगावी आंख आंजी शरीर समारी कोई

मूढ कामी। पुरुषने हाव जावे मधुर वचने ललचावी पोताना वश करी तेना तन, धन, सर्वे सामर्थ्यनो नाश करे, नेम परझेयना रागरूप जे विजाव परिणति ते चेतन पुरुषने अहितकारी ठे; तेम उपर लखेला ज्ञेयोर्थी आपणे कांई कार्य नथी एम जाणी त्यां लक्ष जतो वारी शुद्ध सिद्धसमान निज रूप लक्ष्मां राखी चलायमान थवुं नहि. ए प्रमाणे ज्ञेयाधिकार पुरो थयो.

हवे धर्म अधिकार लखीए ठिए.

निर्मल स्फटिकमणिसमान जे आत्मवस्तु स्वजाव तेज आत्मानो धर्म ठे. जे वस्तुनो जे मूल स्वजाव ते तेनो धर्म कहिए. आपणे आत्मा ठिए, आपणो मूल स्वजाव ते आपणो धर्म ठे, ए वस्तुस्वजाव धर्म सर्वे सिद्ध अने सर्वे संसारी जीवमां अनादिथी ठे पण विजाव स्वजाववडे आत्माए परपुद्गल स्वरूपने पोतापणे जाणी ते उपर रागादिके परिणम्यो एवो संसारी जीव पोताना मूलरूपने जूलेलो ठे, ते मूलस्वरूप प्रगट करवाने माटे जे जे कारण व्यवहार तेने कारण अथवा तारण धर्म कहिए, के जे वडे पोते पोताने दुःखरूप संसार समुद्रथी तारी परमसमाधि स्थान आनंदपुरी रूप मुक्तिमां अनंत आनंद जोगी करीए निश्चयथी पोताने तारनारो पोतेज ठे माटे अनंत आनंद जोगी करीए एम लख्युं पण अनंत आनंद जोगी पोतेज थवुं ठे, अहिंथां कोइ वीजाने करवानो नथी व्यवहारथी शुद्ध सदगुरू तारनार कहिए ए तारण अथवा कारण धर्मना बहु जेद ठे, पण अहिंथा टुंकामां लख्युं ठे एक श्रुतधर्म ते जीवादि नव पदार्थना जाव चार निक्षेपे जाणी आश्रव वंधादि अजीवपरिणाम अजीवकार्य अशुद्धपरिणाम तजवा अने संवर निर्जरादिजीव परिणाम जीव जाव आदरवो जेदज्ञाने करी स्वपर गुणपर्याय लक्षण जिनजिन जाणी परगुणपर्याय लक्षण उपरथी ममत्व अने रागादि उठावी, उदासिन्नवृत्ति करी, निजगुण पर्यायलक्षणमां लक्ष स्थिर राखी अकंप,

अडोल रहेवुं, वली वांचना, पृष्ठना, परिअट्टना, अनुप्रेक्षा, धर्मकथा
 एमांहे जे अनुप्रेक्षा लखी ठे ते अनित्यादि चार ज्ञावना तथा मै-
 त्रादिक चार ज्ञावना, वली साधुनी पंच ज्ञावना, वली एक एक
 व्रतनी पांच पांच ज्ञावना, ए सर्वे अनुप्रेक्षा समजवी एटले जिनेश्व-
 रना प्ररुपेला स्याद्वादमथ सिद्धांतोनो वांचवा, विचारवा, जणाववा,
 सांजलवा, उपदेश देवादि श्रुतधर्मजाणवो. चारित्रधर्म ते पंचमहाव्रत,
 पंच समिति, त्रण गुप्ति, साधुनो व्यवहार, अने देशविरतीने पंच अ-
 णुव्रत, त्रण गुणव्रत, अने चार शिद्धाव्रत ए श्रावकनो व्यवहार जाणवो.

वली क्षांत्यादि दश प्रकारे आत्मधर्म ते ज्ञानादिक ज्ञाव
 प्राण अने इंद्रियादिक दश द्रव्यप्राणमांथी एक पण स्वपर प्राणने
 एटले ठकायना कोइपण द्रव्यज्ञाव प्राणने क्रोधादिके हणवुं नहि ते
 क्षांतिधर्म (१) अष्ट प्रकारनो मद देहादिनुं ममत्व त्यागी अरिहंत
 सिद्ध अने धर्माचार्यादि ज्ञानादि गुणवंतनो विनय करवो, वली
 पोताना गुणनो उत्कर्ष तजी अन्य जीवोनुं पण अपमान न करवुं
 ते मारदवनामा बीजो जेद (२) मन, वचन, काया अने परिणामथी
 कोइनुं कांइ ठगवुं नहि, कपट करवुं नहि, ते आर्यवनामा त्रीजो
 जेद (३) पोताना ज्ञानादि धनमांहे संतोष राखी अन्य पुद्गल
 परमाणु मात्रनी पण मूर्छा न राखवी ते मूर्त्तिनामे चोथो जेद (४)
 निज ज्ञानदर्शन चरण विलासमां तृप्तिवंत रही पंच इंद्रियोना विष-
 योने न इहवा अने अणसणादिक बाह्य अर्ज्यंतर तपे करी शुद्धात्म
 स्वज्ञावमां तृप्तिवंत रहेवुं ते तपनामा पांचमो जेद (५) पंच इंद्रि-
 योना विषयो, पंच अव्रत, चार कषाय, त्रण योगनी चपलता तजी
 शुद्धात्म उपयोगमां स्थिर रहेवुं ए संजमनामा ठठो जेद (६) पर-
 द्रव्य, क्षेत्र, काल, ज्ञाव, आपणा द्रव्य क्षेत्र काल ज्ञावमां नथी एम
 जाणी अलिक वचन तजी आपणा द्रव्यादिक मांहे स्थिर थवुं अने
 वचनपण तेज प्रमाणे बोलवुं ते सत्यनामा सातमो जेद (७) आर्त्त-

रौद्रादिक ध्यान अने कपट आदि मलिन कार्य तजी निज आत्म-
 अंगे कर्ममल रहित रहेवुं ते शौचनामे आठमो जेद (७) कंचन कोनि
 मात्रनो परिग्रह प्रपंच न राखवो ते आकिंचननामा नवमो जेद
 (८) अठार हजार जेदे पुद्गल मथन तजी शुरु ब्रह्मरूपे रहेवुं ते
 ब्रह्मचर्यनामा दशमो जेद (१०) एम दश प्रकारे यतिधर्म अग्र
 आत्मधर्म जाणवो. वली साधु अने श्रावकने ठ आवश्यक अवश्य
 करवां; ए आदि साधु अने श्रावकनो सर्वे व्यवहार क्रिया धर्म जाणवो.
 ए तारण धर्मना संक्षेपथी थोडा जेद लख्या विशेषे ग्रंथांतरथी जाणवा
 अने ऊपरना विशेष अर्थ पण अनुभवथीओ पासेथी समजी, जाणी,
 आदरी, सुखी थाथ्यो। धर्मनुं सार ए के अज्ञान मिथ्यात्व अने
 कपायवालो आत्म परिणाम थयो ठे तेने जेदज्ञानरूप सावुवने निर्मल
 करवो एटले पोते पूर्ण सिद्धताने पामीए; एम संक्षेपथी धर्म अधि-
 कार समजवो. एक शुरु अनुभव माहे सर्वे धर्मानुष्ठान समाग ठे पण
 बालजीव विशेष विना जाणे नहि; माटे सद्गुरु संग करी, सेवा
 करी, सकल विशेष जाणी लेवु समकित गुणगणायथी मांडी वारमा
 गुणगणायथी ज्ञान, दर्शन, चारित्रना अश निर्मल थइ वर्द्धमान
 धाराने पामे, अने कपायना सर्व अश दशमे कृपकश्रेणीना अंते नाश
 पामे, अने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यावरणवने थएली अशुद्धता
 वारमा गुणस्थानकना अंतसुधी नाश पामे त्यांसुधी ज्ञानधारा,
 कर्मधारा मिश्रपणे वत्ते माटे मिश्रधारा कहिए माटे मनुष्य जन्म
 पामी, सद्गुरु योग पामी सम्यक्तज्ञानवने ज्ञानदर्शन अने चारित्र
 ए आत्माना त्रणे गुणोनी प्रमाद रहित थइ अशे अंशे निर्मलता
 वधारी पूर्ण निर्मलता अने एकता करवी. आत्मा सत्तामाहे अनादि
 कालनो सिद्ध समान ठे अने अशुद्ध स्वभावपण अनादिनो ठे तेथी
 अज्ञान मिथ्यात्व अने कपायवाला परिणाम पोतानी नूलथी करी
 पोताना स्वरूपने जाणतो नथी. जेम कोइ पुरुष पोतानुं स्वरूप पूठवाने

माटे गुरु पासै गयो, गुरुए कह्युं “अमुक सरोवरमां अमुक नामे मछ रहे ठे ते तने ताहरुं स्वरूप वतावशे त्यां तुं जा;” पठी ते पुरुष ते सरोवरना किनारे जइ ते मछना नामथी पोकारी ते मछने पूठयुं के हुं माहरुं स्वरूप जाणतो नथी. मने माहरुं स्वरूप वताव. ते मछ बोड्यो हुं अहिंआं घणा दिवसनो तरस्यो हुं मने क्यांथीपण पाणी आणी आप के हुं तरस मटावी तने उत्तर आपुं. त्यारे ते पुरुष बोड्यो के केवी अचंवानी वात ठे ! के रातदिन पाणीमां रहेतां ठतां पण तुं कहुं हुं के मने पाणी आणी आप ? त्यारे ते मछ बोड्यो के तुं पण अनादिकालथी पोते चेतनारूप हुं, तुं पोतानारूपने बीजे ठेकाणे शोधुं हुं. ज्यारे तुं दुःखने वेदतो हतो त्यारे ते दुःखना अनुभवथी तन्मय थएओ तुंज पोते चेतनावंत हतो ज्यारे तुं विषयो अने पुद्गल संपदादि सुखने जोगवतो हतो त्यारे पण ते सुखना अनुभवमां तन्मय तुं पोते चेतनावंत हतो एवो अनादिथी चेतना उपयोगवंत तुं पोतेज हुं. उक्तंच:

॥ परिणमदि जेण दव्वं, तक्कालं तम्मयत्ति पसुत्तं,
तह्मा धम्मं परिणदो, आदा धम्मो सुणोयव्वो ॥

तुं ताहरा स्वरूपने जाणतो नथी ए मोटी आश्चर्यनी वात ठे ! हवे तुं पोते पोतानुं उपयोगवंत स्वरूप जाणी, अन्यनुं ममत्व ठोनी, पोताने स्वरूपे स्थिर रहुं तो शुरु अबाधित, एक, नित्य, अनाकुल, परमानंदमय, शुरुतार्थी तन्मय तुं पोते एकजहुं. एम जाणवाथी निज शुरुता पामी सुखी थाय. मात्र उपयोग अशुरुज्ञान मिथ्यात्व अने कषायवने मलिन थयो ठे ते जेदज्ञानवडे निर्मल करी स्वतंत्र सुखीथा.

हवे समाधि अधिकार लखीए ठिए.

जीव अनादि शुरु सिद्धसमान सत्तावंत ठे विज्ञाववडे पोतानुं स्वरूप जाणुं नहि, परस्वरूपमां पोतानुं स्वरूप जाणी ते स्वरूपने

राखवा रागादि ऊपन्या तेथी अज्ञान, मिथ्यात्व अने कपाय ए त्रण रूपे अध्यवसाय थई आर्त्त अने रौड ध्याने करी समाधि पाम्यो नहि माटे पोतानुं शुद्ध स्वरूप जाणवार्थी अज्ञाननी असमाधि मटे, पर-द्रव्यनुं अहपणु त्रुटवार्थी मिथ्यात्वनी असमाधि मटे, अने परवस्तु ऊपरथी रागादि तजवार्थी कपायनी असमाधि मटे, एम त्रण प्रकारे अशुद्ध अध्यवसाय वने ऊपजेवी उपाधि मटी समाधि थाय आर्त्त, रौड टाली समाधि करवी ते नीचे प्रमाणे.

१-शरीरने अहंपणे जाणवार्थी शरीरना हेतु धन, कुटुंबादि ते इष्ट लागे ठे पण ते अथिर पदार्थ आपणी ईच्छाए राख्या रहे नहि, अने आपणी इच्छाए परिणमे पण नहि, वली पोतानु स्वक्षेत्र अने ते अन्यनुं क्षेत्र ए जिन्न जिन्न ठे. ते एक क्षेत्रे न रहे, तेनी असमाधि उपजे ठे पण ज्यारे पोताना जे इष्ट ज्ञान, दर्शन, चरण, वीर्यादिक गुण निज शुद्ध परिणामे स्वतंत्र परनी सहायविना परिणमे ठे ते ज्ञान वीर्यादिक निज हेतु स्वक्षेत्रथी जिन्न परुता नथी एम जाणे त्यारे सर्वे असमाधि मटी पूर्ण समाधि पामे

२-ज्यारे शरीरने पोतापणे जाणे ठे त्यारे ते पुद्गल उपर थता विकारो शत्रु अने परिसहादि अनिष्ट संजोग मटारुवानी चितारूप असमाधि उपजे ठे पण अचल, अंखमित, अव्यावाधमय, अजंग, निज ज्ञानानंदमय रूपने जाणे अने परद्रव्यादिक पोताना स्वक्षेत्रमा प्रवेश करी शकता नथी एतुं जाणे त्यारे अनिष्ट संयोगनी असमाधि मटी पूर्ण समाधि पामे

३-ज्यारे आत्मा पोताना स्वरूपने अणजाणतो शरीरने पोतापणे जाणे, माने, अनुभवे ठे, अने ते शरीर तो अनेक रोगोनु स्थानक ठे त्यारे पीडा चिंतवननी असमाधि उपजे ठे. पण ज्यारे ज्ञानादिक गुणनो पुंज, शुद्ध चेतनामय, निरामय, निराकुल, सहेज, अविनाशी, त्रिकाल अखंरु, स्वपरिणामिकताए परिणमे, अने परपरिणामिकताए

न परिणमे एवुं पोतानुं अंग जाणे त्यारे पीडा चिंतवननी असमाधि मटी पूर्ण समाधिने पामे.

४—सर्वे द्रव्य सर्वे समय पोताना प्रमेयने ठोके नहि, कोइ काले पोताना प्रमेय रहित थाय नहि, त्रिकाल अखंरु निज परिणामिकताए रहे. माटे कोइ द्रव्यनी सत्ता नाश पामवानी नथी. पण पुद्गल पर्यायनुं ज्यांसुधी ममत्व ठे अने पुद्गल पर्याय विनाशी ठे ते वरु आगामी कालनी चिंतानी असमाधि उपजे ठे. पण पोताना द्रव्य, गुण, पर्याय, सदा अस्तिपणे, वस्तुपणे, द्रव्यत्वपणे, प्रमेयत्वपणे, सत्त्वपणे, अगुरुलघुपणे, चेतनत्वपणे, अमूर्त्तत्वपणे, सर्व सामान्य अने विशेष स्वभावमयी रहे. कोइ काले नाश के हरकत पामता नथी. पोताने जोगववानी वस्तु पोतामां अचिन्न शाश्वती ठे एम जाणे त्यारे आगामि कालनो शोच मटी पूर्ण समाधिने पामे.

ज्ञानादि पोताना इष्ट पोताथी वेगला यता नथी. पुद्गल परिणाम अनिष्ट आत्म सत्तामां प्रवेश करी शकता नथी. एक रस निज ज्ञानअंगमांहे रोगादिनो संज्ञव नथी. आत्मानो प्रमेय गुण पर्याय त्रिकाले कायम ठे वगडतो विणसतो नथी. एम जाणवाथी आर्त्तध्याननी असमाधि अने कर्मबंध रहित आत्मा त्रिकाल अखंरु समाधि पामे ठे.

५—जीव अनादिथी ज्ञानादि, ज्ञांत्यादि निज आत्मज्ञावप्राणने अणजाणतो ते ज्ञावधर्मरूप निज प्राणने न संज्ञाद्वया, रखोपुं कर्तुं नहि अने ठक्कायना द्रव्यप्राण अने ज्ञावप्राणनी हाणि करतो रह्यो. पुद्गलमांहे आपो जाणी लांवा आयुष्य माटे, विपयो माटे, मोह अर्थे, शोचा अर्थे एम अनेक कारणोए ठक्कायना प्राणने मार्या, हणया, वध बंधन कर्या, अंग ठेव्यां, ते वडे ज्ञानावरणादि आठ कर्मबंध करी नरकादि गतिमां ठेदन, जेदन, ताडन, तर्जन, असह्य वेदना, परवशताए सही, हाय विलाप करी दुःख पामे, त्यां समाधि क्यांथी होय ? माटे शुद्धात्म उपयोगमां स्थिर थइ मन, वचन, कायाए द्रव्य ज्ञावप्राणनी हाणिना अध्यवसाय ठोडी, निर्मल ज्ञानानंद स्वज्ञावमां स्थिर थवुं.

६-जे वचनथी अने जे चिंतवनथी स्वपर आत्माने हित न थाय एवुं अने जूवुं वचन, अने चितवन करी आत्मा जव चक्रमां जम्यो. माटे स्वपर आत्माने हित नहि एवुं वचन, अने चितवन तजी निज आत्म स्वभावमां स्थिर समाधिए वर्त्तवुं.

७-अनंत कालथी चार प्रकारे परधन चोरतो आत्मा निज ज्ञानादि धन न पाम्यो माटे तीर्थकर अदत्त, गुरुअदत्त, स्वामीअदत्त, जीवअदत्त तजी वली पुद्गल वर्गणारूप, परद्रव्य परभावरूप, परधन ठोनी पोताना ज्ञानादिक धनने संचाली, वापरी समाधिमय रहेवुं

८-अनंत कालथी आत्माए बहुविध परिग्रह ग्रहण करी करी ज्ञानावरणादि कर्मबंधननो संग्रह करी, रखोपुं करी, चार प्रकारे अनंतवार पुद्गल परावर्तन कर्यां त्यां समाधि क्यांथी होय ? माटे निजगुण संचाली निज रक्षणए वर्त्तवुं तेथी परम समाधि पामे

९-जिन आज्ञा जाण्या, मान्या, आदर्या विना जव समुद्रनो अंत आव्यो नहि, वली ते आज्ञानो योग निगोदादि एकेद्रिय अने विगलेंद्रिय अने समूर्तिम तिर्यंच अने मनुष्य पचेद्रिय, अनार्यादि देशमां वली अढार कोडाकोनी सागरना धर्म वियोगमां धर्म पाम्यो नहि माटे मनुष्य जन्म, देवगुरूनी योगवाई पामी, परमेश्वरनी आज्ञा शुरु नये आत्मस्वरूप आराधवानी ठे, ते आराधी समाधिवंत थवुं.

१०-हिंसा अने रागादि अढार पापस्थान सेवी आत्मा परम असमाधि पाम्यो माटे हिंसा, रागादि अपाय, डु खटाताजाणी तेने तजी सहेजानंद स्वभावमा स्थिर समाधिवंत रहेवुं.

११-कर्मना विपाक ज्यारे उदय आवे त्यारे पोताने जोगववा पने, ने ते कटुक विपाक लेवा, मटाडवा, बीजो समर्थ थाय नहि माटे मिथ्यात्वादि कर्मबंधना हेतु तजी ज्ञानादि करणे आत्मसिद्धिना कर्त्ता थई परम समाधिवंत थवुं,

१२-लोकाकाशना असंख्याता प्रदेशे पुद्गल परावर्तन करतां जन्म मरण करी कोई ठेकाणे समाधि पाम्यो नहि माटे निज आत्म

प्रदेशमां रक्षा जे ज्ञान दर्शनादिक स्वपर्याय विलासी थई परम समाधिमेव थवुं.

१३—स्वपर द्रव्यना द्रव्य गुण पर्याय विचारी, परद्रव्यगुण पर्याय उपर्याी उदासिन्नवृत्ति करी, पोताना द्रव्यगुण पर्याय पोतामां समात्री, शुद्धात्म अनुभव समाधिमां रद्दुं.

१४—पोताना द्रव्यगुण पर्याय अनेदपणे पोतामां ज्ञाणी, सर्व विचार ठोकी, अकंप, अचल, निज ध्याने परम समाधि लेत्री.

१५—मन वचनना योग स्थिर करी पोतानी द्वायकता परिणति निज ज्ञानअंगमांहे स्थिर अकंप करी, परम सन्नताए समाधिमेव रद्दुं.

१६—काय योगनी सृष्टम क्रिया पाण त्यागी, पोताना अग्वंड अंगे देहश्री न्यारा परम ज्ञान ज्योनिमांहे परम पाण आनंदे मय थवुं एम अनेक विधे समाधिना योगो सिद्धांतामां कहेला ठे ते सर्वे योगोमांहे शुद्धात्म अनुभवयोग मुख्य ठे. माटे अनुभव अत्यास करी निर्मल ज्ञानानंदमेव समाधिमेव थवुं.

दोहरा.

जिन देशित नव तत्त्वने, लग्ने यथावत जेह ।

शुद्धात्म निज गुण रुचे, सम्यग्दर्शन एह ॥ १ ॥

गुण पर्यययुत द्रव्यने, नय निक्षेप प्रमाण ।

सकल स्वभाव विशेषने, जाणे तेह सुज्ञान ॥ २ ॥

रागादिक विकल्प रहित, रत्नत्रयी निज रूप ।

आचरतां थिर जावथी, रमतां चरण अनुप ॥ ३ ॥

तजी पर परिणति रमणता, ग्रही आत्म अधिकार ।

दर्शन ज्ञान चरण सहित, निजानंद चित्त धार ॥ ४ ॥

द्रढ अनुभव अज्यासथी, सिजे आत्म काज ।

मनसुख शिव संपति वरे, निज पदमें निज राज ॥ ५ ॥

॥ इति श्री रस्तुः ॥

